

श्री.


श्री जयानंद केवळीनो रास.

श्रावक व्रत पालनफल माहात्म्यरूप.

नवखंड नवरसमय.

पंडित श्री पद्मविजय गणि विरचित
ग्रंथानुसारे.

श्री जैनधर्मी सज्जनोने साह.



नदीआदना ज्ञान खाता तरफथी
छपावी प्रसिद्ध कर्पो.



अमदावाद.

आर्योदय प्रेस.

संवत् १९४५—सन १८८९.

प्रस्तावना.

हालमां आपणा गुर्जर देवामां, तेमज सुवाई इलाकामां घणा खरा जै-
नधर्मा भाइजेने ओमळ्ळी लीपी प्रमाणे छपायेला ग्रंथो सरळताथी वांचवाने
अद्वचण पडेछे, तेमज केवळी जैन लीपीची वीळकुळ अजाप्याछे तेथी तेओने
वांचवोने सुगम पडे एवा इरादाथी अमारा भाइ रावसाहेब हरीलाळ छग-
नलाळ सत्यवादीए हालनी रीती प्रमाणे शुद्ध वाळवोधी अक्षरथी नदीआ-
दना श्रीमत् गुळावाविजये ज्ञानसाते काढेला पैसानो सारो उपयोग थाय एवुं
धारी आ श्री जयानंद केवळीनो रास छपावचा नरु करयो हतो परंतु
दैव कोपथी तेच साहेब स्वर्गवासी थवाथी नीचे सही करनार वडे आ
ग्रंथपूर्ण करवामां आव्यो छे.

श्रीमत् जैनधर्मना अनेक ग्रंथो छे ते मांहेलो प्रथम गणना करवा ला-
क आ ग्रंथ छे आ ग्रंथना नायक श्री जयानंद केवळीनुं चरित्र संवत्
१२९०ना शैकामां श्री जैनशास्त्रना उन्नतिकारक त्रिदश तारिंगणीआदिक
ग्रंथोना कर्ता श्री मुनिमुंदरसूरि महाराजे कतु भापामां रचेळुं
छ परंतु त्यारपळीना घणा ग्रंथोने पद्यबंध रासरुपे
होवोथी मुनि श्रीपद्मविजयजी महाराजे आ ग्रंथनी जूदी जूदी देवा
ओमां वसोने वेढाळ करीने रासरुपे रच्युं छे.

आ महान पुरुपना चरित्रमां मुख्यत्वे करीने श्रावक व्रत पाळवाना
फळनुं महात्म्य जोवामां आवसो. श्री जयानंदजीए भतिमुंदर नामे प्रथानना
भवमां श्रावकने आचरवा योग्य प्राणातिपातादिक द्वादशव्रत शुद्ध श्रद्धापूर्व-
क पाळयां तेना फळ पण तेमने तेवांज मळ्या छे प्रथमतो देवादिकना सुख
भोगवीने फरी देवोने पण जीतवाने दुर्लभ एवा महापराक्रमी श्री जयानंद-
नामे राजा थया छे जेनो प्रताप महा अद्भुत अने आश्चर्यकारक सर्वे रस-
ती भरपुर नवे स्वडमां मालम पडे छे.

श्री जयानंदजी पूर्वकृत पुण्यानुसारे, सर्वकार्यनी सिद्धि
रा नवी राजकन्याओ परण्याछे, तेमज राजादिको

ॐ श्री

पंडित प्रवर पं श्री पद्म विजय विरचिते

श्री जयानंद केवळीनो रास

खंड पहलो

पंडित प्रवर पं श्री उत्तमविजय गुरुभ्योनमः

दुहा ॥ प्रथम प्रथम प्रणमु प्रभु, सोहे अंसे जास; कुंतल कनक क-
लश शिरे, नील कमल मनु न्यास ॥ १ ॥ सिद्धारथ सुय तिविहश्युं, वंदु ति-
विहा वीर; जनक सिद्धारथ दुविह जिन, धरणीधर पइ धीर ॥ २ ॥ क-
ल्याणके जस सुर करे, अवनि कल्प आविरोध; ते सुगुणा वरतो सवे, ज-
यवंता जिन शेष. ॥ ३ ॥ मात परे पद मांडवा, शास्त्र मार्ग समजाय; शि-
शुपरे कविने शीखवे, प्रणमु सरसति पाय. ॥ ४ ॥ गुरु उत्तम गुण गण
भरथा, मुज उपगार महंत; प्रणमु पद कज प्रेमश्युं, आणी हर्ष अत्यंत. ॥ ५ ॥
श्री जयानंद सोभागिया, केवळ लखमीकंत; धर्म दुविध आराधिने, शिव
सुख जे साधंत. ॥ ६ ॥ भव्य प्रतिबोधन भणी, चरित्त भणुं सुविचार;
नवखंडे करी निर्मलो, रचश्युं रास उदार. ॥ ७ ॥ प्रिया सहित पूरव भ-
वे, समकित नेवळी शील; दान धरम वली दाखवुं, लहे जिम लखमी, लील.
॥ ८ ॥ चमत्कारकारी चरित्त, सुणतां होशे स्वाद; दुख दोहग दूरे जशे,
विकथा मुकी वाद. ॥ ९ ॥

हाळ १ ली.

देशी चोपाइनी ॥ जंबू द्वीप लख योजन मान, सात खेत्र तेहपां प-

(२)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

रधान; सात वरष पण षट वर्ष घरो, चमत्कारी ए वाते स्ररो. ॥ १ ॥
लखमी राखण विधिए करथो, जगती कोट अड योजन घरघो; खाई लवण
सायरनी करी, सर्व द्वीप जस रक्षा अनुसरी. ॥ २ ॥ तेहमां भरत दक्षिण
दिशे कह्यो, वैताढ्य दंड लेइने रह्यो; आपद धारण मानु एह, षट खंडे
शोभित छे जेह. ॥ ३ ॥ खंड किलेश मिली रखे करे, तिणे घाता विचे
आडज घरे; गंगा सिंधु ने वली पाढ, वैताढ्य रजत तणो अति गाढ. ॥
४ ॥ त्रेसठ जिनवर पमुहा होय, मध्य खंडते एहवो जोय; रतिवर्धन तिहां
नगरी अछे, स्वर्ग तणी शोभा तेह पछे. ॥ ५ ॥ फटिक कुंभ तिहां चैसने
शिर, अंधकार ते दूरे करे; पृनिम अमांसनो वहेरो नहीं, सयल अनीति गइ
दूरे वही. ॥ ६ ॥ नृपगजशालाए कलह ते कह्यो, वंधन नारि घमिले र-
ह्यो; दंड प्रासादने मस्त्रक होय, स्नेह हानि दीपकमां जोय. ॥ ७ ॥ छुहियां
मंदिर दीसे घणां, खडग मांहि रक्षां निर्दयपणां; को रणी नहीं ते नगर
मजार, पण कोरणी घर घरने बार. ॥ ८ ॥ अलकापुरी परे तेहनो जोस,
पण बहु ईश्वर तिहां नहीं दोश; भूति घणी तस मंदिर वली, धनद बहु र-
हे भेला मिली. ॥ ९ ॥ तिहां नरविर अछे राजान, ठकुराई जस इंद्र स-
मान; कटक रजे हांक्यो जव सूर, तस प्रताप उद्योत करे भूर. ॥ १० ॥
राणीओ गुणवंती बहु जास, कीर्तिसुंदरी पटराणी तास, मतिसुंदर तेहने
परधान, चतुराईनो तेह निधान. ॥ ११ ॥ रूपवंत बहु शास्त्रनो जाण, सुर
गुरु जीखो बुद्धि प्रमाण; जीवमात्र ते मानु रह्यो, ग्रंथे जीव तिणे ए कह्यो.
॥ १२ ॥ गुण ग्राहीने चहु दातार, क्षमा प्रमुख गुणवंत अपार; विनयी
न्यायी ज्ञाता जेह, नृपनो भगतो अति ससनेह. ॥ १३ ॥ मंत्रीश्वर मोटो जे
कवी, राज्य भार तेहने शिर ठवी; आप निर्चित निर्भय थइ राय, रात
दिवस भोगे लय लाय. ॥ १४ ॥ मंत्रीश्वरने कामिनी दोय, प्रीतिसुंदरी पेहे-
ली तिहां होय; गुणसुंदरी बीजी तस नाम, रूप कलायी अति अभिराम.
॥ १५ ॥ देवी तणुं सवि लेई रूप, विधिए निपजान्युं ए सरुप; ते दुःखे
नवि निद्रा करे, देवीओ स्वाप रहित तिणे फरे. ॥ १६ ॥ ब्रह्मपणे विरुव विधि

थयो, ए अपवाद विदारण भयो; निपजावी ए करी विज्ञान, शक्ति देखाडे निज असमान. ॥ १७ ॥ दान शीलादिक गुण बहु तास, जिम आभरणे माणिक वासं; नृपने एक पुरोहित वली, वसुसार नामे ते छली. ॥ १८ ॥ अतीत अनागत वातो कहे, निमित्त बले ते सहू सद्दहे; धर्म योग्य राजा परधान, मंत्रीनारि पण गुणह निधान ॥ १९ ॥ पण सामग्री नवि लक्षा क्रीय, तिणे मिथ्यात्वी सधला होय; पुरोहित नास्तिक मत धणी, तेहनी वात सवे निर्गुणी. ॥ २० ॥ श्री जयानंद केवळीनो रास, भणतां सुणतां लील विलास; श्री गुरु उत्तम विजयथी लही, प्रथम ढाळ एम पदमे कही. ॥ २१ ॥

दुहा. ॥ नास्तिक मत्त निश्चय करी, काढे भोगमां काळ; पुरोहित महा पापीओ, आवे फोकटआळ. ॥ १ ॥ जीवादिक नव तत्व जे, नविमाने निरधार; खातुं पीतुं सुख गणे, परभवनो न प्रकार. ॥ २ ॥

ढाळ २-जी.

करेंलणां घडदेनें ॥ ए देशी ॥ एक दिन मंत्रिने घरे, त्रण ज्ञान संयुक्त; मुनिवर १५१०० मोचरी, रूप अति अदभूत. ॥ ३ ॥ भविकजन नमिपरे ॥ भवभव संचित पाप सवि निगमा५२॥ एण्यराशि मनुदग करथो, मयगल परेमहाराज; मास खमणने पारणे, आव्या महारिपिराज. ॥ ५० ४ ॥ मंत्री मुनि देखी करी, शुभ लक्षण शुभ वान; मन चिंते मुज भाग्यथी, आव्या एह अचान. ॥ ५० ५ ॥ प्रथम नारिने इम कहे, आपो मुनीने दान; दान घणुं तस बालहुं, हरखीचित्त निदान. ॥ ५० ६ ॥ खीर खांडते नीपर्ना, मोहोटा भाजन मांहि; तेहमांधी कांड लेइ करी, आवे मुनिवर ज्याहि. ॥ ५० ७ ॥ लीला ए लटके करी, विचमां ढोलती तेह; आवी मुनिने वीनवे, सुंदर आहार ल्यो एह. ॥ ५० ८ ॥ मुनि बोले व्रतवंतने, नवि सूजे ए आहार; तव ते मुकी लावती, कुरे अति मनोहार. ॥ ५० ९ ॥ पण अगनि उपर रहुं, भाजनमाथी आणि; सूजे नहीं मुनिवर कहे, अतिशय मीठी वाणि. ५० ॥ १० ॥ सचित ढांकणुं ढांकीडं, तेहथी लावी ढाळ; ए पण मुज सूजे नहीं, मुनि कहे वयण

रसाळ. ॥ भ० ११ ॥ कण उपर रहयुं घृत वली, मुनिवर न लिए तेंह; कण मिश्रित वली शर्करा, शुद्धमान नही एह. ॥ भ० १२ ॥ दो दिन उपर दधि जि-को, नवि लिए मुनिवर सोय; ते पण मुक्युं तिणीए, वली जे घरमां होय. ॥ भ० १३ ॥ गत काले मोदिक करया, भावे लावी नारि; मुनि कहे अम सूजे नही, एह मोदिक इणि वार. ॥ भ० १४ ॥ वे नारी मंत्री मली, भ-क्तिए आग्रह कीध; आशय अणजाणे थके, पण मुनिवरे नवि लीध ॥ भ० १५ ॥ अण लेता देखी करी, मनमां उपन्यो खेद; अपमंगल चित्त चि-त्तवी, बोले इणिपरे भेद. ॥ भ० १६ ॥ मोदिक असृत सारिखा, जो नवि सूजे एह, तो किम विप तुज सूजबो, किंवा नेत्र गयां देह. ॥ भ० १७ ॥ पहेली स्त्री कहे जैनना, यतिने दाक्षिण नांदि; दाक्षिण शुद्ध कुले होए, एहनुं कुल कुण मांदि. ॥ भ० १८ ॥ बीजी कहे उद्योतमां, जो नवि सूजे कांय; तो आपो ए अंधने, भिल्ल भणी तुम्हे जाय. ॥ भ० १९ ॥ पात्र घ-णां ए नयरमां, तेहने देख्युं दान; मंगल करश्युं आपणे, देख्युं आदरमान. ॥ भ० २० ॥ जिहां तिहां दीधु दान जे, ते निष्फल नवि जाय; पात्रे दीधं न-ते, सहस कोडि गणुं थाय. ॥ भ० २१ ॥ दुर्वाक्ये ते ज्ञान-भंग, बांध्यु क-र्म कठोर; रोप रोप विण मुनि हवे, नीळीआ तप घोर. ॥ भ० २२ ॥ एक श्रावक मांजे घरे, आण्यो कायें विशेष; पण ते मंत्री मित्र छे, अंतर नही तस रेप. ॥ भ० २३ ॥ धर्मरुचि ते नामथी, आपी आसन तास; उचित वयण सतोपिने, वात कहे हवे खास. ॥ भ० २४ ॥ श्रीजयानंदना रासमां, भाखी बीजी ढाल; पद्य कहे श्रोता घरे, होजो मंगल माल. ॥ भ० २५ ॥ सर्व गाया ॥ ५५ ॥

॥ दुहा ॥ भाइ कोइ मुज घर भणी, आव्यो भिक्षु एक; जैन यति जाणी करी, विनये धरी विवेक. ॥ १ ॥ मियाए प्रारथना करी, देवा मां-ह्युं दान; उत्तम भोजन आपवा, बहु आदर बहु मान. ॥ २ ॥ आज प्र-थम मुज आंगणे, आव्युं पातर एह; विण लीधे वलीओ वली, समजण

नाहि सनेह. ॥ ३ ॥ अपमंगल करी ओसरथो, कूण हतो कहो भाय; ओ-
लखौतो आखो तुम्हे, श्रावक कहे समजाय. ॥ ४ ॥ हमणां मिलीआ हे-
जश्युं, मुनिवर ते महाराण, प्रणम्या में प्रेमे करी, ओलखीआ असमाण.
॥ ५ ॥ कान देइने जे कहुं, सांभलो चतुरसुजाण, चित्रकारी जस चरित्र
छे, सुणतां आवे सान. ॥ ६ ॥



ढाल ३ जी.

वाडी फूली अति भली मन भमरारे ॥ ५ देशी. ॥

सिंधू देश सोहामणो, मुनिनामिपरे, तोवारनगर मझार, पापनिगामिपरे:
बलिओ अतिबल राजीने मु० तस सम नहीं शिरदार. पा० ७ तास
सभामां अन्तर मु० परदेशी नट आय पा० मांडर्युं नाटिक अभिनवुंमु०
सर्वतां अचरिज थाय. पा० ८ देखी सगर चक्री तणुं मु० नाटिक पुत्र वि-
योग पा० पीडा तेहनी देखीने मु० ध्याये चित्त शुभ योग. पा० ९ अहो भव
दुखमय देखीए मु० वूज्यो ते महाराय पा० निज सुत वालकने ठवी मु० रा-
ज्य तखत निरमाय. पा० १० धरमाकर् गुरु सन्निधे मु० दीक्षा लिए महाधीर
पा० द्विविध शिक्षा अभ्यासता मु० बहु श्रुत थया गंभीर. पा० ११
अदभूत वैराग्यनो धणी मु० वारसविह तप सार पा० अप्रमादी नित विच-
रता मु० लब्धी तणा भंडार. पा० १२ कांय असाध्य न तप थकी मु० यो-
ग्य जाणी गुरु राय पा० एक विहार आणा करे मु० सद गुरु करिय प-
साय. पा० १३ सिंहपरे ते विचरता मु० परीसहने उपसर्ग पा० ते मृगथी वी
हे नही मु० सार्धता अपवर्ग. पा० १४ गजपुर आब्या अन्यदा मु० ध्यान
तपे तेह लीन पा० उद्याने रखा मुनिवरू मु० निजआतम करे पीन. पा० १५
विविध अतिशय गुण थकी मु० सुखीआ होय सविजीव पा० भीमरायतिहां
राजीओ मु० शत्रुने भीम अतीव. पा० १६ राजसगुण धारे सदा मु० सर्व
दर्शननो राग पा० मतिसार मंत्री तेहने मु० बुद्धिनिधि महाभाग. पा० १७
राज्यभार घोरी कहौ मु० राज मूरति मानु एह पा० थोडे अपराधे करी

(६)

श्री जयानंद केवळीनो रास,

मु० मारे तस्कर तेह. पा० १८ अकाम निर्जराथी थयो मु० निर्जर व्यंतर
सार पा० ज्ञान विभंगे पाछल्यो मु० भव दीठो अविचार. पा० १९ पुण्यवंत
राजा भणी मु० न शक्यो पराभव देण पा० गज मरगी अति आकरी मु०
कीधी कारण तेण. पा० २० नृप मन खेद लहे घणो मु० करे अनेक उपाय
पा० पण नवि शांति हूइ किमे मु० मंत्रिने कहे राय. पा० २१ करो उ-
पाय कोइ-वेण्युं मु० तस पण चिंता थाय पा० उद्याने गयो अन्यदा मु०
गीत वाजित्र सुणाय. पा० २२ विस्मित चित्तयी आवीओ मु० मंत्री
मुनिने पास पा० देवी नाधि तिहां देखीओ मु० हाव भाव सुविलास. पा०
२३ महा प्रभाव रिषि राजनो मु० जो नमिओ पाय पा० पद फसित
रज लेइने मु० आव्यो ते निज ठाय. पा० २४ सा चरेणु तिलककरथां
मु० मरगी नाठी जाय पा० ते वृत्तांत आवी कहे मु० हरख थका जगय.
पा० २५ मुनिवर स्तवना बहु करे मु० तव ओखव करेराय पा० भूप मंत्री
विहु ओखवे मु० आवे मुनिवरपाय. पा० २६ मुनिप्रणमीने उपविशे मु० पारें
मुनिवर ध्यान पा० धर्मलाभ देइ हवे मु० करे देशना दान. पा० २७ श्री
जयानंदना रासमां मु० भाखी त्रीजी ढाल पा० पद्म विजय कहे सांभळो मु०
आगळ घात रसाळ. पा० २८ ॥ सर्व गाथा ८३ ॥



दुहा ॥ दुविध धर्म तिहां दाखवे, वर्णव करी विस्तार; गुणधर मुनिवर गृहि
तणो, सम्यग शुद्धाचार. ॥ १ ॥ वृज्या भूप मंत्री विहु, बीजा प-
ण बहु लोक; धर्म यथा शक्ति घरी, आव्या निज निज ओक. ॥
२ ॥ मुनिवर संयम म्हाळता, अमतिवद्ध अणगार; पृथ्विने पावन
करे, वरते उग्र विहार. ॥ ३ ॥



ढाल ४ थी.

माली केरा वागमां दौय नारिंग पकेरे लो अहो दौयें० ॥ ए देशी ॥
वीरपुर हवे आवीआ, तिहां छें नरमारिरे लो अहो ति० बळसार तेहनो रा-

जीओ, प्रजा पीडा अपाररे लो अहो प्रजा० ॥ ४ ॥ देखी उपाय करे घ-
णा, पण न थइ शांतिरे लो अहो प० एक दिन भीम नरेंद्रनो, दूत तिहां
आयातरे लो अहो दू० ॥ ५ ॥ उद्याने मुनी देखीआ, ओलखी प्रणमंतरे लो
अहो ओ० राज सभामां आवीओ, प्रणमे भूकंतरे लो अहो प्र० ॥ ६ ॥ राय
कहे किम आववुं, कार्य तेह दाखोरे लो अहो का० राज काज सवि वारता,
होय ते तुम्हे आखोरे लो अहो हो० ॥ ७ ॥ तिणे पण वात कहेतां थकां,
कहुं इम प्रसंगेरे लो अहो क० गज मरगी गई भीमने, मुनि महिमा
रंगेरे लो अहो मु० ॥ ८ ॥ ते तुम्ह भाग्ये तुम्ह तणा, उद्यानमां
आव्यारे लो अहो उ० म्हें प्रणम्या महा भाग्यथी, मुज मनमां
भाव्यारे लो अहो मु० ॥ ९ ॥ विस्मय लही नृप हरखीओ, राज्य उत्तर
देइरे लो अहो रा० विसरज्यो ते दूतने, सत्कार करेइरें लो अहो स० ॥ १० ॥
मुनि महिमा ते नयरमां, उदघोषणा करतारे लो अहो उ० ते उदघोषणा
सांभली, चित्तमां सहु धरतारे लो अहो चि० ॥ ११ ॥ मुनि फरसित रज
जइ करी, करे तिलक ते भालेरे लो अहो क० राय रांक सहु सारिखा, आप
आप सांभालेरे लो अहो आ० ॥ १२ ॥ मरगी गई सवि नयरथी, हुओ
जयजयकाररे लो अहो हु० ओछव रंग वधामणां, हूआं घर घर वाररेलो
अहो हु० ॥ १३ ॥ अहो तप महिमा आर्चिस छे, चक्रीनुं सैन्य चूरेरे लो
अहो च० क्रोधथी वली सुमसादथी, तस रीद्धि पुरेरे लो अहो तस ॥ १४ ॥

यतः मुनयश्चक्रिणः सैन्य । मपि क्रुद्धाद् हंसहो । तप प्रभावतस्तस्य ॥

समृद्धिं दर्शयंति च ॥ १ ॥

राय प्रमुख मुन्निरायने, नमिआने स्तवीआरे लो अहो न० मुनि दर्शित धर्म
आदरे, शक्ति न गोपवीआरे लो अहो श० ॥ १५ ॥ विहार करी मुनि
तिहां थकी, क्षेमापुरी उद्यानरे लो अहो क्षे० ज्ञान ध्यान मांहि रखा, नहीं
आहारने पानरे लो अहो न० ॥ १६ ॥ मास स्वमणने पारणे, आव्या न-
यर मझाररे लो अहो आ० घर घर भीसाने फिरे, लेवा शुद्ध आहाररे
अहो ले० ॥ १७ ॥ गोखे बेठो तिहां किणे, एक पुरोहित पुतरे लो अहो ए०

जीन धर्म द्वेषी आकरो, मिथ्यात्वं आकूतरे लो अहो मि० ॥ १८ ॥ धन
 यौवन मद आकरो, आवी मुनिवर पासेरे लो अहो आ० मस्तक खासडां
 मारीआं, मुनि समता विलासरे लो अहो मु० ॥ १९ ॥ कोप करे नही मु-
 निवरा, मेरु परे धीररे लो अहो मे० ते उपर करता कृपा, कृश तपथी श-
 रीररे लो अहो कृ० ॥ २० ॥ रिपिजी चाल्या आगले, तव तपने जोरेरे लो
 अहो त० कोप्यां शासन देवता, वांछोविहू तेरेरे लो अहो वां० ॥ २१ ॥ अ-
 दृश रही क्रोधे करी, आक्रंद करावे लो अहो आ० पीडा बहु उपजे तिणे,
 मावित्र तिहां आवेरे लो अहो मा० ॥ २२ ॥ वात सवे मावित्रने, पोतानी
 मुणावेरे लो अहो पो० ते पण सेद करी कहे, धिक धिक तुज थावेरे लो
 अहो धि० ॥ २३ ॥ कोइ उपाय सूजे नही, आवे मुनिवर पासेरे लो अहो
 आ० प्रणमी करजोडी कहे, तुम्हथी दुख जाशेरे लो अहो तु० ॥ २४ ॥
 तुम्हे बहु महियाना घणी, तुम्ह शक्ति अगाधरे लो अहो तु० तुम्हे अरचित्त
 त्रण जगतने, तुम्हथी निरावाधरे अहो तु० ॥ २५ ॥ तेजमयी सूरयतुम्हे,
 वाल धूक समानरे लो अहो वा० नवि ओलख्या तिणे मुरखे, कीधुं ए
 अपमानरे लो अहो की० ॥ २६ ॥ तुम्ह अपराध करथो घणो, खमो कि-
 रपा निधानरे लो अहो ख० मोहटा रोश राखे नही, एतो बहु अज्ञानरे
 लो अहो ए० ॥ २७ ॥ तुम शरणे आव्या भणी, अनुकंपा कीजेरे लो अहो
 अ० वालना कर साजा करो, सेवक गणी लीजेरे लो अहो से० ॥ २८ ॥
 तुम्ह विण कोइ दूजो नही, जेहने जइ कहीएरे लो अहो जे० मुनि कहे रोश
 न माहरे, त्रण काले कहीएरे लो अहो त्र० ॥ २९ ॥ पण ए शासन देवता,
 एहने शिक्षा दीधीरे लो अहो ए० आकाशे परगट थइ, तव वाणी कीधीरे
 लो अहो त० ॥ ३० ॥ पापीने साजो नव कर्ह, पूज्यने दुख दीधुरे लो
 अहो पू० पूजा प्रमुखे संतुष्टथी, फिरी वचन ते कीधुरे लो अहो फि० ॥
 ३१ ॥ मुनि पासे दीक्षा लिए, तो साजो करिपरे लो अहो तो० ते पण तिणे
 अंगीकरयुं, देवी वयण आदरिपरे लो अहो दे० ॥ ३२ ॥ देवीए शक्ति अ-
 चिंत्यथी, कर नूतन कीधारे लो अहो क० तव हर्षित थया सहु तिहां, मन

वंचित सीद्धारे लो अहो म० ॥ ३३ ॥ मुनि शिर उपर फूलनी, थइ दृष्टि अ-
लंतरे, लो अहो थ० पश्चातापे स्वमावीआ, मुनिवर माहंतरे लो अहो मु०
॥ ३४ ॥ श्री जयानंदना रासमां, कही चौथीढाळरे लो अहो क० पद्म कहे
मुनि प्रणमतां, होए मंगल मालरे लो अहो हो० ॥ ३५ ॥ सर्व गाथा ११८



॥ दुहा. ॥

दिष्ट मुनिवर तव देशना, समज्यो चतुरस्रजाण; मावित्र आपे अनु-
मति, दीक्षानु करे दाण. ॥ १ ॥ थविर कल्पमां थापीआ, शिक्षा ग्रहण
संकेत; मुनिं प्रणमी मावित्र सुख, चमत्कार चित्त चेत ॥ २ ॥ भूप प्रमुख
बहु भाविआ, जैन धर्म जगसार; पाम्या तेह प्रशंसता, गया ते निज
आगार ॥ ३ ॥ पारणु करीने पांगरथा, मास स्वमण मुनिराय; आव्या
विचरंता अहीं, निरमम ने निरमाय ॥ ४ ॥ उद्याने अविनि तळे, ध्यान
निश्चल मुनि ध्याय; अवाधि ज्ञान वली उपन्युं, शुद्ध योग समुदाय ॥ ५ ॥
ते मुनि आव्या तुज घरे, शुद्ध गवेषे साध; मासांतर करे मासतिम,
निरलेपी निरावाध. ॥ ६ ॥

ढाळ ५ मी.

॥ वाल्हिम वेहला आवजो. ॥

धर्मरुचि श्रावक इम कहे, मुणो मंत्री तुमे वाणिरे; कल्प तरुसम
एह महा मुनि, महिमावंतगुण खाणिरे धर्म० ॥७॥ सुगुण आकर्षित सुरवरा,
करे निस जस शेवरे; पूजा निंघा करे एहनी, तेहने फल ततस्वेवरे धर्म०
॥८॥ तूसे रुसे नही ए कदा, इम मुणी तस वाणिरे; बहु पश्चाताप भय
विब्हलो, प्रियादोय तिम जाणिरे. धर्म० ॥ ९ ॥ सचिव कहे विस्मित इणि
परे, हाहा मुनि अपराधरे; कीधलोएह अजाणते, फल तास अगाधरे. धर्म०
॥ १० ॥ म्हें तथा दोय नारि मली, करथो अति आक्रोसरे; एहना फल
कहो इयां थजे, इम मंत्री करे सोसरे. धर्म० ॥ ११ ॥ जैन मुनिनो अमे न-

वि लहुं, विगर अभ्यास आचाररे; वीहक लागे एह मुनि थकी, देशे शाष
ए वाररे. धर्म० ॥ १२ ॥ धर्मरुचि कहे एह मुनिवरु, दयावंत शिरदाररे;
शाप नवि कोयने ए दिअे, पाले शुद्ध आचाररे धर्म० ॥ १३ ॥ हेला पण
अणगारनी, उभय लोक दुख दायरे; जइ खमाचो तिणे ए मुनि; पाप गां-
ति ते थायरे धर्म० ॥ १४ ॥ मंत्रि कहे एह कररुं संव, पण एक कहो
वातरे; पायस प्रमुख आपतां, नवि लीधुं किणभांतिरे. धर्म० ॥ १५ ॥ श्रावक
कहे हुं जोई कहुं, जव जूवे तिणे ठाणरे; खीर विंदूअे बहु कीटिका, पगे हो
य तस हांणरे. धर्म० ॥ १६ ॥ मंत्रिने तेह देखावतो, दया नवि रहे एणरे;
अग्नि विराधना कूरथी, इत्यादिक कहणेणरे. धर्म० ॥ १७ ॥ आतपे द-
धिवली मुक्तीने, मुक्ती अलतानुं पोतुरे; उज्वळ सूक्ष्म जीवने, मंत्रीने कहे
जो तुरे. धर्म० ॥ १८ ॥ नत्रिअ लीधुं इणे कारणे, हवे मोदक वातरे; न
वि ग्रहा तेह जाणुं नहीं, मुनि कहेशे साक्षातरे धर्म० ॥ १९ ॥ एहवुं सां-
भली देखीने, मंत्री विस्मय पामेरे; सूक्ष्म धर्म अहो जैननो, नवि दीठो कोइ
ठांमेरे धर्म० ॥ २० ॥ दान बहु पात्रमां म्हें दीआं, भण्यो शास्त्र अनेकरे;
निरीहता एहवी जिहां होए, तेहवुं ठाण न एकरे. धर्म० ॥ २१ ॥ श्रावक
कहे मुनि बंदचा, जइए आपण भायरे, जन्म क्रतारथ कीजीए, वली भव
दुख जायरे धर्म० ॥ २२ ॥ मंत्री कहे हुं अपराधीओ, मुख केम देखायरे;
श्रावक कहे मुनि दरिसणे, किसी लाज करायरे. धर्म ॥ २३ ॥ दोष तो
एह देखे नही, इम कही सहु जायरे; मुनिवर प्रणमीआ भक्तिथी, चित ह-
रप न मायरे. धर्म० ॥ २४ ॥ देइ धर्मलाभ संतोपीआ, मंत्री कहे कर-
जाडरे; स्वामि अपराध में बहु करथो, स्रमो एह मुज कोडरे. धर्म० ॥
२५ ॥ कोटी नर भस्म क्षणमां करे, तप तेजे मुनिरायरे; गुण निधि करो
कृपा अम्ह भणी, अम्हे रज तुम्ह पायरे. धर्म० ॥ २६ ॥ दोष भार्या प-
ण मुनि नमी, पश्चाताप करंतीरे; मुनि खमावे निज निंदती, घणी भक्ति ध-
रंतीरे. धर्म० ॥ २७ ॥ मुनि कहे कोप नही माहरे, तुम्हे भय मत आणोरे,
दृष्टि स्वरुप जाणो नहीं, तेह शुद्ध पिछाणोरे धर्म० ॥ २८ ॥ श्री जयानंदना

रासमां, कही पांचमी ढालरे; पद्मविजय कहे सांभलो, मुनि वात रसालरे.
धर्म० ॥ २९ ॥ सर्व गाथा १४७.

—
॥ दुहा. ॥

आखि कहो अणगारजी, मंत्री कहे इम जामः दोय भेद छे द्रष्टिना
मुनिवर इम कहे ताम. ॥१॥ चर्म रूप थूल चक्षु जे, समजो वाह्य सुजाणः
अभ्यंतर हवे ओलखो, ज्ञान दर्शन गुण जाण. ॥ २ ॥ दोष वेतालिस
देखीए, अहार तणे अधिकार; दोय द्रष्टि तिणे देइने, उपयोगे लेवं अहार.
॥ ३ ॥ ते वेतालीश दोष ते इमः—

आहाकम्मु१ हेसिअ२, पूर्वकम्मेअ३ मीसजाएअ४; उवणा५ पाहुडिआ-
ए६, पाओअर७ कीय८ पामिचे९. ॥ १ ॥ पारिअट्टिए १० अभिहहु ११
भिन्ने १२, मालोहडेअ१३ अछिज्जे १४; अणिसिठ १५ ज्ञोअरए १६,
सोलसपिहुगामेदोसा. ॥ २ ॥ धाई १ दूई २ निमित्ते ३, आजीव४ वणिमृगे५
तिगिछाय ६; कोहे७ माणे ८ माया ९, लोभेअ १० हवंति दसएए ॥ ३ ॥
पुर्वि पछासंथव ११, विज्ञा १२ मंतेअ१३ चुन्न १४ जोगेअ १५; उप्यायणा
१६ इदोसा, सोलसमे मूलकम्मेअ ॥४॥ एवं ३२॥ संकिअ १ मखिखअ २
निखिखत्त ३, पिहिअं ४ साहरिअं५ दायगु ६ म्मीसे ७; अपरिणय ८
लित्त९ छडिअ १०, एसणदोसादसहवंति ॥ ५ ॥ एवं ४२ ॥ संजोयणा १
पमाणे २ इंगाले३ धूम४ कारणे५ ॥इतिग्रासैषणादोषाः एवं ४७ ॥

ढाल ६ ठी.

माहरं मन मोहुरे माधव देखनारे ॥ ए देशी. ॥

अमिय समाणीरे वांणी मुनि कहेरे, सुण मंत्रीसर वाण; आक्रोश
क्रोध करयो तुम्हे इणिपरेरे, नयन सरूप अजाण. ॥ अ० ४ ॥ समता भा-
वेरे म्हें खमियो सवेरे, हवे श्रावक परधानः विहु मिलि पूछेरे स्वामी भा-
षीएरे, मोदक केरं निदान. ॥ अ० ५ ॥ मुनि कहे रात्रे दासीए रांधतारि,

चूला उपर रह्यो नाग; धूमे आकुळ व्याकुळ ते थयोरे, नाखी गरळ अ-
 ताग. ॥ अ० ६ ॥ तिहां चंदरुआ केरे अभावथीरे, विपमयि.मोदक थाय,
 घरना लोके कांय जाण्युं नहीरे, क्षेर तणो समुदाय ॥ अ० ७ ॥ संयम घात
 कारणनवि म्है लिआरे, मंत्रीए सांभलीतेह; दासी पास मंगान्या लाडुआरे,
 परिक्षा कारण एह. ॥ अ० ८ ॥ मांखी मरती देखी जाणियुंरे, मुनिनुंसा-
 चुरे ज्ञान; अहो अहो ज्ञान मुनि तुम केरडुंरे, अमचु बडुरे अज्ञान. ॥ अ०
 ९ ॥ एह मोदकथी कुटंब सहित अमेरे, मरण लहत ततखेव; हुं अरणियो
 किम थाशुं कहांरे, जो करुं अहनिशि सेव. ॥ अ० १० ॥ मित्र वचनथी
 सह्यु लाडु तिहांरे, परठविआ ते एकांत; प्राणदायकने शरण मुनिवरुरे, मु-
 निवरने कहे खांत ॥ अ० ११ ॥ एह उपगार करथो तुम्हे मोटकोरे, हवे
 दाखो उपदेश; मुनि भाखे घुण धर्म ते जैननोरे, सर्व अधर्म जे शोप. ॥ अ०
 १२ ॥ देवगुरु वळी धर्मेने ओलखीरे, सरधा ते परतीत; श्रद्धा सहित विर-
 ति दोय भेदथीरे, सर्व देशे धरो चित्त ॥ अ० १३ ॥ सांसादिक दशधा
 मुनिराजनोरे, द्वादशधा ग्रहि धर्म, थूळ प्राणातिपात प्रमुख कळोरे, इसा-
 दिक सवि धर्म ॥ अ० १४ ॥ सांभली प्रतिवूड्यो तिहां मंत्रवि रे, तिम
 तेहनी दोय नार; सर्व विरति स्वामि न करि शकुंरे, देशथी द्यो अणगार.
 ॥ अ० १५ ॥ मुनि पण द्वादश वृत उच्चराविआंरे, शिखवे आवश्यक सार;
 दानादिक गुण तिम उपदेशिआरे, पाश्या श्राद्ध आचार ॥ अ० १६ ॥ मु-
 निवंदन करी सह्युए घरे गयारे, मुनि आशातना जेह; निंदा गर्हा आलो-
 चना मुखेरे, कर्म खपावे बहु तेह. ॥ अ० १७ ॥ तोपण कांयक शोप रस्युं
 खरुंरे, भोगवशे एकवार; धर्मरुचि प्रमुखा सह्यु मुनि नमीरे, पोहोसा निज
 घरवार. ॥ अ० १८ ॥ मासखमण मुनिने पूरुं थतारंरे, मंत्री करे नितु सेव;
 श्रावक संगथी पूर्ण श्रावक थयारे, जाण्या जीवादिक हेव. ॥ अ० १९ ॥
 शास्त्राभ्यास हतो पूरुं घणोरे, वळी जिन धर्म प्रसंग; न खलाए मति सूक्ष्म
 अर्थमांरे, जिन धर्मे द्रढरंग. ॥ अ० २० ॥ नचलावे सूरपति पण धर्मथीरे,
 परवादिनो करे अंत, जिनशाशन शोभावे बहु परेरे, कोई न तास छलत.

॥ अ० २१ ॥ पारण दिवस जाणी निमंत्रणारे, करे मुनिने सूरसालः क-
रिय कृपा मुनिवर पण आवीयारे, निस्पृह परमदयाळ. ॥ अ० २२ ॥ मंत्री
दोय नारी वहु भावथीरे, आपे शुद्ध आहार; परमान्नादिक तिहां परगट
थयारे, पंचदिव्य मनोहार. ॥ अ० २३ ॥ पाणी सुगंधवर पुष्पवृष्टि थईरे,
वली होवे वसुधार; दुंदुभीनाद अहो दान घोपणारे, मुनिवर करे तिहां
अहार. ॥ अ० २४ ॥ दान प्रभावे ऋण जणे वांधीयुरे, भोग करम अति
गाढ; मुनि उद्यान जई काळसग रहार, ध्यान निश्चल जिम पाढ. ॥ अ०
२५ ॥ दुंदुभि श्वर सुणि नृप पूछावियुरे, निज नर कहेते वृत्तांत; नृप चिते
धिग मुजनेहो इहारे, एहवा मुनिवर माहंत. ॥ अ० २६ ॥ एहवा मुनिवर
मारा नयरमारे, हुं नवि जाणुरे कांय; प्रात समे वंदु परिवारथीरे, इम क-
रतां दिन जाय. ॥ अ० २७ ॥ राते मुनिवर क्षपक श्रेणि करीरे, ध्याए शु
कल ध्यान; सर्व प्राणी हित वंछक पामीआरे, निरमल केवलज्ञान. ॥ अ०
२८ ॥ श्री जयानंदना रासमां ए कहीरे, छठी ढाळ रसाल; पंडित उत्तम-
विजय कृपा थकीरे, पञ्चविजय कहे वाल. ॥ अ० २९ ॥ सर्व गाथा १७७.

—०—

दुहा ॥ मुनिवर केवल पामीआ, भालुउदय परभ्रात; नाद थयो दि-
व्य दुंदुभी, मनमां हर्षे न मात ॥ १ ॥ इंद्रादिक सुर आवीआ, गीत वा-
जिन्न गवाय; परगट वृष्टि पुष्पनी, स्वर्ण कमल सूर ठाय. ॥ २ ॥ तिहां वे-
ठा केवली तदा, देखी देव उद्योत; भूपति पूछे भ्रांतिथी, जूओ ए शीछे
ज्योत्. ॥ ३ ॥ तव मंत्री नर ततक्षणे, आवी कहे अवदात; रायने मणमी
रंगश्यं, विनवे सुणो ते वात. ॥ ४ ॥ स्वामि सुणो ए साधुने, उपन्युं केवल
आम; जई वंदो वहु युक्तिश्यं, करो कृतारथ काम. ॥ ५ ॥ जैन धर्म नथी
जाणतो, भद्रक भावी भूप; भक्ति आश्चर्य भराइओ, अबनीपति अनूप. ॥
६ ॥ सामंत मंत्री सामठा, परवरिओ परिवार; गज वेठो अति गेलश्यं, वा-
जिन्नना वहु वार. ॥ ७ ॥ उद्याने अबनिपति, मणमे मुनिना पाय; सुरनर
असुर सभा मिली, वेठा वेसण ठाय. ॥ ८ ॥ धर्मलाभ देइ धर्मनी, देशना

दिए मुण्डिद, आलस अंग उतारिने, सांभलज्यो सुखकंद. ॥ ९ ॥



ढाळ ७ मी.

वात म काढो वृत्त तणी ॥ एदेशी ॥

एह संसार असारमां, दोहिलोनरभव पामीरे; धर्म करो भविप्राणिआ,
दुख हानि सुख कामीरे; भावधरी भवि आदरो ॥ १० ॥ ए आंकणी ॥ स-
मकित सार संसारमां, दुर्लभ पामवुं प्राणीरे; चिंतामणि परे जाणीए, ईष्ट
दिए गुण खाणिरे. ॥ भा० ११ ॥ यतः ॥ मूलं १ दारं २ पड़वाणं ३,
आहारो ४ भायणं ५ निहीष; दुळकस्तावि धम्मत्स, सम्मत्तं तंवि आहियं.
॥ १ ॥ देव गुरुनेरे धर्मनी, सरधा कीजे सुजाणरे; दोष अढार रहित सदा,
आपे शिवपुर ठाणरे. ॥ भा० १२ ॥ हासादिक पट वेगळा, क्षय करचा
च्यार कषायरे; प्रेम पंचाश्रव मद नहीं, केलि अढार ए थायरे ॥ भा०
१३ ॥ एहवादेवनेसेवीए, जे संसारनारोगरे; तेहना वैद्य सोहामणा, गत संयोग
वियोगरे ॥ भा० १४ ॥ रत्न त्रयायुत गुरु कक्षा, अथवा महावृत्त धाररे;
शय्या वस्त्र ने पात्र जे, शुद्ध मान लिए आहाररे. ॥ भा० १५ ॥ स-
म्यग धर्म दायक वली, आप तरे पर तारेरे; पंच महाव्रत धर्म ते, हिंसा प्रमु-
खने वारेरे ॥ भा० १६ ॥ द्वादश व्रत गृहि धर्म छे, थूल हिंसानृत चोरीरे;
स्वदारा संतोषथी, नवि ईच्छे पर गोरीरे. ॥ भा० १७ ॥ घन परिमाण क-
रे सदा, ए अणुवृत्त कक्षां पंचरे; दिशि परिमाण वली करे, भोगोपभोग प्र-
पंचरे ॥ भा० १८ ॥ साग अनर्थदंड भाषीओ, गुणवृत्त एह उदाररे; अ-
णुव्रतने जेह गुण करे, हवे शिक्षा व्रत चाररे ॥ भा० १९ ॥ अवसरे सामायि-
क करे, रात अने वली दीसरे; संक्षेप छठा व्रतनो, दसमु व्रत कहे ईशरे ॥
भा० २० ॥ पर्व तिथेरे पोसह करे, कोई दिवश तथा रातरे; कोई अहो रा-
त्रि आदरे, इम भाषे सिद्धांतरे ॥ भा० २१ ॥ अतिथीने दिए दान जे, शिक्षा
चोथुं ए धाररे; बालक शीखे जिम फिरी फिरी, तिम शिक्षाव्रत साररे.
॥ भा० २२ ॥ तिम पट आवश्यक नित करे, दान शील तप भावरे; धर्म

कह्योए श्रावक तणो, यथा शक्ति तणो दावरे. ॥ भा० २३ ॥ आराध्यां दिए ईष्टने, परभव नृप चाक्रिरीद्विरे; स्वर्गनां मुख वली जे दिए, अनुक्रमे लहे तेह सिद्धिरे. ॥ भा० २४ ॥ उतकृष्टा तेहज भवे, साधु मोक्ष ते पामेरे; चारमुं स्वर्ग गृहस्थनुं, उतकृष्टुं लहे ठामरे. ॥ भा० २५ ॥ विहुने स्वर्ग जघन्यथी, पहेलुं देवलोक जाणीरे; एहमां एक अंगीकरो, निजनिज शक्ति प्रमाणारे ॥ भा० २६ ॥ एहनी देशना सांभळी, श्रावक व्रत धरे रायरे; केईक चारित्र आदरे, भव उद्वेग निरमायरे ॥ भा० २७ ॥ देशविरति केई आदरे, केईक समकित खासरे; राय प्रमुख मुनि प्रणमीने, आवे निज आवासरे ॥ भा० २८ ॥ बहु परिवार जानी गुरु, उपगारी करे विहाररे; नाबि रहे एकण थानिके, रविपरे करे उपगाररे ॥ भा० २९ ॥ श्रीजयानंदना राममां, भापी सातमी हालरे, पद्मविजय कहे सांभलो, आगल वात रमालरे ॥ भा० ३० ॥ सर्व गाथा २०७.



॥ दुहा. ॥

पुरोहित महा पापीओ, कौरांकर्म कठोर, औपध नाहीं असाध्यने, जो होय चैद्यनु जोर ॥ १ ॥ नास्तिकता छांडी नहीं, मंत्री हवे महा जाण, स्वपरसमय समजावता, नरपतिने निरवाण ॥ २ ॥ नरपति मंत्री सानिधे, धर्म द्रढता धार; सामंत मंत्री प्रमुख सभा, पृथ्विपति पुर प्यार ॥ ३ ॥ मणि मिहासने मलपतो, विशद छत्र वर धार; चंचल शोभित चाम्मरे, वेठा सहू दरवार ॥ ४ ॥



ढाळ ८ मी.

ललनानी देशी.

वात प्रसंगे वर्षवे, सधुना गुण नरराय ललना ॥ श्रावक गुण सोहामणा, हैडे हर्ष न माय ललना-॥ अहोजिनशासन जग जयो ॥५॥ धन्य मुनीश्वर जैनना, जे निरमम निरमाय ललना ॥ साधे जे परलोकने, निर-

बाँछक मुनिराय ॥ ल० अहो० ६ ॥ इसादिक नृप वचनते, वृश्चिक ढंक
 समान ल० लाग्युं पुरोहितने तदा, अवसरे चोल्या अज्ञान ॥ ल० अहो०
 ७ ॥ इंद्र जालिआनी परे, वंचे लोक अपार ल० ष्ठीक दाखे परलोकनी,
 जैनना जे अणगार ॥ ल० अ० ८ ॥ लोक भोलो कुशास्त्रथी, भोग तजावे
 आप ल० विविध तपस्या करावता, मकरो कोइ ए पाप ॥ ल० अ० ९ ॥
 पूजा मानने ईछता, खोटु धरे अभिमान ल० पुण्य ने पाप देखावता, फल
 शुभ अशुभ अमान ॥ ल० अ० १० ॥ पण जगमां जीवजनथी, तिणे ए
 न घटे कांथ ल० जीव होए तो सवि घटे, परलोके कुण जाय ॥ ल० अ०
 ११ ॥ जेटळुं नयणे निरखीए, इंद्रिय गोचर एह ल० लोक एटलो जाणीए,
 वृकपदनी परे तेह ॥ ल० अ० १२ ॥ खाओ पिओ मुखथी रमो, समुदय
 मात्र ए देह ल० काल गयो आवे नहीं, इम निज नारि कहेह ॥ ल० अ०
 १३ ॥ यतः पिवखादचचारुलोचने, यदतीतंवरगात्रितन्नते; नहिं भीरुगतं
 निवर्त्तते, समुदयमात्रमिदंकडेवरं ॥ १ ॥ आ लोक मुख छांडी करी, पर-
 भव मुखनी आश ल० तप करी वे भव हारता, जंबूक परे तस पास ॥ ल०
 अ० १४ ॥ मांसपेशी तटे छांडीने, मीन लेवा जिम जाय ल० शुद्ध मांस लेई
 गयो, जलमां मीन हूवाय ॥ ल० अ० १५ ॥ उभय भृष्ट जंबूक थयो, तिम
 इहां छांडी भोग ल० परभव आशाए दोढता, उभय भ्रष्ट होय लोग ॥ ल०
 अ० १६ ॥ कष्ट करे ईह लोकमां, परभव आशा चित्त ल० जीव विना प-
 रभव नहीं, एतो मोटी अनीति ॥ ल० अ० १७ ॥ कर्णशूचि सम सांभळी,
 पुरोहित वयण भृपाळ ल० गोपवे रोश गंभीर ते, मंत्री भूखडुं भालि ॥ ल०
 अ० १८ ॥ विधावंत मंत्री कहे, अनुभव सिद्ध ए जीव ल० रे मूरख देखे
 नहीं, ओलवे केम अतीव ॥ ल० अ० १९ ॥ पुत्रनो जन्म सुणी करी, दु-
 खिओ पण लहे मुख ल० तास मरण वली सांभळी, मुखमां किम लहेदुख
 ॥ ल० अ० २० ॥ मातुं कृश मुज अंगए, ए स्वामि मति केम ल० भूपृ-
 थ्विपरे भिन्न ए, जीव शरीर ए नेम ॥ ल० अ० २१ ॥ जीव ठरथो ए
 शांभतो, तिणे परभव पण जाय ल० पुण्य पाप पण सहू ठरथां, मुख दुख

फल पण धायं ॥ ल० अ० २२ ॥ दानथी देवलोक पामीए, तपेथी थाये
सिद्ध ल० हिंसा प्रमुखे जाए नरगमां, ए शास्त्रे प्रसिद्ध ॥ ल० अ० २३ ॥
हेतु गर्भित युगते करी, हत प्रतिहत करयो तास ॥ ल० ॥ लोक सभाए निभ्रं-
छीओ, ताहरो ज्यो विश्वास ॥ ल० अ० २४ ॥ नरपतिए अपमानियो,
छाज्यो तेह अत्यंत ॥ ल० ॥ राज सभामां आवे नहीं, ते दिनथी धरी भ्रां-
ति ॥ ल० अ० २५ ॥ मंत्रीने सत्कारता, लोक तथानररांय ॥ ल० ॥ स्तव-
ना करता सहू गया, हरखी निज निज ठाय ॥ ल० अ० २६ ॥ श्री जया-
नंदनारासमां, भाखी आठमी ढाल ॥ ल० ॥ पद्मविजय कहे भविजना, धर्म था-
ओ उजमाल ॥ ल० अहो २७ ॥ सर्व गाथा २३४ ॥

—०—

॥ दुहा ॥

सभा विसरनी शुभपरे, स्नान भोजन संभाल; भोजन करी बहु भां-
तिनां, साथे सर्वस्वकाल ॥ १ ॥ निख मंत्रीने नरपति, चितवे धर्म विचार;
सखरो शासन रागीओ, परधाने करयो प्यार ॥ २ ॥ काल गयो एम के-
टलो, नरपतिने एक दिन्न; माठी वेदन मस्तके, अतिशय ते उत्पन्न ॥ ३ ॥
औषध प्रमुख उपायते, वैद्ये नव नव कीध; पण उपसम पामी नहीं, पाम्यो
वहु प्रसिद्ध ॥ ४ ॥ पुरोहित तव पाधरो, सांभरीयो ससनेह; एह उपाय जाणे
अवल, मंत्र-विद्यानो मेह ॥ ५ ॥

ढाल ९ मी.

इहर आंवा आंत्रलीरे ॥ ए देशी ॥

पुरोहितने तेडावीओरे, नरपति आद्गर आण; मंत्रादिक उपचारथीरे,
वेदनीनी करी हाण ॥ सुगुणनर ६ ॥ कर्मना विचित्र प्रकार ॥ कोयने कोय
उपगार ॥ सु० ॥ मणि मंत्र ने औषधी तणोरे, महिमा अर्चिस अपार; राये
घणु सतकारिओरे, भूषण विविध प्रकार ॥ सु० ७ ॥ गुण जाणे परनो
करथोरे, मोहोटा पुरुष जे होय; आवे निख कचेरीएरे, तेहने चारे न कोय

(१८)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

॥ सु० ८ ॥ जन पण आदर बहु करेरे, प्रजा राज प्रमाण; धर्म मिश्रित
नीति कामनारे, शास्त्र सुणावे जाण. ॥ सु० ९ ॥ राजानुं चिच रीझवेरे, ययो
विश्वासी तेह; ते देखी मंत्री कहेरे, शी संगति करो एह. ॥ सु० १० ॥ स्वा-
मि चंडाल ए नास्तिकोरे, भूप सुणी रह्यो मौन; क्रोधे दुर्वुद्धि धम्योरे, दुष्ट
ए सरिखो कोण. ॥ सु० ११ ॥ ब्राह्मण कुल हुं उपन्योरे, मुजने कहे चं-
डाल; राजमान मद बहु करेरे, एह मंत्री वाचाल. ॥ सु० १२ ॥ हाहा परा
भव बहु करयोरे, मुजनेसभा समस्त; पूर्वलो जीवाढीओरे, एणे पराभव प्र-
सस्त ॥ सु० १३ ॥ जो अपमान ए सही रहुरे, तो मुज अघमता थाय; मा-
नीने पराभव थकीरे, प्राण समूला जाय. ॥ सु० १४ ॥ यतः ॥ वरंमाणप-
रिखागो ॥ नमानपरिखंडनं ॥ प्राणनाशात्क्षणदुःखं ॥ मानभंगादिनेदिने ॥ १ ॥
हीणुं करे रुसे नहींरे, तूसे न कीधे भव्य; ते नर कोइ लेखे नहींरे, गणतीमई
सव्यापमव्य ॥ सु० १५ ॥ पंक ते मरदे पग थकीरे, पण नवि अगनिने
कोय; तेज देख्वाबुं एहनेरे, तेजस्वी नमे सहू कोय. ॥ सु० १६ ॥ पराक्रपी
माहुं करेरे, तोपण चाहे तासः घर वाले पण अनलनेरे, ग्रहण करे निस
खास. ॥ सु० १७ ॥ कोई उपाये मंत्रिनेरे, कहुं अनरयनो विचारः लखमी
प्राण जातां लगेरे, उद्यम सुख दातार ॥ सु० १८ ॥ यतः ॥ उपायात्तीर्यते
वाद्भि, वध्येतेतेचहरिद्विपौ; उपायाद्भिररुलंघ्यः, किमुपायान्नसिध्याति ॥ १ ॥
खोले छल हवे मंत्रिनारे, पण चिंते वली एमः जैन धर्मी नररायनेरे, हुं ना-
स्तिक कहुं कोय ॥ सु० १९ ॥ जैन गुरु पासे जईरे, शीख्यो किरिया क-
लाप; कपटी श्रावक थई हवेरे, नृपश्यु करे आलाप ॥ सु० २० ॥ मंत्रीनी
परे कपटयीरे, दाखवे शुद्ध आचार; धर्म कपटे नृपने ठग्योरे, जिम ते अ-
भयकुमार. ॥ सु० २१ ॥ मंत्री माया जाणतोरे, उवेख्यो नरराय; राज
मानीतो जाणीनेरे, न चले कोई उपाय ॥ सु० २२ ॥ धर्मशास्त्र नित उप-
दिशेरे, विच विच कामनी वात; पुरोहित रायने रीझवेरे, कपट थकी सा-
ज्ञान ॥ सु० २३ ॥ धर्म राग अति दौडिलोरे, तुरत पापनो राग; रंग ग-
लीनो जिम होयेरे, नहीं तिम मनीठनो लाग ॥ सु० २४ ॥ काम रागे रं-

गाईओरे, धर्मराग हई हाण; मजिठ काजल संगे यथारे, लसण अगर परे
 आण. ॥ सु० २५ ॥ एक दिन मंत्रि घरे गयोरे, कोई कारय वसुसार; आ-
 सन दान बोलाववुरे, बहु आदर सतकार ॥ सु० २६ ॥ घर आच्या मिथ्या
 त्विनेरे, करवो पढे सतकार; श्युं कहिए नृप मान्यनुरे, एतो उचितप्रकार.
 ॥ सु० २७ ॥ यदुक्तं ॥ गेहागयाणलचियं ॥ वसणावडिआणतहसमुद्धरणं ॥
 दुहिआणदयाएसो ॥ सञ्चेसिसम्मओधम्मो. ॥ १ ॥ श्री जयानंदना रासमारि,
 भाखी नवमी ढालः पन्नविजय कहे सांभलोरे, श्रोता वात रसाल. ॥ सु० २८
 ॥ सर्व गाथा २६२. ॥

॥ दुहा. ॥

आहु अवलुं अवलोकतां, निरस्त्री मंत्री नार; रति प्रीति रूपे करी,
 सुगुणा स्त्री शिरदार. ॥ १ ॥ मंत्रीने घन्य मानतो, रमणी देखी रूप; भोग
 योग एहने भला, एहने अति अनुरूप. ॥ २ ॥ मुज चिंता अथवा मिटी,
 कार्य प्रत्युत्तर कीधः आव्यो घेर उतावलो, समजे कारय सीद्ध. ॥ ३ ॥ ल-
 गन बले भूपालने, कहे अनागत कायः राजाने इम रीझवी, नित बेसे नृप
 पाय. ॥ ४ ॥ विश्वासी वसुसारने, पूछे प्रश्न उदारः ओछुं मुज राज्येअछे,
 संपूरण किमुसार. ॥ ५ ॥

ढाल १० मी.

कपूर होये अति उजलुरे. ॥ ए देशी. ॥

पुरोहित कहे तुम राजमारि, गजरथ तुरग अपारः कामज अधिक व-
 खाणिपरे, पुरुषारथमां साररे ॥ ६ ॥ प्राणी जूओ जूओ कपट विचार ॥
 दुर्गतिनुंए द्वाररे ॥ प्रा० ॥ तिहांनहीं कोइ आधाररे ॥ प्रा० ॥ ए आंकणी. ॥ धर्म
 अर्थ जे साधीएरे, ते एक कामनेकाज; काम साधन भार्याकहीरे, तेनहीं तु-
 मचे राजरे ॥ प्रा० ७ ॥ नारि विना निष्फल सवेरे, राज रीद्धि परिवारः
 विस्मय लही नृप बोलीओरे, किम कहे जूठ ए वाररे ॥ प्रा० ८ ॥ रूपव-

तीने गुणवंतीरे, माहरे छे बहु नारः विप्र कहे तुझ सारिखीरे, एहमां नही कोई साररे ॥ प्रा० ९ ॥ नाम मात्रथी श्युं होएरे, कोद्रव पण कहे आहारः वाकलां पण वस्त्र थानिकेरे, काचादिक अलंकाररे. ॥ प्रा० १० ॥ पण घे-वर घुर दृष्यनेरे, स्वर्ण माणिकने तोलः नवि आवे तिम तुझ प्रियारे, नवि आवे कांय मोलरे. ॥ प्रा० ११ ॥ राय कहे मुज नारिथीरे, अधिकी कोण स्वरूपः दीठीने वळी सांभळीरे, जगमां अति अदभूतरे. ॥ प्रा० १२ ॥ विप्र कहे दीठी व्हुरे, अदभूत रूप निधानः ते आगल तुज नारीनेरे, तृण पण नही उपमानरे. ॥ प्रा० १३ ॥ तिणे रूपे जीती रमारे, हरि नवि माने तासः ते अरते थई अधिरतारे, लखमी न एक निवासरे. ॥ प्रा० १४ ॥ इम सांभळी नृप बोलीओरे, कोने छे आधीनः परणी के कन्या अछेरे, भाखो विप्र प्रवीणरे. ॥ प्रा० १५ ॥ तव ब्राह्मण कहे पापीओरे, ए श्युं पूछो स्वामः अनुद्यमी असमर्थनेरे, रुहुं अजाप्युं कामरे ॥ प्रा० १६ ॥ मुज शक्ति किहां नवि फुरेरे, राय कहे कही तेहः इष्ट कामे उद्यम नहींरे, तेह कही ससनेहरे ॥ प्रा० १७ ॥ विप्र कहे सुणो स्वामिजीरे, तुज आधीन ए दायः तुज प्रधाननी वल्लभारे, वल्लभ ते घणुं होयरे ॥ प्रा० १८ ॥ तुज किंकर ए तेहमारिरे, श्युं पराक्रमनुं कामः उद्यम करी वोलावीनेरे, मुको अंतेउर घामरे ॥ प्रा० १९ ॥ तुज अनुरूप ए रूपछेरे, ए विण निष्फल सर्वः ह्यगय राज्य तणो किश्योरे, फोकट करवो गर्वरे ॥ प्रा० २० ॥ यतः स्त्रीरत्नभातिना स्थाने, स्थानेभातिचयोजितं; ऐभेकंटेमणीघंटा, भ्राजतेनतुगार्धभे ॥ १ ॥ शूर अधिक नवि सहि शकेरे, मिथा अधिक तुज दासः किम सही शकीए ते कहीरे, लाज न आवे तासरे ॥ प्रा० २१ ॥ स्वामि थकी ओछुंकरेरे, वेश दानने गेहः भोग अधिक शेवक घरेरे, क्षण क्षण साले तेहरे ॥ प्रा० २२ ॥ ए नवि समज्यो जो कदारे, स्वामि भक्ति नहीं न्यायः तो तस कामिनी अपहरीरे, शिक्षा देवी थायरे ॥ प्रा० २३ ॥ राय वचन सुणी विप्रनारे, जाग्यो अंतर कामः पण चिंते परनारिनुंरे, मुज पच्चखाण उदामरे ॥ प्रा० २४ ॥ ते तो नवि छोपुं कदारे, चाले उचर तासः अवसरे सवि वनी आ-

वशेरे, विसरज्यो सुविलासरे प्रा० ॥ २५ ॥ श्री जयानंदना रासमारे, द-
समी ढाल रसाल; पत्र कहे श्रोता सुणोरे, धन धन ए भूपालरे ॥ प्रा०
२६ ॥ सर्व गाथा. २८८. ॥



॥ दुहा. ॥

नृपनी अनुमति पापीने, चैस करे चित्त लाय; मंत्रीश्वर मन भा-
वतुं, प्रतिमा पण प्रतिष्ठाय. ॥ १ ॥ सामीवच्छल करे सामदुं, निमंत्र्यो नरराय;
तस पत्नि जोवा तणी, उत्कंठा पण आय. ॥ २ ॥ ईष्ट वैद्य उपदेशियुं,
जाणि चतुरस्रजाण; अवनीपति आच्यो तुरत, मंत्री घर मंडाण. ॥ ३ ॥
भोजन सामग्री सरस, भिया सहित परधान; आरंभी आचमनथी, सद्य करे
तिम स्नान. ॥ ४ ॥ आसन कनकनां आपीयां, मणिना थाल महंत; र-
तन कचोलां रंगश्युं, आणीने अरपंत. ॥ ५ ॥ विश्वासे विनीता चिहु, पी-
रसवा आवे पाण; खाद्य भोज्य व्यंजन सस्तर, वली घत अधिक वस्त्राण.
॥ ६ ॥ वीजे मंत्री वायरी, आदर करी अपार; भक्ति भावथी भलीपरे,
संतोषे शिरदार. ॥ ७ ॥



ढाल ११ मी.

नदी जमुना के तीर उडे दौय पंखीयारे के उडे० ॥ ए देशी. ॥

देखी कामिनी दौयके कामने वश थयोरे के का० पुरोहित उपर व-
चन विश्वास ते आवियोरे वि० तोपण गोपवी निज आकार भोजन करेरे
आ० तदगत चित्त भोजन रसं मनमां नवि धेरेरे के म० ॥८॥ तांबूल व-
स्त्राभरण प्रमुखे सत्कारियारे प्र० आच्यो निज घर रायके चित्त विकारिया-
रे के चि० एकांते एक दिन वसुसारने कहेरे व० ताहरी वात साची कहो
कोण न सहहेरे के को० ॥ ९ ॥ विप्र कहे कोण सेवक स्वामिने ठगेरे के
स्वा० लावी मुको अतिउर जिम कोइ नवि चगेरे के जि० राय कहे किम
करिए अकारण एहवुंरे अ० परनारी पंचस्त्राण भंगे दुरगते जवुंरे भ० ॥

१०॥ लोक मांहे अपवाद अजश बहु विस्तरैरे अ० ए कुल मलिनता हेतु के वात न निस्तरैरे के वा० वली मुज मित्र सुभावक स्वामिभक्तो घणोरे के स्वा० धर्मनुं साहाज्य देवे उपगारी ए मुज तणोरे उ० ॥ ११ ॥ विनयनि न्यायी पराक्रमी बुद्धि ए आगळोरे के उ० निरदोषीने दोष आरोपण नहिं भलोरे आ० वली विश्वासनों घात ते पाप म्होडुं कड्युरे के पा० पाप मूल धरनारि विरुध्द ए किम ग्रहुरे वि० ॥ १२ ॥ एह सुणी दुरबुद्धि पुरोहित चिंतवेरे पु० अंतरदुष्ट कहे हवे नृपने कैतवेरे के नृ० वात विचार करो पण नीति जाणो न्हारि के नी० जे जे रत्न होय निज देशमां ते अहीरे. के दे० ॥ १३ ॥ तरुधान्यादिक सर्वना स्वामि तुमे प्रभुरे के स्वा० तुज देशमां अपनी ए नारिनो तुं विभुरे के ना० ए सघली स्त्री ताहरी परस्त्री न ताहरेरे के प० एहमां पाप होय तो ते शिर माहरेरे के ते० ॥ १४ ॥ नारि न आपे कैम जो स्वामिभक्तो होएरे के स्वा० सुण वली वात ए वयरी अंते तुं जोएरे के अं० ते तुं काले जाणिश हवणां श्युं कडुरे के ह० तेहने स्वामि भक्तो कहे किम सहहुरे क० ॥ १५ ॥ मायावीश्युं प्रीति तुं सरलने न-वि घटेरे के सं० चिंतवे ताहरो द्रोहके श्रावक किण सटेरे के श्रा० साहाय-कारि तुज एह विश्वास पमाडवारे वि० एहवा दुर्जन लोक ते निश्चय झा-डवारे के नि० ॥ १६ ॥ करश्यो जो विश्वास तो अंते जाणश्योरे के अं० सवि देखाडश्युं परगट ताम वखाणश्योरे के ता० सांभली विस्मय खेद आणंद राजा लहेरे आ० किम ए सख के जूठ पुरोहित मुज कहेरे पु० ॥ १७ ॥ कहे पुरोहितने करशुं वात ए चित्त धरिरे के वा० विसरज्यो इम विम चित्त संशय करिरे के वि० ॥ १८ ॥ ते दिनथी हवे नरपति संशय पा-मीओरे के सं० बास मित्राइ जे तास मियानो कामिओरे मि० खल पेठो करे नाश सज्जनताई पणोरे स० ईस चंचु करे भेद स्त्रीर नीरज तणोरे स्त्री० ॥ १९ ॥ दुष्टते शिष्टनेकष्ट भणी होएसदारैभ० सज्जनने दुरजम दिए पूरण आपदारै के पू० हवे गिरिसंगम नगरे सपरवीर नरपतिरे स० एक दिन शीमने काजे विरोध थयो अतीरे वि० ॥ २० ॥ ते कारण नरवीर राजाए निज

नरेरे रा० दरवाजे लेखहारकनुं शोधन करेरे हा० हवे ब्राह्मणअपकार क-
रण मंत्री भणीरे क० अवसर जाणि कूट लेख लिखे आफणीरे ले० ॥२१॥
हवे कोई द्रव्यराहित द्विज द्रव्ये लोभविरके द्र० जूठी माया शीसवी दल
दिए भोलवीरे के द० सोनाना पल च्यार दिए परपंचथीरे दि० तेपण स्वर्ण
लेख लेइ चाल्यो संचथीरे के चा० ॥ २२ ॥ गामांतर जइ आव्यो दरवाजे
ते फिरीरे द० दूर देशथी आव्यो शरीर रंजे भरीरे ज्ञ० रोक्वोजवदरवाने
भूपाल पुरुष मिलीरे भू० शोधन करतां स्वर्ण लेख दीठो वलीरे के ले०
॥ २३ ॥ पूछे तास स्वरूप के तव बोले नहींरे के त० सुंप्यो रायने ताम
जई तिणे गहगहीरे ज० राय पूछे तुं कूण छे तव ते इम कहेरे के त०
निर्द्रव्य ब्राह्मण विच उपार्जवा मन रहेरे उ० ॥ २४ ॥ तुम नगरे वसतां
म्हे सांभल्युं एकदारे के सां० समरवीर नृप गिरिसंगम नगरे सदारे सं०
विप्र अपूर्वने कनक चतुष्टय पल दीपरे च० हुं पणलोभे गयो तिहां हर्ष घ-
णोहीएरे ह० ॥ २५ ॥ दीधी आशीष पूछे तव किहांथी आवीआरे के कि०
म्हें कळुं रतिवर्धनपुरथी तुम भावीआरे पु० तव तिणे स्वर्णने लेख आप्यो
हपें करीरे आ० मत्तिमुंदर मंत्रीने देज्यो एप उच्चरीरे दे० ॥ २६ ॥ मत दे-
ज्यो ए पत्र कोइना हाथमारि को० लेख कनक लइ आव्यो एकाकी न सा-
थमारि ए० हुं नवि जाणुं ए पत्र मांहि तिणे इयुं लिख्युरे मां० हुंतो जाणुं
जेटलुं ते तुमने भख्युरे के ते० ॥ २७ ॥ विप्र विसर्जि लेख वांचे हवे भू-
पतीरे वां० पद्मविजय अग्यारमी ढाल ए जिम हतीरे के ढा० श्री जयानंद-
ना रासमां एह कपटकथारे के ए० तेहसांभलो वात लिख्युंतेहमां यथारे लि०
॥ २८ ॥ सर्व गाथा ३१६ ॥



॥ दुहा. ॥

स्वस्तिश्री प्रणमी प्रभु, लिखेराजाधिराज; श्री गिरिसंगम नगरथी,
समरवीर शिरताज ॥ १ ॥ श्रीमति रतिवर्धनपुरे, मत्तिमुंदर जस नाम;
महा मंत्रि मुज मित्रइयुं, लिखुं लेख अभिराम ॥ २ ॥ प्रीति सहित आलि-

गिने, क्षेम कुशल छे अत्रः नित नित वांछु तुम तणा, क्षेम कुशलना पत्र
 ॥ ३ ॥ साचा अंतर मित्र छो, तुमथी अधिक न कोयः लखज्यो ते अम
 सारिखुं, जे तुम कारय होय. ॥ ४ ॥ समाचार एक प्रीछज्यो, तुमे अमने
 करयुं जाणः भूप विश्वासमां नांखीने, पकडी लेश्युं अचान ॥ ५ ॥ राज्यते
 तुमने आपश्युं, अवसर लहि ततकालः तुमे सवि सामग्री सहित, आवज्यो
 अवसर भाल ॥ ६ ॥ परिकर भेद करुंअछुं, ते सवि करजो कामः सावधान
 रहेज्यो सदा, लखज्यो दिवसनुं नाम ॥ ७ ॥ ते दिन उपर आवश्युं, सर्व
 लेइ अभिसारः राज्य अरघ तुम भाखीयुं, देख्युं ते निरधार ॥ ८ ॥ संदेह र-
 हित ते जाणज्यो, तुमे मोटा परधानः कामकाज कहेवरावज्यो, सर्व समय
 सावधान ॥ ९ ॥



ढाल १२ मी.

लाल सुरंगारे प्राणीआ ॥ ए देशी ॥

पत्र वांचीनेरे भूपती, विस्मय क्रोध भरायरेः दीठुं सांभल्युं नहीं कदा,
 हा किम एहवुं थायरे; मंत्री श्रावक भायरे, एतो नवि संभवायरे, कोयनुं
 कपट ए प्रायरे ॥ १० ॥ जूओ जूओ वात ए कर्मनी ॥ आंकणी ॥ अथवा
 लेवी एहनी मिया, इहां शी वात विचाररेः लोकने जणवीने लिजीए, ला-
 ध्युं एहनुं द्वाररे, भूख्याने जिम आहाररे, नहीं अपवादनो ठाररे, इच्छित
 थयुं निरधाररे ॥ जू० ११ ॥ इम चिंती दिए पत्रने, मंत्री हाथमां रायरेः
 मंत्री जोईने चिंतवे, पुरोहित कपट ए थायरे, खल होए दुख दायरे, खल
 करे परछन्न घायरे, काम ते मलिन करायरे ॥ जू० १२ ॥ मंत्री कहे नर
 रायने, कोइ ए द्वेशीनु कामरेः क्रोध भराणोरे भूपती, बोले निष्ठुर तामरे,
 कपट करेरे तु आमरे, धीठाईनो तु धामरे, चाले मुज थकी वामरे ॥ जू०
 १३ ॥ पोते दोप ते आचरी, नाखे पर शिर ढालरेः ताहरे विश्वासे हु र-
 हुं, तु मल्यो वयरी भूपालरे, राय समाने निहालरे, लेख देखावे ततकालरे,
 जूओ ए वात निहालरे ॥ जू० १४ ॥ ते पण सहु चित्त चिंतवे, संभवे

वात न एहरे; पण कांय खबर पडे नहीं, मंत्री धर्मनो गेहरे, सूज पडे नहीं
 रेहरे, गजब थयो मंत्री देहरे, मौन करी रक्षा तेहरे ॥ जू० १५ ॥ राजा काम
 क्रोधे करी, निज नर हुकम ते कीधरे; बेडी घाली मंत्री प्रते, बंधीखाणे
 ते दीधरे, तस भामिनी दोय लीधरे, कंदर्पे हुओ गिधधरे, माने कारय सि-
 धधरे, ॥ जू० १६ ॥ मंत्रीनो परिवार जे, नाशी गयो तिवाररे, मुद्रा दी-
 धी मंत्री गृहे, माने धन अवताररे, सभा विसरजे सवाररे, मंत्री चिते ति-
 वाररे, नरपति अधम शिरदाररे ॥ जू० १७ ॥ भूपति नवि होए आपणा,
 करीए जो सहस उपगाररे; सघलो ए परपंच करयो, हरवा माहरी नाररे,
 नृपकरतो जव आहाररे, दीठो में द्रष्टि-विकाररे, तेहज करयो अणाचाररे
 ॥ जू० १८ ॥ सर्प ने खल वली भूपति, अगनि ने जमरायरे, जाच-
 क शस्त्रने भामिनी, विधिने विष वली खायरे, अपथ्य भोजन वली प्रायरे,
 पोताना नवि थायरे, करिए कोडि उपायरे ॥ जू० १९ ॥ कुलवंतो नीति
 जाणतो, जैनमां कुशल कहायरे; निरदोषी मुज उपरे, कीधो एह अन्या-
 यरे, धिग् ए कंदर्प रायरे, देव गुरु माय तायरे, धर्मने पण न गणायरे ॥
 जू० २० ॥ तिहां लगे सर्वने मानीए, जिहां लगे कंदर्प घाणरे, नवि लाग्या
 जस अंगमां, लागे तो लिए प्राणरे, डाह्या होए अजाणरे, न गणेठण कु-
 ठाणरे, लघुता लहे महाराणरे ॥ जू० २१ ॥ इंद्र अहल्याइयुं लागीओ, घा-
 ता पुत्रीइयुं लग्गरे; रावण सीताने लई गयो, ते जाणे सहु जग्गरे, शिर
 चुंध्यां जस कग्गरे, नवि चाले जेह मग्गरे, तेहने किहांथी होए सग्गरे ॥
 जू० २२ ॥ अथवा पुरोहित दोष ए, नाहिं नृपनो तिलमातरे; एणे सहुए
 ए कीधलु, राय प्रेरथो एणीवातरे, नास्तिक करे एह घातरे, अथवा कर्म आ-
 यातरे, कोईनो वांक न थातरे ॥ जू० २३ ॥ किम करे कलुषित आतमा,
 कर्मथी अधिक न कायरे; ताहरां कीधां ते आवीआं, कर्म करे ते होयरे,
 श्याने भूंड तूं रोयरे, पूण्य पाप सामुं जोधरे, उपसमे कर्मने धोयरे ॥ जू०
 २४ ॥ भूप थयो एम वांकडो, हवे नही कोई आधाररे; नारिनुं शील ए
 खंडश्ये, शरण ते धर्मनुं साररे, शासन सुर सुख काररे, आवश्ये आडा ए

वाररे, नहीं कोई धन परिवाररे ॥ जू० २५ ॥ जे दिनथी म्हें अंगीकरयुं, शासन जैननुं एहरे; जो न विराध्युं होए मने, समकित शील ते रेहरे, तो अधिष्ठायक जेहरे, आपद टालो मुज तेहरे, एम करी काउसग करेहरे. ॥ जू० २६ ॥ ते काउसग परभावथी, शासन देवता आयरे; तेकहे पारो काउसगने, आपद गई ते पलायरे, नृप सतकार करायरे, विहाणे तेडीने रायरे, तव जाणइयो तुमे भायरे, जिनशासन सुपसायरे ॥ जू० २७ ॥ एम कही देवता गइ हवे, पारे काउसग तायरे; विस्मय पामीने मंत्रवी, नारि अंतैर ठामरे, ते पण चिंतवे आमरे, नृप आतुर थयो कामरे, भागइये शिल अभिरामरे ॥ जू० २८ ॥ राजा दासीने मोकले, मुकी कुल मर्यादरे; चाटु वयण ते बोलती, धिक्कारनो करी सादरे, काढी तिहांथी अविवादरे, पामी अति विषवादरे, किहां जइए फरीयादरे ॥ जू० २९ ॥ चित्रशालायां वेठी थकी, माने ते कारागाररे; शील भंग करइये हवे, विरह थयो भरताररे, दूर रक्षो परिवाररे, मरबुं निश्चय निरधाररे, पालबुं शील उदाररे ॥ जू० ३० ॥ यतः वरंप्राणपरित्यागो, नतुशीलस्यस्वंडनं, प्राणत्यागोक्षणंदुखं, नरकःशीलखंडने ॥ १ ॥ पामे पराभव कोयथी, नृपने शरणे ते जायरे; छांडे मर्यादा नरपति, तो आढो कुण थायरे, हवे एक धर्म उपायरे, संकट विकटे सहायरे, अवर नाहीं सुखदायरे ॥ जू० ३१ ॥ समकित शील जो मन थकी, न विराध्यु अम्हे रेपरे; तो सही शासन देवता, टालो विघन विशेषरे, अमचुं दुःख तुम्हे देखरे, दूर करो नृप द्वेषरे, रहुळुं काउसग वेपरे ॥ जू० ३२ ॥ ध्यान वले आवीदेवता, बोली प्रतक्ष वाचरे; शील रक्षा तुमची थइये, मानज्यो एह साचरे, अमचु जूओ एह नाचरे, शील राखो जिम पाचरे, एहमां नही खल खांचरे ॥ जू० ३३ ॥ काउसग पारो तुम्हे सुखे, देवता थई विसरालरे, श्री जयानंदना रासमां, भाखी वारमी ढालरे; पद्मविजय सुरसालरे, शीलथी लच्छी विशालरे, शीलथी मंगल मालरे, शील पालो उजमालरे, वंछित फले ततकालरे, व्याल होए फूलमालरे, जाए दुर जंजालरे, हरिकरि नासे विकशालरे, जल होय अगनि-

नी झालरे ॥ जू० ३४ ॥ सर्व गाथा ३५० ॥

—०—
॥ दुहा. ॥

राते कामारत थको, अंते उरमां आवि; तेहने दासी तेडवा, भूपे मो-
कली भावि ॥ १ ॥ काउसग पारी कोडश्युं, आवी नृप आसन्न; तव जोवे
नरपति तुरत, तरुणी केरु तन्न ॥ २ ॥ पद मुख मुकी पाधरुं, सघळुं तास
शरीर; कोढें व्यापित कामिनी, देखी थयो दलगीर ॥ ३ ॥ पार्थिव तेहने
पूछतो, कोढ ए थयो किंवार; चिरकालीन अछे चतुर, वैद्य असाध्य विचार
॥ ४ ॥ बीजीने बतलावतो, दुरगंध देवे कीध; नाक मरडीने नरपति, दैवे
पुंठज दीध ॥ ५ ॥ तेहने पण पूछे तुरत, कहो ए गंध किंवार; कर्म थकी
बहु कालनो, वैद्य असाध्य विचार ॥ ६ ॥ चित्रशालाए चित्थी, महिषति
मोकले ताम; अहो दैव ए श्युं थयुं, अवलाने किम आम ॥ ७ ॥ खेद लही
क्षण चितवे, भोजन वेला भाम; जोई पण जाणी नहीं, एहवी नेवली आम
॥ ८ ॥ बल्लाच्छादित वेगळुं; न लळुं वात निदान; पुरोहित महा पापीओ,
जलपी वात अजाण ॥ ९ ॥

—●—
ढाल १३ मी.

वाहलो म्हारो वायछे वांसलीरे ॥ ए देशी. ॥

भूपति एणिपरे चितवेरे, दोष देखाडी एण; पाप अघोर करावीयुरे,
छूटीश हवे कहो केण ॥ १० ॥ वाहालो म्हारो पाप निंदा करेरे ॥ कष्ट दी-
धुं म्हे मंत्री प्रतेरे; नारी तणे संकेत, कीर्तिने कुलजस धर्मनेरे, मलिन क-
रथां एह हेत ॥ वा० ११ ॥ मंत्री मल्यो वयरी प्रतेरे, ए कूण माने वात;
एह कपट पुरोहित तणुरे, जाणे जग विख्यात ॥ वा० १२ ॥ एह अधर्मी
कपटी घणोरे, मंत्रिए करयो तिरस्कार; पापी ते कर्म कर्ता थकारे, वीहे
नहीं ते लगार ॥ वा० १३ ॥ प्रात समये निश्चय करीरे, बुद्धि तणेरे उपाय;
निर्दोषी करी मंत्रिनेरे, थापुं पूरव ठाय ॥ वा० १४ ॥ एहनी प्रिया पाछी

आपश्युरे, देख्युं दुरजन दंड; इम टळवळतां रयणी गईरे, खेद आश्चर्य म-
 चंड ॥ वा० १५ ॥ प्रात समे हवे राजीओरे, वेठो सभा मझार; मेहेता म-
 झुही सहुए मिल्यारे, तेढ्यो तिहां लेखहार ॥ वा० १६ ॥ रे तुं साचुं मूज
 बोलजेरे, लेख दिओ तुज केण; नवि घोल्यो भय लही करीरे, मार देव-
 राव्यो तेण ॥ वा० १७ ॥ मार खातां तेह बोलीओरे, माहारो मुघा किम
 मूज; बहु द्रव्ये हुं लोभावीयोरे, एह पुरोहित गुज्य ॥ वा० १८ ॥ पुरो-
 हित अक्षर जोई करीरे, निश्चय क्यो निर्धार; एह अकर्म इणे करयुरे, पु-
 रोहित दुष्ट अपार ॥ वा० १९ ॥ निगड भंगावी मंत्री तणीरे, तास खमावे
 राय; वस्त्राभरणे सतकारिओरे, दिए तेहनी दौय नार ॥ वा० २० ॥ गज
 बेसारी दौय नारियुरे, राज सभा संजुत्त; घरे पोचाड्या आडंवेरेरे, ज-
 खाणो तेह धूत्त ॥ वा० २१ ॥ मंत्री तथा हवे दौय प्रियारे, करेपरस्पर वात;
 देवता वाणि प्रमुख सवेरे, धर्म द्रढता थात ॥ वा० २२ ॥ करि धिक्कारने
 क्रोधथीरे, दंडी ते वसुमार, देशयो काढे ते भूपतीरे, साथे ते लेखहार ॥
 वा० २३ ॥ राज विरोध मिटावीओरे, मंत्री बुद्धि निधान; मंत्री संगे वली
 वर्त्ततोरे, छांडी कुसंग निदान ॥ वा० २४ ॥ एक दिन बेशी कचेरीएरे,
 मंत्रीने कहे राय; बीजी प्रिया परणे नहींरे, तेहनुं कारण कांय ॥ वा०
 २५ ॥ मंत्री कहे जुठ नविकहुरे, तुम आगल महाराज; निरदूषण मुज भार-
 यारे, नारि सवे शिरताज ॥ वा० २६ ॥ पण कोई शासन देवतारे, कीधो
 ए प्रतिकार, काडसग प्रमुख सवे कहुरे, धूरथी सवि अधिकार ॥ वा०
 २७ ॥ राय विचारे मुज भाग्यथीरे, अनुकंपा मुज कीध; भस्म क्यो नहीं मुज-
 नेरे, एणिपरे समजण दीध ॥ वा० २८ ॥ धर्म महिमा परसंसतोरे, मंत्रिने
 सर्व समझ; आप अकारय निंदतोरे, भूपति थइ घणुं दक्ष ॥ वा० २९ ॥
 समकित शील महिमा हवेरे, जाणी नगरी मांहि, विस्तार्यो बहु हर्षथीरे,
 अरिहंत धर्म उच्छांहि ॥ वा० ३० ॥ बहु जने ते अंगी क्योरे, गुरु पासे
 एक दिन्न; पाप आलोईने भूपतिरे, प्रायच्छित्त प्रतिपन्न ॥ वा० ३१ ॥
 श्री जयानंदना रासमारे, भास्वी तेरमी ढाल; पद्मविजय कहे धर्मथीरे, द्रोवे

मंगल माल ॥ वा० ३२ ॥ सर्वे गाथा ३८२ ॥

॥ दुहा. ॥

नरपति हवे नीपजावतो, राखी धर्मे रंग; नगर ग्राम पुर नवनर्चा,
चैत्र जैनना चंग ॥ १ ॥ सार्धमिक सुखीयाकर्या, देई ईष्ट वरदान; कर मुकी
कारय कर्या, मुनिजनने दिए मान ॥ २ ॥ गुरु पूजा गुरु भक्तिथी, दान
अभय दातारः निज देजे नीपजावतो, पुण्य तणा परकार ॥ ३ ॥ जगत
पूरे इम जस थकी, काढे इणिपरे काल; सधली करणी सचिव पण, साच-
वतो संभाल ॥ ४ ॥ प्रिया सहित प्रधानते, शक्तिए पुण्य संभाल; अ-
रिहंत पूजा आदरे, व्रण काल तत्काल ॥ ५ ॥ दौय टंकना दिन प्रते, प-
डिकमणां पञ्चखाण, काउसग पोसह वली करे, दिए सुपात्रे दाण ॥ ६ ॥
मंत्रीश्वरनी मानिनी, पण करे पुण्य प्रधान; कोइक कोडि वरस करे, धर्मे
ते सहु सावधान ॥ ७ ॥

ढाल १४ मी.

सांभलज्यो हवे कर्मविपाक कहे मुनीरे ॥ ए देशी ॥

एक दिन अतिवळ केवली तिहां पाउधारियारे, वनपालक तिहां
आवी वधाव्यो रायरे; दान देइ तस संतोपी परिवारइयुरे, सामंत मंत्रीइयुं
मुनी वंदन जायरे ॥ ८ ॥ सांभलज्यो तुमे कर्मविपाक केवली कहेरे ॥ आंकणी ॥
परदक्षिणा देइ वंदना करी वेठा सहुरे, धर्मलाभ देइ गुरुपण दिष्ट उपदेशरे;
सुखना अरथी माणी ते अरिहंतनारे, धर्मथी पामे सधर्ला सुख सुखिशेषरं
॥ सां० ९ ॥ भोग शरिर अनिस वली लखमी राज्यनीरे, निस धरम ते
भजिए मोसने काजरे; सांभली भूपादिक संवेगे वासिआरे; पूछे मंत्री निज
पूरव भव साजरे ॥ सां० १० ॥ जिन पूजा महिमाने तस प्रतिबोधवारे, के-
वली कहे मंत्री पूरवभव वातरे; इणे भरते रत्नसंचय नगरे नृप हूओरे, नर
दत्त नामे शत्रु विनाश विख्यातरे ॥ सां० ११ ॥ नृप मानीतो माली नंदन

नामधीरे, सुनंदा सुभगा द्योय नारी तासरे; मालती जाइ जूहि चंपक वृक्ष-
 द्युरे, नृप दीधा आराम ते पाले खासरे ॥ सां० १२ ॥ फूल गुध्यां अण
 गुध्यां नृपने आपतोरे, देवपूजा तिम अंग भोगने कामरे; मुगट प्रमुख अ-
 लंकार तथा घर फूलनारे, कुसुमनी शय्या करी आपे अभिरामरे ॥ सां०
 १३ ॥ तिणे उद्याने रीपभ देवतुं देहरुरे, नगर लोक तिहां पूजे करे बहु
 मानरे; ते देखीने चिते माली ए मोटकोरे, एहने पूज्यां अरच्यां फल अस-
 मानरे ॥ सां० १४ ॥ प्रभु आगल फल हाता जनने देखीनेरे, बीजोरुं भावे
 करी द्योयुं एकरे; ते दिन फूल आभरणे राजा रीझिओरे, बहु प्रसाद कर्यो
 नृपे धरिय विवेकरे ॥ सां० १५ ॥ माली माने फलनुं फल पुज ए थयुरे, ते
 दिनथी फल कुसुमपत्र सुविशेपरे, पूजा करे अरिहंतनी गुण अण जाणतोरे,
 राजमानादिक अधिक अधिक फल देखरे ॥ सां० १६ ॥ द्योय प्रिया पण
 डमहीज जीन पूजा करेरे, फल दीठे कहो आलस कुण करे जीवरे; नाम
 सुकंड चाकर एक कठिन आशय धणीरे, फूलभार ते पुरमां लावे सदैवरे ॥
 सां० १७ ॥ एक दिन पुष्पभार लइ पूरमां आवतारे, सामो माली मिली-
 ओ ते कहे एमरे; भूप पूजानो अवसर जाय उतावलोरे, वेढीए घाल्यो को-
 डए नाव्यो केमरे ॥ सां० १८ ॥ ते सांभलीने चाकर तिहां रोसे करीरे,
 नाखी भारने चाल्यो बीजे देशरे; ताद्रश संग थकी ते तापस व्रत ग्रहेरे, कष्ट
 करे अज्ञान तपे सुविशेपरे ॥ सां० १९ ॥ माली पण अति कोप करी उवे-
 स्वीयोरे, पांते फूल लेइ जई दीवां रायरे; जैन धर्म परभावे तस लखमी व-
 धीरे, कल्पलना परे इह भव पण सुख दायरे ॥ सां० २० ॥ तेहथी भान
 अधिक नित नित पूजा करेरे, माली आयुं पूहं करी थयो तुं प्रधानरे, पूर्व
 भव पत्नी ते तुज पत्नी थइरे, तापस कष्ट करीने तप अज्ञानरे ॥ सां० २१ ॥
 आयुष्ये पुरोहित थयो वसुसार एरे, पूरव भव अभ्यासे द्वेषी तुजरे; वेढीए
 घाल्यो वयणथी ते धीकारिओरे, तिणे तुज वेढी प्रपंचथी ए फल गुज्यरे
 ॥ सां० २२ ॥ कर्म करे जे वयणथी ते नर भोगवेरे, कर्म साक्षातपणे इम
 जाणी भव्यरे, कर्म न कीजे सांभली इम मंत्री हवेरे, प्रिया सहित लहे जा-

तीसमरण नव्यरे ॥ सां० २३ ॥ केवलीने कहे म्हें पण दीतुं ए सवेरे, पण
अव्यक्तपणे पूजाफल एहरे; व्यक्तपणाना फलनुं तो कहेतुं किश्युरे, स्वर्ग
तथा अपवर्गनां फल दिए जेहरे ॥ सां० २४ ॥ मंत्री नृप भव श्रीरु लह्या
संवेगनेरे, धर्मयथाशक्तं ग्रही केवली पासरे; नृप मंत्री मंत्री प्रिया सह्य प्रण-
मी मुनिरे, परम संवेगे पोहता निज आवासरे ॥ सां० २५ ॥ श्री जयानंद-
ना रासमां पद्मविजये कहीरे, कर्म विपाक तणी वर चौदमीठालरे; कर्म शुभा
शुभ जेहने जेहवां आचर्यरे, तेहने तेहवां आव्यां उदय विशालरे ॥ सां०
२६ ॥ सर्व गाथा ४०८ ॥



॥ दुहा. ॥

नरपति मंत्रिने घणा, कला संजुक्त कुमार; रूप यौवन मद रागश्रुं,
परण्या प्रेम अपार ॥ १ ॥ एक दिन भूप अमास दो, धरम विचारी धीर;
निज निज सुत निज पदे ठवे, सुंदर जास शरीर ॥ २ ॥ भव वैराग्य भावे
घणुं, सचित खाग शुभ चित्त; ब्रह्मचर्य पाले वरत, भूप मंत्री भव भीत ॥
३ ॥ अरिहंत गुरु उपासता, पुण्यवंत परिवार; एक दिनपौपध आलये, पौ-
पध करे अति प्यार ॥ ४ ॥ राते काउसगो रह्या, उठथो अग्नि अनंत; प-
वन प्रचंडे प्रेरिओ, हाहाकार हवंत ॥ ५ ॥



ढाल १५ मी.

तोरणथी रथ फेरियोरे हां ॥ ए देवी. ॥

लागती अग्नि आवी तिहारे हां, लोक करे पोकार ॥ मेरे साहिवा
॥ ओलवे धूले-जले करीरे हां, पण ते न शमे लगार ॥ मे० ६ ॥ लोक दे-
खे बहु वाधती रेहां, आवी पौपधागार॥मे०॥पौसहमां परिवार जेरेहां, भ-
यथी कहे तिणीवार ॥ मे० ७ ॥ अग्नि चिहु दिश फिरी वली रेहां, मंत्री
सहित तुम्हे राय॥मे०॥नीकलो प्राण उगारवा रेहां, एहमां हठ नवि थाय
॥ मे० ८ ॥ राय मंत्री तव चितवे रेहां, आज प्रतिज्ञा कीध ॥ मे० ॥ तेका-

असग्न किम भांगीए रेहां, जे पचखाण प्रसिद्ध ॥ मे० ९ ॥ जीवन मरण
 होय इणे सभे रेहां, पण नवि व्रत लोपाय ॥ मे० ॥ जीवित अधिक धर्म
 छे रेहां, पामवो दुर्लभ थाय ॥ मे० १० ॥ प्राण तो भव भव सोहिला रेहां,
 राखवो धर्म द्रढाव ॥ मे० ॥ नृप मंत्री ते विहु जणां रेहां, नवि चूके तेजाव
 ॥ मे० ११ ॥ वीजा पौषधना धणी रेहां, सहु नीकलीया तेह ॥ मे० ॥ अगनि
 पसर्यो जन रव सुणी रेहां, निश्चित मरण करेह ॥ मे० १२ ॥ सागारी अणसण
 करे रेहां, तव नवि अगनि देखाय ॥ मे० ॥ कोलाहल पण को नहीरे रेहां,
 सहु परिवार रखा ठाय ॥ मे० १३ ॥ अमने शोभ पमाडवा रेहां, कीधुं ए
 सवि काम ॥ मे० ॥ विस्मयथी इमर्चितवे रेहां, कोइक सुरवर ताम ॥ मे० १४
 ॥ फूल व्रष्टि विहु उपरे रेहां, करतो दिशि उद्योत ॥ मे० ॥ बोले तुम्ह व्रत
 दृढपणु रेहां, भव सायरे जिम पोत ॥ मे० १५ ॥ सौधमेंद्र वखाणिओ रेहां,
 सुरवर सभामदार ॥ मे० ॥ हुं अणमाने आवीओ रेहां, कीधी परिक्षा सार
 ॥ मे० १६ ॥ तुम्हे प्रतिज्ञा निरवही रेहां, तुम्हने हो परणाम ॥ मे० ॥ इम
 कही दुदुभि वजाडतो रेहां, विस्मय लही तिण ठाय ॥ मे० १७ ॥ कनक
 रयण वरवी हवे रेहां, प्रणमी जाए निज वास ॥ मे० ॥ काअसग्न पोसह पा-
 रियो रेहां, धर्म सुणे गुरु पास ॥ मे० १८ ॥ पारणुं पाप वारण करे रेहां,
 मुनिवर देइ दान ॥ मे० ॥ लोक प्रशंसा बहु करे रेहां, रायनी तिम परधान
 ॥ मे० १९ ॥ एक दिन श्रावकनी वहे रेहां, प्रतिमा जे अगीआर ॥ मे० ॥ राय
 प्रधान विहु जणां रेहां, दुर्वल तनु सुकुमार ॥ मे० २० ॥ यतः ॥ दंसण १
 वय २ सामाइय ३ पोसह ४ पढिमा ५ अवंभ ६ साच्चित्ते ७ आरंभ ८ पेस ९
 छिद्वठवश्शण १० समणभूएअ ११ ॥ १ ॥ शुद्ध करी आराधना रेहां, पंच
 परमेष्टि ध्यान ॥ मे० ॥ मरण समाधि लहे तदा रेहां, पचखी अन्नने पान ॥
 मे० २१ ॥ शुक्र कल्पे दोय उपन्या रेहां, शक्र सामानिक देवा ॥ मे० ॥ मंत्री
 मिया पण इणिपरे रेहां, सम्यग करी धर्म सेव ॥ मे० २२ ॥ मित्रपणे सुर
 विहु थया रेहां, सातमे देव लोके तेह ॥ मे० ॥ जयजय रव सुरवर करे रेहां,
 स्रवना करे सुरी नेह ॥ मे० २३ ॥ देवनी उत्तपति कौरडा रेहां, विधि पूर्वक

करी काज ॥ मे० ॥ वचन अगोचर सुख तिहारैहां, भोगवे सुरसाम्राज्य ॥
 २४ मे० ॥ नंदीश्वरादिक तीर्थनी रेहां, यात्रा करे सुखिवेक ॥ मे० ॥ तीर्थ-
 कर पास सुणेरेहां, देशना समकित टेक ॥ २५ मे० ॥ सुख भोगवतां ते-
 हने रेहां, जातो न जाणे काल ॥ मे० ॥ दान दीधु मंत्री भवे रेहां, मुनिवरने
 असराल ॥ मे० २६ ॥ तिणे अधिकुं कांय भोगवे रेहां, देवपणे सुखसार
 ॥ मे० ॥ हवे पुरोहित काढ्यो तदा रेहां, अन्याये वसुसार ॥ मे० २७ ॥
 देश अनेक भय्यो तिहां रेहां, नवि लह्यो किहां ए ठाम ॥ मे० ॥ भोला लोकने
 भोलवे रेहां, दुष्ट वासना काम ॥ मे० २८ ॥ आर्च रौद्र ध्याने मरी रेहां,
 रतन प्रभाए जाय ॥ मे० ॥ वेदना त्रिविध सही तिहां रेहां, पूरव कर्म पसाय
 ॥ मे० २९ ॥ तिहांथी तिरयंचमां भय्यो रेहां, वार असंख्याती तेह ॥ मे० ॥
 दरिद्री दुखी दोभागीयो रेहां, विप्र थयो वली एह ॥ मे० ३० ॥ ते दुख-
 थी उदवेगीओ रेहां, परिव्राजक वली थाय ॥ मे० ॥ धूमकेतू ज्योतिषी थयो
 रेहां, मिथ्यात्वी सुरराय ॥ मे० ३१ ॥ हवे ते अतिबल केवली रेहां, राज
 ऋषि करे विहार मे० ॥ जिणे नृप मंत्री बोधीआ रेहां, तिम बहुजन उप-
 गार ॥ मे० ३२ ॥ शैलेशी करी शिव वरया रेहां, इम दानादिक धर्म ॥ मे० ॥
 चारित्र धर्म तिम वरणव्यो रेहां, जेह दिए शिवशर्म ॥ मे० ३३ ॥ श्री
 जयानंदना रासमां रेहां, पन्नरपी एह ढाल ॥ मे० ॥ प्रथम खंड पूरण थयो रे-
 हां, पूरवभव सुरसाल ॥ मे० ३४ ॥ संवेगी शिर सेहरो रेहां, सखविजय
 पन्यास ॥ मे० ॥ कपूरविजय तेहना कवी रेहां, खिमाविजय शीष्य तास ॥ मे०
 ३५ ॥ जिनविजयो जगमां जयो रेहां, तास शीष्य वडभाग ॥ मे० ॥ तेहना उ-
 त्तमविजयजी रेहां, बहु श्रुत महावैराग ॥ मे० ३६ ॥ तास शीष्य पद्मे
 कल्यो रेहां, प्रेमे पहलो खंड ॥ मे० ॥ श्रोता जन सुणतां थकां रेहां, पामो पुण्य
 अखंड ॥ मे० ३७ ॥ इति श्रीमत्सांविज्ञ पक्षीय पंडित प्रवर पं० श्री उत्तम
 विजयजीह्वाणि विनेय पं० पद्मविजयगणिविरचिते प्राकृत प्रबंधे श्री श्रीजया-
 नंद केवलि चरित्रे तत्प्राग्भव मंत्री जीव बोधिबीजलाभाऽतिबल राजार्थे

(३४)

श्री जयानंद केवळीनी रास.

केवळि द्रष्टांत सूचित यति धर्म फल वर्णनादि भवत्रय नरवीर नृपभवद्वय
वसुसार पुरोहित स्वरूपातिबल राजार्थ मोक्ष गमन वर्णन नाम प्रथम खंडः
समाप्तः ॥ गाथा सर्वे ४४४ ॥ उक्त गाथा श्लोक १३ ॥

खंड बीजो.

॥ दुहा. ॥

श्रीमंथर स्वामि नमुं, विचरंता भगवान; श्रीमंथर अे सारिखो, नहीं
कोइ जगत निधान ॥ १ ॥ प्रथम खंड पूरण कर्यो, बीजानो हवे वहार;
भोता जन सुणज्यो सवे, आलस उंघ उतारि ॥ २ ॥ जंबूद्वीप लख जो-
यणो, भरत क्षेत्र तिहां भाल; पर्वत जोयण पंचास ते, वैताढ्य नाम विशा-
ल ॥ ६ ॥ पचवीस उंचो पण कह्यो, पूर्वापर जस प्रांत; रूपानो रळीआ-
मणो, शोभातणो निशांत ॥ ४ ॥

हाळ १ ली.

॥ आदीश्वरनी वीनतीनी देशी ॥

श्री रिसहेसर देवरे शेत्रुंजा धणी ॥ ए देशी ॥ उंचो जोयण पचीसरे,
गिरिवर ए कह्यो, पृथिवीथी दस जोयणाए ॥ ५ ॥ विद्याधरनी श्रेणिरे,
उत्तर दक्षिणे, साठ पंचास नगर तिहांए ॥ ६ ॥ अरिहंतना गुण गायरे,
गीत सुकंठथी, खेट युगल तिहां क्रीडताए ॥ ७ ॥ कनक रतन मयी मेहरे,
नगरमां शोभतां, तिहांथी दस जोयण गयेए ॥ ८ ॥ दोय श्रेणि तिहां हो-
यरे, सौधर्म इंद्रना, लोक पालना देवताए ॥ ९ ॥ अभिओगिकना ठाणरे,
मणी मयी रुयडा, सुरालय ते जाणीएए ॥ १० ॥ तिहांथी जोयण पांचरे,
गिरि शिर उपरे, सिद्धयतनादिक अछेए ॥ ११ ॥ नव कूट अति मनो-
हाररे, देव देवी तिहां, क्रीडा करे अति रंगशुंए ॥ १२ ॥ हवे उत्तर श्रे-
णि माहिरे, गगन वल्लभ पुरे; कनक मणिमय मेहछेए ॥ १३ ॥ ते मणि
ग्रह उद्योतेरे, भेद दिन रयणीनो; न लहे लोक कोकज लहेए ॥ १४ ॥ वि-
द्याधरनो स्वामिरे, सहस्रा युद्ध नामे; तेह नगरनो राजीयोए ॥ १५ ॥ सु-
रयपरे तपे तेहरे, पण ए निस तपे; रवि विपरीत ते देखीएए ॥ १६ ॥

मालिनी नामे तासरे, शील गुण मालिनी; कांता अनु रक्ता घणुंए ॥१७॥
 सुपने चक्री देखिरे, कहे भरतारने; रात समे ते अन्यदाए ॥ १८ ॥ चक्री
 सम तुझ पुत्ररे, होश्ये पति कहे; सांभली तेहरखी घणुंए ॥ १९ ॥ नरवीर
 नृपनो जीवरे, शुक्र थकी चवी, तेहनी कूखे उपन्योए ॥ २० ॥ शुभ मुहुरते
 शुभ दिन्नरे, जनम थयो हवे; लक्षण लक्षित देहडीए ॥ २१ ॥ अग तेजे
 उद्योतरे, दस दिश दाखतो; जनम महोत्सव नृप करेए ॥ २२ ॥ वाजित्र
 नाद विनोदरे, दान दिए घणु, वधामणां बहु आवतांए ॥ २३ ॥ मात सु-
 पन अनुसाररे, चक्रायुध नाम; सोभागी सुतनुं ठवेए ॥ २४ ॥ दिन दिन
 वाधे कुमाररे, भिय दर्शन घणुं; पंच धावि पालीजतोए ॥ २५ ॥ प्रजा म-
 नोरथ साधरे, कल्पांकुर परे; अनुक्रमे ते म्होटो थयोए ॥ २६ ॥ भणवा मु-
 क्यो पुत्ररे, अवसर जाणीने; कष्ट विना ते शीखतोए ॥ २७ ॥ कला श-
 खने शास्त्ररे, बहु अभ्यासतो, साक्षी मात्र गुरु करेए ॥ २८ ॥ विनयवंतो
 हवे जाणिरे, निधि सोभाग्यनो; विद्या आपे पुत्रनेए ॥ २९ ॥ प्रज्ञप्ति देई
 आदिरे, महा विद्या दिए, सहस्र गमे गंभीरनेए ॥ ३० ॥ ते सवि साधे कु-
 माररे, लीलाए करी; विधि पूर्वक उद्यम करीए ॥ ३१ ॥ सत्व भाग्यथी
 तासरे, सिद्ध थई सवे; सिद्धि तेहने वश अछोए ॥ ३२ ॥ दिव्य शस्त्र बहु
 जातिरे, ते पण सीधलां; पुण्यने दुःकर को नहींए ॥ ३३ ॥ स्वयंवरा कन्या
 तामरे, विद्याधर तणी; रूपे रंभ हरावतीए ॥ ३४ ॥ बहु ज्ञत संख्या ता-
 सरे, नृप परणावतो; तेहश्युं सुख विलसे सदाए ॥ ३५ ॥ चारण श्रमण मु-
 णिदरे, एक दिन आवीआ; भुवनानंद नामे गुरुए ॥ ३६ ॥ ज्ञानवंत गुरु
 तेहरे, शिष्ये परिवयो; सहस्रा युध हवे राजीओए ॥ ३७ ॥ बहु विद्याधर
 साधरे, रीधिअे परिवयो; प्रणमी धर्मसृणे तिहांए ॥ ३८ ॥ पामी तेप्रतिबो-
 धरे, लघु कर्मा हवे; चक्रायुध राज्ये ठवीए ॥ ३९ ॥ गुरु चरणे लिए दीक्षा
 रे, भूप चक्रायुध, समकितादिक आदरेए ॥ ४० ॥ बीजा पण बहु जीवरे,
 यथा शक्त करी; धर्म आदरी, घर गयाए ॥ ४१ ॥ बीजे खंडे, एहरे, ढाळ
 प्रथम कही; पद्मविजय भेमे करीए ॥ ४२ ॥

॥ दुहा. ॥

सहस्रायुध हवे साधुजी, विचरे गुरुद्वयुं वेग; शिक्षा दुविध शीखे सदा,
सख संयम संवेग ॥ १ ॥ अंग पूरव अभ्यासीआं, जाणी गुरुजी योग्य; आ-
चारय पद आपीयुं; गुणवंता गत रोग ॥ २ ॥ चक्रायुध नरपति चतुर,
विक्रमवंत वखाणि, विद्या देवीए वेगद्वयुं, प्रगट चक्रदियुं पाणि ॥ ३ ॥ सा-
न्वय नाम सोहामणु, कृतम बीजां कीष, रयण विद्याना जोरथी, सख च-
क्रीपणुं सिद्ध ॥ ४ ॥

ढाल २ जी.

अष्टापद गिरि जात्र करनकुं ॥ ए देशी. ॥

नंदीश्वर वरजात्र करनकुं, एक दिन चक्री आया; प्रिया सहित पू-
जा करी भक्तें, वाजित्र नाद वजाया ॥ १ ॥ श्री जिन पूजा कीजे लाल,
नरभव सफल करीजे ॥ नाटिक चक्रवर्ती करे सुंदर, प्रिया वाजित्र वजावे;
गीत गाए जिनवरनां भक्तें, नाटिक तान मिलावे ॥ श्री० ६ ॥ नाटिक दे-
खी कोईक सुरघर, तुष्टमान थयो शक्तें; कामित करी विद्या तस आपे, श्री
जिन राजनी भक्तें ॥ श्री० ७ ॥ साधन विधिद्वयुं विनय करीने, विद्या ली-
धी रंगे; प्रभु प्रणमी ते देव नमीने, आवे निजपुर संगे ॥ श्री० ८ ॥ ते
विद्या साधवा हवे एक दिन, झाडूल वनमां मांडे; तप ध्याने तिहां परवत
उपर, अन्य काम सवि छांडे ॥ श्री० ९ ॥ इणे अवसर लंकानो राजा, शत
कंड नाम सुहावे; प्रिया सहित मेरु जिन नमीने, वलतां ते तिहां आवे ॥
श्री० १० ॥ विद्या साधतां सातमो दिन छे, तास विमान खलाए; हेटे जूए
तव देखी तेहने, क्रोध मांहे ते भराए ॥ श्री० ११ ॥ नागपास विद्याए वि-
कुरवी, बांध्यो तरुथी गाढो; तोपण निज ध्याने ते चक्री, कांय थयो नवि
टाढो ॥ श्री० १२ ॥ विद्या सिद्ध थई ते नृपती, ब्रूट्या ते नागपास; देवी
कहे तुज सत्वे तूठी, फलश्ये ताहरी आश ॥ श्री० १३ ॥ काम पडे मुजने

संभारे, इम कही गई निज ठामे; प्रज्ञप्तिथी लंकांपतिनी, चेष्टा खबर ते पामे
 ॥ श्री० १४ ॥ चक्री निजपुर आव्यो तेहवे, दोय विद्याधर आवी; कन्या
 आठ अयोध्यापतिने, छे ते वात सुणावी ॥ श्री० १५ ॥ नारि मांदि जिम
 ते सर्वोत्तम, पुरुषमां रूप तुम्हारु; जो तुमे परणो तो होय सुंदर, हृदयतेमाने
 अमारुं ॥ श्री० १६ ॥ पेहेलां पण दिग्यात्र मनोरथ, वली ए वाते प्रेयो;
 प्रौढ सेना लेई कीध प्रयाणुं, काम नृपतिए घेयो ॥ श्री० १७ ॥ जई अयो-
 ध्यापुरी उद्याने, त्रास पमाडे नयरी; तेहनो श्री चंद्रराजा वलीओ, दूत मो-
 कले वयरी ॥ श्री० १८ ॥ कन्या आठने दंड ते आपो, नहीं तो युद्धसज्ज
 थाओ, न्यायथी छल न करुं ते कारण, जे कहुं ते दिल लाओ ॥ श्री०
 १९ ॥ ते पण महा मानी बहु विक्रम, कन्या दानतो दूरे, दड न आपु सन
 मुख आवी, लडश्युं आणंद पूरे ॥ श्री० २० ॥ सैन्य लेई सनमुख नीकली-
 ओ, घोर महारणलाग्युं, श्री चंद्रराये विक्रम तिम कीधुं, खेट सैन्य जाए
 भाग्युं ॥ श्री० २१ ॥ चक्री क्रोध थकी हवे पोते, धनुर्वर्म शिरत्राण; नृपनां
 छेदी आकुल कीधो, करी मंग्राम मंडाण ॥ श्री० २२ ॥ पूर्व आराध्यो सुर
 संभार्यो, आव्यो ते ततकाल, चक्रीने बांधी आणी आपो, सुरने कहे भूपाल
 ॥ श्री० २३ ॥ सुर कहे भाग्यवंतो ए खगपति, में एहश्युं नवि चाले;
 नृप कहे मुज गुरु पासे मुंको, जिम मुज दीक्षा आले ॥ श्री० २४ ॥
 जिम इहभव परभव परपरिभव, पुण्ये नवि मुज आवे; तव सुर चक्री शस्त्र
 समुदय, निज शक्तें थंभावे ॥ श्री० २५ ॥ तेहज पुर उयवनमां गुरुनी, पा-
 से मुंको राय, संवेगी राजा सुणी धर्मने, अति संवेग भराय ॥ श्री० २६ ॥
 चरम शरीरी थई निःसंगी, धीर लिए तव दीक्षा; गुरु पासे तव शीखे दु-
 विहा, ग्रहण आसेवन शिक्षा ॥ श्री० २७ ॥ श्रीजयानंदना रासमां, भास्वी
 बीजे खंडे ढाल; बीजी पक्ष विजये अति अनुपम, सुणतां मंगलमाल ॥ श्री०
 २८ ॥ सर्व गाथा ७० ॥



॥ दुहा. ॥

शस्त्र रथभ्यां संभालिने, नृप पण नवि देखाय; चक्री मनमां चितवे,
ए इयो थयो उपाय ॥ १ ॥ तेह स्वरूप जोवा तिहां, मुंके विद्याधर ताम;
तेह स्वरूप आवी तदा, आखे विस्मित आम ॥ २ ॥ सैन्य वेहु तिहां साम-
दुं, मिलिने विस्मित जाय; चक्री गुरु शुभ चित्तश्युं, विनये वंदे पाय ॥ ३
॥ राज ऋषि वंदे बळी, देखी मुनि देदार; पांचसें परब्रज्या ग्रहे, मंत्री प्र-
मुख मनोहार ॥ ४ ॥ अवनि पाति अंते उरी, आवी राग असंत; मुनि प्रति
बोधी महा गुणी, पंचसयां प्रव्रजंत ॥ ५ ॥ प्रणमी राज ऋषि प्रते, तास
पुत्र तस ठाण, थापी तास वचन थकी, परणे कनी प्रमाण ॥ ६ ॥ श्रीचंद्र
नरपति सारिखां, भूचर जीत्यो भूप; कीट कुट्टन हवे कुण करे, अवर जी-
त्या अनुल्प ॥ ७ ॥




दाल ३ जी

जीहो जाण्युं अवाधि प्रयुंजिने ॥ ए देशी ॥

जीहो चक्रायुध हवे चितवे, लाला विद्याधर वलवंत; जीहो जीतीने
करुं वश सवे, लाला दाखुं तेज अनंत ॥ ८ ॥ भविक जन जोज्यो पुन्य प्र-
कार, जीहोपुण्य वळे सवि संपजे; लाला वंछित मुख निरधारभ० ॥ ए आंक-
णी ॥ जीहो इम करतां ते सांभर्यो, लाला लंकांपति शत कंट; जीहो चा-
ल्यो ते उपरे हवे, लाला जाणी अति उल्लंठ ॥ भ० ९ ॥ जीहो आवतो
जाण्यो चर थकी, लाला विद्याए करी तेह; जीहो साठ जोजन निज पुर
थकी; लाला अगनिनो कोट करेह ॥ भ० १० ॥ जीहो अग्र सैन्य ते दा-
शतो, लाला आवी कहे निज स्वामि; जीहो ज्वालिनी विद्याए कोटनें,
लाला ओलवे चक्रीताम ॥ भ० ११ ॥ जीहो चक्री चाल्यो आगळे, ला-
ला जाणे शत कंट राय; जीहो दर्प्य धरी निज सैन्यश्युं, लाला तेहनें
साहमो थाय ॥ भ० १२ ॥ जीहो विश्व भयंकर वेहुने, लाला लाग्युं रण

अति घोर; जीहो हय गय पत्ति पढ्या घणा, लाला दाखवे आतिशय जोर
 ॥ भ० १३ ॥ जीहो इस करतां लंकेशनुं, लाला बल भाग्युं थयुं दैन्य;
 जीहो तव पोते उठयो तदा, लाला सज्ज करी निज सैन्य ॥ भ० १४ ॥
 जीहो विविध वाण तिहां वरसतो, लाला मेघ परे असराल; जीहो चक्री
 सैन्य मद सहु गल्यो, लाला गज मद जिम हरी बाल ॥ भ० १५ ॥
 जीहो हस्ती कदली वन परे, लाला चक्री सैन्य गयुं भांजि; जीहो उठयो
 चक्रायुध तिहां, लाला क्रोध वशे महाराज ॥ भ० १६ ॥ जीहो पहेलां
 ध्यान मांहे रह्यो, लाला दीडुं ताहरुं ठाम; जीहो हवे आपण वेहु मिल्या,
 लाला मगट तुं कर निज धाम ॥ भ० १७ ॥ जीहो मर्म तर्णां वच सांभ-
 ली, लाला शतकंठ क्रोध भराय; जीहो वाण मंडप रचिओ तदा, लाला
 रविआतप नवि थाय ॥ भ० १८ ॥ जीहो धनुष लंका पतिनुं शरे, लाला छे-
 दे चक्री नरिंद; जीहो तव नवुं लावी जुसतो, लाला ते पण छेदे अमंद ॥
 भ० १९ ॥ जीहो सात धनुष एम छेदीआं, लाला तव शतकंठ राजान;
 जीहो विह्वल थई विद्या बले, लाला मुके नाग अमान ॥ भ० २० ॥
 जीहो गारुड विद्यार्थी तदा, लाला सर्पने दीघोरे त्रास; जीहो अग्नेया-
 दिक शस्त्रने, लाला मुके विद्या विलास ॥ भ० २१ ॥ जीहो प्रति शस्त्रे
 हणे ते सवे, लाला चक्री रोश रसेण; जीहो लंकापति चक्री प्रते, लाला
 उठयो क्रोध वसेण ॥ भ० २२ ॥ जीहो लोहभार हजारनुं, लाला मोगर
 मस्तके दीधः जीहो तेहथी पराभव नवि थयो, लाला पण कांय मूरछा
 कीध ॥ भ० २३ ॥ जीहो अणमती नारी परे, लाला मूरछा मूकी दूर;
 जीहो वज्र मुद्दरे लंकापति, लाला हण्यो पीडा थई मूर ॥ भ० २४ ॥ जी-
 हो रुधिर झरे मूर्छा लह्यो, लाला निगाडिग कीघोरे दीन, जीहो वडु वडु
 पशुनी परे, लाला बांध्यो वधन्न पीन ॥ भ० २५ ॥ जीहो चक्री बाक्र परा-
 क्रमी, लाला मुकी तिहां रखवाल; जीहो धीरय देई तस सैन्यने; लाला
 निःशंकित भूपाल ॥ भ० २६ ॥ जीहो निज सैन्ये आवी करी, लाला सु-

ख निद्रा करे तेह; जीहो तव शतकंठ चित चितवे, लाला आणी धर्म स-
नेह ॥ भ० २७ ॥ जीहो निज कृत कर्म सहे अहो, लाला मुख दुख इह
परलोक; जीहो में पराभव ध्याने कर्यो, लाला नेहनुं फल ए रोक ॥ भ०
२८ ॥ जीहो दोष ए माहरो मूलगो, लाला फलीओ मुज ततकाल; जीहो
आरंभादिक इणि परे, लाला फलशे मुज जंजाल ॥ भ० २९ ॥ जीहो
राज्य आरंभनुं मूल छे, लाला इम करी ते आलोच; जीहो दीक्षा लेउं
इम चित्तवी, लाला पंच मुष्टि करे लोच ॥ भ० ३० ॥ जीहो भाव मुनि थ-
या तेहने, लाला शासन देवता ताम; जीहो बंधन छेदीने दियो, लाला
मुनिवर वेप उद्दाम ॥ भ० ३१ ॥ जीहो द्रव्य भावथी मुनि थया, लाला
तिहांहीज काउसग ठाय; जीहो समता दृष्टि करी रत्ता, लाला निरमम ने
निरमाय ॥ भ० ३२ ॥ जीहो श्री जयानंदना रासमां, लाला बीजे खंडे रे
सार; जीहो पदमे ढाल त्रीजी कही, लाला धन रायकपि अणगार ॥ भ०
३३ ॥ सर्व गाथा १०३.



॥ दुहा ॥

आरक्षक आनन थकी, सांभळी विस्मित थाय; सेनाद्वय संयुत हवे,
पोहतो मुनिवर पाय ॥ १ ॥ तुमे तो मोटा महाव्रती, तुम वल तुमची पाज;
अमे न थाये एहवुं, मुनिने कहे महाराज ॥२॥ स्रमावे खांति करी, लीलाए
लंकां जांय; श्रीकंठ सुतने सुंपतो, राज्य करी तस राय ॥३॥ आण मनावी
आपथी, तेहनी दीधी ताम; कन्या शतनो कर ग्रहे, कीधुं आपणुं काम ॥४॥
अन्यद्वीप अबनी पति, नमीया चक्री नाम; वधू सघली लेई वरयो, वैताढ्ये
विश्राम ॥ ५ ॥

॥ ढाल ४ चोथी ॥

सोनानी झारीहे ॥ ए देशी ॥

दक्षिण श्रेणे हे, साहिवा म्हारा, सरोवर तीर, डेरा तंबू दीष, सहस कन्या
तिर्हा श्रीहतीजी; रूप गुणवंती हे, सा० निज अनुरक्त, जाणी अपहरी तेह

मनमथ मनमां पीडतीजी ॥ ६ ॥ कन्या कंचुकी हे, सा० चक्रीनी वात, ज-
 णवे कन्या ताय, तेह आवी संगर करेजी; नाठा ते सहु हे, सा० दक्षिण
 स्वामि, बहु खेचर करे सेव, वन्हिवेग रथजूंपुरेजी ॥ ७ ॥ सहु जइ तेहनेहे,
 सा० भाखी वात, वन्हि वेग तव दूत, मोकळी कहेवरावे इगुंजी; हठथी
 कन्या हे, सा० लीधी ते मुक, नहीं तो करो संग्राम, अन्याये न करो कि-
 शुंजी ॥ ८ ॥ तेह सांभली हे, सा० मान्यो संग्राम, भूरुयाने जिम अहार,
 करे निमंत्रणा तिणी परेजी; रथनूपुर हे, सा० नगरे आय, वन्हिवेग पण
 ताम, सैन्य लेईने नीसरेजी ॥ ९ ॥ बल मदथी हे, सा० ते दिन जोर,
 दारुण थयो संग्राम; ते विहुं लश्करने तिहांजी, वन्हि वेग तव हे, सा० दे-
 खे एम, बहु गज पायक आदि, मरण लह्या प्राणी जिहांजी ॥ १० ॥ अति
 दयावंतो हे, सा० चक्रिने एम, भाखे वाणि रसाल, आपण अरिहंत मत ध-
 णीजी; शुद्ध श्रावक हे, सा० न घटे एह, जिणे हस्सादिक जीव, समुदय
 होय मरण भणीजी ॥ ११ ॥ युद्ध करीए हे, सा० आपण दोय, वीरमानी
 करो युद्ध, श्याने लोक मरावीएजी; सूर न वांछे हे, सा० जय संविभाग,
 अंगी करे दोय ताम, निज निज बलने ठावीएजी ॥ १२ ॥ वाणने खझेहे,
 सा० दंड गदाय, सम विक्रम तेह दोय, लढतां कोय न हारियोजी; दोय
 सींह लढता हे, सा० जीते नकोय, चक्री पाम्यो खेद, ज्वलतो चक्र संभा-
 रीओजी ॥ १३ ॥ आव्युं ततक्षण हे, सा० हृदये मारि, मूर्छा लह्यो व-
 न्हिवेग, धरणी पडथो वाये द्रुम यथाजी; जाणी साधर्मिक हे, सा० च-
 क्री ताम, अंचले घाले वाय, जिम संज्ञा पामे तथाजी ॥ १४ ॥-करे लडाई
 हे, सा० धरता एम, दया हृदयमां जोय, धन जिनशामन जग जयोजी;
 उठथो बलिओ हे, सा० जे वज्र काय, चिर मूर्छा नवि होय, जिम श्राव-
 क स्त्री परे थयोजि ॥ १५ ॥ देखी चक्रिने हे, सा० चिंते तेह, ए मुज तात
 समान, करे उपगार श्णि परेजी; एह पराभव हे, सा० नवि देखंत, दी-
 क्षा लीधी होत, जे भव तारणी मुख करेजी ॥ १६ ॥ इणे अवसर हे, सा०
 चक्रथी मुज, मरण आवन निरधार, तो दुरगति जातो सहीजी; पुण्यहीनने

हे, सा० सद्गति नाहि, राजाने तो विशेष, सद्गति आरंभे नहींजी ॥१७
 ॥ चक्री कृपालु हे ॥ सा० वात्सल्यवंत, संतोषीए राय, अवसर योग्य करुं
 हवेजी; एम चिंतवी हे, सा० बोले वाणि, ताहरी कृपा अद्भूत, इणे आ-
 चणे सूचवेजी ॥ १८ ॥ बांधव साथे हे, सा० न करुं युद्ध, लीजे माहरुं रा-
 ज्य, हुंतो दीक्षा आदरुंजी; चक्री बोले हे, सा० नहीं मुज काम, भोगवो
 सुखथी राज्य, हुं नवि लेउ ताहरुंजी ॥ १९ ॥ हुंतो इच्छुं हे, सा० एक प्र-
 णाम, धुरथी कीधो तेह, तव प्रार्थना करी निज-पुरेजी; आण्यो चक्री हे, सा०
 निज पर जेह, कन्यानो समुदाय, पांचसें दिए चक्री करेजी ॥ २० ॥ ली-
 धी पूरवे हे, सा० हठथी तेह, आपे तेहना तात, हर्ष करीने हेजशुंजी; दक्षि-
 ण श्रेणिना हे, सा० सर्व राजान, आवी प्रणमे पाय, देखी संयुक्त तेजशुंजी
 ॥ २१ ॥ हय गय भेटणाहे, सा० करता तेह, आज्ञा मानी तास, सहस्रगमे
 कन्या दिएजी; वन्हिवेगने हे, सा० आपे ताम, मुख्य नगर जे आठ, हर्ष
 शरीने ते लिएजी ॥ २२ ॥ बीजा खेटने हे, सा० आपे शेष, हवे उत्तर श्रेणि
 आय, लीलाए जीते नरवरुंजी; आपे कन्या हे, सा० तेह राजान, सहस्र
 तणे परिव्राण, यौवन रूप मनोहरुंजी ॥ २३ ॥ पूर्वापर सवि हे, सा० सो-
 ल हज्जार, राणीनो समुदाय, जीते शेष वयरी वलीजी; एम जय करीने हे सा०
 भोगवे राज्य, निज-पुर आवी सार, मालुं चक्रीनी रीद्धि मलीजी ॥ २४ ॥
 वन्हिवेग हवे हे, सा० पूर्ण संवेग, गुरु संयोग अभाव, रहेवुं पढयुं घरमां ति-
 णेजी; महावेग मुनिवर हे, सा० जे निज तात, चौनाणी उद्यान, समवसर्या
 गुरु तिहां किणेजी ॥ २५ ॥ सांभली हरख्यो हे, सा० गुरु कने जाय, प्रण-
 मी गुरुना पाय, तेहु पासे वृत्त आदरेजी; सातसें पुरुषशुं हे, सा० सातसें
 नारि, परिवरियो परिवार, निरतीचार संयम धरेजी ॥ २६ ॥ श्री वन्हि-
 वेग हे, सा० श्री चंद्रराय, सहस्रायुद्ध नर नाथ, व्रण राजवी तिणे भवेजी;
 पाभी केवल हे, सा० अहो अहो एह, वरिया अन्याबाध, सकल करमने क्षय
 भवेजी ॥ २७ ॥ लंकापति पण हे, सा० चारित्र पाळि, पंचम भवे लहे सिद्धि,
 अहो चारित्र महिमा वडोजी; एम श्रावकनो हे, सा० साधुनो धर्म, पारुतां

लहे शिवशर्म, तिणे जैन महिमा एवढोजी ॥ २८ ॥ वीजे खंडे हे, सा० चौ-
थी ढाल, श्री जयानंदने रास, चक्रायुध अधिकार एजी; पद्मविजयेहे, सा०
भाख्यो रसाल, मुंगतां मंगलमाल, होवे जयजयकार एजी ॥ २९ ॥ सर्वे गा-
था १३२ ॥

॥ दुहा ॥


इण भरते अवनी तले, विजयपुर मुखसाण; विधिए कीधी वानगी, स्व-
र्ग तणी मुख खाण ॥ १ ॥ स्वर्ग अरथी सज्जन जिके, परगट कीजे पुण्य;
आदर करवा इणि परे, निरती कीधी नुन्य ॥ २ ॥ कोट चैखने ओकजे,
वापी वन श्री विशेष; जेहनी शोभा जोइने, नाक थया अनिमेष ॥ ३ ॥

॥ ढाल ५ पांचमी. ॥

आछेलालनी ॥ ए देशी. ॥

तिहां जय नामे राय, युवराजा तस भाय, आछेलाल ॥ विजय नामे जित
शत्रुनेजी ॥ ४ ॥ पृथिव पाले न्याय, चंद्र सूरथ समुदाय; आ० क्यांहि अ-
निती तम नवि रहेजी ॥ ५ ॥ मित्र शत्रुने दोय, ऋठा रुठा होय; आ० क्षि-
ति आपे अचरिज अहोजी ॥ ६ ॥ जयने विमला नार, विजयने कमला
धार; आ० नयन ते राज्य लक्ष्मी तणांजी ॥ ७ ॥ रति प्रीति दोय नार,
हर दग्ध अनंग विसार; आ० मुख अर्थे आवी इहांजी ॥ ८ ॥ एक दिन
सुती रात, सुपने सूअर साक्षात; आ० हरियुन खोले आवी रझोजी ॥ ९ ॥
सूअर मुकी ताम, हरि गयो कोई ठाम; आ० जागी कहे भरतारनेजी ॥ १० ॥
पुत्र ते सूअर समान, होशे कहे राजान; आ० अन्यने हरि सम सुत थशेजी
॥ ११ ॥ पण वेहुने थशे प्रीत, माथे विचरशे नित; आ० सांभली खेद
हरख लहेजी ॥ १२ ॥ वसुसार जीव तिहां आय, पूरण करी सुर आय;
आ० तेहनी कूखे उपन्योजी ॥ १३ ॥ हिंसा द्रोहादिक भाव, मायने दोहद
प्रभाव; आ० क्रूरता प्रमुख घणी थईजी ॥ १४ ॥ अनुक्रमे जनम ते थायं,
दासी वधाइ खाय; आ० दान नरिंदे बहू दीयांजी ॥ १५ ॥ जन्म महोत्सवं

करे राय, हरि दर्शन चित्त लाय; आ० सिंहसार अभिधा उच्युंजी ॥ १६ ॥
 कमला पण एक दिज, सूतां रयणी सुपन्न; आ० सिंह सूअर दीठा बिहुजी
 ॥ १७ ॥ नयन सौम्य बलवंत, उत्संगे रह्यो संत; आ० कोल गयो अन्य
 थानिकेजी ॥ १८ ॥ संभलावे भरतार, सांभली हर्ष अपार; आ० सुपन तणुं
 फल ते कहेजी ॥ १९ ॥ ताहरे सिंह समान, गुणथी ते असमान; आ० वी-
 जीने सूअर सारिखोजी ॥ २० ॥ वयण सुंणीने तेह, हर्षवंती थइ देह; आ०
 कमला कमल मुखी तदाजी ॥ २१ ॥ सत्तर सागर आय, मंत्री जीव सुरराय;
 आ० सातमा देवलोकथी चर्वाजी ॥ २२ ॥ तास कूखे अवतार, शुभ दोह-
 ला तिणीवार; आ० उपजे धर्म करण तणाजी ॥ २३ ॥ पूरे ते युवराय,
 आणंद अंग न माय; आ० अवसरे पुत्र जनम थयोजी ॥ २४ ॥ शुभ लगने
 शुभ वार, भासुर अति देदार; आ० पूरव दिशि सूरथ परेजी ॥ २५ ॥ इ-
 णे समे शंख पुरीश, मान वीर नर ईश; आ० ते उपर जय नृप चढेजी ॥
 २६ ॥ विनये निवारी राय, चढीआ तव युवराय; आ० जय करी वांधी
 लावीआजी ॥ २७ ॥ दासी वधावे ताम, कमला सुत थयो स्वाम; आ०
 आवी वीजी दासी तदाजी ॥ २८ ॥ दोय वधाव्या राय, नाल निक्षेपने
 ठाय; आ० पुत्र जनमने अवसरेजी ॥ २९ ॥ नीकल्यो कुंभ निधान, हर-
 ख्या बिहु राजान; आ० तिहां मंगावी जोइओजी ॥ ३० ॥ तात नामांकिन
 तेह, देखी चितवे जेह; आ० पुत्र पुण्ये गयो निधि जड्योजी ॥ ३१ ॥
 शत्रु जय थयो एम, लखमी आवी नेम; आ० पुत्र जनम कारण थयोजी ॥
 ३२ ॥ दासी संतोषी दान, देइ तास अमान; आ० वीजे खंडे इम कहीजी ॥
 ३३ ॥ पांचमी ढाल रसाल, सुणतां मंगल माल; आ० पन्नविजये प्रेमे करी
 जी ॥ ३४ ॥ सर्व गाथा ॥ १६६ ॥



॥ दुहा ॥

वधामणां वर-आवतां, वंदी विरुद बोलाय; जुगपत जय जय रव होये,
 गीत नाटिक गवरायः ॥ १ ॥ मुक्या वंदी मोकळा, दान महा देवाय; दश

दिश वाजिज नादथी, प्रेमद प्रजा बहु पाय. ॥ २ ॥ ईष्ट अरथ आगम नथी,
 श्रीते आशीष पढाय; हर्षे पुत्रना हेजथी, जंगमां जनम जणाय. ॥ ३ ॥ पडि
 वजीआणा प्रेमथी, मान वीर महाराय; दंड लेइने दंभ विनु, शीख दिए सम-
 जाय. ॥ ४ ॥ शत्रु जय सहु जीवने, आणंद आपण हार; श्री जयानंद स-
 ज्जन मली, दीधुं नाम उदार. ॥ ५ ॥

॥ ढाळ ६ छठी. ॥

फतमलनी देशी.

नरपति श्री जयानंद कुमार, सिंह सार साथे वधे; नर० धान्ये पालि
 जता तेह, तात मनोरथ नित सधे. ॥ ६ ॥ नर० पांश्रु क्रीडा करे साथ,
 तिम वीजी रामत सम करे; नर० थया कलाने योग्य, नृप कलाचार्य पासे
 धरे ॥ ७ ॥ नर० शस्त्र शास्त्रनी जेह, शीखवे कला भली परे; न० भाग्य
 प्रमाणे तेह, पाम्या उद्यम पर परे. ॥ ८ ॥ न० बहु धन आपी राय, कला-
 चार्य संतोषीयो; न० यौवन पाम्या दोय, कामराय जिहां पोशीयो ॥ ९ ॥
 न० वापी वन आराम, मित्र साथे क्रीडा करे; न० सामग्री सम दोय, पण
 प्रकृति मित्रज धरे. ॥ १० ॥ न० सहुना कर्म विभिन्न, सिंहसार क्रूरज घ-
 णो; न० लोकने करे उद्वेग, लागे सवि अलसायणो. ॥ ११ ॥ न० दोभा-
 गि अविनीत, अभिय भाषी अर्धमियो; न० श्री जयानंद कुमार, सोभागी
 धणुं धरमियो. ॥ १२ ॥ न० लावण्य लीलावंत, सागी शूर सोभागीओ;
 न० न्यकृत मनमथ रूप, सहु जन जेहनो रागीओ. ॥ १३ ॥ न० प्रकृति
 उदार क्रतुस, मिय वादी उपगारीओ; न० सर्वने हित करनार, गुण गणनो
 ते धारियो ॥ १४ ॥ न० लोक मुखे जस वाद, सिंहसार तस सांभले; न०
 खेद लहे चित्त मांढ, कारभी प्रीति करी भले. ॥ १५ ॥ न० सरल ते श्री
 जयानंद, साचुं करीने सहहे; न० साची प्रीति धरेह, तस गुण मांदि नजर
 रहे. ॥ १६ ॥ न० गुणी गुण देखे सर्व, निरगुणी ते अवगुण ग्रहे; न० एक
 दिनक्रीडा उद्यान, वसंत ऋते बाहिर रहे ॥ १७ ॥ न० राते धुंणे दिव्य गीत, वा-
 जिज ध्वनि शीठी धणुं; न० तव सहासिक ते दोय, चाल्या धरत धीर्यप-

पुं. ॥ १८ ॥ न० कौतिके पोहोता दूर, क्रीडा पर्वत उपरे; न० काउसग्ग-
मां लीन, कोइक ऋषि ध्यानज धरे. ॥ १९ ॥ न० कोइ सूर दिव्य स्वरूप,
देवी युत देखे तदा; न० पटह वजावे देव, नृत्य करे एक सुरी यदा. ॥ २० ॥
न० एक वजावे ताल, वीणाघोष वती वली; न० वंश वजावे एक, मुनि
आगळ मननी रुली. ॥ २१ ॥ न० गावे मुनि गुण भक्ति, नाटिक विहु ह-
रखे जूए; न० विश्व मोहन अद्रभूत, करतां कर्म कादव धूए. ॥ २२ ॥ न०
मुनि समता भंडार, शुक ध्यान श्रेणे चढ्या; न० पाम्या केवल ज्ञान, घा-
ती करम साथे वढ्या. ॥ २३ ॥ न० महोत्सव करवा काज, च्यार निका-
यना देवता; न० मिलिया वाजिज्र नाद, करता के वली सेवता. ॥ २४ ॥
न० कनक कमल रचे तत्थ, केवली तिहां वेसी करी; न० सहुने देई धर्मलाभ,
देशना दिए चित्तमां धरी. ॥ २५ ॥ न० समाकित अनुवृत आदि, सांगली
देशना हित करे, न० श्री जयानंद कुमार, वूझ्या समाकित आदरे ॥ २६ ॥
न० श्री जयानंदने रास, बीजे खंडे ए कही; न० छद्दी ढाल रसाल, पद्मवि-
जय गुरुथी लही. ॥ २७ ॥ न० सर्व गाथा १९३

॥ दुहा. ॥

श्री जयानंद पूछे इशुं, सूर ए स्वामी कोण; नाटिक कीयुं निरमलुं, वात
कहे मुनि वयण. ॥ १ ॥ वैताढ्ये खेचर वई, नाम जयंत निदान; सूरथ ग्र-
हणे समझियो, दीक्षा करुं आदान. ॥ २ ॥ ज्ञानवंत थयो गुरु थकी, आ-
पी मुझने आण; एकाकीनी अवणिए, विचरुं अवसर जाण. ॥ ३ ॥ विंध्य
गुफामां आवीयो, चोमासुं चउमास; करी उपवास तिहां किणे, रत्नो हुं री-
झि उछास. ॥ ४ ॥ तिहांथी दौय जौयण तदा, नयर गिरिदुर्ग नाम; सुनंद
तिहां भूपति सदा, राज्य करे अभिराम. ॥ ५ ॥

ढाल ७ सातमी.

सुंदर पाप स्नानक कथुं सोलमुं. ए देशी.

सुंदर दौय सेवक छे तेहने, भीम श्लोप अभिधान हो; सुं० एक गाउ ते

गुफा थकी, रायतुं गोकलं थान हो.सुंदर गति परिमाणे मति होए.॥आंकणी
 ॥ ६ ॥ सुं० राय आणाथी विहु जणा, पामी नृप आदेश हो; सुं० गोक-
 लमां वासे वसे, शूरवीर सुविशेष हो सुं० ग० ॥ ७ ॥ सुं० मृगया अरथे
 एकदा, आंव्या गुफाने पासहो, सुं० मृग यूथ देखी वहू तिहां, मुके वाण
 ते तासहो. सुं० ग० ॥ ८ ॥ सुं० कोई मृगने नवि लागीयुं, वाण ते थया
 निराशहो; सुं० विस्मय ते विहु पामीआ, मृग आंव्या मुज पासहो. सुं० ग०
 ॥ ९ ॥ सुं० मुज पासे सुंणे देशना, मृग पुंठे ते दोयहो; सुं० आंव्या मुज दे-
 खी करी, तास विचार ते होयहो. सुं० ग० ॥ १० ॥ सुं० ए मुनिना माहिमा
 थकी, मृगने न लाग्यां वाणहो, सुं० ए तपसी ऋषि राजीआ, करे उपगा-
 रने हाणहो. सुं० ग० ॥ ११ ॥ सुं० मनमां वीहना अति घणुं, कीधो मुज प-
 रणामहो; सुं० कहे अपराध ए अम तणो, खमो तुमे तपसी स्वामहो. सुं०
 ग० ॥ १२ ॥ सुं० अमे तुम मृग नहीं मारीए, मत करजो अम रोषहो; सुं०
 मुनिं धर्मलाम देई कहे; भय नवि आणो सराखहो. सुं० ग० ॥ १३ ॥ सुं०
 तुमने अभय छे पण सुंणो, धर्म तत्व एकांतहो; सुं० सुख ईच्छक सहू जी-
 वडा, जीवतुं सहू ईच्छतहो. सुं० ग० ॥ १४ ॥ सुं० तेहना प्राण जे अपहरे,
 नरकै जाए तेहहो; सुं० मांसाहारी जीवडा, परस्त्री गमन करे जेहहो. सुं०
 ग० ॥ १५ ॥ सुं० पंचेंद्रिय बध आचरे, तेहने नरगमां ठाणहो; सुं० हिंसा
 न करे जे नरा, तस मुख जस कल्याणहो. सुं० ग० ॥ १६ ॥ सुं० आरो-
 ग्यता बल आउखुं, पामे लखमी रूपहो; सुं० परमवे सुरवर सुख होये, अ-
 नुक्रमे मोक्ष सरूपहो. सुं० ग० ॥ १७ ॥ सुं० सांभली धर्मने बूझीआ, सम-
 कित पामे सारहो, सुं० प्रथम अणुव्रत आदरे, वली पचखे मांस आहारहो.
 सुं० ग० ॥ १८ ॥ सुं० हर्षे अमने बंदीआ, पहीता निज आवासहो; सुं०
 अह्निशि ते वृत्त पालता, माने जीवित खासहो. सुं० ग० ॥ १९ ॥ सुं० राय
 सुंणे ते वारता, मिथ्यात्वी शिरदारहो, सुं० हिंसक परिणामी घणो, कोप
 करी तिणीवारहो. सुं० ग० ॥ २० ॥ सुं० मृगया करी मृग मांसने, लावो
 भिन्न भिन्न दोयहो; सुं० मुज मृग मांस खावा तणी, आज ईच्छाछे जोयहो.

सुं० ग० ॥ २१ ॥ सुं० नृप आणा अंगी करी, चाल्या दौय ते तामहो;
 सु० आज तो मृग लाधा नहीं, उत्तर देशुं स्वामहो. सुं० ग० ॥ २२ ॥ सुं०
 वनमां दौय गया हवे, मृग दीठा तिणे तामहो; सुं० भीम चिंचे चित्तमां
 तदा, मृग हणीए मांस कामहो. सुं० ग० ॥ २३ ॥ सुं० तो व्रत भागे मृलगुं,
 पण न होय कोप नरिंदहो; सु०दोप नहीं परवज्ञापणे, एम कहे श्री जिनचंद
 हो: सुं० ग० ॥ २४ ॥ सुं० व्रततो काले फल दिष्ट, आजज फल नृप कोप
 हो; सुं०सोमै वारयो पण नवि रबो, कीधो व्रतनो लोपहो. सुं० ग० ॥ २५
 ॥ सुं० मृग हणी मांस लेई वल्यो, श्री जयानंदने रासेहो; सुं० बीजे खंडे
 पत्रे कही, सातमी ढाल विलासेहो. सुं० ग० ॥ २६ ॥ सर्व गाथा २१९

॥ दुहा ॥

प्राण जाय परलोकजो, पण वृत नवि लोपाय; बीजो तो इम बहु परे,
 सोम चित्त समजाय. ॥ १ ॥ प्राण राखवा आपणा, परना न हणुं प्राण;
 माहरा वाहाला मुजने, परने तिमज प्रमाण. ॥ २ ॥ राय रूसो मुज उपरे,
 प्राण धरो परदेश; मृगने हुं मारी करी, लोपुं नहीं वृत लेवा. ॥ ३ ॥ यतः
 निंदंतुनीतिनिपुणायदेवास्तुर्वतु, लक्ष्मीःसमाविशतुगच्छतुवायथेष्टं॥ अद्यैववाम
 षण्मस्तुयुगांतरेवा, न्याय्यात्पथो नविचलंतिकदापिधीराः॥ १ ॥ निमित्तमा-
 साद्यजवेनाकंचन, स्वधर्ममार्गविसृजंतिवालिशाः॥ तपःश्रुतज्ञानधनास्तुसाधवो,
 नयांतिकृच्छ्रेपरमोपिविक्रिया ॥ २ ॥ ॥ दुहा ॥ सोम विचारी स-त्वथी, मृग
 नवि मारयो तेण; उत्तर रायने आपीओ, अमने न जड्यो एण. ॥ ४ ॥


॥ ढाल ८ आठमी. ॥

॥ गूण्य प्रसंशीए. ए देशी. ॥

सोम आव्यो निज घर भणीरे, भीम प्रसंशे राय; मृग आमिष जे आं-
 णियुरे, खाधुं उदर भरांयरे. ॥ ५ ॥ कर्म विटवणा ॥ कर्म जूओ शुं होयरे,
 दुरगति भेटणां; कर्म न छुटे कोयरे; भवभव दुखियो सोयरे, क०॥ आंकणी॥
 भीमने पूछे भूपतीरे, सोम न लाव्योरे केम; तव ईर्षाए भापीओरे, एहने छे

ए नेमरे क० ॥ ६ ॥ मृग लाध्या पण नवि हण्यारे, तव रूठ्यो नर राय; मुज
आणा लोपी इणेरे, बांधी लावो जायरे क० ॥ ७ ॥ गाम एक तुज आप-
शुरे, तव हवे लोभथी तेह; सुभट साथे तस घर गयोरे, मारण चित्त धरेहरे
क० ॥ ८ ॥ ऊर्ध्व शस्त्र करी हाथमारे, आव्यो तिहां किण जाम; सोम शंका-
वंत धुर थकीरे, वात सुंणी वली तामरे क० ॥ ९ ॥ सोम नाठो घरथी हवेरे,
परवत जाबुरे धारि; नगर बाहिर जव नकिल्योरे, भीम पण पद अनुसाररे.
क० ॥ १० ॥ भीम पूंटे सोम आगलेरे, लगभग मिलीआरे तेह; सोम वि-
द्वल भये नासतोरे, जाणे आव्या एहरे क० ॥ ११ ॥ सुभट कहे किहां
जायलेरे, करी नृपनो अपराध; किहां जाईश तुं नाशिनेरे, रूठ्यो राय अ-
गाधरे क० ॥ १२ ॥ कडुआ वयण सुंणी इश्यारे, भय आंणी मन मांहि;
अति उतावलो नासतोरे, मनथी गत उत्साहरे क० ॥ १३ ॥ इणे अवसरे
मारग विचेरे, देडकी सूक्ष्म अपार; चालती केइ केइ थिर रहीरे, देखे सोम
तिवाररे क० ॥ १४ ॥ लखलोगमे पग मुकवाररे, न मले ठाम विचाल, किम
जाउं एम चित्तवेरे, सोम महा कृपालरे क० ॥ १५ ॥ पर्वत आव्यो दूंकडोरे,
पहोचुं शीघ्रथी तेथ; सुभटे नवि पकडाईपरे, पण मंडूकी मरे एथरे क० ॥
१६ ॥ पण मुज प्राण जतां थकारे, व्रत लोपुं किणी रीत; इसादिक ध्यातां
थकारे, करे अणसण ते अभीतरे क० ॥ १७ ॥ काउसग्न करीने रह्योरे, प-
रमोष्टि करे ध्यान; एहवे भीमादिक सहुरे, आव्या भट ते थानरे क० ॥
१८ ॥ विविध शस्त्र मुके तदाररे, क्रूर महा विकराल; पण कोइ शस्त्र लागे न-
हीरे, तेहने अंग विशालरे क० ॥ १९ ॥ पुष्प वृष्टि आकाशथीरे, थई वली
हुंदुभिध्वान; ते देखी विस्मित हृदेरे, उभा रहे तिणे थानरे क० ॥ २० ॥
तव पापाण पडे तिहाररे, मस्तक उपर तास; ते पथरे मारीजतारे, बुंभ करे
जिम दासरे क० ॥ २१ ॥ भय विद्वल नाठा तिहाररे, नृपने कहे सवि
वात; देवी परगट सोमनेरे, दिव्य शरीर विख्यातरे क० ॥ २२ ॥ देडकी
सघली अपहरीरे, तुष्टमान थई तेह; धीर पारो काउसग्ननेरे, दीठो तुज
व्रत नेहरे क० ॥ २३ ॥ में तुज परीक्षा कारणेरे, देडकी दरनाण-दीध;

तुजने काल परीहीएरे, राज्य धनं प्रसिद्धरे क० ॥ २४ ॥ श्री जयानं-
दना रासमारै, भाखी आठमी ढाल; वीजे खंडे पन्न कहेरे, आगल वात
रसालरे क० ॥ २५ ॥ सर्व गाथा २४४



दुहा.

महाव्रतवंता मुनि कने, रहेजे जईने रात; इम कहीने अदृश थई, सोमने
थइ मुख ज्ञात ॥ १ ॥ पारयो काउमगग भेमथी, ह्यडे हर्ष न मात; प्र-
णमे जाणी मुज प्रते, उपसर्गनो अवदात ॥ २ ॥ राते पूछे रागीओ, मुज-
ने कही मुनिराय; जीवाडथो मुजने जिणे, माहरी कोण ते माय ॥ ३ ॥
में भाख्युं मारी धणुं, भक्तिवंत भली भांत; समाकित पामी ए सुरी,
अम पासे एकांत ॥ ४ ॥

॥ ढाल ९ मी. ॥

॥ नणदल विंदलीदे. ए देवी.॥

तुमे धर्म पाम्या एम जाणी, पूछे मुजने सपराणीहो;॥भविजन धर्म करो॥
ब्रन पालशे के ए नांही, मुजने भाखो ते आंही हो भ० ॥ ५ ॥ में क-
हुं विराधशे भीम, आराधशे सोम ए नीम हो भ० ॥ तुज परीक्षा
करवा आवी, तुज धैर्य देखी थई भावी हो भ० ॥ ६ ॥ तव सोम सुणी
मुज धर्म, चितवे जीवादिक मर्म हो भ० ॥ हवे भूपति सोमनी वात,
देवताकृत साख विख्यात हो भ० ॥ ७ ॥ ते सांभली विस्मित भूप, थयुं
मांस अजीर्ण अनूप हो भ० ॥ थइ गूढ विसूचिका ताम, तेह रातमां ग-
यो जम धाम हो भ० ॥ ८ ॥ वीजी नरगे उत्पन्न, महा पापथी तेह अ-
धन्य हो भ० ॥ अति उग्र पुण्य के पाप, फले तुर्त ए शास्त्रे छाप हो
भ० ॥ ९ ॥ स्वामि भक्ते मानुं भीम, करी पाप अघोर निःसीम हो भ० ॥
तेहज नरगे गयो तेह, व्रत भंग तणुं फल एह हो भ० ॥ १० ॥ मृत का-
र्य करी हवे विहाणे, अपुत्रीओ नृप ए टाणे हो भ० ॥ खोले हवे यो-
ग्य राजान, राजमंडलीने परधान हो भ० ॥ ११ ॥ पंच दिव्य प्रगट क-

री वासे, नगरीथी बहार निकासे हो भ० ॥ परवत पामे जाय नाम.
 सोम कुटंब खबरने कामहां भ० ॥ १२ ॥ जाएछे नगरी मांहे, मजगये
 दीठो उरसाहे हो भ० ॥ तिहां कलमनुं जल शिर नामे, आगेपे पृष्टने
 ठामे हो भ० ॥ १३ ॥ वली छत्र चामर वींझाये, हेगारय नुरग कगये हो
 भ० ॥ आकाशे देवी ते बोली, मांभलो सहू हेतु रौली हो भ० ॥ १४ ॥
 सोम नाम ए तुमने राय, में आप्यो गुण ममुदाय हो भ० ॥ एदनी ने
 खंडे आण, तस जम घरे देईश ठाण हो भ० ॥ १५ ॥ एम कही अदम
 थडे देवी, सहू हरख्या तेह मुणेवि हो भ० ॥ नेहने सहू करे प्रणाम.
 सहू माने रायने ठाम हो भ० ॥ १६ ॥ वाजित्र ध्वनि नम नवि माय, थंडी
 जन विरुद बोलाय हो भ० ॥ महा रीद्धियी प्रवेश उपीडा, आवी मिहा-
 सने वेठा हो भ० ॥ १७ ॥ न्याये परजाने पाले, दया धर्म घणुं अजुआले
 हो भ० ॥ सोम दृढ धरम दया पाली, इण भव पण गुणनी आली हो
 भ० ॥ १८ ॥ भीम हिंसाए गयो नरगे, पापी किम जाए मरगे हो ॥ भ० ॥
 मुज नमवा भूपानि आयो, निज देगे अमार बजायो हो भ० ॥ १९ ॥ मेव
 गुरु तिम थुद्ध धर्म, परतक्ष दीठो जिणे मर्म हो भ० ॥ इम धर्ममयी ग-
 ज्य पाली, सौधमें गयो दुख गाली हो भ० ॥ २० ॥ ते सामानिक धयो
 देव, में विहार करयो ततखेव हो भ० ॥ फरी आव्यो हुं इण यान,
 देवता जूए अबधि ज्ञान हो भ० ॥ २१ ॥ आव्यो उपगार संभारी,
 प्रणमी नाटिक करे भारी हो भ० ॥ गुरु मेवाने अहिंसा, तेहना फल
 स्वर्गमां संसाहो भ० ॥ २२ ॥ सांभली कहे श्री जयानंद, जस धर्म बु-
 द्धि अमंद हो भ० ॥ युद्धादिक कारण टाली, स्थूलहिंसा नहीं करुं
 भाली हो भ० ॥ २३ ॥ परस्त्रीनो साग में कीधो, समकित व्रत तुमथी
 लीधो हो भ० ॥ गुरु कहे तुं सम्यग पाले, एकल्प वृक्ष सम भाले
 हो भ० ॥ २४ ॥ एहथी धरो तुज कल्याण, कहे कुमर स्वामी प्रमाण
 हो भ० ॥ निज आत्मकृतारथ जाणे, मुनि प्रणमी गया घर विहाणे
 हो भ० ॥ २५ ॥ गुरुकर्मा ते सिंहसार, नवि परणम्यो धर्म लगार हो

भ० ॥ सुर प्रमुख ते गया निज यान, लही श्रद्धा प्रमुख प्रधान हो
 भ० ॥ २६ ॥ अलगे मुनि करे विहार, युवराज नंदन हवे सारहो भ० ॥
 लीधो ते धर्मने पाले, गुरुदेव भक्ति अजु आले हो भ० ॥ २७ ॥ ढाल
 नवमी बीजे खंड, कही धर्मनो राग अखंड हो भ० ॥ गुरु उत्तम वि-
 जयनो वाल, कहे पद्मविजय सुरसाल हो भ० ॥ २८ ॥ सर्व गाथा २७२

॥ दुहा ॥

एक दिन जय अवनीपति, पूछे प्रश्न प्रकार; सामुद्रिक घणुं समजणो,
 कुण मुलक्षण कुमार ॥ १ ॥ निमित्तिओ दोग निरखिने, सवगि शुभरीति;
 नृपने कहे निमित्तिओ, निरणय कीधो नीति ॥ २ ॥ सिंहसारनां सांभलो,
 तुमे लक्षण तत्काल; अनरथ स्वजनने आपशे, लोक द्वेष जिम काल ॥ ३ ॥
 क्रूर बुद्धि क्रतयन कह्यो, पदे पदे आपदगेह; दुरगाति गामि दुख लहे, धरम-
 नो द्वेष धरेह. ॥ ४ ॥ श्री जयानंद सोभागीओ, शुभ लक्षण सर्वांग; सु-
 ख कर्ता सवि विश्वने, चक्रधारी ए चंग ॥ ५ ॥ त्रण खंडनो अधिपति, बहु
 राजा बलवत; सेवा एहनी सारशे, उपगारी ए अनंत ॥ ६ ॥ न्याय धर्म-
 मां निपुण ए जशप्रताप जयवंत; शिवगामी सुस्वर धणी, एहना गुण छे अ
 नंत ॥ ७ ॥ विसरजे वारुपरे, निमित्तिओ नरनाह; धरणीपति धारी करी,
 अनुजने कहे उत्साह ॥ ८ ॥ गोप्यअ छे पण गाईए, तुज आंगल तहकीक;
 सिंहसार तो शुभ नहीं, श्रीजयानंद सश्रीक ॥ ९ ॥

॥ ढाल १०सी. ॥

रामचंद्र के वागके चंपो सोरी रघोरी. ॥ ए देशी. ॥

इणे समे दासी एक, राय तंबोल तणीरी; जाणी विश्वासी तेह, बात
 ते सर्व सुणीरी ॥ १० ॥ अवसर पामी राय, नाना प्रकार करीरी, परीक्षा
 कीधी तास, नैमित्त वचन धरीरी ॥ ११ ॥ निश्चय कीधो तास, हवे सिं-
 हसार पुरेरी; क्रीडतो करे उनमाद, लोकने दुख धरेरी ॥ १२ ॥ शंका
 न धरे कांय, स्नेच्छाए विचरेरी; नर नारी आमर्ण लूटी छिए सु परे-

री ॥ १३ ॥ फोडे नारिना कुंभ, नारि सूरूपा हरेरी; षकट लुंटी
जाय, बहु अन्याय करेरी ॥ १४ ॥ तुरग खेलावे तेह, मारग मांदि ज-
ईरी; कोप्या नगरना लोक, वीनवे जई नरवईरी ॥ १५ ॥ लोकने क-
री सतकार, मोकळे आप घरेरी; कुंभर निभ्रंछी राय, आति अपमान करेरी
॥ १६ ॥ एणिपरे वे त्रण वार, वारयो पण न रहेरी; एक दिन दा-
सी तेह, जाती देखी कहेरी ॥ १७ ॥ शुं लेइ जाए एह, ते कहे केम खले-
री; नृप अरथे तंबोल, सुणी तिणे लीघो वळेरी ॥ १८ ॥ रुठी कहेरें दुष्ट,
नैमित्त साच वदेरी; कुंभरे लोभावी तास, कहे तुं जेह ह्दरेरी ॥ १९ ॥
दासी कहे वृत्तांत, सधलो जेह थयोरी; कुंभरे धारी वात, दुर्मन तेह भयो-
री ॥ २० ॥ यतः नतरुस्ताटिनीतटेचिरं । नखलेमीतिरघात्मर्नोदिरा ॥ नचधर्म
रसोऽतिलोभके । नचगूढं हृदितिष्ठितस्त्रियाः ॥ १ ॥ दासीए कही सधि वात,
कुंभरे अन्याय करयोरी; राये बोलावी ताम, भाखे क्रोध भरयोरी ॥ २१ ॥
रे पापी अन्याय, नगरमां निस दमेरी; लोक करे पोकार, सहने तुं न
गवेरी ॥ २२ ॥ घरमां पण ए रीत, कुलमां कलंक समोरी; जा हवे नगर-
ची दूर, देशांतरमां भयोरी ॥ २३ ॥ रहीश जो नगरी मांदि, तो हुं नाहीं
सहुरी; कापीश नाकने कान, पुत्र छे पण ए कहरुी ॥ २४ ॥ चिंते सिंह-
कुमार, जाळं परदेश जदारी; श्रीजयानंद कुमार, भूपति थाये तदारी
॥ २५ ॥ रागी लोकने राय, एहनो देखुं सहीरी; लेई जाळं परदेश,
तो रहे दूध दहीरी ॥ २६ ॥ राज्य वेलाए मुज, बोलावे हर्ष घरीरी; त्री-
जो नहीं कोई योग्य, एहज वात खरीरी ॥ २७ ॥ इय चिंती एक दिन्त,
मायावंत वदेरी; सांभल श्री जयानंद, आपण एक ह्दरेरी ॥ २८ ॥ दे-
शांतर चलो भाय, जिहां आश्चर्य होवेरी; अतुल कला शिखाय, भाग्य
परीक्षा जावेरी ॥ २९ ॥ तीर्थ अनेक वंदाय, तनुए वलेश सहेरी; धूर्त-
ची नावे वंचाय, दुर्जन सयण लहेरी ॥ ३० ॥ एम अनेक गुण थाय,
नहीं एक ठाण रक्षारी; तुज विरहो न खमाय, तिणे ए वयण करारी
॥ ३१ ॥ श्री जयानंदने रास, दसमी ढाल कहीरी; खंड बजि कहे पम,

कपटे सिद्धि नहींरी ॥ ३२ ॥ सर्व गाथा ३०४



॥ दुहा. ॥

ते कारण चालो तुमे, दिश धारी कोइ देश; पित्रादिक अण पूछीने, वारू करशुं विशेष. ॥ १ ॥ सरल ते जाणे सहू खरुं, पुण्यवंत परधान; सुकृत मांहि शिरोमणि, मांन्युं वचन प्रमाण. ॥ २ ॥ राते चाल्या रंगशुं, विहुए करी बना-व, खड्डसखाइ खांतिशुं, जावे कांयक जाव. ॥ ३ ॥ कथा प्रसंग करतां थकां, वारू धर्म विचार; श्रीजयानंद कहे सुणो, पुण्ये सर्व प्रकार. ॥ ४ ॥ पुण्ये लक्ष्मी पामीए, पायक सेवे पाय; जस कीराते जग जागती, सुकुले जन्मसदाय. ॥ ५ ॥

॥ ढाल अमीयारमी. ११ ॥

सत्तरमुं पापनुं ठाम. ॥ ए देशो ॥

धरमे सुख पांमे प्राणी, आपदा जांय सर्व उजाणी; सुरनरमां कीरति गवाणी होलाल ध० ॥ धर्म करो भवि प्राणी ॥ खाणो पृथ्विने तरु जे आपे, मणी द्रव्यने फल दुख कापे; ए धर्म थकी नहीं पापे होलाल ध० ॥ ७ ॥ अरिहंतनो धर्मज रूढो, बीजो जाणे सहू कूढो; नवि माने अधर-मी भूढो होलाल ध० ॥ ८ ॥ हवे बोले तिहां सिंहसार, भाई तुम व-चन उदार; ससमांनु हुं निरधार होलाल ध० ॥ ९ ॥ पण वात एक अव धारो, अधर्मीने द्रव्य वधारो; हमणां अधर्म सुखकारो होलाल ध० ॥ १० ॥ धरमी जन दुखीआ दीसे, ए वात छे वीसवावीसे; अधर्मीथी दुख जाये रीसे होलाल ध० ॥ ११ ॥ तव श्री जयानंदजी बोले, मूरख नहीं ताहरे तोले, तुं खोटी वातमां ढोले होलाल ध० ॥ १२ ॥ पापानुं वधि पुन्य, तिणे लक्ष्मी होय अगन्य, तुं देखे हृदयथी शून्य होलाल ध० ॥ १३ ॥ वली पुण्यानुं वधि पाप, तिणे आ भवमां संताप; ए परभव कीधलां आप ही लाल ध० ॥ १४ ॥ इण भवमां जे जे करशे, तेहनां फल आगळ भोगवशे; वावशे ते काले फलशे हो लाल ध० ॥ १५ ॥ तव दुष्ट कहे सिंहसार, वाद ते प्रेमनो हरनार; भाई म-करो वाद-विचार हो लाल ध० ॥ १६ ॥ कोइ निपुणने पूछीए वात, ते भा-

खे जे अवदात; ते धारिये निश्चय भ्रात होलाल ध० ॥ १७ ॥ ते श्रीजयानंदजी माने, बीजो दुष्ट ते इम मन जाणे; एने राय प्रजा सहु माने होलाल ध० ॥ १८ ॥ राज्य योग्य टले तिम करीए, ए वातमां पण कांय धरिये, एहना नेत्र कादि अपहरिये होलाल ध० ॥ १९ ॥ पछे राज्य ते माहरे आवे, एम चिंतवी कहे इण दावे; भाइ पण विना काम न आवे होलाल ध० ॥ २० ॥ जे हारे ते आपे नयण, इम सिंहसार कहे वयण; श्रीजयानंद माने सयण होलाल ध० ॥ २१ ॥ कोइ गाममांदि हवे पेठा, गाम ठाकुर लोकथुं वेठा; सिंहसारे ते सहु दीठा होलाल ध० ॥ २२ ॥ तस प्रणमीने कहे एम, हुं पापथी शुभ कहुं नेम, आतो धर्मथी कहे ए केम होलाल ध० ॥ २३ ॥ ते रूप वेश तस देखी, माया नाटिक बली पेखी; बोले ठाकुर सवि उवेखी होलाल ध० ॥ २४ ॥ भाई ताहरी वात ते साची, सांभली सिंह मनमां माची; भाइथुं चाल्यो हवे-नाची होलाल ध० ॥ २५ ॥ आगल जइ नेत्र ते जाचे, कहे श्री जयानंद इम वाचे; गामडीआने वयणे शुमाचे होलाल ध० ॥ २६ ॥ बीजे खंडे अग्यारमी ढाळ, कही पद्म विजय सुरसाल; धर्मथी होय मंगलमाल होलाल ध० ॥ २७ ॥ सर्व गाथा ३३१



॥ दुहा. ॥

गामडीयाने गमार ए, धर्म न लहे अधर्म; कूड साखी केवल कसा, मूरख न लहे मर्म. ॥ १ ॥ जूटुं बोले ए जडा, शो एहनो विश्वास; गामडीयानो मत गणे, कोइ विश्वास चकास. ॥ २ ॥ हंस काग दृष्टांत हवे, सांभलजे तुं सींह; श्री जय कहे ते सांभलो, बहु गंभीर अवीह. ॥ ३ ॥


ढाळ १२ चारमी,

॥ रसीआनी देशी, ॥

६४ पुरे एक द्रह मोडो अळे, तिहां बहु मछनी जात; ॥ सुवांधव ॥
॥ मीन लेवा एक काग पढथो तिहां, मीन तो जल मांदि जात सु० ॥ ४ ॥

गामडीआनो विश्वास न कीजीए ॥ ए आंकणी ॥ कागनी पांखो जल भी-
नी थई, न तराय न उडाय सु० ॥ जल मांहि हवे वूडशे कागडो, इण समे
अचरिज थाय सु० ॥ ५ गा० ॥ हंसी हंसने कहे सुणो स्वामिजी, कागडो
वुडे छे एह सु० ॥ निचे पेची पुंठे धरी तुमे, काढो करुणारे नेह सु० ॥ ६
गा० ॥ तिमज करयु तिणे काकने काढीयो, स्वस्थ थयो हवे काग सु० ॥
मार्थना करी हंसी युत हंसने, तुमे उपगारी महाभाग सु० ॥ ७ गा० ॥ इम
कही पोताने वड लेई गयो, वातां करी खिण एक सु० ॥ चंचु पुटे फल
लावी आपीयां, वाचरे प्रीति विवेक सु० ॥ ८ गा० ॥ हंसी सहित हवे हंस
उडवा, मांहे जेटले ताम सु० ॥ काक कहेरे मिया तुं जाय किहां, हंसी रो
की ते ठाम सु० ॥ ९ गा० ॥ हंस कहे मारी ए नारी छे, तारी ए नहीं नार
सु० ॥ तुंतो मिस सरिखो महा श्याम छे, एतो शशि अनुहार सु० ॥ १०
गा० ॥ काक कहे तेहनो शो मेल छे, परकुलनी होय नार सु० ॥ भगि-
नी होयतो सम रूपे होए, एक कूखे अवतार सु० ॥ ११ गा० ॥ जो नवि
याने मुज ए वातडी, तो ए गामना लोक सु० ॥ हं ए परण्यो तव सहू दीठ-
लो, मिली मिली सहूपरे थोक सु० ॥ १२ गा० ॥ ते कहेशे तो मानशो के
वहीं, हंसे मानी ते वात सु० ॥ पित्रादिकने सुंप्यो हंसलो, काक ते ग्रामे
आयात सु० ॥ १३ गा० ॥ आप विवाद सुणाव्यो लोकने, नर भाषाए कहे
वांण सु० ॥ कूडि साखे मुज साचो करो, नहीं तो तुम करु हाण सु०
॥ १४ गा० ॥ नारि शिरे घट हं अशुचि करुं, पशु व्रण खोदुरे तेम सु० ॥
पीडा उपजावुं अति आकरी, कहेशो न कष्टुरे केम सु० ॥ १५ गा० ॥
नर नारी शिर वेसी उडी जाडं, तावडे मुक्यां जे धान सु० ॥ ते कण भक्ष-
ण करुं वली चालथी, करुं अज्ञनादि आदान सु० ॥ १६ गा० ॥ बीजा
पण अनर्थ हं वहु करुं, करी घर लोक अन्याय सु० ॥ मनुष्य वाणि
सुंणी विस्मय पामीया, बीहना सहू समुदाय सु० ॥ १७ गा० ॥ धर्माधर्म
विचार करयो नहीं, मानी कूडीरे सासि सु० ॥ धिग् ए काक तथा धिग्
लोकने, करे अन्याय ए भासि सु० ॥ १८ गा० ॥ हवे ते काग हंस खेला

मली, पूछे आवीरे न्याय सु० ॥ लोक कहे अमे परणतां देखीयो, सुणी
 हंस अति दुखी थाय सु० ॥ १९ गा० ॥ काग कहे हवे हंसने सांभलो,
 ल्यो ए तुम प्रिया सार सु० ॥ प्राण दीया तुमे मुजने तुम तणो, न करुं द्रो-
 ह लगार सु० ॥ २० गा० ॥ गामडीआ परख्या इण रीतथुं, ग्राम्यने क-
 हे हवे काग सु० ॥ रे मुखो तुमे थोडे कारणे, करयो कूडीसाखि लाग सु०
 ॥ २१ गा० ॥ इह भव परभव तुमने दुख घणां, कूडि साखि सम पाप सु० ॥
 नहीं जगमां जेहथी सावि उपजे, हिंसादिकनोरे व्याप सु० ॥ गा० २२ ॥ हं-
 स काग मिली क्रोध थकी हवे, चांचे लावीरे आग सु० ॥ वरसी अंगाराने
 वालीयां, तेहनां घर नहीं ताग सु० ॥ २३ गा० ॥ मरण लही ते दुरगति-
 मां गया, कूडि साखि प्रभाव सु० ॥ एह कथा गामडीआनी सुणी, मन वि-
 श्वास तुं लाव सु० ॥ २४ गा० ॥ वात सुणी कहे सींह भाई सुणी, कूड क-
 था कही मुज सु० ॥ मनुष्य परे पशु नवि बोलें कदा, न ठगाउं वाते तुज
 सु० ॥ २५ गा० ॥ श्री जयानंद कहे ए सख छे, सांभलो कारण तास
 सु० ॥ बीजे खंडे वारमी ढाळए, पन्न कहे सुविलास सु० ॥ २६ गा० ॥
 सर्व गाथा ३५७



॥ दुहा ॥

श्रीमुख जस वसे इहां, अरचे लोक अगाध; नंदी जस नंदीपुरे, विहु
 भिन्न निरवाध ॥ १ ॥ श्री मुख नदी घर सुखे, पोहनो धारी प्रीत; कहे
 नंदीने किम नवि, मुज घर आवो मित्त ॥ २ ॥ नंदी कहे नाचुं तिणे, गाम-
 डीआ जे गमार; तेहनी वीक धरी तथा, विगत विवेक विचार ॥ ३ ॥ ज्ञान
 बुद्धि गत ए जना, जोधुं वदन न योग्य; श्री मुख कहे किम सख ए, फुनि
 परीक्षा विण फोग ॥ ४ ॥ तेह परीक्षा तेहनी, करवा कारण दोय; हंस का-
 ग थइ हर्षथ, सधळुं कीधुं सोय ॥ ५ ॥ हंस काक बोल्या हता, सख तुं जा-
 ण सुजाण; न वदे आणंद नृप परे, जूठ जते पण प्राण ॥ ६ ॥ कहे सीं-
 ह आणंद किशो, जेह न बोल्यो जूठ; श्री जय कहे तुमे सांभलो, उत्तम

एह अदुठ ॥ ७ ॥

॥ ढाल १३ तैरमी. ॥

लालननी देशी, पापथानिक अगीआरमु कूहुं ॥ ए देशी ॥

नंदी पुर नगरे अति सोहे, आणंद नरपति जन मन मोहे, लालन जनपन
मोहे, श्री अरीहंतना धर्मनो रागी, पाप भीरू मोटो वडभागी ॥ ला० मो०
८ ॥ बत्रीस लक्षण अंग चिराजे, आवे बहु नृप सेवना काजे ला० से० ॥
कोडि मूलथी ओळु न राखे, आभरण ते निज अंगे सगाखे ॥ ला० अं०
९ ॥ क्रीडा करवा एक दिन आवे, पुर बाहिर आभरणे सोहावे ला०
भ० ॥ विविध गति तव वाजि खेलावे, तुरग तदा उडी आकाशे जावे ॥
ला० आ० १० ॥ लावे अटवीमां नृप एकाकी, दुष्ट जाणी नृप उछल्यो
नाकी ला० उ० ॥ भूमि पड्यो हय अदृश्य हूओ, भमे एकाकी तिहां अ-
चरिज जूओ ॥ ला० अ० ११ ॥ उघाडे शस्त्रे चोर ते च्यार, मिलीआ न-
वि खोभाणो लगार ला० खो० ॥ चोर कहे अम भाग्ये मिलीओ, अलंकार
युक्त तुज अटकलिओ ॥ ला० तुज० १२ ॥ चरित्र अमारुं सांभल राय, सू-
रिपुर नृप सेवक राय ला० से० ॥ क्षत्रि पुंगव कांय अपराध कीनो, अमने
देशानिकाल ते दीनो ॥ ला० का० १३ ॥ गुरु कने धर्म मुंणी अमे लीयुं,
नवि लेवुं कोईनुं अणदीयुं ला० को० ॥ पण अमचो निरवाह न थाय, भू-
पति विन बीजो पीडाय ॥ ला० बी० १४ ॥ लक्ष्मी ओळी चोरी न क-
रीए, नित परिणाम न हीणडा धरिये ला० ही० ॥ तिणे नृपनुं धन बहु
अमे लेयुं, तेवुं नहीं होय तो अमे जावाने देशुं ॥ ला० जा० १५ ॥ तुं कूण
छे आभरण शां मूलां, सस कहो अम वयण अमूलां ला० व० ॥ ल्यो अ-
लंकार ए नृप मन चिते, आजीविका करो दुःख व्यतीते ॥ ला० दु० १६
॥ पापनुं मूल अनृत नवि बोलुं, धन छे विनाशी तिणे चित्त न डोळुं ला०
चि० ॥ धनथी मलयुं सुख धर्मे अनंत, सत्य समान न धर्म जयवंत ॥ ला०
ध० १७ ॥ इम चिंती कहुं धुरथी साचुं, आप्युं ग्रहणुं उत्तारी जाचुं ला०
उ० ॥ हर्ष धरी ते तस्कर म्हाल्या, भूप ते त्रनमा आगल चाल्या ॥ ला०

(६०)

श्री जयानंद केवळीनौ रास.

आ० १८ ॥ तापस आश्रम पामीने बेसे, कुलपति कहे किम आश्रमे पेसे
ला० आ० ॥ कुंण तुं किम इहां आयो भाई, तव नृप कहे सवि चित्त ल-
गाई ॥ ला० वि० १९ ॥ कुलपति कहे सुंण राक्षस एक, इण वन वमतो
नांही विवेक ला० नां० ॥ तापस विण माणसने मारे, तिणे तुं तापस वे-
शने घारे ॥ ला० वे० २० ॥ इम कही तापस वेशने आपे, नृप पण निज
अंगे ते थापे ला० अं० ॥ करी फल आहारने सरोवर आवे, न्हावाने जब
सज्ज ते थावे ॥ ला० स० २१ ॥ तव राक्षस आची कहे एम, भिक्षु नवो
तुं आन्यो छे केम ला० आ० ॥ माहरी वात सांभल तुं एक, नर भखी दिन
एक राखुं हुं टेक ॥ ला० रा० २२ ॥ बत्रीस लक्षणो भखीए राजा, एक
वरस लगे रहीं ते ताजा ला० र० ॥ एहवो नृप नंदीपुर स्वामी, पण रहे
नित निस परिवर्यो धामी ॥ ला० प० २३ ॥ तिणे मारो कोई दाव न फा-
वे, पण एक वात सुंणी इणे रावे ला० सुं० ॥ तुरग हरी अटवीमां लावे,
एह वात खरी होय तो फावे ॥ ला० हो० २४ ॥ जाणतो होय तो कहे मुज
वात, सांभली चितवे भूप विख्यात ला० भू० ॥ साचुं कहुं तो ए मुज खाव,
जुहुं कहुं तो व्रत मुज जाय ॥ ला० व्र० २५ ॥ अथवा प्राणने अरये जुहुं,
बोलें तो लागे पाप अपूहुं ला० पा० ॥ प्राणथी अधिको धर्य ए मोटो, नवि कहुं
भूठ न थाउं हुं खोटो ॥ ला० था० २६ ॥ मुज तनु देई वीजा उगारु, लाभ
मोटो होय आतम तारुं ला० आ० ॥ होशे दया एक वर्ष प्रमाण, निश्चय
करयो इम आप विज्ञाण ॥ ला० आ० २७ ॥ राय कहे हुं तेहज राय, कर
तुं तारे जे मन भाय ला० जे० ॥ ते कहे मुनि नवि मारुं कहे साचुं, खरो
तापस के कांय छे काचुं ॥ ला० कां० २८ ॥ नृप कहे मुनिए आप्यो छे वे-
ज, कौणप कहे तुज भखिए विशेष ला० भ० ॥ ईष्ट देव संभार तुं रंग, नृ-
प पण निज वीसिरावे अंग ॥ ला० वो० २९ ॥ पंच परमेष्ठिनुं ध्यान ते ध्या-
य. राक्षस घोर रूपे तिहां थाय ला० ३० ॥ अटाटथ हास्य स्थूल ते दंत,
प्यावा धाप नृप असोभवंत ॥ ला० अ० ३० ॥ राक्षस अटवी क्षणमां न
टंगे, निजपुर बाहिर क्रीडतो पंखे ला० क्री० ॥ सैन्यने भूषण तेह तुरंग,

तिमहीज देखे पूरव रंग ॥ ला० पु० ३१ ॥ पुष्प वृष्टि आकाशथी थाय, इंद्र-
जालके नवि समजाय ला० न० ॥ गगने देदीप्यमान देव दो दिसे, एक कहे
सुणो वात जगीसे ॥ ला० वा० ३२ ॥ बीजे खंडे तेरमी ढाल, सांभळतां होय
मंगल माल ला० मं० ॥ श्रीजयानंदना राममां भाखो, पद्म विजय कहे च-
रित्र छे साखी ॥ ला० च० ३३ ॥ सर्व गाथा ३९० ॥

॥ दुहा ॥

इणहीज उद्याने अछं, नंदी यक्ष इण नाम; मित्र श्रीयक्षे मुजने; ते-
ड्यो हुं गयो ताम. ॥ १ ॥ कूट साखी परीक्षा करी, गामडीयानी गमार;
मुजने कहे हवे मित्रते, कहो तुम नयर प्रकार ॥ २ ॥ में कहुं उत्तम माहरा,
नयरमां नृप नर नार; ससवादी शुभ लक्षणा, श्रीमुख कहे श्रीकार. ॥ ३ ॥
किम मानुं सा चुं करी, इम संदेह अपार; आची परीक्षा अमे करी, ससवादि
शिरदार. ॥ ४ ॥ धन्य तुं दृढ व्रतनो धणी, नवि चूक्यो निज नेम; पामशि
इह भव परभवे, ईच्छित संपद एम ॥ ५ ॥ आमयहर मणि आपियुं, खड्ग
शत्रु जय खांत; आपीने अदृश थया, सांभली प्रजा प्रशांत. ॥ ६ ॥ भूप त-
णी स्तवना भणे, प्रजा लोक पुण्यवंत; मणियी रोग गमावतो, खड्गे द्विवद्
जय खांत ॥ ७ ॥ सम्यक्तादिक व्रत सवे, पाली पूरण मित; सात क्षेत्रे थ-
न साचची, सुरवर थया सुरीत. ॥ ८ ॥

॥ ढाल १४ मी. ॥

॥ अढीआनी देशी. ॥

कहे श्रीजय सुण सींह, वात कहुं निरवीह; उत्तम नर लहीए, पूछीए
तिहां सहीए ॥ ९ ॥ ते कहेशे ते साच, करशुं प्रमाण तस वाच; सींह अं-
गीकरे ए, आगल संचरे ए ॥ १० ॥ श्रीविशाल पुर नाम, पोहता क्रमे ति-
णे ठाम; तास उद्यानमांए, देखता सांनमांए ॥ ११ ॥ विद्याविलास अ-
भिधाम, कलाचारय शुभ वान; धनुर्वेदादिकाए, बहुत कला जिकांए
॥ १२ ॥ नृप पुत्रादिक जेह, पांचसें छात्रने तेह; शीखवे शुभ परेए, गया

तस परिसरेण ॥ १३ ॥ सिंहशुं श्रीजयानंद, नमी तस पद अरविंद; पृष्ठे
 आपनीए, वात शुभं पापनीए ॥ १४ ॥ कहे कलाचारय वात, शास्त्र लोक
 अवदात; शुभ ते धर्मधीए, अशुभ अधर्मधीए ॥ १५ ॥ सांभली श्रीजयानंद,
 पाम्या परमाणंद; कमलाणो वलीए, सीह ते मन वलीए ॥ १६ ॥ कलाचा-
 रयने पास, करवा कला अभ्यास; भणवा तिहां रखाए. चित्तमां गह गह्याहे ॥ १७ ॥
 कलाचारय वज कीय, छात्रोनां मन हरी लीध; विनयादिक करीए, श्रीजय
 चित्त धरीए ॥ १८ ॥ अल्प दिने भण्यो तेह, सकलकला गुण गेह; अनुक्रमे
 आण लहीए, कलाचार्यनी सहीए ॥ १९ ॥ छात्र भणावे ताम, इम सह म-
 न अभिराम; सहने वल्लभ घणोए, लागे सोहामणोए ॥ २० ॥ स्पर्द्धाए भणे
 मीह, ते पण रातने दीह; बहु दीने अल्प लह्योए. भाग्य प्रमाण कह्योए
 ॥ २१ ॥ नाम विशाल जयराय, षट् षट मासे आय; परीक्षा सह तणीए,
 करतो भूषणीए ॥ २२ ॥ एक दिन आव्यो तेह, पुत्रादिकने स्नेह; सहने
 परस्रतोए, नयणे निरस्रतांए ॥ २३ ॥ ताड गिरे ठव्युं एक, मोर पीछ अ-
 ति छेक; वीधे धनुर्द्धरा ए, तेह कुमर वराए ॥ २४ ॥ कह्यो तनु न छेदाय, पाठ
 क मन कल्पाय; आण श्रीजय भणीए, करता ते गुणीए ॥ २५ ॥ तंतु वता-
 व्यो जेह, वीध्यो श्रीजये तेह; हरख्या तव सह्युए, देखी कला बहुए ॥ २६ ॥
 यंत्र मुक्तादिक वात, चरित्र मांहि घणी जात; ते तिहांथी लह्योए, इहां संक्षेप
 कथोए ॥ २७ ॥ वीजे खंडे ढाल, चौदमी आति सुरसाल; पद्म विजय कहीए,
 भवि जने सहहीअे ॥ २८ ॥ सर्व गाथा ४१८

॥ दुहा ॥

कमल पत्र तिहां मांढिने, गुरु वतावे जेह, श्रीजय छेदे ते नयुं, सज्ञे न
 बीजूं रेह. ॥ १ ॥ वली मुंके कर चक्रने, छेदे जे सप्त ताल; गिरिवार दूर शि-
 ला रही, चूरे ते ततकाल. ॥ २ ॥ अश्व युद्ध करतां थकां, सुभट हजारो तेण,
 महा वीर्ययी जीतीया, श्रीजये बहु शस्त्रेण ॥ ३ ॥ वली धारा गतें अश्वने,
 चट शास्त्रा दिलगग; पवन वेग विहु पग थकी, अश्व उपाडयो सलग ॥ ४ ॥

इम गज बुद्धे पाडीआ, आधोरणादिक वीर; इत्यादिक बहु देखीने, भूपे जाण्यो वीर ॥ ५ ॥

॥ ढाल १५ मी. ॥

॥ साहेलां हे ॥ ए देशी. ॥

साहेलां हे, ते भूपादिक सर्व, विस्मित मुदित थया हवे होलाल ॥ सा० शिर धुणावता तेह, साँह विना सहुये सवे होलाल ॥ ६ ॥ सा० वीर्य कला गुण देखि, पूछे पाठकने भूपति होलाल ॥ सा० अे कोण पुरुष रतन्न, पाठक कहे सुणो संप्रति होलाल ॥ ७ ॥ सा० परदेशी कोइ अेह, बांधव सहित कला भणे होलाल ॥ सा० क्षत्री पुंगव शुद्ध, नावि जाणुं रहे किहां किणे होलाल ॥ ८ ॥ सा० चिंतवे नरपति ताम, राज्य योग्य निश्चय करे होलाल ॥ सा० ए छे राजकुमार, लक्षण सवि तेहनां धरे होलाल ॥ ९ ॥ सा० आदर करिय अपार, पूजी पाठक पर परे होलाल ॥ सा० छात्र भणावण आण, देइ नृप गया मंदिरे होलाल ॥ १० ॥ सा० श्री जयानंद कुमार, गीत नाट्यादिक वेहु भणे होलाल ॥ सा० कला वहीचेर विशेष, पामी पसार्य गुरु तणे होलाल ॥ ११ ॥ सा० छात्र भणावे निस, गुरुने विसामो करे होलाल ॥ सा० एकदा परीक्षा निमित्त, रायनो डंडेरो फिरे होलाल ॥ १२ ॥ सा० तेहने ईच्छित देश, आपुं जे तोले करी होलाल ॥ सा० श्री जय तोले ताम, गजने नावामां धरी होलाल ॥ १३ ॥ सा० जलमां मुंके तेह, बुडे तिहां रेखा करे होलाल ॥ सा० गज उतारी तेह, नावामां पथ्थर भरे होलाल ॥ १४ ॥ सा० रेखा लगे जल आय, तव पथ्थर तोले सवे होलाल ॥ सा० तेहना भार प्रमाण, हाथीनुं पण संभवे होलाल ॥ १५ ॥ सा० भूपति विस्मय पामि, आदरथी धरे लावीओ होलाल ॥ सा० स्नान भोजन शुभ रीति, बहु गौरव करे भावीओ होलाल ॥ १६ ॥ सा० ॥ सर्व कलामां प्रवीण, गुणवंतो पंडित लही होलाल ॥ सा० रूप कला गुणे तास, निज पुत्री अनुरूप सही होलाल ॥ १७ ॥ सा० अण इच्छतां पण राय, पुत्री मणिमंजरी तणो होलाल ॥ सा० क्रीथो शुभ-विवाह, नृप दायजो आपे घ-

गो होलाल ॥ १८ ॥ सा० हय गय रथने पत्ति, देश एक आपे वली हो-
 लाल ॥ सा० घर उपगरण समेत, महोल एक दिये मनरुली होलाल ॥
 १९ ॥ सा० मणिमंजरीशु भोग, दिन दिन भोगवे अभिनवा होलाल ॥ सा०
 जीती भूप अनेक, सुंपे नृपने नवनवा होलाल ॥ २० ॥ सा० पामे प्रतिष्ठा
 सार, हवे एक नृप सूररायने होलाल ॥ सा० जीतवा जातां निपेध, करी
 कहे जीतुं हुं जायने होलाल ॥ २१ ॥ सा० सेना लेई गयो तेह, सांमो आ-
 न्यो भूपती होलाल ॥ सा० युद्ध थयुं दोय सैन्य, भागो कुमर सेनापती
 होलाल ॥ २२ ॥ सा० उठ्या कुमर नरिंद, युद्ध करयो तिहां तिणि परे हो-
 लाल ॥ सा० वयरि सेना नह, मूर उठ्यो नव ततपरे होलाल ॥ २३ ॥ सा०
 बांणे वेहु करे युद्ध, गगन दिशो सघले भरी होलाल ॥ सा० अनुक्रमे सात
 धनुष्य, छेदे कुमार शरे करी होलाल ॥ २४ ॥ सा० भाग्यो रथ वली वर्म,
 खडग लेइने धावीओ होलाल ॥ सा० कुमरे खडगे खड्ग, खंड करीने वधा-
 वीओ होलाल ॥ २५ ॥ सा० मोगरे मोगर भांगि, गदाए गदा चूरण करे
 होलाल ॥ सा० शस्त्र रहित थयो तेह, बाहु युद्ध मल्लनी परे होलाल ॥ २६ ॥
 सा० बहु वेला करी युद्ध, सुरने हृदयमां ताडीयो होलाल ॥ सा० मूर्छा
 लही पड्यो भूमि, जस अंवर लगे चाडीओ होलाल ॥ २७ ॥ सा० निगड
 बंध करी तास, जीवन छांटी सज करयो होलाल ॥ सा० सैन्यने अभय ते
 दीध, जई नृपने आगल धरयो होलाल ॥ २८ ॥ सा० कुमर वयणे करी
 तास, मुक्यो दंड लेई तदा होलाल ॥ सा० दयावंत इम जाणि, मुंके शत्रु
 नम्यो यदा होलाल ॥ २९ ॥ सा० बाले जीसो मुज, एह वैराग्य धरी मने
 होलाल ॥ सा० पुत्रने थापी राज्य, दीक्षा लीधी गुरु कने होलाल ॥ ३० ॥
 सा० पाली निरतिचार, केवल लही शिवपद वरयो होलाल ॥ सा० ध-
 न्य एहनो अवतार, इणि परे अंतर रण करयो होलाल ॥ ३१ ॥ सा० बी-
 जं खंडे ढाल, पत्तरमी ए सोदापणी होलाल ॥ सा० पद्यविजय कहे इम, धर्म
 ते जिम चिंतामणी होलाल ॥ ३२ ॥ सर्व गाथा ४५० ॥

॥ दुहा ॥

भाग्यवंत भोगी भलो, राज्य वृद्धि करनार; नगर लोक नरपती भणी,
हर्ष पमाहण हार. ॥ १ ॥ सुखमां काल श्रीजय तणो, जाय निस जयका-
र; खेदाये खर भानुए, सींह जिम घूक शिरदार. ॥ २ ॥ लक्ष्मी आपे न-
वि लीए, ईर्षाने अभिमान; अवलुं चिते ओयमी, नावे सांन निदान ॥ ३ ॥
यतः खलः खिद्यत एवान्य, ऋद्धिभिःसकृतोप्यलः; पश्यन्शस्यश्रियंशुष्येत,
सिक्तोपि हियवासकः १ ॥ दुहा ॥ देशांतरे दुःख दाखवा, लेई जाच हुं
वहार; एम चिंतीने इम कहे, वात मुंणो सुविचार. ॥ ४ ॥ निज नयरीधी
निकल्या, देश दर्शनने दूर; मन वंचित यनमां रहुं, पाभ्या न कौतुक पूर.
॥ ५ ॥ आसन्न रहेतां आपणे, जाणे पावित्र जांम; मावित्र माणस मोकली,
तेढावी लीए तांम. ॥ ६ ॥ सुख गिरधर गुज साथजो, नहीं आवो मन धा-
र; एकाकी जाशुं अमे, तुज वियोग दुःख खार. ॥ ७ ॥

ढाल १६ मी.

॥ एकवीसानी देसी. ॥

मन चित्तवेरे श्री जयानंद शिरोमणी, मुग आना रे आव्यो सहुने अ-
गणी; किम एकलोरे मुकु तिणे जावुं खरुं, तस भाखेरे आवशुं साथे तिम
करुं ॥ ८ ॥ ब्रूटक ॥ तिम करुं इम कही करे सागर्यी; वास घर द्वार शाख
ए, श्री जयानंद लिखे श्लोकह, तेहमां इम भापए; ॥यतः॥ रत्वा जलाशये
प्वष्टौ; मासांश्रित्रेषु कौतुकान्; वर्षासु कुरुते हसः; स्वपदेमानसेरतिः ॥१॥
ब्रूटक ॥ निज नारिशुं परिवार सहुने, वंची खरुं सहायए; सींह साथे नीक-
ल्यो ते, नगरधी निरमाय ए. ॥ ९ ॥ पुर ग्रामेरे फिरता इच्छाए करी, जूए
कौतिकरे इणे अवसरे मणिमंजरी, प्रात समयेरे चित्तवे मुज पति किहां गया,
पूछे परिकररे ते पण सहु विलखा थया. ॥ १० ॥ ब्रू० तिणे पण भूपने
जणव्युं, मुंकी निज नर रायए, ग्राम नगर उद्यान प्रमुखे, बहु परे शोषाय
ए; खोलतां नवि शोष लाधी, शोकातुर नृप बहु थयो, इणे अवसरे श्लोक
देखी, मणिमंजरी आणंद भयो ॥ ११ ॥ कहे तातनेरे कौतुकी देश जोई क-

री, वर्षाए आवशेरे गुज पाति जाणजो इहां फिरी, तव धीरयरे धरीने राय प्रमुख रक्षा, हवे दोय जणरे चाल्या आगे मन गहगह्या ॥ १२ ॥ त्रू० सींह एकदा जयने भाखे, अधर्मे लहुं कष्टए, तुं सहे शे कष्ट इणि परे, तुंतो धर्मे लष्टए, कहे श्री जयानंद ताहरे, संगे पामुं आपदा, पापी संगे धर्मवंता, सी-दाए जाय संपदा ॥ १३ ॥ यतः तेजोमयोपिपूज्योपि, पापिनानीचधातुना, अयसासंगतोवन्दि, सहतेघनताडनं ॥ १ ॥ कुसंगतेरे महिमा मोटानो नवि रहे, लसणने संगेरे गंध कपूर सवे जहे, तव पापीरे क्रोधे बोल्यो इणि परे, वाद आपणोरे हजीअ न भाग्यो कोइ नरे ॥ १४ ॥ त्रू० कलाचार्यतुं वचन वहु विध, तेह नांही प्रमाणए; विना द्रव्ये जेह आंणे, असन ने वली पान ए, तेहनो मत खरो जाणे, पण तो चक्षुनुं अछे, श्री जयानंदे मानीयुं तव, हरख्यो सिंह कहे पछे ॥ १५ ॥ त्रू० शक्ति परीक्षण आज आगल, जाशुं हुं पुर गामए, तुमे विलंबे आवजो भाइ, पूंठे भोजन काम ए; जो न सीजे काम मुजथी, तो तमो पछे साधजो, आज मुजथी काम सीजे, काले तो तु-मे वाधजो ॥ १६ ॥ इम कहीनेरे आगल चाल्यो ते हवे, चंडसेनरे शतकूट गिरि प्रभु अहेवे, नंदिशालरे नगरे अवस्कंध कारणे, जाय छे तिहारि सींह पड्यो भिल्लमां रणे ॥ १७ ॥ त्रू० बांध्यो, सींहने लोभ वशथी, पल्लिपतिने दीधअे, पापी नरगमां पड्यो, परमाधामीअे जिम कीधअे; कोलाहल सुंणी श्री जयानंद, दया स्नेह धरी करी, शीघ्र आवी कहे जाशो, किहां बांधव मुज धरी ॥ १८ ॥ लुंठ्यां आभरणरे पल्लिपतिअे तेहनां, युद्ध करवारे अग्र सेना भट जेहना, वाण वरसीरे हत प्रहत सहुने करथा, चंडसेनेरे आवी सुभट धीरय धरया ॥ १९ ॥ त्रू० श्रृंग नादे थया भेला, युद्ध करवाने सहु; युद्ध करतां तेह साथे, मारतो भिल्लने वहु; कालनी परे श्री जय जाण्यो, अेह नवि जीतायअे; मरण जाणी पल्लिपति निज, कहे इम सुंणो भायअे ॥ २० ॥ किम मारेरे माहरा सुभटने इणि परे, तव ते कहेरे बांध्यो जेहने शु-भ परे, तेहनो हुंरे लघु बंधव मुको तिणे, नहीं मारंरे जाओ पछे निरभय-पणे ॥ २१ ॥ त्रू० चंडसेन कहे भाइ ताहरो, लैइ मुंक संग्रामअे, आपणे

आजधी प्रीति जाणे, सांभली श्री जय तामअे, मुंक्यो रण तिणे सींह आप्यो, पल्लीशे प्रार्थना करी, आप्या पालिमां दोय भाइ, कार्य निज चित्तमां धरी ॥ २२ ॥ विहु जण करीरे भोजन सुखमां तिहां कणे, तस आग्रहेरे रहीआ तेहनी दाक्षिणे, श्री जय कनेरे शीखे धनुर्विद्या कला, पाल्लिपातिरे गुण ग्राहक गुण आगळा ॥ २३ ॥ त्रू० बीजे खंडे सोलमीअे, ढाल कही सोहामणी, धरमथी सघले सुख पाये, धरम जिम चिंतामणी, पंडित उत्तम विजय केरो, शीष्य पद्धविजय कहे; जेह प्राणी धर्म उद्यम, करे ते संपद लहे ॥ २४ ॥ सर्व गाथा ४७४ ॥



॥ दुहा ॥

मृगया चोरी धाडमां, साथे जाए सींह, नीच करम नित नित करे, वमणुं ते निरबीह. ॥ १ ॥ सहस्र कूटमां इणे समे, महासेन महारांण; चंड वैरी चंडसेननो, पाल्लिपाति लिए प्राण. ॥ २ ॥ एक दिन चंडसेन एम, सींह सहित एम सांम; वयणे श्रीजयने वदे, करो अमारुं काम. ॥ ३ ॥ स्वार्थ सिद्ध भणी स्वामिजी, राख्या छे रण काज; थाओ सखाई थिर थई, जाणिये आप्युं राज. ॥ ४ ॥ तास वचन ते ततक्षणे, मान्युं वचन प्रमाण; उत्तम जन अंगी करे, प्रार्थनाए दिये प्राण. ॥ ५ ॥ सर्व सामग्री सामठी, करी आव्यो सहस्रकूट; श्रृंग शब्दे सघले तिहां, वात विशेषे फूट. ॥ ६ ॥ महासेन निज मानवी, परिवरथो पालने वाहार; नीकलीओ भट मानथी, क्रोधे जम अनुकार. ॥ ७ ॥ वसन चित्रक करी व्याघ्रनां, मृग पशुनां महामान; विविध लता वींटी शिरे, मोर पिंछ असमान. ॥ ८ ॥ काहला नादे क्रोधथी, युद्ध करणने जोध; विविध आयुधशुं आवीया, शत्रु करता शोध. ॥ ९ ॥

॥ ढाल १७ मी. ॥

॥ धवल शोठ लेइ भेटणुं. ए देशी. ॥

सैन्य मल्यां दोय सांमठां, गर्जारवे गारि गाजेरे; कडवां वचन वदे घणां, वाजिव वहुं तिहां वाजेरे ॥ सै० १० ॥ एक एक शत्रु बोलावता, सडग

कुंते कोई मारेरे; बाण छेइ छछले, शत्रु केइ संहारेरे ॥ सै० ११ ॥ रण
 करता चंडसेननुं, भागुं सैन्य ते नासेरे; कोलाहल सुंणी आवीओ, सींहसार
 ते पासेरे ॥ सै० १२ ॥ धीरय देइ तेहने, वरसे बाण अखंडरे; भिछ नासे ते
 उपद्रवे, जिम घने रेणु प्रचंडरे ॥ सै० १३ ॥ महासेन ते देखिने, उठ्यो जेम
 यमरायरे; बाण वरसे सींह उपरे, भिछ ते नाठा जायरे ॥ सै० १४ ॥ सीं-
 हनां बाण छेदे शरे, शत्रु शरणन कोयरे; सींह धनुष छेदी करी, सींह ज्या-
 कुल तिहां होयरे ॥ सै० १५ ॥ बांधीने निज सैन्यमां, मोकले सुभटने संगे
 रे; चंडसेन ते देखिने, सचक्र बद्ध थई रंगेरे ॥ सै० १६ ॥ महासेन बोला-
 वीओ, क्रोधे थइ विकरालरे; वेहु धीर स्पर्धा थकी, लढे ज्युं दुर्धर ज्यालरे
 ॥ सै० १७ ॥ गाजे गजावे गिरि गुफा, घन परे वरसे बाणरे; घोर संग्राम
 करयो तिणे, वीर तणुं घणु माणरे ॥ सै० १८ ॥ महासेन बलीओ हवे,
 चंडसेन धनुवर्मरे; बाणे छेदी विन्हल करयो, गयो तेहनो अति भर्मरे ॥ सै०
 १९ ॥ सेचाए सेना त्रासवी, कुंत तीर तरवाररे; चंडसेन बीजुं घनु, लिए
 अति धीरज धाररे ॥ सै० २० ॥ हवे महासेन तणुं घनु, बाणे करीने कापेरे;
 पापने कापे जिम व्रती, विघन महा मंत्रने जापेरे ॥ सै० २१ ॥ शिला खंड
 लेइ हवे, चंडसेन धार दीधीरे; तेह पीडाए तेहने, पापीए मूरछा कीधीरे ॥
 सै० २२ ॥ चंडसेनने बांधवा, आवे महासेन जेत्तेरे; अकस्मात श्रीजय ति-
 हां, आवी बोलावो तेत्तेरे ॥ सै० २३ ॥ महासेन पण अमरप घरी, चाप
 आस्फाले कोपेरे; श्रीजय सामो धाइने, कहे क्रोध आटोपेरे ॥ सै० २४ ॥
 निरअपराधी हणुं नही, भिछनी जात विशेषेरे; क्षत्री कुल हुं उपनो, ला-
 ने कलंक सहू देखेरे ॥ सै० २५ ॥ भाइ माहरो ते बांधीओ, एटलो काल
 उवेख्येरे; हवे हुं मारीश तुजने, क्रोधे करीने विशेषेरे ॥ सै० २६ ॥ न-
 हीं तो कर जे हुं कहूं, मुंक माहरो तुं भाईरे; मेल करो चंडसेनथुं, राज्य
 भोगव तुं सवाईरे ॥ सै० २७ ॥ महासेन कहे मानीपणे, क्षत्रीपणुं हवे लहे-
 थुरे; पृगथुं हरिने मेल शो, आगल सहू तुज कहेथुरे ॥ सै० २८ ॥ हरिथी
 मृग मुकावशो, एहवो कुण छे धीरोरे; गुणथी वीर वस्त्राणीए, नवि वयणे

होय वीररे ॥ सै० २९ ॥ स्पर्धाए करी वेहु जणा, महाभट महा उस्ताहरे;
महा मानी महा पराक्रमी, महा योध घरत उमाहरे ॥ सै० ३० ॥ बाण यु-
द्धे ते योधता, वीरने घुर जोई बीहतारे; वेहु दल पण सन्नद्ध थई, रणसं-
ग्रायमां पोहतारे ॥ सै० ३१ ॥ श्रीजय बाण समूहथी, सहू दिशे सुभटने
पाडेरै; हरि जिम गिरि वज्रे करी, विस्मय सहुने पमांडेरै ॥ सै० ३२ ॥ बाण
तेहनां न सही शक्या, शस्त्र मुंकी केह वेठारै; कायर थइ निरभयपणे, ते-
हने शरणे पेठारै ॥ सै० ३३ ॥ एहवो भट नवि को रह्यो, अंकित जे नवि
कीधोरै; पण श्रीजये कृपा थकी, यमनृपघर नवि कीधोरै ॥ सै० ३४ ॥
बल भाग्युं महासेननुं, क्रोधे अधिक भराणोरै; बाण निरंतर मुंकतो, छेदे
श्रीजय उजाणोरै ॥ सै० ३५ ॥ बकतर घनुष छेदी करी, महासेन व्याकुल
कीधोरै; तो पण लेई तरवारने, धैर्य उद्यम सिद्धोरै ॥ सै० ३६ ॥ श्रीजय नि-
ज खडगे करी, छेदे तस तरवाररे; शस्त्र रहित मुष्टि थकी, श्रीजय हृदयमां
मारैरे ॥ सै० ३७ ॥ मूर्छा लही धरणी ढल्यो, भिल्ल पासे बंधावीरै; पाणी
पाई सज्ज करयो, दे चंडसेनने लावीरै ॥ सै० ३८ ॥ बीजे खंडे ए कही, स-
त्तरमी वर दाळेरै; पद्मविजय कहे धर्मथी, होवे मंगल मालरै ॥ सै० ३९ ॥
सर्व गाथा ५१३ ॥

॥ दुहा ॥

श्री-जयानंद तस सैन्यने, आसासन बहु आपि; सींह तेडात्री सज्ज करे,
कपरां बंधन कापि ॥ १ ॥ श्रीजयनी सेवा करे, चातुर ते चंडसेन; स्तवना
करे सारी पठे, हयडे हर्ष भरेण ॥ २ ॥ अहो भाग्य अमारहुं, कुलदेवे क-
री मेहेर; पाम्या तुम सरिखा पुरुष, लहिया लिला लहेर ॥ ३ ॥ श्रीजय
स्तवना श्रुभ परे, करी पाल निज पाण; कोईक तिहां थापी करी, सींह लेइ
सपराण ॥ ४ ॥ महासेन लेइ मोजशुं, पोहता आपणी पाल; श्रीजयने स्वा-
मि गणे, काढे इणि परे काल ॥ ५ ॥

॥ ढाल १८ मी. ॥

चित्रोढा राणारे. ॥ ए देशी ॥

महासेन दंड लेहरे, मुंक्क्यो सुख सेहरे; श्रजिय न करेइ कोप तस उपरे
 रे. ॥ ६ ॥ मन चिते सींहरे, धिग् माहरा दीहरे; दौय वार अवीह मुंकाव्यो
 जीवतारे ॥ ७ ॥ अधिकुं दुःख थायरे, वधथी मुंकायारे; एह वातने ठायो
 श्रीजय एम वदेरे. ॥ ८ ॥ खेद म करो भाईरे, वात ते चित्त लाहरे; जति
 हार कमाइ देशादिक लहीरे. ॥ ९ ॥ सींह चूक्यो फालरे, वनमां कोई का-
 लरे; तोहे महा व्यालने मारे ते खरोरे. ॥ १० ॥ इम श्रीजय वोल्यारे, पण
 सींह न डोल्यारे; जस रोग असाध्य खोल्या औषध किथुंरे ॥ ११ ॥ श्री-
 जय उपगारीरे, काम अद्भुतकारीरे; पण उत्सुकता धारी श्रीजय नहीं क-
 दारे ॥ १२ ॥ दौय वार दिया प्राणरे, पण खल अपमाणरे; देवा दुःख
 ठाण विचारे सींह तदारे ॥ १३ ॥ जावा परदेशरे, मन कीधुं विशेषरे;
 कुण म्लेच्छ देशमां रहे इम जाणतारे ॥ १४ ॥ श्रीजय कोई दिवरे, रक्षा
 लही दाक्षिणरे; गुण आकीन्न ते करे उपगारनेरे ॥ १५ ॥ कोई काल
 व्यतीतेरे, शूल रोग प्रतीतेरे; परलोक गते गयो पल्लिपति हवेरे ॥ १६ ॥
 तस पुत्र न कोईरे, पालनो धणी होइरे; पराक्रम जोइ श्रीजयने कहेरे ॥
 १७ ॥ भिछ मलीने तामरे, कहे थाओ अम स्वामरे; कुराज्यनुं ठाम देखीने
 नवि ग्रहेरे ॥ १८ ॥ ईच्छे सींहसाररे, अन्य नाहीं तिवाररे; मिछराय उ-
 दार ते थाप्यो सींहनेरे ॥ १९ ॥ करे कर्म ते क्रूररे, गर्व धरतो प्रचुररे; ध-
 रे भूर प्रमोदने पाले पालनेरे ॥ २० ॥ देशांतर जाथुंरे, हुं इहां नवि ठा-
 थुंरे; श्रीजये प्रकाशुं तव सींह चितवेरे ॥ २१ ॥ मावित्र जो जाणेरे, एहने
 तेडी पराणेरे; आपन्नो कोइ ठाणे एहने राज्यनेरे ॥ २२ ॥ इम चित्तवी तेहरे,
 माया धरी नेहरे; तुज विरह न रेह खमी शकुं हुं कदारे ॥ २३ ॥ तव श्री
 जय ठायारे, एक दिन सींहरायारे; कहे गर्व भराया श्रीजयानंदनेरे ॥ २४ ॥
 हुं अधर्मकारीरे, पाम्यो राज्य विचारीरे; जूओ चित्तमां धारी तव श्रीजय
 कहेरे ॥ २५ ॥ पामी खल खंडरे, रंक गर्व प्रचंडरे; किम मान उदंड घरे

लगारिकेरे ॥ २६ ॥ उपनो अति कोपरे, पण कीधो गोपरे; आटोप करे
 किम बलीआ आगलेरे ॥ २७ ॥ पण मूपक लेवारे, करे गात्र संखेवारे; ओ-
 तुप रेहेवा सींहनी जाणजोरे ॥ २८ ॥ हसी प्रेम देखाडेरे, बहु रीझ पमाडेरे;
 बहु दिवस गमाडे एक दिन सींह कहेरे ॥ २९ ॥ सांभलों तुमे भ्रातरे, गिरि-
 कूटनग ख्यातरे; तेह ठाण रहत गिरिमालिनी सुरीरे ॥ ३० ॥ एक गाड
 थायरे, पछिपतिये पूजायरे; काली चौदश थाय आज तिणे सांभलोरे ॥
 ३१ ॥ मंत्र जपतां थायरे, मांहे बहु अंतरायरे; जो उत्तरसाधक थाय तो
 कारज नीपजेरे ॥ ३२ ॥ मान्युं श्री जयानंदेरे, लेइ खडग आणदेरे; पूजा
 उपगरण वृंदे सींह चालीओरे ॥ ३३ ॥ देवीने धामरे, श्रीजय अभिरामरे;
 उपगारने काम गयो साथे तिहारै ॥ ३४ ॥ बीजे खंडे अठाररे, ढाल थई
 सुप्रकाररे; सिंहसारनुं चरित्र सुणो हवे जे होपरे ॥ ३५ ॥ सर्व गाथा ५४८ ॥

॥ दुहा ॥

पूजी देवी पाधरी, जपतो कपटे जाप; तेहने आगळ ते रही, ओष्ट च-
 लावे आप. ॥ १ ॥ श्रीजय खडग सवाहीने, सात्विकर्मां शिरदार; देवालयने
 चिहुं दिशे, करतो तिहां हुकार. ॥ २ ॥ त्रास पमाडे भूतने, प्रेतते सह्य प-
 लाय; उत्तर साधक आफणी, थयो तास थिर थाय. ॥ ३ ॥ मंत्र थयो सिद्ध
 माहरे, तुम प्रभावे ततकाल; दक्ष्यपणे दोय पहोरमां, सिंह कहे संभाल. ॥ ४ ॥
 मंत्र जाग्रिका माहरे, करवी छे तिणे काम; सुओ श्रांत थया तुमे, रक्षक हुं
 आराम. ॥ ५ ॥


॥ ढाल १९ मी. ॥

भोलुडा हंसारे विषय न राचीए. ॥ ए देशी ॥

आशय तेहनोरे अणजाणे थके, मूता श्रीजयानंद; निद्रा आवीरे बहु था-
 के करी, अवसर लही ते नरिंद. ॥ ६ ॥ पापी दुरजन एणि परे जाणीए,
 न गणे कांय उपगार; सज्जनने दुखदाई उलटो, तेहथी स्वान श्रीकार. ॥ पा०
 ७ ॥ उठ्यो लल लही शस्त्रीए करी, काढ्यां नेत्र विशाल; कहे मुज प-

क्ष अधर्मने दूखवे, तिम मुज राज्य रसाल ॥ पा० ८ ॥ हारयो नेत्र न आपे
 मुजने, बलयी लीषां में दुष्ट; धर्मनां फल भोगव हवे आंघला, मरण तणुं
 लहे कष्ट ॥ पा० ९ ॥ इम कहीनरे आन्यो पालमां, दुरगतिनुंरे प्रस्थान;
 साधुने नेत्र ग्यां जे भाखियां, मंत्री भवे ते निदान ॥ पा० १० ॥ अज्ञाने
 जे कर्म उपाजियुं, क्रोधे करीने अपार; ईंदा गर्हा आलोचनादिक थकी,
 क्षय कीधुं तिणी वार ॥ पा० ११ ॥ शेष रहुं तेरे भोगवहुं पड्युं, हवे बहु
 वेदना थाय; शास्त्र वेदी पण मुजने धिग् पडो, खल विश्वास कराय ॥ पा०
 १२ ॥ यतः ॥ जीणें भोजन मात्रेयः, कपिलः प्राणिनां दया; वृहस्पतिर वि-
 श्वासं, पांचालः स्त्रीपुमार्दवं ॥ १ ॥ जीवतो राख्योरे तोपण इम थयो, ते मुज
 कर्म प्रमाण; कर्म करथां तेरे भोगवे प्राणीओ, निश्चय एह विज्ञाण ॥ पा०
 १३ ॥ क्षेत्र कालादिक साप्रग्री मिले, पाके शुभाशुभ कर्म; ते सहतां नहीं
 हाणि छे ताहरे, क्रोध ते करवो अधर्म ॥ पा० १४ ॥ यतः ॥ पुनरपि सह-
 नीयो दुःख पाकस्तवायं, नखलु भवति नाशः कर्मणां संचितानां; इतिसह ग-
 षायित्वा पदय दायति सम्यक्, सद सदिति विवेकोऽन्यत्रभूयः कुतस्ते ॥१॥
 आपद पामेरे धीरज धारहुं, सज्जननो ए स्वभाव; वृक्ष कंषे पण परवत न-
 वि चले, वायुए ए निज भाव ॥ पा० १५ ॥ कर्मनो क्षय होय ध्यान बळे
 करी, तिणे करी ध्यावुंरे तेह; समकित निश्चल सुखदायक अछे, आपद अ-
 ताजेद मेह ॥ पा० १६ ॥ इम विचारीरे काउसग धारतो, ध्यातो परमेष्टि
 दंत; ऋतु मित्र समोवड जेवडे, मन एकाग्र करत ॥ पा० १७ ॥ समकित
 ध्यान दळे गारंभालनी, कंषित आसन आय; कहे तुज सुपुरुष केरी आप-
 दा, हरवा आवीरे भाय ॥ पा० १८ ॥ कहे एक पशुपरे पूजा माहरी, कर
 तुं नयनने काम; काउसग पूरो करी पारी हवे, देवोने कहे आम ॥ पा० १९ ॥
 आंख नें प्राण जाओ सवि मूलगा, न हणुं प्राणिनाप्राण; बलिने भोज्य प्रणाम
 बली जाचतां, देवी तेह अजाण ॥ पा० २० ॥ समकित मालिन थवाने कारणे;
 तुं मिथ्यात्वणी जेण; न करुं तुजनेरे कोपी ते तदा, बोली क्रोध भरेण ॥
 पा० २१ ॥ न करे मुजने प्रणाय पण दुरमती, तो तस फल तुरे देख; इम क-

ही दुर्द्धर वायु विकुर्वती, रज उडे सुविशेष ॥ पा० २२ ॥ पर्वत शिल्लारे पडतां शब्दथी, वीहे देवना वृंद; उपाडीने आकाशे भमाडीओ, पीडा अतीहि अमंद ॥ पा० २३ ॥ पण न खोभाणोरे श्रीजय धर्मथी, पडतां झडपेरे तेह; कहे हं तुठीरे तुज सत्वे करी, तुं गुणगण मणिगेह ॥ पा० २४ ॥ औपधी ले तुं सज कर नयनने, लेइ घसी जल मांछ; रेडी आंखणारे सज धयां नयन ते, धरतो अंग उत्साह ॥ पा० २५ ॥ औपधीने मणि मंत्र प्रभावजे, वयणे नवि कहेवाय; दिव्य नेत्र थए देवी देखतो, आणंद अंग न माय ॥ पा० २६ ॥ देवी कहे तें रे समकित कारणे, केश सखोरं अपार; तास स्वरूप कहो मुज साहिवा, तव ते श्रीजयकुमार ॥ पा० २७ ॥ देवादि-कनुं स्वरूप सृविस्तरे, श्रावक धर्म विस्तार; सांभली पूरव भव संस्कारथी, जाणे अवाधि विचार ॥ पा० २८ ॥ ओगणीसमी एरे बीजा खंडमां, भाखी अनोपम ढाल; पद्माविजय कहे धर्म करो सवे, धर्मथी मंगलमाल ॥ पा० २९ ॥ सर्व गाथा ५७७ ॥



॥ दुहा. ॥

मत उंधो तुमे मानवी, सांभलतां श्रीकार; श्रीजयानंदजी सारिखा, अनरथ लह्या अपार. ॥ १ ॥ समकित पामी ते सुरी, पूरव भव प्रबंध; श्री जयने कहे सांभलो, अन्य दर्शने थइ अंध. ॥ २ ॥ समकितधारी श्राविका, व्रतधारी गुणवंत; पुत्र-माहरो मांदो पळ्यो, तास उपायने तंत. ॥ ३ ॥ पूछुं हुं लिंगी प्रते, प्रतिक्रिया परकार; परिव्राजक एक पाधरो, आण्यो मुज आगार. ॥ ४ ॥ भूत दोष मुज भास्विने; मंत्र चूर्णादिक मेल; साजो कीर्थां सुत प्रते, भिक्षा देउ मन भेल. ॥ ५ ॥ लेवा भिक्षा लालचे, आवी आखे धर्म; शौच मूलनिसांभली, मुज मन पाम्यो भर्म. ॥ ६ ॥ शौच धर्म साचो हशे; अथवा मलमय एह; इम शंकादिक आतिचरी, समकितमां संदेह ॥ ७ ॥ काल बहु इम काढीओ, आलयुं नही आळ; गिरि शिर हुं गिरिमालिनी, देवी थई दयाळ. ॥ ८ ॥ मिथ्या द्राष्टि शिरोमणि,

करुं कर्म अति क्रूर; तुज वयणे मुज तम गयुं, समाकित उग्यो सूर. ॥ ९ ॥
॥ ढाळ १० मी. ॥

ढोला रहोतो हूं रांधुं खीचडी. ए देशी ॥

स्वामी में पूरव भव माहरो, भाख्यो तुम आगल एह; स्वामी मोराहं ॥
हवे तुम आधीन हूं रहूं, कहो मुजने करवुं जेह स्वा० ॥ १० ॥ उत्तम नर
एम जाणीए. ॥ तुज साखे में आदर्युं, भळुं समकित जगमां सार ॥ स्वा० ॥
वली निरपराधी जीवने, हणथुं नहीं कोइ प्रकार ॥ स्वा० ११ उ० ॥ पण
में हिंसा करी घणी, ते किम क्षय थाशे मुज ॥ स्वा० ॥ कुमर कहे तुमे दे-
वता, तप प्रमुख न होए तुज ॥ स्वा० १२ उ० ॥ पण श्री अरिहंतना चै-
खनी, करो पूजा निरमल चित्त ॥ स्वा० ॥ वली शामननी प्रभावना, धर्म
साहाज्य करो निस निस ॥ स्वा० १३ उ० ॥ तेह देवी अंगीकरे, पछे दे-
वी कहे मुंणो स्वाम ॥ स्वा० ॥ तुमे मारा उपगारीआ, तुम मुकुं कडो कुंण
ठाम ॥ स्वा० १४ उ० ॥ कुंमर कहे तुं धन्य छे, तुजने थयो इम उपगार
॥ स्वा० ॥ हेमपुरना उद्यानमां, मुजने मुंक तुं धरी प्यार ॥ स्वा० १५ उ० ॥
तनक्षण मुंम्यो तिहां जइ, वली आपी औपधी दोष ॥ स्वा० ॥ एक विप-
नी अपहारिणी, नेत्र सजकरणी वीजी जोय ॥ स्वा० १६ उ० ॥ दिव्य
नेपथ्य वली दीयां, तिम बहु मूला अलंकार ॥ स्वा० ॥ करी प्रणाम अ-
हज थइ, हवे ते सवि अंगे धारि ॥ स्वा० १७ उ० ॥ पेठो हवे ते नयरमां,
मोह पामे लोकना वृंद ॥ स्वा० ॥ दीठा रमता जूवदुं, तिहां वेठो मन आ-
णंद ॥ स्वा० १८ उ० ॥ भूपण पणमां धरी करी, दस दाव रम्यो ते
टाम ॥ स्वा० ॥ दस लक्ष लीलाए जीतीओ, राजकुमर हार्या ते ताम ॥
स्वा० १९ उ० ॥ हवे हारद्याना भय थकी, नावि रमीओ कोइ कुमर ॥
स्वा० ॥ हवे गवरावे गवर्ध प्रते, जिनवरनां गीत उदार ॥ स्वा० २० उ० ॥
दम लाख याचकने दीया, एह सांभली चरित्र उदार ॥ स्वा० ॥ हेमप्रभ
गये नंटीओ, दीठो अदभूत आकार ॥ स्वा० २१ उ० ॥ दिव्य अलंकृति
वन्ने, वली अदभूत लावण्य रूप ॥ स्वा० ॥ लहे न्यामोह सभाजना, ज-

(७५)

श्री जयानंद केवळीनी रास.

ईने तिहां प्रणम्यो भूप ॥ स्वा० २२ ऊ० ॥ विस्मय लही आलिगीओ, कहे
अरधासने तुं वेस ॥ स्वा० ॥ विनये नवि वेठो तिहां, तेह उचित न चूको
लेश ॥ स्वा० २३ ऊ० ॥ वेठो ते नीचे आसने, नृप पूछे कुशल छे तुज ॥
स्वा० ॥ ते कहे तुम दरसण थकी, थयुं जनम नयन फल मुज ॥ स्वा० २४
ऊ० ॥ यतः तीर्थानां प्रथमं तीर्थं, भूपति नय पावनः ॥ दर्शनादपियोत्रापि, दत्ते
भीष्टाद्भुतश्रियः ॥ विनय आकारादिक सवे, भाखे तुज गुण असमान ॥ स्वा०
॥ मूरति तुज सरखी नहीं, इम कहे वारंवार राजान ॥ स्वा० २५ ऊ० ॥ कु-
मर कहे तुम दृष्टिथी, हुं सोभागी थयो आज ॥ स्वा० ॥ इम वाते वेला गमी,
आव्यो शिरउपर दिनराज ॥ स्वा० २६ ऊ० ॥ सभा विसरजी राजीए, हवे
खान भोजन करे राय ॥ स्वा० ॥ कुमर संघाथे सहू करी, नृप शय्याए जइ
ठाय ॥ स्वा० २७ ऊ० ॥ कुमरने आसन आपीने, कहे भूप सुंणो तुमे वात
॥ स्वा० ॥ जे कारण तुम तेडीआ, ते सांभलो मुज अवदात ॥ स्वा० २८ ऊ०
॥ वीजा खंडमां वीसमी, कही पद्मविजय वर ढाल ॥ स्वा० ॥ श्री जयानंदना
रासमां, आगल सुंणो वात रसाल ॥ स्वा० २९ ऊ० ॥ सर्व गाथा ६०६ ॥

दुहा.

रांणी पांचसैं रूअडी, माहरे छे मनोहार; ललिता विमला लीलावती,
केलि कलादिक सार. ॥ १ ॥ शत पुत्रह सोहामणा, भानु भानुधर नाम; भानु
वीर सुभानुने, वरदत्त सुदत्त सुधाम. ॥ २ ॥ सुषेण रवितेजा सुगु-
ण, सुभीम सुमुख सुजाण; इत्यादिक उपरि अछे, पुत्री रूप निधान. ॥ ३ ॥
ललिता पटराणी लहे, गुणोत्तर सरवांग; सौभाग्यमंजरी सुरलता, सरिखी
योवन संग. ॥ ४ ॥

॥ ढाल २१ मी. ॥

॥ मोहनजी मोकलोने मोसालां.

ए देशी. ॥

ते चोसठ कला निधान, प्रिय मधुर वदे सुप्रधान; तेहना वर उत्तम
काज, वेठो कुलदेवी समाज ॥ ५ ॥ मोहनजी सांभलो अरदास, तुम सम

नहीं जग सुखिलास ॥ मो० ॥ रेल्लणी कुलदेवी नाम, मौन ध्यान ने जप शु-
 भ ठाम; त्रीजे दिन त्रुठी राते, मुज सुपनमां कहे इणी भाते ॥ मो० ६ ॥
 युवराज गृहद्वार पासे, द्यूत पट्टे रमे उल्लासे; दिव्य वस्त्र अलंकृति जास,
 खड्गधर दिव्याकृति खास ॥ मो० ७ ॥ दश लक्ष जीती दान देशे, सौ-
 भाग्य मंजरी पति वेशे; हरख्यो हूं सांभली तेह, विहाणे पूजी गयो गेह
 ॥ मो० ८ ॥ पारणुं दुख वारणुं कीधुं, ते शुभटोने जाणज दीधुं; एहवो नर
 कोई आवे, लावज्यो मुज पासे भावे ॥ मो० ९ ॥ ते कारण तुमने लाव्या,
 देखी अम मन घणुं भाव्या; परणो ए मारी कुमरी, जसरूपथी हारी अम-
 री ॥ मो० १० ॥ कहे कुमर न जाणो वंश, गुण अवगुण नलहो अंश; कि-
 म आपो कन्या मुज, एमां हाणि आवे छे तुज ॥ मो० ११ ॥ यतःकुल १
 शीलं २ वपु ३ विद्या, ४ वयो ५ विर्त्त ६ सनाथता ॥ ७ वरे सप्त गुणा मृग्या, स्त-
 तो भाग्य वशाकनी १ ॥ कहे राय देवीनी वांणी, आकार विनयादिक जाणी;
 जाण्यो तुम उत्तम वंश, एहमां नही संशय अंश ॥ मो० १२ ॥ मुज प्रार्थना
 भग न कीजे, तव कुमरे मौन रहीजे; वाजंते ढोल ददाम, शुभ लगने पर-
 ष्या ताम ॥ मो० १३ ॥ हय गयने पायक गाम, दासी दासने पुरवर दाम;
 राय सौध रहेवाने काम, बहु उपगरण भरे ते धाम ॥ मो० १४ ॥ तिहां
 भोगवता वर भोग, नृप सेवा करे शुभ योग; ते दिनथी लक्ष्मी वाधे, बहु
 राय प्रमुख नृप साधे ॥ मो० १५ ॥ श्रीवर्धन अभिधा थापे, तेहनो जस
 दस दिशे व्यापे; एक दिन नृप भाखे कुमार, सुणो अमकुल ए आचार ॥
 मो० १६ ॥ परणाने बहु भरतार, ओत्सवड्युं हर्ष अपार; कुल देवता
 मासने अंते, पूजे एक पथुए सुचित्ते ॥ मो० १७ ॥ चौदशनी राते पूजो, तुम
 विघन होए ते धुजो; कहे कुमर न काम ए कीजे, अपराध विना न मारीजे
 ॥ मो० १८ ॥ यतः नास्ति हिंसा समं पापं, नरकादि प्रदानतः ॥ नचाहिंसा
 ममं पुण्यं, दानात्स्वर्गापवर्गयोः १ ॥ अमृतंनौरगादंक्रात्, नैवापथ्याद्गदक्षयः ॥
 साधुवाटोविद्यादाज्ञ, नशांतिः प्राणिनां वधात् २ ॥ पूर्व ढाल. भोज्यादिके भूपांति
 भाखे, अरचां जिम विघन न दाखे; कहे कुमर मिथ्यालिणी एह, तलझा-

नी पूजुं कहो केह ॥ मो० १९ ॥ जेने देव गुरु धर्म राखे, तेने इंद्र अनर्थ न दाखे; ए रांकडीनी श्यो भार, तुमे रहो सुखमां निरधार ॥ मो० २० ॥ यतः ग्रहाः प्रसन्नावशवर्त्तिनः सुरा, नदुष्टभूपाःप्रभवतिनोखलाः॥नश्यंतिविघ्ना विलसंतिसंपदो, हृदिस्त्रितेयत्रजिनः सपूज्यते १॥पूर्व ढाळ. जमाईने नवि कहेवाय, अधिकुं इम कही घर जाय; कुलदेवीने कहे एम, तें आप्यो जमाई प्रेम ॥ मो० २१ ॥ ते पण तुजने नवि पूजे, वीजुं मुजने नवि सूजे; तुने ते जमाई जाणो, श्युं करुं पण भक्ति भराणो ॥ मो० २२ ॥ नमी देवीने गयो भूप, कुमरे लहुं तास स्वरूप; सप्रसूया देवी जाणी, हवे रयाणिए गुण मणि खाणी ॥ मो० २३ ॥ कांइक तस शंका करतो, पट्टमां जिन प्रतिमा धरतो; धूप पुष्प सुगंध धरीने, वेठो जिन ध्यान करीने ॥ मो० २४ ॥ एकवीसमी वीजे खंडे, ढाळ भाखी रंग अखंडे; धरमे हट इम मन करजो, कहे पद्म विजय शिव वरजो ॥ मो० २५ ॥ सर्व गाथा ६३१

॥ दुहा ॥

अप्रमत्त आसन धर्युं, पहोर वीजे तिहां पेल्लि; धूमघटा दश दिश धरी, देवीकृत ए देखि॥१॥कोलाहल परिकर करी, दह दिश नाठो दूर; कुमर वीक मन नांवि करे, परमेष्ठि ध्यान पडूर ॥२॥काउसगम तव करी रह्यो, धूम गयो ते ध्यान; जाजुल्यमान ज्वाला थई, परगट ते पहिचान.॥३॥रौद्र रूप करी रेल्लणी, मस्तक मूढक समान; अग्नि ठाणशी आंखडी, ताडमान पदतान.॥४॥पेट बन्धुं पर्वत गुफा, कालिक दंत कराल; चक्र त्रिशूल खड्ग चगचगे, भीषण अतिशय भाल.॥५॥

॥ ढाळ २२ मी. ॥

हांडानी देशी.

अट्ट हासने मुकती, डमरुक वजांढे, बहु त्रास पमाडे, कर चक्र भमाडे, मानु आकाश-तल फोडशेरे. ॥६॥ में तुजने नर रायनी, लक्ष्मी बहु दीधी, कन्या परसीधी, ताहरे कर कीधी, तोहे तें निंदा कीधी माहरीरे. ॥७॥ह-

जीव पूजा कर माहरी, बली कर परणाम, नहींतो यम धाम, पामीश सु-
 त्राम, राखण काम पण नावजेरे.॥८॥तोहेपण भोभ्यो नहीं, तव रीस चढा-
 वी. अग्नि वरसावी, झाळ्य शिर आवी, तोपण लावी कुमरे मन नहींरे.॥९॥
 जिनवर ध्यान धारा धरे, अग्नि ओलाय, तव हरि मुकाय, गर्जरव थाय,
 भक्षण करवा जाय ते हवे. ॥ १० ॥ पुंछुछोटे कंपावतो. धरनीने जाम,
 नख आयुध टाम, दाढा पडी ताम. नख आम भाग्या जिन ध्यानथीरे ॥११॥
 सिंह गयो हवे दर्पथी. मुक्या बहु नाग, फुकारनो लाग. भरे अंबर भाग,
 ज्यामनो राग नव मेवश्योरे.॥१२॥ शत गमे मणि यणुं दीपतां, मानु यमक-
 र दंड, फणाटोप प्रचंड, वीटि ते अखंड. वेदना चंड करे रोशथीरे.॥ १३॥
 फणाटोपे मारे यणुं, बली तनुने मरडे, दशनने बली करडे, लालाए खरडे,
 दंत पडेरे तेह नागनारे.॥१४॥ फणथी मणि तूटी पडे, बली भागे हाड, वा-
 यरे जिम झाड, नवि लागे पहाड, कुमर पहाड तनु चपरेरे ॥१५॥ नाग सवे
 विलखा रडे. ते नाटा जाय, विस्मयसुरी पाय, मन चिते थाय, पीडा उपाय नवि
 एहनेरे ॥१६॥ ध्यान बले न सोभी शकुं, करं ध्यानने पीडा. अनुकूल पणे
 क्रीडा, करी शुभ कहु इडा, एहमारि त्रीडा मुजने नही.॥१७॥ एम विचारी
 नारिनुं. कीचुं बली रूप, आकृति अनुरूप, मुख चंद्रसरूप, कामनो खूप
 मानुं ए वनीरे. ॥ १८॥ घृघरी चरणे रणजणे, लीला गती चाले. कुमर मुख
 लाले, निजमानने गाले, बोले रसाले वयणे इणिपरेरे. ॥१९॥ माहरो खम अ-
 पराधरे. सात्त्विक सोभागी, तुजथुं लय लागी, मुज भावठ भागी, हुं थई
 रागी हवे ताहरीरे.॥२०॥ एहवा पुरुषने पामवा. में परिक्षा कीधी, हुंतुजथुं
 गिद्धी, मुजने क्रय लीधी, देवनी रीद्धि भोगव नरपणेरे.॥२१॥ अंगीकार कर
 मुजने, हुं ताहरी दासी, स्नेही सुविलाशी, निख तूख प्रकासी, गीत गासी
 रे. सहु तुज आगलेरे. ॥२२॥ कामने वयणे न वेधीओ, न चलाव्युं ध्यान. व्रत
 उपर ज्ञान, जिनवर बहु मान, मान न दीधुं देवीने तिणेरे. ॥२३॥ बीजे खंडे
 वावीमपी, वर भासी डाळ, पत्रे सुरसाल, परिक्षाने काल, मंगल माल द्वा-
 य, थिर थतारि. ॥ २४ ॥ सर्व गाया ६५६

॥ दुहा ॥

विस्मय पामी व्यंतरी, बोले एहवा बोल; तुज उपर तूठी अळुं, खांति व-
चनज खोल॥१॥ हवे उपसर्ग करुं नहीं, पण कहे ताहरी पास; शो छे मंत्र
सोहामणो, परगट तेह प्रकासा॥ २ ॥ जास प्रभावे मुज जरा, जालिम न चल्यो
जोर; कृण धरम पूजा करे, सांभळु मुकी सोरा॥३॥ हुं ताहरी हितकारिणी,
पूजे नहीं तुं पाणि; काउसग्ग पारी कुमर ते, उत्तर आपे आणि ॥ ४ ॥

॥ ढाल २३ मी. ॥

महा विदेह क्षेत्र सोहामणुं ॥ ए देशी. ॥

कुमर कहे सुण रेळणी, पंच परमेष्टि ध्यान लालरे; जगत पूज्यनुं हुं करुं,
केदल अमृत पान. ला० ॥ कु० ५ ॥ त्रिविधे जेह ध्यातां थकां, सकल दुख
क्षय थाय ला०; धर्म ते अरिहंतनो कळो, सयल जीव हितदाय. ला० ॥ कु०
६ ॥ समकित धारी प्राणिया, मिथ्या दृष्टि जे होय ला०; तेहनी पूजा नवि
करे, प्राणांते पण जोय. ला० ॥ कु० ७ ॥ ते माटे देवी सुणो, इच्छो जो आ-
तम हेत ला०; त्रिविधे हिंसा नवि करो, हिंसा नरक संकेत. ला० ॥ कु० ८ ॥
धर्म अरिहंतनो मुजने, भाखो करी विस्तार ला०; तव कुमरे विस्तर करी,
भाख्यो धर्म विचार. ला० ॥ कु० ९ ॥ हिंसानां फळ दाखीआं, तिमज दया-
नां विशाल ला०; सांभली वृद्धी ते हवे, समकित ग्रहे सुरसाल. ला० ॥ कु० १० ॥
विरमी प्राणी वध थकी, पूर्वे जे हिंसा कीध ला०; तेह रोगने टालवा, औ-
पध आकरुं दीध. ला० ॥ कु० ११ ॥ अरिहंतनी पूजा करो, धर्म सहाय क-
रेह ला०; शासननी परभावना, संघ उपर ससनहे. ला० ॥ कु० १२ ॥ देवा
लेवा धर्मथी, कुमर देवी लह्यां हर्ष ला०; दृक्ष कदंबना फूलने, मेघधारा जिम
वर्ष ला० ॥ कु० १३ ॥ गुरु भक्तिए दिव्य औपधी, आपे महिमावंत ला०;
निज पर शिर थापी थकी, इच्छित रूप करंत. ला० ॥ कु० १४ ॥ वस्त्राभू-
षण वली आपती, वरसे कनक मणि राशि ला०; देव दुंदुभि वजाडीने, अ-
दृश हई तास. ला० ॥ कु० १५ ॥ जई राजा बोलावीओ, उंधे जागे छे के

केव ल०; जागुंछुं नरपति कहे, उंघ आवे किम एम. ल० ॥ कु० १६ ॥
 धूम्यादिक जमाई घरे, देखी दुःख अपसर ल०; सा कहे सांभल जे कहुं, तुज
 जमाई उदार. ल० ॥ कु० १७ ॥ अनुकूल प्रातिकूल में करचा, उपसर्ग तास
 अनेक ल०; पण सात्त्विक ऊत्तम घणो, नवि मुकी निज टेक. ल० ॥ कु०
 १८ ॥ जविदया मूल आदरचो, में एह पासे धर्म ल०; तुं पण धर्म एहनी
 कने, लेजे छडी अधर्म. ल० ॥ १९ कु० ॥ इम करी ते अहश थई, हवे
 विहाणे सहू आय ल०; राय प्रमुख रयणी तणो, जोवा कुमारने ठाय. ल०
 ॥ कु० २० ॥ कुमर आभूपण वल्लयी. दिव्य देखी हरखाय ल०; रत्न पुंज दे-
 खी करी, आणंद अंग न माय. ल० ॥ कु० २१ ॥ पूछे भूप कुमारने, शो
 रयणी वृत्तांत ल०; कुमरे यथास्थित भापीओ, चित्त करी एकांत. ल० ॥
 कु० २२ ॥ कुमर सत्त परसंसता, तिम जिन धर्म प्रभाव ल०; चमत्कारपा-
 मी करी, राय प्रमुख सदभाव. ल० ॥ कु० २३ ॥ धर्म ग्रहवा नृप मन करे,
 उद्यान पालक ताम ल०; दिए वधायणी आवीआ, धर्मयशा गुरु नाम. ल०
 ॥ कु० २४ ॥ बहु परिवारे परिवरचा, धर्म मूरति मानुं तेह ल०; कुमरवयणे
 राजा हवे. वंदे गुरु ससनह. ल० ॥ कु० २५ ॥ धर्म सांभली आदरे, समकि-
 तादिक शुद्ध ल०; राज पुत्र राज वर्गीआ, नागर पण प्रतिबुद्ध. ल० ॥
 कु० २६ ॥ कुमत मुकी धरमी थया, देखी कुमार चरित्र ल०; काल काढे
 इम धर्ममां, श्रीवर्द्धन सुपवित्र ल० ॥ कु० २७ ॥ बीजे खडे त्रेवीसमी, पद्म
 कहे इम ढाल ल०; श्री जयानंदना रासमां, आगल वात रसाल. ल० ॥
 कु० २८ ॥ सर्व गाथा ६८३



॥ दुहा. ॥

एक दिन आस्थाने रह्यो, सौधर्म सभा समान; शत सुत श्रीवर्द्धन सहित,
 पागिआने परधान. ॥१॥ वनपालक आवी कहे, क्रीडा वनमां क्रोड; घोर श-
 न्द घुघुर करे, तरातर करे खोड. ॥२॥ काल रूपे ए कोल छे, भटने पण दि-
 ए भीक; नाशी जाए निर्जरा, एमां नाहीं अलीक. ॥३॥ अवनिपति उठे त-

दा, वारे पुत्र विनीत; शत-पुत्र उठे सामठा, सन्नद्ध थया शुभ रीत. ॥४॥ कु-
शर पशु, जाणी करी, उवेखीयो तमाम; कौतुकथी केडे गयो, बुद्धिवत बल-
धाम. ॥ ५ ॥

॥ ढाल २४ मी ॥

झांझरीआ मुनिवर धन धन तुम अवतार ॥ ए देशी ॥

जइ सूअर बोलावीओजी, हय गय परिवृत तेह; सामो सूअर आचीओजी,
क्रोध कराळित देह ॥ ६ ॥ भवि भाव धरीने सुणज्यो अचरिज वात ॥ सम
काले सुत रायनाजी, वाण श्रेणि वरसंत; उछली उछली ते सवेजी, दा-
दाए खंड करंत ॥ भ० ७ ॥ हय गयने पण पाडीआजी, खड्ग मोगर गदा
घात; तेहने अणगणतो थकोजी, बहु सुभट करे पात ॥ भ० ८ ॥ क्षण ग-
गने सण धरतीएजी, फाल दिए बलवंत; लश्करमा सहु देखताजी, आदि
मध्ये वली अंत ॥ भ० ९ ॥ आकुल व्याकुल सहु थयाजी, राजकुमर ति-
णी वार; तेहनी रक्षा कारणेजी, श्री जयानंद कुमार ॥ भ० १० ॥ शस्त्र
रहित ते देखिनेजी, मुके खड्ग तुरंग; बांधी केड बोलाविओजी, सूअरने
निज संग ॥ भ० ११ ॥ फाल देइ कुंअर शिरेजी, आवे कोळ ते जाम;
मुष्टिए हणी दोंय दाढनेजी, खंड खंड करी ताम ॥ भ० १२ ॥ तोपण सै-
ल पराक्रमेजी, श्रीजय उपर तेह; पडवा मांडयुं तेटलेजी, पग पकडी भ्रम
देह ॥ भ० १३ ॥ ते किरि दूर फेंकी दिओजी, धीर वली महावीर; सा-
त ताल दूरे पडयोजी, श्रीजय शूर कोटीर ॥ भ० १४ ॥ नाठो बुंवारव क-
रीजी, थयो नख हाडनो भंग; पेठो गहने नाशिनेजी, पूंठे कुमर गया संग
॥ भ० १५ ॥ दीठो नही ते वराहनेजी, आवतो जूए गजराज; श्वेत च्यार
देतूसलेजी, शोभित आव्यो समाज ॥ भ० १६ ॥ मोद लहीने भमाडीओ-
जी, मुष्टिए कीध महार; वश करी शिर उपर चढ्योजी, श्रीजयानंद कुमा-
र ॥ भ० १७ ॥ वाळे ते हिमपुर भणीजी, पण वन सनमुख धाय; धायु
वेगे दूरे जईजी, गगने पंखी परे जाय ॥ भ० १८ ॥ देखे पृथ्विए तदाजी,
गोपदसम कासार, उदेही शिखरपरे नग तदाजी, नदीओ नीकअनुहार ॥

भ० १९ ॥ ग्राम पुरादिक देखतोजी, बालक्रीडा पुर रीत; कुमर विचारे
 चित्तमांजी, वैरी कोर्क दिष्ट भीत ॥ भ० २० ॥ रखे सायरमां नासतोजी,
 बज्र मुष्टि करयो घाय; तेहनं वल न सही शक्योजी, दुस्र पीडा अतिथाय
 ॥ भ० २१ ॥ गगने छांडीने गयोजी, समरे औषधी ताम; विघन निवारणी
 नामथीजी, सरवेर पडीओ उहाम ॥ भ० २२ ॥ तेह तरी तीरे गयोजी,
 मारग जोवा काम, चडीओ एक वड उपरैजी, दीठो मारग वली गाम ॥
 भ० २३ ॥ उतरवा ईच्छा करेजी, वडथी जावा जाम; वड उड्यो आकाश
 मांजी, जई महारणने ठाम ॥ भ० २४ ॥ पर्वत निकुटे वड रहोजी, उतर्यो
 हवे वनमाहि; पाणी सींच्यां वृक्षनांजी, थाल दीठारे उछांहि ॥ भ० २५ ॥
 पांचसे तापसना तिहांजी, आश्रमे गयो ते कुमार; तिहां एक शय्याए रहो-
 जी, व्याघ्र दीठो मनोहार ॥ भ० २६ ॥ वाघ सेवा तापस करेजी, विस्मय
 लब्धो कुमार; तव तापस उभा थईजी, आर्लिगन दिष्ट सार ॥ भ० २७ ॥
 क्षेम कुशल पूछे वलीजी, अमृत भरियां नयण, वेसारे उचितासनेजी, कुमर
 पृछे इम वयण ॥ भ० २८ ॥ एह वाघ कहो कुणछेजी, किम सेवा करो तास;
 तापस कहे मोटी कथाजी, छे ते कहेशुं उछास ॥ भ० २९ ॥ श्री जयानं-
 दना रासमांजी, चौवीसमी ए ढाल; खंड वजि पदमे कहीजी, सुणतांमंगल
 माल ॥ भ० ३० ॥ सर्व गाथा ७१३.

दुहा.

स्नान करीने शुद्ध थयो, गौरवथी गुणवंत; भोजन करवा भाजने, पाय-
 स ते पीरसंत ॥ १ ॥ इष्ट फलादिक आपीआं, भोजन करिने भाव; ताप-
 सथुं तिहां ततक्षणे, आसन वेठा आवि ॥ २ ॥ तापस एक युवान तव, हरी
 वीर हितकार; कुमरने तेह कथा कहे, व्याघ्रनी करी विस्तार ॥ ३ ॥

॥ ढाल २५ मी ॥

॥ वींछीयानी देशी ॥

भोगपुरे नर सुंदर राजीओ; गाजीओ शत्रु जय हेतरे; हरीवीर क्षत्रीमां

भ्राजो, नृप तेहदुयुं दित बहु देतरे ॥४॥ जूओ जूओ ए वात विनोदनी ॥
 नृप वालमिज सेनापति, निज नंदन अधिक प्रमाणरे; एहवे निज मातुल
 नरपति, भोगपुरीमां भोग राजानरे ॥ जू० ५ ॥ तस वरी तस पुरे आवी-
 ओ, राजा वलीओ सूरपालरे; भोगराय ते तेहथुं अड्डीओ, भागुं निज वल
 तिण कालरे; ॥ जू० ६ ॥ भोगराय पेठो निज नयरमां, परधाने लिख्यो
 ते लेखरे; छानो भाणेज तेडावीओ, नरसुंदर लेख ते देखिरे ॥ जू० ७ ॥
 धीरवीर माने निज धन्यता, आज स्वजनने आव्युं कामरे, करुं उपकार
 हुं तेहने, राखुं सहुनी इम मापरे ॥ जू० ८ ॥ यतः कितद्राज्यंरमासाकिं,
 यनोनोपकृतिः परे, सर्वेपूपाचिकीर्पति, महातः किंपुनार्निजे ॥ १ ॥ पूर्व दाल् ॥
 इम चितवी जात्रा उद्यम करे, तेटले नृपने निपिद्धरे; सेनानी कहे भेक उपरे,
 किम गुरुड पराक्रम सिद्धरे ॥जू० ९ ॥ मूर नगरे जई मूरपालने, जीती राखुं
 भोगरायरे, मुज द्यो आदेश तव भूपति, आण आपे करी सुपसायरे ॥ जू०
 १० ॥ गजरथ दौय सह सते आपीआ, पांचलाख तुरंगम दीधरे; पायक पां-
 च कोडिथुं परिवर्यो, निसाणे डंको कीधरे ॥ जू० ११ ॥ हरिवीर चा-
 ल्यो भोगपुर भणी, महामानी महा जोद्धाररे; मूरपालने जई बोलावीओ,
 भोगराए जाण्यो ते प्रकाररे ॥ जू० १२ ॥ लेई सैन्यने तेह भेलो थयो, मूर-
 पाल सैन्य दौय साथरे; लडे तास वाजिज गर्जारवे, गाजे जिम सायर पा-
 थरे ॥ जू० १३ ॥ गजे गज तुरगे तुरग लडे, रथी पायक सम करे युद्धरे;
 शरकुंत खडगे न्याये लडे, क्षीण शस्त्रे केई थई कुद्धरे ॥ जू० १४ ॥ घाहू
 मुष्टि युद्धे वली जूझता, पदे पद दंतै वली दंतरे; केशे केश नखे नख वल-
 गता, मस्तके मस्तक फुटंतरे ॥ जू० १५ ॥ केई मोगरे रथने चूरता, पापडपरे
 वलीगदा घातरे; करी पाडे गज नग टुकज्युं, जम सरिखा तै साक्षातरे ॥जू० १६ ॥
 ह्य यग पकडी उछालता, लघु उपल परे वली केइरे; पग पकडी सुभठ भ-
 माडता, जिम शिशु उंवाड करेइरे ॥ जू० १७ ॥ केइ मूर्छा पडथा गृध्र
 पाखना, पवने सज्ज जुद्ध करायरे; रण धरती दुःसंचर थई, प्रेते करी
 गगन भ्रायरे ॥ जू० १८ ॥ इम घोर रणे मूरपालने, सैन्ये दौयसैन्येने टे-

लिये; तव ओसर्वा कायक हारथी, रण थंभ मर्यादा मेलिये ॥ जू० १९ ॥
 भोगराय उठ्यो तव रथ चढी, अभिमानथी युद्ध करेयरे; सूरपालनुं सैन्य
 भागुं तदा, देखी सूरपाल उठेयरे ॥ जू० २० ॥ रथ वेठो क्रोधथी इम कहे,
 नाशी गयो तुं एकवाररे; हवें जाशो किहां परवल थकी, वेळू तपे केतीक
 वाररे ॥ जू० २१ ॥ भोगराय कोप करीने कहे, एकवार चूको द्वीपी फाले
 रे, पण वानर मारतां वार शी, परथी तप्यो अय तृण वालेरे ॥ जू० २२ ॥
 तेजस्वी अवज्ञा नांवि खमे, लागुं तिहां रण असरालरे; भोगरायनुं धनुष छेद्युं-
 शरे, रथ भांज्यो थई विकराळरे ॥ जू० २३ ॥ शिरस्त्राणवर्म सवि भेदिआं,
 भोगराय थयो भोगहीनरे; हरिवीरे रथ वच्चे नाखीओ, करे युद्ध थई अ-
 दीनरे ॥ जू० २४ ॥ कहे सूरपाल तुं किम मरे, पर अर्थे कहे तव तेहरे; नि-
 जपरनां काम समोवडे, गणे सज्जन प्राणी जेहरे ॥ जू० २५ ॥ मरवुं तो दैवने
 हाथ छे, तुज ईच्छाने न आधीनरे; इम कही शरनो मंडप रच्यो, सूरपाल
 सेना थई दीनरे ॥ जू० २६ ॥ पत्तिते विषत्तिपामीआ, रथ रहित थया र-
 थवंतरे; इम निजनिज वाहन सवि गयां, मुक्या संग्राम महंतरे ॥ जू० २७ ॥
 हयगय भड तूर्थना नादथी, प्रस्फोटपरे आकाशरे; युद्ध करतां जयश्री अंतरे,
 रही न लक्षो वर अवकाशरे ॥ जू० २८ ॥ वादी हेतू परे तेहेतीने, छेदे ते
 परस्परे योधरे; सात धनुष छेद्यां सूरपालनां, अनुक्रमे सेनानी ए क्रोधरे
 ॥ जू० २९ ॥ तव विधुर चित्ते तनु कंपतो, जे लेडं ते छेदे एहरे; हुं थाक्यो
 एह नवापरे, सेना भागी गई जेहरे ॥ जू० ३० ॥ इहां रहंतो मरण लहुं ख-
 रो, भद्र पामे जीवतो जीवरे; लज्जा नहीं शूरथी नासतां, इम चितवी चित्त
 अतीवरे ॥ जू० ३१ ॥ एम चितवी रथ वाल्यो तिणे, मुकी विचमां भट
 श्रेणरे; नाठो सूरपाल लेई चमू, भोगराय पूठे थयो तेणरे ॥ जू० ३२ ॥ गज
 घोडा शस्त्र लुंटी लिए, तिम वक्तरने अलंकाररे; नासतां लूटवुं सोहिलं, तव
 हूओ जयजयकाररे ॥ जू० ३३ ॥ वीजेखंडे पंचवीसमी, ढाल श्रीजयानंदने
 रासरे; कहे पद्माविजय पुन्ये करी, लहिण नित लील चिलांसरे ॥ जू० ३४ ॥
 सर्व गाथा ७४७ ॥

॥ दुहा ॥

दान याचकने देयता, सेनानी लेइ संग; भोगराय निजपुर भणी, आव्या आति उछरंग ॥ १ ॥ भोगराय माने भलु, जिवनो दायक जाण; सेनानीनां शुभ परे; वारू करे वखाण ॥ २ ॥ देवा कन्या मोदच्युं, उपगारीने एह; सभाने पृछे सुगुण, कन्या छे कोइ गेह ॥ ३ ॥ दंड नायक सूरदत्तते, बोल्यो एहवा बोल; सुभगा नाम सोहामणी, आवे अहेने तौल ॥ ४ ॥ अदभूत कन्या एहवी, माहरेछे महाराय; एकांते अनुरूप जोई, मनमां. मोद न माय ॥ ५ ॥ हरिवीरने दिए हर्षथी, अवनीपति लइ आण; पाणिग्रहण प्रेमे करी, महोत्सव विविध मंडाण ॥ ६ ॥ आपे अति आदर करी, करमोचन ने काल; सूरदत्त निज शक्तिथी, अनोपम धन असराल ॥ ७ ॥ भोगराय पण भक्तिथी, आपे वस्त्र अनेक; पुरगाम दिए प्रेमे करी, वारू धरिय विवेक ॥ ८ ॥ काल केतोएक काढतो, भोगवतो मुखभोग; जावा निज पुर जेटले, जडतो कीधो जोग ॥ ९ ॥

॥ ढाल २६ मी. ॥

देखो गति दैवनीरे ॥ ए देखी. ॥

सुभगा कहे इणे अवसरेरे, पेट पीडा मुज थाय; कपट न सीखवचुं पं-
डेरे, नारिने सहज ए आय ॥ जू० १० ॥ जूओ जूओ गति नारिनीरे, नारि
कपट न कोय जणाय जू० ॥ मांचे तडफडती पडीरे, पिता करे प्रतिकार;
तिम तिम वुंव पाडे घणुरे, दाखवे अतीय विकार ॥ जू० ११ ॥ भाग्य योगे
भरतार मिल्योरे, उत्तम सुगुण निधान; इण अवसर पीडा थईरे, धिग मुज
पाप निदान ॥ जू० १२ ॥ सासू ससरो सेववारे, उत्सुकता रही एम; इम
सांभली निज उपरेरे, दंड नायक लहे प्रेम ॥ जू० १३ ॥ स्वामि मलवा मन
घणुरे, पण टकीओ कोइ दिन; पण शाता तस नवि थईरे, खाय नहीं वली
अन्न ॥ जू० १४ ॥ उठाडी कहां कुण सकेरे, जागतो उंचे जेह; हवे ससरा
दिक इम कहेरे, साजी थाय जब एह ॥ जू० १५ ॥ तंव तुमे तेडवा आव-
जोरे, भूपने जणच्युं तेह; भूपे भूपने मोकल्यारे, हयगय अदभूत जेह ॥ ०

१६ ॥ सेनानी ते लेई चलयोरे, दूरे पहातो जाण; स्वैरिणी सुभगा हर्षधीरे,
साजी-थई तिणे टाण ॥ जू० १७ ॥ तात चाकरं मधुकंठशुंरे, सेवे काम
विलास; नाना उपचारे करीरे, ते पण वंश छे तास ॥ जू० १८ ॥ मोही तेना
स्वर थकीरे, क्रीडा करे आशक्त; पण निपुणाइ तेहनीरे, कोय न जाणे रक्त
॥ जू० १९ ॥ नारी चरित्र नको लहेरे, धाता पण मुझाय; सूरदत्त हरख्यो
घणुंरे, सरल ते नारिनो ताय ॥ जू० २० ॥ यतः जल मझ्जे मङ्घि पयं, आ-
गासे पंखीआणपयंपंती, महिलाहिययाणमग्गो,तिन्निविविरलापयेपंति ॥ १ ॥
रविचरियंगहचरियं, ताराचरियंचराहुचरियंच; जाणंतिवुद्धिमंता, महिलाच-
रियंनजाणंति.॥२॥ पूर्व ढाळ जणव्युं जमाइनेते तिणेरे, ते आव्यो ततकाल;
उचित प्रति पत्ति करीरे, संतोष्यो सुरसाल ॥ जू० २१ ॥ सुभगा कमलाणी
मनेरे, दीवी देखी जिम नाग; वाहिर स्नेह देखावतीरे, कहे मुज जाग्यां
भाग्य ॥ जू० २२ ॥ यतःकवहुंविनितामृदुवाचवदे, कवहुंतिनशुंकदुवाचकहे;
कवहुंमनरंगविरंगधरे,कवहुंजविरागिनिहूइरहे, कवहुएकबोलसहेनभलो,कवहु
कदुबोलअनेकसहे; मुनिधन्नकहेजगदीशविना, त्रियकीकरणिकहोकोनलहे
॥ १ ॥ पूर्व ढाळ. हवे स्त्री लईने जायवारे, हरिवीर थयो उजमाल;
तव कपटे घेली थईरे, शिर कंपे विकराल ॥ जू० २३ ॥ अट्टहास मुस्र बो-
लतीरे, आंखे बीहाडे लोक; भाजन भागे नाचतीरे, मारे बालादिक थोक
॥ जू० २४ ॥ निजपरने गालो दीएरे, कांय न ढांके अंग, कारण विण रूप
हसेरे, ताली दिए गाय रंग ॥ जू० २५ ॥ विचविचमां डाही होएरे, वावडीमां
करे क्रीड; खेद लहे पित्रादिकारे, घरता अतिशय व्रीड ॥ जू० २६ ॥ मंत्र
धादी तेइच्या घणारे,करता बहु प्रतिकार;देवी ग्रह प्रेत शाकिनीरे, व्यंतर शं-
का धारि ॥ जू० २७ ॥ सन्निपात उनमादनारे, जाणीदोष अपार; विविध
प्रयोग औषध करेरे, गुण न थयी लगार ॥ जू० २८ ॥ कुल देवी पूजा क-
रेरे, मातापिता घणे राग; हरिवीरपण करे मानतारे, देव देवीनी लग ॥ जू०
२९ ॥ गुण न थयो कोयथी हवेरे, विलखो थयो हरिवरि; सालादिक हासी
करेरे, चीर रहेतां जाय नीर ॥ जू० ३० ॥ रूपवती सती प्रेयसीरे, अनुयाई

घणो स्नेह; इम दुखणी न खमी शकुंरे, चिंतवे जाऊ गेह ॥ जू० ३१ ॥ घर जाऊ एहने मुक्तीनेरे, मित्रादिक करे हास; मुख दाखी शकुं शकिणी परेरे, एके नही अवकाश ॥ जू० ३२ ॥ कर्म तणी गति कुण लहेरे, जावुं निश्चय धाम; पृछे श्वसुरने ते कहेरे, आवजो फीरी तुम आम ॥ जू० ३३ ॥ आण लही चाल्यो घरेरे, पहतो अनुक्रमे तेह; स्वजनने सहू संभलावतारे, धरतो तास सनेह ॥ जू० ३४ ॥ खंड वीजे छवीसमीरे, पद्मविजये कही ढाळ, धन मुनिवर जिणे परीहरीरे, नारी दुख जंजाल ॥ जू० ३५ ॥ सर्व गाथा ७८२

दुहा.

कुल देवी पूजा करे, शकुंन देखावे साच; निमित्त पूछे बहु निमित्तिआ, नारी करावे नाच ॥ १ ॥ कोह संगम स्त्रीनो कहे, द्रव्यादिक दिए तास; नारी आशक्त नरने होये, सर्व विचार विनाश ॥ २ ॥ सुभगा वली साजी थई, पूरव रीति पिछाण; तेहवुं मुकवुं हाथतस, मांघपणुं सुप्रमाण ॥ ३ ॥ मित्रादिक परमोदथी, तेढाव्यो जामात; आव्यो ते उतावळां, भूख्याने जिमभात ॥ ४ ॥ सुरदत्तादिक साचवे, उचित कृस ऊजमाल; सुभगा दाखवे सुखिणी, स्नेह हैयामां साल ॥ ५ ॥

॥ ढाळ २७ मी. ॥

राग खंभाती. हवे श्रीपालकुमार ॥ ए देशी ॥

सुभगा नामे नार, दुभगापणुं ते आचरेजी, जिम भद्रा कहे नाम, पण अभद्र सहने करेजी ॥ ६ ॥ काम स्नेह उपचार, करी भरतारने रीझवेजी; वश थयो नारिने तेह, एकदिन एकतिचवेजी ॥ ७ ॥ जब करीए प्रयाण, तव मुज तातने मागजोजी; मधुकंठ आपो साथ, ए बहु कामनो जाणजोजी ॥ ८ ॥ मारगनो छे जाण, हुंकडे मारग लइ जशेजी; भक्तिवंताने समर्थ, एह थकी गुण बहु थशेजी ॥ ९ ॥ मानी भूरखे वात, तिमज कर्यु ते अवसरेजी; वस्त्रालंकार सतकार, दासी दास दिए तस करेजी ॥ १० ॥ मधुकंठ पण दिओ तास, हवे जावा उद्यम करेजी; मातापिता पडी पाय, सुभगा आंखे आंख

शर्रेजी ॥ ११ ॥ मातापिता दिए शीख, भरता देव परे गणेजी, पालजो शील उदार, अणाचार सवि अवगणेजी ॥ १२ ॥ पूर्वे न कीजे शयन, उठीए भरता पूरवेजी; सासू नणंदनी भक्ति, करजो जिम दुख चूरवेजी ॥ १३ ॥ वधु परिजन जेह, वदन प्रसन्न निज राखजेजी, शोक साथ धरे राग, पतिवल्लभने आदर करेजी; पतिद्वेषिने उवेखि, शुभ आचारे संचरेजी ॥ १४ ॥ इत्यादिक दिए शीख, सुभगा पण अंगीकरे जी; जगत ठगे जे नार, मातपिता ते नावे धरेजी ॥ १५ ॥ दंपती चाल्यां दोय, ब्रोलोकी सहुए वल्यांजी; मधुकंठ दरशित मार्ग, ते मारगे सहुए चल्यांजी ॥ १६ ॥ मान्यां ईच्छ्यां जेह, तेह सफल माने तदाजी; अरध मारगे हरिवीर, नदी आवी तिहां एकदाजी ॥ १७ ॥ वननि कुंज तस तीर, उत्तर्या भोजन कारणेजी; दंपती भोजन कीध, सुभगा कहे चित्त ठारणेजी ॥ १८ ॥ ए सरिता रमाणिक, वन परदेश सोहामणाजी; क्रीडा करिए क्षणेक, मुज मन एहवी कामणाजी ॥ १९ ॥ मधुकंठ रक्षक एह, अंतर सेवक आपणोजी; लाजने भय इहां नाहि, नावे आवे कोइ खांपणोजी ॥ २० ॥ पेठां सरिता मांहे, काम क्रीडा पियुथुं करेजी; जळ क्रीडा करी इम, पेठा ते वन गद्वरेजी ॥ २१ ॥ काम क्रीडा करे तत्थ, आलिंगन गाहुं दिएजी; विविध करी रत क्रीड, एक पहोर उलंधीएजी ॥ २२ ॥ रक्षाषिस मधुकंठ, रथ बेनी फिरे चिहुं दिशेजी, फिकर करे चोकआत, नीकल्यां नही कारण किशेजी ॥ २३ ॥ बीजे खंडे डाळ, सत्तावीसमी सोहामणीजी; पब कहे मुनीराज, धन जिणे नारी अवगणीजी ॥ २४ ॥ सर्व गाथा ८०६.



॥ दुहा ॥

मुगध जाणे मनमां नही, किस इहां करिए वारः शंका लही शब्दज कर्या, चोकीयाते दोय चार ॥ १ ॥ उत्तर-नव आव्यो किमे, वनमांजूए विचारि; सेनानी सुभगा तथा, नावे दीठा निरधार ॥ २ ॥ खड्ग किंहांयक दीहुं खरुं, अनिष्ट थई आशंक; मधुकंठ खोलण मांडीयो, नावे लाधो निःशंक ॥

३ ॥ शोकांतं मंगलं सह, विकल्प विविध विशोप; पगलां अण अणपेखता,
पठनी रयणी पंत. ॥ ४ ॥ त्रियामाश तयामपरे, काडी दुखमां काल; अ-
नन्य गतिरुद्वे आगले, चाल्या भागति चाल. ॥ ५ ॥

॥ टाल २८ मी. ॥

॥ चंद्राटलोनी देत्री. ॥

अनुक्रमे पटोना महापुंगे. नदिआ जई भूपाल; आंख थकी आंमु धरेंरे,
वान कटेतां विकराल; वान कटेतां विकराल सत्प, शोकचन थयां मांभ-
ली भप; शैल्यवनादिके करीने चुप, खोल्यावे बहु दिनते अनप ॥ ६ ॥ जी-
राजनजीरे, लयां गये भट मांकलीरे; शोभाच्या बहु भांत, वालमित्र राजा
नणांरे; नदि लाध्यां एकांत. नदि लाध्यां एकांति जियारे. पुत्र थकी नेह
अधिको धारे; शोक विलाप करे महनारे. निम निम नरपति घणुं पोकारे
॥ जी० ७ ॥ सेनार्नानु कुट्ये गेरे, रण रण बहु काल; प्राणी कर्मना उद-
चरीरे. सट्टे एकांते दुख जाल; सट्टे एकांते दुख जाल ते राजा, मंत्राटिक
प्रति शोभेद्याजा; अन्य सेनानी थापे अनि भ्राजा, जेदनी कोय न लोपे पाजा
॥ जी० ८ ॥ अनुक्रमे शोक मुंकी करीरे, एकादिन जाय गज लेया; त्रिया
अट्टी आचीओरे, मामग्री द्युंक लेया; सामग्री द्युं ठेरामां वेठो, बहु परि-
वारं परिव्रत जेठो; शवर आची एक वेठो ठेठो, वानर नाच करावे उकीटो
॥ जी० ९ ॥ वानर वानरी नाचतारे, विच विच करे धनकार; वलगंचुवे
आलिंगनारे, युद्ध करे ते अपार; युद्ध करे ते अपार ते जोई, सह जन
चिनमां अचरिज होई; एदवो नाच न दीठो कोई, सह इम कहें ते नयणे
पळोइ ॥ जी० १० ॥ राजा देखी रीत्रिओरे, आपे तस बहु दान; तेदमां
मुख्य जे वानरारे, देखी हरखे राजान; राजा देखी वानर रोवे, पाय पडी
आंमुए पग धांवे; सह एदवुं अचरिज ते जांवे, रायतणे मन विस्मय होवे
॥ जी० ११ ॥ चेष्टाए सवि दाखवेरे, पण वचने नकहाय; अजयकोई समजे नहीरे,
पण कांडक अभिप्राय; कांयक अभिप्राय जाणी लेवे, कपितु छंद भूपततखेव;
इच्छित शखरेन धन बहु देवे, नाटिकथी नृपने कपि सेवे ॥ जी० १२ ॥

केलिवीर पशु पालनेरे, आप्यो शिक्षा हेत; राजा कैइक दिन रहीरे, चाल्यो
 प्रथिव नेत; प्रथिवनेत लेइ गज वलीओ, निज धामे पहीतो सुख भलिओ;
 अवसर जोइ केलिवीर ते कलिओ, नृस करावे नृप पुर हलिओ ॥ जी०
 १३ ॥ कपिपालक कपिने दिपरे, ग्रास अधिक नरराय; तत्व जाणे नही
 पण तिहारे, राग ते अधिको थाय; अधिका रागथी भूप करावे, कनकमणि
 अलंकार जडावे; सोनी आभर्ण लेइने आवे, नृस अंते नृप आगल टावे ॥ जी०
 १४ ॥ भूपे कलाद संतोखिओरे, दान देइ शुभ रीति; तेह आनर-
 ण पहेराववारे, निज हाथे धरी प्रीति; प्रीति धरी पहेराववा काम, लोहनुं
 बलय अछे गले ठाम; नविन पहेराववा काढे जाम; वानर पुरुष रूप हूओ
 ताम ॥ जी० १५ ॥ भूपतिने चरणे नमेरे, सेनानी हरीवीर, उठाडी आलि-
 गिओरे, नयणे झरंतो नीर; नयणे नीर झरंतो देखी, जोवा रढ थई सर्व उ-
 वेखी; वृपे आश्वास्यो संभ्रम पेखी, आसने वेसायो सुविशेषी ॥ जी० १६ ॥
 वाजिन्न गीत बहु थयारे, वंदी गंगल बोले, सांभली कुटंब ते आवीनेरे, दु-
 खना बंधन खोले; बंधन दुखना खोली पूछे, अचरिज वात कहो ए शं छे;
 नवि दीदुं नवि सांभलीयुं छे, हरिवीर कहे तुमे सांभलज्युं छे ॥ जी० १७ ॥
 कर्मथी वलीओ कीनहीरे, कर्मे तिरिमां घाल्यो; तेहमांथी तुमें ऊद्धरीरे, मा-
 नवनो भव आल्यो, आल्यो मानवनो भव रूढो, सवि संसारनो मोह छे कू-
 ढो; विंदू दिण एक जिम मधुपूढो, सुख माने परमारये भूढो ॥ जी० १८ ॥
 यतः शौर्यचधैर्येचधनेचपूर्णे, प्यैश्वर्ययौगेप्यखिलेबलेच; मित्रेचभूपेपिहरिःक-
 पिने, नृससहोर्कर्मगतिर्विचित्रा ॥ १ ॥ यन्मनोरथगतेरगोचरो, यत्प्रपृशांति-
 नगिरः कवेरपि; सप्रवृत्तिरपियत्रदुर्लभा, हेलयैवविदधातिकर्मतत् ॥ २ ॥
 पूर्व ढाल वीजे खंडे ए कहीरे, अठावीसमी ढाल; पद्मविजय कहे सांभलोरे,
 आगल वात रसाल, आगल वात रसाल सुसार, सांभळतां होय जयजय-
 कार; श्रीजयानंदजीने अधिकार, हरिवीर कहे निज वात प्रकार ॥ जी० १९ ॥
 सर्व गाथा ८२७



॥ दुहा ॥

प्रेय सीर्यु पेठो बने, तिहां लगे मालिम तुम; भावी वात सुणो भणुं, अंतर वन गयां अम. ॥ १ ॥ स्मर चेष्टा संलापथी, मुझावे मुज मन्न; मलय गिरि मारुन थकी, ताहुं थाए तन्न. ॥ २ ॥ कोकिल स्वर काने सुणुं, बंधुर लता संबंध; भमतां जोतां भाभिनी, बोली करी निरबंध. ॥ ३ ॥ माधवी मंडप रम्य छे, आपण रमिए एथ; तास वचनतहत करी, ततक्षण पोहोतो तेथ. ॥ ४ ॥

॥ ढाल २९ मी. ॥

॥ वणझारानी देखी. ॥ नरभव नयर सोहामणुं वणझारारे.

पल्लव साथरो पाथरो, मृणो राजारे, काम क्रीडा करी ताम, भूपति गुज ताजारे; तिहां एक कापि देखी करी सु०, मुझने कहे ते भाम. भू० ॥ ५ ॥ स्वामि हुं पापिणी यदा सु०, मांदी थई दोग वार भू०; मुकी गया तुमे मुझने सु०, देवथी थयो करार. भू० ॥ ६ ॥ तुम वियोगे दुख धरुं सु०, इणे समे आवी एक भू०, परिव्राजिका डाही घणी सु०, धरति अग विवेक. भू० ॥ ७ ॥ पासे औपधी गांठडी सु०, जाणी एह विचार भू०; दान ईष्ट देइ वश करी सु०, तूटी कहे मुझ सार. भू० ॥ ८ ॥ किम माहरी सेवा करे सु०, काम होय ते भाख भू०; सर्व वाते समरथहुं सु०, मनमां मत कांय राख. भू० ॥ ९ ॥ में कहुं स्वाभिनी सांभलो सु०, रोग आवे मुज देह भू०; विघन करे काम भोगमां सु०, प्रिय संग मन विरेह. भू० ॥ ११ ॥ मारा विघन दूरे करो सु०, तव तिणे औपधी युत्त भू०; लोह बलय मुज आपीशुं सु०, मुजने इणपेरे उत्त. भू० ॥ ११ ॥ ए औपधी पासे थकां सु०, विघन थाए विशराल भू० रोग आवे नहीं सर्वथा सु०, नपराभवे रीह व्याल. भू० ॥ १२ ॥ सुरनर कोई न दुख दिए सु०, हरख लही हुं अपार भू०, विमरजी पूजां नमी सु०, महिमा घणो श्रीकार. भू० ॥ १३ ॥ तिणे तुम संगम मुज थयो सु०, बली अंगे नीरोग भू०; माहरे शिव तुम जोईए सु०, तुम कंठे करु योग. भू० ॥ १४ ॥ ओशीके इमण्णा ठवुं सु०, रत क्रीडाए कयो

खेद भू०; अवसरे सहु सारुं थयो सु०, हमणां सुओ सुखवेद. भू० ॥ १५ ॥
 इम कही देखाडी मने सु०, मुकीओ सीसा मूल भू०; मुढ थयो एहना वय-
 णथी सु०, नवि जाणीं प्रतिकूल. भू० ॥ १६ ॥ करी विश्वासने उंघीओ
 सु०, मुज कंठे ते दीध भू०; वैरणि प्राए निद्रडी सु०, जाग्यो देखी कपि
 कीध. भू० ॥ १७ ॥ खेद लहो हुं मन थकी सु०, धायो पूंठे तास भू०,
 रथ वेंठी मधु कठइयु सु०, करती लील विलास. भू० ॥ १८ ॥ जाती दीठी
 स्नेहथी सु०, हुं करती लाल पाल भू०; ते कहेमूढ जाणे नहीं सु०, हजीयस्ने-
 हनो काल भू० ॥ १९ ॥ एक पखो कहो निरवहे सु०, स्नेह ते केतो काल
 भू०, विवाह प्रमुख पिता कर्यो सु०, ते परवश पण भाल भू० ॥ २० ॥
 वालथी हुं तो स्वैरिणी सु०, मद्यु कंठइयुं अतिं राग भू०; मधुर स्वरे मोही
 घणुं सु०, गीत कलाने लाग भू० ॥ २१ ॥ निज घरमां एहइयुं रमु सु०,
 एहज मुज भरतार भू०, अदभूत रूप तुज देखिने सु०, वली तुज चरित्र आ-
 चार भू० ॥ २२ ॥ विवाह सहुए मनावियो सु, पण मुज राग न कोय भू०;
 सहुने विश्वास पमाडवा सु, स्नेह देखाडयो तोय. भू० ॥ २३ ॥ वार विहु
 तुज फेरव्यो सु०, तोहे न समज्यो गमार भू०; परित्राजिका दत्त वलयथी
 सु०, कपि कीधो इणिवार. भू० ॥ २४ ॥ भोगवतिरिपणु मोजमां सु०,
 समज्यो न मुज आकृत भू०, माहरो दोष इहां नथी सु०, शाने करेले तूत्त
 भू० ॥ २५ ॥ तातवंची लावी वहु सु०, जा इयुं क्यांयक धन लेय भू०;
 क्रीडाव्युं इच्छा थकी सु०, तुं कपि गणमां रमेय भू० ॥ इम कदी प्रेरिओ
 सु०, ईच्छित दिशि भणी तेण सु०, फाल देई हुं वलगीओ सु०, वळीय वि-
 टारु नखेण भू० ॥ २७ ॥ मार्यो परोणे मुजने सु०, तोहे न मुकुं तास भू०;
 म्यान सहित खडगे हण्यो सु०, तव कर्यो क्रोधे निराश भू० ॥ २८ ॥ मूर-
 छित थई भूए पडयो सु०, वात योगे थओ सज्ज भू०; रात गई विहाणुं थ-
 युं सु०, नवि लहु कज्ज अकज्ज भू० ॥ २९ ॥ वानरी युथ देखीकरी सु०,
 निरधारयो जूथेश भू०; वानरीइयुं क्रीडा करुं सु०, यूथपाति हु विशेश भू०
 ॥ ३० ॥ शवरे पकडी एक दिने सु० शीखन्यो नाटिक मुज भू०; तुम आ-

प्यो तुमे नर कर्यो सु०, ए मुज वातनुं गुश्य भू० ॥ ३१ ॥ मुज पूछो तो नारिनो सु०, कोई न करशो संग भू०; विषया शक्त जे जे होय सु०, आपद लहे एकंग भू० ॥ ३२ ॥ वीजे खंडे ए कही सु०, ओगणत्रीसमी ढाळ भू०, पन्न कहे धन्य ते मुनि सु०, जे न जूए भामिनी भालि भू० ॥ ३३ ॥ सर्व गाथा ८६०.



॥ दुहा ॥

मदोनमत्त मूढा परे, नष्ट हृदय जोइ नार; सर्वस्व माने सामहुं, करेविपरित्त विकार ॥ १ ॥ वाणी सांभळी नृप वदे, मत खेदाओ मन्न; शीलवंती शामा करी, भोगवो भोग अखिन्न ॥ २ ॥ सेनानी कहे सांभळो, भामिनी मुख्य भोगांग; रात दिवस वीहतो रहुं, सिंहणी जिम सारंग ॥ ३ ॥ यतः अनृतं साहसं माया, मूर्खल मति लोभता; अशौच निर्दयसंच, स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥ १ ॥ दुहाः भामिनी तजश्यु भयथकी, इह परभवसुख आय; तपोवनमां जई तप करुं, आणा तुम आदाय ॥ ४ ॥ राय विचारे हृदयमां उपरांठो थयो एह; अथवा देखी एहहुं, कहे विरचे नहीं केह ॥ ५ ॥

॥ ढाळ ३० मी. ॥

॥ बटाउनी देशी ॥

भूपति मनमां चितवेरे, गजरथ अश्व अनेक, माहरे छे पण नवि शक्यो स्त्री दुःखथी ए व्यतिरे करे, जीव दूख सहे अनेकरे, कोइ नहीं आधार विवेकरे; कर्म वैरी पराभव छेकरे ॥ कर्मतणी गति एहवीमेरे लाल ६ ॥ इंद्र ते कीडो उपजेरे, चक्री नरगे जाय, नरपति ते पाय कहोए, धनवंत दरिद्री आयरे; शक्तिवंतनी शक्ति जायरे, सुखिओ ते दुख भरठायरे, नीरामयते स-रोगी कायरे ॥ कर्म०७ ॥ सुभग दोभागी नीपजेरे, इणभव परभव इम, कर्म कर्या छुटे नहीं, तेह उपर आस्था केमरे, ए तो अनियतसुख छे नेमरे, सु-ख विषयना उपर प्रेमरे, तेतो खरज खनन सुख जेमरे ॥ कर्म०८ ॥ विषय आशा फाकट करेरे, दुखनुं मूल छे तेह, नारि आडेडी थानिके, मारे नर

मृगने जेहरे, फोकटधारे तस नेहरे, नारि वाले नरनी देहरे, ए तो दुख
 वन उपर मेहरे ॥ कर्म० ९ ॥ ठगी आवी निज तातनेरे, तिरि कीधो भरतार,
 इम कोइ राणी गुजने, करे तो शो तस प्रतिकाररे, एक नारिए इम दुख धाररे,
 माहरे तो अनेक छे नारिरे, सापण वाघण अनुकाररे ॥ कर्म० १० ॥ भव उद्वेग
 इम भावतोरे, आव्यो नर कोई ताम, राय वधाव्यो इणिपरे, स्वामि हेमजट
 तापसनामरे, परिवार लेइ उद्दामरे, तुम पुरसिमाने ठामरे, धरे ग्यान ध्यान अ-
 भिरांमरे ॥ कर्म० ११ ॥ ते गुरु आव्या सांभलीरे, नृप करतो बहु मान, धृत पुरमां
 साकरपरे, जाणी चाल्यो उद्यानरे, वंदनानु धारी ध्यानरे, जई दीठा तरु
 तले थानरे, नमतां दिए आशीशदानरे ॥ कर्म० १२ ॥ तापस भागतो भूप-
 तिरि सांभले तस उपदेश, आयु अधिर धन चंपल छे स्वारथिआ सजन विशे-
 परे, क्षणक्षण क्षय थाय तनु शेपरे, नारि राक्षसणीनेवेशरे, दुख उपजावे संक्षे-
 कर्म० १३ ॥ भूप सुणी ते देशनारे, अधिक वैराग्य धरेय, राज्य ठवी निज
 पुत्रने, साथे हरिवीरादिक लेयरे, तापसव्रत अंगी करेयरे, स्वर्णजट तस अ-
 भिधा देयरे, गुरु लाभनो हर्ष धरेयरे ॥ कर्म० १४ ॥ पट्टराणी सुर सुंदरीरे,
 बूझी साथे थाय, तापसणी पण नवि कळो निज गर्भ ते व्रत अंतरायरे, मन धारी
 पण निरमायरे, पांचसें तापस समुदायरे, अमें तप करिए इण ठायरे ॥ कर्म०
 १५ ॥ दिन दिन गर्भ प्रगट थयोरे, पृच्छ्यो तास विचार, वात यथारथ रा-
 णीए, सावि भाखी निज भरताररे, प्रसवे पुत्री मनोहार, शुभ लग्न नक्षत्र
 धाररे, पाले तापसणी परिवाररे ॥ कर्म० १६ ॥ लक्षण पुण्य लावण्यवनीरे
 तापस सुंदरी नाम, बुद्धिए जीती सारदा, तस तात सीखावे तामरे, चोसठ
 कळा गुण धामरे, हवे हेम जट आपने ठामरे, स्वर्ण जट थापे अभिरामरे ॥
 कर्म० १७ ॥ पल्यंक विद्या आपतोरे, साधन विधिए समेत, ते सुर मुख भोगी
 थयो, कुल पति स्वर्ण जट थयो नेतरे, तापस पाले अभिप्रेतरे, विद्या साधन
 संकेतरे, उपवास विधि समवेतरे ॥ कर्म० १८ ॥ गारि उपर गारि चूडनुरे,
 यक्षनुं देरु एक, ध्यान आसन करी तिहां रळो, जप लाख करे सुविचकरे,
 देखी कुल पतिनी टेकरे, तुष्टमान थयो अती रेकरे, एकवीस दिने तेने करे ॥

कर्म० १९॥ गगन गामीदियो ढोलिओरे, कुलपति प्रणम्यो तास, स्तवना करी पारणुं करे, पल्यंकराखे निज पांसरे, ते उपर करिय निवासरे विद्याधर परे उल्लासरे, तीरथ बंदे आति खासरे॥ कर्म० २०॥ यौवन पामी कन्यकारे, सौभाग्य अदभूत रूप, कमला ते चपला थई, दुखे देखी तास सरूपरे, पढयो तास पिता चिंत्ता रूपरे, वर खोलवा तस अनुरूपरे, भमे पल्यंके ऋषि भूपरे ॥ कर्म० २१॥ भूप पुत्र बहु देखतोरे, कोई न आव्यो दाय, एक नुप रूप देखी करी, व्याघ्र रूपे थानिके आयरे, पल्यंक उपर ते ठायरे, देखी बीहना ऋषि समुदायरे, जाय नाठा तेहें पलायरे ॥ कर्म० २२॥ संज्ञाप धीरी करीरे बोलाव्या ऋषि तेह नखथी भूमि ए अक्षर लिखी, स्वर्णजट तुम कुलपति जेहरे, कोई देव सरापे एहरे, थयो व्याघ्र तणो ए देहरे, एहमां मधरो मन संदेहरे ॥ कर्म० २३॥ धर्म तत्व ज्ञानी थकीरे, नर थाइश नीरधार, खोली लावो तेहने, बीजे खंडे अधिकाररे, सुणे श्रीजयानंद कुमाररे, ढाळ त्रीसमी अती मनोहाररे, कहे पद्म विजय सुखकाररे, जिन धर्मथी जय जयकाररे ॥ कर्म० २४॥ सर्व गाथा ८८४

दुहा.

अमचा धर्मने उपरे, उत्कृष्टो नहीं अन्य; मंत्र विद्या बहु ।
 ते न थयो धन्य ॥ १ ॥ अक्षपादने उल्लुकता, सांख्य शैव सहुकोय, कठिन थई उद्यम करे, हुंशे विफला होय ॥ २ ॥ तापस तव चिंतातुरा, आव्यो नहीं उपाय, मुज जादि देई सहु मुनि, गिरि चुडने गया ठाय ॥ ३ ॥ पवित्र थईने पाथर्यो, दर्भ संभारो दक्ष; ध्यांनासन वेशी धुरे, जाप करे पुर जक्ष ॥ ४ ॥ उपवासी आदर करी, संभारे मुर तेह; अंते आठ उपवासने, आवी पूछे एह ॥ ५ ॥ तव बोल्या ते कुलपति, स्वामी करी स्वरूप; मुर कहे हुं समरथ नहीं, सांभलो तास सरूप ॥ ६ ॥ शक्ति ए मोहोटा मुरतणी, कहो बीजी कांय बात; तापस कहे धर्म तत्वनी, जाण लावो जोई जात ॥ ७ ॥

॥ ढाल ३१ मी ॥

रमतां ते फाटो घाघरोरे, दस गज फाटो-चीररे हुंबे ॥ ए देशी ॥-

ज्ञानीने पूछी करीरे, धर्म तल्लनो जाणरे प्राणी; सुर कहे जूढी नही वात
ए प्रमाणी ॥ ८ ॥ क्षणके जईने आवीओरे, कहे सुणो चोये दिन रे तेह;
मिल्ले कही देव गयो, गगने सनेह ॥ ९ ॥ मुज आदे तापस सहुरे, पार-
णा दिनथी आजरे जाणो; वाट जातां चोथे दिने, भाग्यथी पिछाणो ॥ १० ॥
शक्ति होय जो तुममारि, तो करो उपगाररे स्वामी; संत करे उपगारं परने
पामी ॥ ११ ॥ हरिवीरना मुखथी सुणीरे, व्याघ्र चरित्र विचित्र बोले; क-
रथुं तुमचु काम, अमे धर्मथी अ डोले ॥ १२ ॥ पण तुम सर्वज्ञ भाखीओरे,
धर्म करो अंगीकाररे रूढो, तो तिरिपणो ठेलि काढर्युं ए कूडो ॥ १३ ॥
ते कहे काम अमारदुरे, करर्यो तव सुर वयणथी ए जाणुं, तल जाण गुरु
सत्य ए वखाणुं ॥ १४ ॥ लावो वन्हि कुमर कहेरे वली फल प्रमुख अनेक ते
मंगावे ते पण सर्व लावे चित्तकर्युं स्वभावे ॥ १५ ॥ आढंवेरे ए मानर्येरे, इंम
चित्तवी वन्हि कुंड कर्यो तिणे, स्नान मुद्रा ध्यानआसनादि जिणे ॥ १६ ॥
वाघ पासे वेसारिनेरे, मंत्र उच्चरी करी होम हाथि फरसे; फूंक दिए जूओ
काम केहवुं करवो ॥ १७ ॥ मंत्रो यथा: ॐ नमोर्हदभ्यः -हिसर्व संपद्धशी
करेभ्यः ह्रीं नमः सर्व सिद्धेभ्यः सिद्धनंतचतुष्टयेभ्यः श्रीनमआचार्येभ्यः प-
चाचार धरेभ्यः ॐ नमउपाध्यायेभ्यः सर्व विघ्नभयापहारिभ्यः ॐ नमः सर्व
साधुभ्यः सर्व दुष्टगणोच्चाटनेभ्यः सर्वा भीष्टान् साधय साधय सर्व विघ्नान्
स्फटय स्फटय सर्व दुष्टानु च्चाटय च्चाटय हूं फूट स्वाहाः पूर्व ढाल. रेळणी
दीधी औपधीरे, इच्छित रुप थाए तेह मुके हाथे, लघु लाघवी कलाकरी व्याघ्र
माथे ॥ १८ ॥ तास प्रभावे नर दूओरे, कुलपातिने नमे तेह मोदे माता; स्तव
ना करे कुमर केरी तुही मात भ्राता ॥ १९ ॥ कुल पति आलिंगन करीरे,
कहे तुज हो नमस्काररे भाई; हायो मानव भव तें दिओए आई ॥ २० ॥
पूछे कुमर तापस मिलिरे, कुल पातिने वृत्तांच तव भाखे; कन्या वरने अंध
भमुं गाय नगर लाखे ॥ २१ ॥ पर्यक साथे एकदारे, पर्वत शिर पडयो तांम

निज देखुं, व्याघ्र रूपे तव दुखनुं न लेखुं ॥ २२ ॥ शिला उपर ध्याने र-
ह्यारे, जैन मुनि एक देव तस आगे; च्यार देवीशुं परिवर्यो, तिहां साधुजीने
रागे ॥ २३ ॥ गीत वाजिज नाटिक करेरे, विश्वने नयणानंदरे थाए; में चिंत्युं
मुज अपराध कोई प्राये ॥ २४ ॥ ए मुनिए मुज नाखीओरे, प्रणम्यो दुख-
थी ताम हुं रोतो; निज भाषाए बोळुं ईम आहु अवलुं जोतो ॥ २५ ॥ शो
अपराध स्वामी कहोरे, मुज कर्यो वाघ हवे मुज कृपा कीजे; खमी अपराध
माहरुं मानवपणुं दीजे ॥ २६ ॥ कल्पना पण हुं करुं नहीरे, मुनि कहे म-
नमां अंशरे ज्ञाणो; पण सुरवरे कर्युं कांय रोशथी भराणो ॥ २७ ॥ ना-
टिक पूरु जव कर्युरे, मे मुनि पूछ्युं तामरे स्वामी; कुण ए देव कोप्यो के-
म मुजमां खामी ॥ २८ ॥ मुनि कहे सांभल ते कथारे, बीजे खंडे एकत्रीस-
मी ए ढाल; पञ्चविजय कहे मुणतां मंगल माल ॥ २९ ॥ सर्व गाथा. ९१३



॥ हुहा ॥

विद्याधरमां हुं बडो, रमणी तजी वली रीधि; प्रवज्यां में पडी वजी,
पढ्यो आगम पर सिद्ध ॥ १ ॥ एकाकी आणा लही, विचरुं वारु रति; प्र-
तिबोधुं भव्य प्राणिने, तप तपतो धरी प्रीत. ॥ २ ॥ गगने जातां गिरि सिरे,
एक दिन दीहुं एम; सायजने सिंह माहतो, न शक्यो देखी नेम. ॥ ३ ॥
अंतरथी हुं उत्तयो, तप पर भावे ताम; सिंह नाठो शका धरी, करि उप-
गारने काम, ॥ ४ ॥ पाप सरव पचखावीयां, दीघां नव पद सार; रुब
खमावे सलने, पामी गुरु उपगार. ॥ ५ ॥ शुभ ध्याने मरी सोहमे, मणि
चूल सुरनाम; पंच परमेष्टि प्रभावथी, उत्तम गुण अभिराम. ॥ ६ ॥

॥ ढाल ३२ मी. ॥

मौरा साहिवहो श्री सीतलनाथ के ॥ ए देशी ॥

तेह देवता हो, चिंते ओहि नाणके, पूरव शून्य में शं कर्युं, तव जाण्यो
हो, माहरो उपकारके, बीजुं सर्व कामे सर्युं ॥ ७ ॥ बहु भक्ते हो, प्रणम्यो
मुज पायके, मुज वृत्तांत संभलावीओ, एहवे तुज हो, पर्यंकनी छांयके, देखी

॥ ढाल ११ मी ॥

रमतां ते फाटो घाघरोरे, दस गज फाटो चीररे हुंवे ॥ ए देशी ॥

ज्ञानीने पूछी करीरे, धर्म तत्वनो जाणरे प्राणी; सुर कहे जूटी नही वात
ए प्रमाणी ॥ ८ ॥ क्षणक जईने आवीओरे, कहे सुणो चौथे दिन रे तेह;
मिलशे कही देव गयो, गगने सनेह ॥ ९ ॥ मुज आदे तापस सहुरे, पार-
णा दिनथी आजरे जाणो; वाट जातां चौथे दिने, भाग्यथी पिछाणो ॥ १० ॥
शक्ति होय जो तुममारि, तो करो उपगाररे स्वामी; संत करे उपगाररं परने
पामी ॥ ११ ॥ हरिवीरना मुखथी सुणीरे, व्याघ्र चरित्र विचित्र बोले; क-
रथुं तुमचु काम, अमे धर्मथी अ डोले ॥ १२ ॥ पण तुम सर्वज्ञ भाखीओरे,
धर्म करो अंगिकाररे रूडो, तो तिरिपणो ठेलि काढरथुं ए कूडो ॥ १३ ॥
ते कहे काम अमारहुरे, कररथो तव सुर वयणथी ए जाणुं, तल जाण गुरु
सत्य ए वखाणुं ॥ १४ ॥ लावो वन्हि कुमर कहेरे वली फल प्रमुख अनेक ते
मंगावे ते पण सर्व लावे चित्तरथुं स्वभावे ॥ १५ ॥ आडंबरु ए मानरथेरे, इम
चितवी वन्हि कुंड कर्यो तिणे, स्नान मुद्रा ध्यानआसनादि जिणे ॥ १६ ॥
वाघ पासे वेसारिनेरे, मंत्र उच्चरी करी होम हाथि फरसे; फूंक दिए जूओ
काम केहवुं करशे ॥ १७ ॥ मंत्रो यथा: ॐ नमोर्हदभ्यः - हीसर्व संपद्धशी
करेभ्यः ही नमः सर्व सिद्धेभ्यः सिद्धनंतचतुष्टयेभ्यः श्रीनमआचार्येभ्यः प-
चाचार धरेभ्यः ॐ नमउपाध्यायेभ्यः सर्व विघ्नभयापहारिभ्यः आनमः सर्व
साधुभ्यः सर्व दुष्टगणोच्चाटनेभ्यः सर्वा भीष्टान् साधय साधय सर्व विघ्नान्
स्फोटय स्फोटय सर्व दुष्टानु च्चाटय च्चाटय हूं फूट स्वाहा: पूर्व ढाल. रेछणी
दीधी औषधीरे, इच्छित रूप थाए तेह मुके हाथे, लघु लाघवी कलाकरी व्याघ्र
माथे ॥ १८ ॥ तास प्रभावे नर हूओरे, कुलपातिने नमे तेह मोदे माता; स्तव
ना करे कुमर केरी तुही मात भ्राता ॥ १९ ॥ कुल पति आर्लिंगन करीरे,
कहे तुज हो नमस्काररे भाई; द्यार्यो मानव भव तें दिआए आई ॥ २० ॥
पूछे कुमर तापस-मिलिरे, कुल पातिने छतांत तव भाखे; कन्या वरने अर्थ
भयुं गाम नगर लाखे ॥ २१ ॥ पर्यक साथे एकदारे, पर्वत शिर पडथो तांम

निज देखुं, व्याघ्र रूपे तव दुखनुं न लेखुं ॥ २२ ॥ शिला उपर ध्याने र-
हारे, जैन मुनि एक देव तस आगे; च्यार देवीशुं परिवर्यो, तिहां साधुजीने
रामे ॥ २३ ॥ गीत वाजित्र नाटिक करेरे, विश्वने नयणानंदरे थाए; में चित्तुं
मुज अपराध कोई प्राये ॥ २४ ॥ ए मुनिए मुज नाखीओरे, प्रणम्यो दुख-
थी ताम हुं रोतो; निज भापाए बोलुं ईम आहु अवलुं जोतो ॥ २५ ॥ शो
अपराध स्वामी कहोरे, मुज कर्यो वाघ हवे मुज कृपा कीजे; स्वामी अपराध
माहरुं मानवपणुं दीजे ॥ २६ ॥ कल्पना पण हुं करुं नहीरे, मुनि कहे म-
नमां अंशरे जाणो; पण सुरवरे कर्युं कांय रीक्षथी भराणो ॥ २७ ॥ ना-
टिक पूरु जव कर्युरे, मे मुनि पूछयुं तामरे स्वामी; कुण ए देव कोप्यो के-
म मुजमां खामी ॥ २८ ॥ मुनि कहे सांभल ते कथारे, बीजे खंडे एकत्रीस-
मी ए ढाल; पद्मविजय कहे सुणतां मंगल माल ॥ २९ ॥ सर्व गाथा. ९५३



॥ दुहा ॥

विद्याधरमां हुं वडो, रमणी तजी वली रीधि; प्रवज्यां में पडी वजी,
पद्म्यो आगम पर सिद्ध ॥ १ ॥ एकाकी आणा लही, विचरुं वारु रीत; प्र-
तिबोधुं भव्य प्राणिने, तप तपतो धरी प्रीत. ॥ २ ॥ गगने जातां गिरि सिरे,
एक दिन दीठुं एम; सामजने सिंह मारतो, न शक्यो देखी नेम. ॥ ३ ॥
अंतरथी हुं उत्थो, तप पर भावे ताम; सिंह नाठो शका धरी, करि उप-
गारने काम; ॥ ४ ॥ पाप सरव पचस्त्रावीर्या, दीधां नव पद सार; रुवे
खमावे सत्तने, पामी गुरु उपगार. ॥ ५ ॥ शुभ ध्याने मरी सोहमे, मणि
चूल सुरनाम; पंच परमेष्टि प्रभावथी, उत्तम गुण अभिराम. ॥ ६ ॥

॥ ढाल ३२ मी. ॥

मोरा साहिवहो श्री सीतलनाथ के ॥ ए देशी ॥

तेह देवता हो, चिते ओहि नाणके, पूरव मूण्य में श्रुं कर्युं, तव जाण्यो
हो, माहरो उपकारके, बीजुं सर्व कामे सर्युं ॥ ७ ॥ बहु भक्ते हो, प्रणम्यो
मुज पायके, मुज वृत्तांत संभलावीओ, एहवे तुज हो, पर्यकनी छांयके, देखी

क्रोधमां आवीओ. ॥ ८ ॥ आशातनाहो, मुज उपरे देखिके, देई शराप दु-
 खी कर्यो, एम सांभली हो, मुनिवरनी वाणिके, ते सुर आगल संचर्यो. ॥९॥
 आंसु झरतो हो, कहे दिन वचनके, मुकां शराप करो कृपा, कहे निर्जरहो,
 राज्यादिक छांडिके, रे मुढ तुं छे गत त्रपा. ॥१०॥ मुनि केरीहो, आशात-
 ना कीधके, फोगट तप तुं आचरे, जानिज पद हो, पर्यके वैसिके, मुज पर
 भावे संचरे. ॥ ११ ॥ एक मासे हो, धर्म तलनो जाणके, मूल रूपे करशे
 तने, ते पासेहो, समजी धर्म तलके, कन्या तुज देख्ये मने. ॥ १२ ॥ हुं आ-
 व्योहो, तिहांथी इणे ठामके, वात आगल जाणो सवे, ते सांभली हो, तापशने कु-
 मारके, विस्मयथी गुण संस्तवे. ॥ १३ ॥ करे ओत्सवहो, मंगलना गतिके, गाए ता-
 पसणी घणुं, कहे कुमरने हो, समजावो धर्मके, जिम अम जाय मिथ्यापणुं.
 ॥ १४ ॥ विस्तारेहो, कुमरे कस्यो धर्मके, साधु श्रावक विहुं भेदथी, बुझ्या
 तापस हो, समकित इयुं शुद्धके, अणुं व्रत लिए गत खेदथी. ॥ १५ ॥ कहे
 कुलपति हो, देवे कस्यो मुजके, कन्या भावी वर तुमो, तिणे परणोहो, क-
 री वयण प्रमाणके, जिम राजी थाचं अमो. ॥१६॥ नवि वोल्योहो, मुणी
 तेह कुमारके, ताम कुसुम वृष्टि थई, देखी तापस हो, विस्मय लह्या चित्तके, तव गि-
 रिचूड तिहां सुरवई. ॥ १७ ॥ थइ परगट हो, कहे सांभलो वातके, में ते ज्ञानी पू-
 छया जई, नर थाशेहो, किणि परे कहो स्वामिके, तव ज्ञानी कहे शुभ मई ॥ १८ ॥
 तल ज्ञानी हो, संगे नर थायके, में पूछ्युं किम जाणीए, ज्ञानी वोलजा हो, तूज
 सूर रूपके, जीतशे ए सहनाणीए ॥ १९ ॥ तव हुं भम्योहो, राजधानी
 अनेकके, कोलरूपे पण कोनहीं, मुज जीत्योहो, तव हेमपुर जायके, वन
 भंजवाड करू तहीं ॥ २० ॥ भूपना सुतहो, शत नाठा जायके, वण शस्त्रे
 इणे जीतीओ, गज रूपेहो, हरी लाव्यो तामके; कही इम वातो अतीतीओ
 ॥ २१ ॥ ऊदारताहो, शौर्यता उपगारके, धर्म प्रमुख गुण एहवो, नही वी
 जोहो, जगमां अद्भूतके, अनुभवीओ में जेहवो ॥ २२ ॥ कौतुके करीहो,
 रही छांनो अत्रके, सवि जोयुं नयणे करी, वली सांभल्योहो, अरिहंतनो
 धर्मके, भवसायरमा ए तरी ॥ २३ ॥ पूरव भवहो, संस्कारने जागके, बुझ्यो

ते तुमे सांभलो, धन्यपुरमां हो, धनवंत धन्य नामके, धनदते आगल सांभ-
लो ॥ २४ ॥ प्रिया वसुमती हो, श्रावक एक मित्रके, तस संगे वली गुरु
मल्या, समकित मूलहो, अंगि कर्यो धर्मके, गुरु वयणां तिणे सांभल्यां.
॥ २५ ॥ एक दिन तस हो, नारीने रोगके, उपना ते उपसम भणी, तेडया
वैद्यनेहो, कर्या उपचारके, पण नवि गुणकीधो मुणी ॥ २६ ॥ घणुं रागेहो, मंत्रवादी
तोडि के, ते पण सवि निष्फल थया, गाढ स्नेहेहो, गेहेला परे तेहके, पग पग पू-
छे पति सया ॥ २७ ॥ जटीका पडीहो, प्रयोगना जाणके, जे साजी करे
सुज प्रिया, तेहने आपुहो, लक्ष सुणी इम वातके, एक जटी कहे करुं क्रि-
या ॥ २८ ॥ क्षणमां करुं हो, नीरोगी नारिके, पण लेशुं मुखे जे कहुं,
मानी तेणेहो, विनये करी वाणिके, बोल्युं ते हुं नविजहुं ॥ २९ ॥
जोइ नारिनेहो, तिणे कीध उपायके, रोग गयो अनुक्रमे वही,
ते देखी हो, विस्मय लह्यो चित्तके, साचो ते एहज सही ॥ ३० ॥ करी आ-
ग्रहहो, राख्यो एक मासके, तिणे जैन धरमे शिथल कर्यो, तिणे पाम्योहो,
व्यंतर भव एहके, सेठते हुं दुरगति धर्यो ॥ ३१ ॥ तापस साथेहो, समकि-
त लह्यो आजके, धर्म तणी वाणी सुणी, गुरु माथेहो, फुलनी करी वृष्टिके,
ए सरिखो जग नही गुणी ॥ ३२ ॥ बीजे खंडेहो, वत्रीसमी ढालके, पद्म
विजय इणि परे कही, सुणो श्रोताहो, चित राखी ठामके, निद्रा विकथा
सविजही, ॥ ३३ ॥ सर्व गाथा ९४६

॥ दुहा. ॥

देव कहे घो एहने, यौवन कन्या योग, सुरवरे भाख्यो ए सखर, सूधो
ए संयोग. ॥ १ ॥ ओछवथी उपगारिने, परणावो धरी प्रेम, थाशुं कृतार-
थ इणि परे, जाए फिकर वली जेम. ॥ २ ॥ कुलपतिए अंगी कर्युं, कुमरने
प्रार्थना कीध; सामग्री सुरवर करे, प्रत्युपकार भसिद्ध. ॥ ३ ॥

॥ ढाळ ३३ मी ॥

॥ जूमखडानी देशी. ॥

कनक मंडप तिहां सुररचे, रयणमइ रचे थंभ, सोभागी सांभलो, तोर-
ण मुक्ता मालनां, देखी होय अचंभ ॥ सो० ४ ॥ देवी तापसणी मली,
गावे मंगल गीत सो०; दुंदुभि नाद वजावता, कुसुम माल सुरनीत ॥ सो०
५ ॥ विरुदा वली सुर बोलता, विद्याधर संयुक्त सो०; ओत्सव सुर तिहां
वहु करे, ऊपगारी आ कृत ॥ सो० ६ ॥ कन्या तापस सुदरी, दिव्य भूषण
वस्त्रधार सो०; तापसे परणावी तदा, कुमरे परणी नार ॥ सो० ७ ॥ कुमर-
ने आपे देवता, वस्त्राभरण अनेक सो०; गगन गामी दिए ढोलीओ, कुल-
पति धरिय विवेक ॥ सो० ८ ॥ ते वन रमणीकमां रचे, गिरि चूड देव
विशाल सो०; सप्त भौमि सोनामयि, महोल तिहां तत्काल ॥ सो० ९ ॥
स्वर्गविमान ज्युं सोभतो, तेह कुमरने काज सो०; खादिम स्वादिम पुरियो,
सर्वागे सुखसाज ॥ सो० १० ॥ बहु सुरना परिवार शुं, सेवा करे सुखकार
सो०; अप्सरा सरिखी नारिशुं, भोगवे भोगकुमार ॥ सो० ११ ॥ तिर्थ अ-
नेकने वांदता, पल्यंकने बले तेह सो०; कोइ दिन नारि विना जाए, कोइ
दिन नारिशुं नेह ॥ सो० १२ ॥ नदी वनमां ऋडा करे, वली तापसने
कुमार सो०; जैनधरम विधि शीखवे, सम्यग जेह प्रकार ॥ सो० १३ ॥
उपदेश चारित्रनो दिए, ज्ञानतणुं फलसार सो०; उचित भण्या ते अनु-
क्रमे, जाणे क्रिया व्यवहार ॥ सो० १४ ॥ दक्ष थया जिनशासने, चारित्र
ईच्छावंत सो०; भव वैराग्यथी ते रहे, नित्य वैराग्य महंत ॥ सो० १५ ॥
वीजे खंडे ए कही, तेत्रीसमी वर ढाळ सो०; श्री जयानंद रासे थयो, वीजो
खंड रसाल ॥ सो० १६ ॥ सखाविजय पन्यासना, कपूरविजय वर शिष्य
सो०; खिमाविजय वर तेहना, चढती जासजगीस ॥ सो० १७ ॥ जिनवि-
जयो जगमां जयो, तेहना शिष्य अनेक सो०; ऊत्तम विजय तेंहमां थया,
पंडित वारू विवेक ॥ सो० १८ ॥ तस पद पंकज आलिसमो, पन्नविजय ज-
सनाम सो०; तास कृपाथी भाखीओ, खंड वीजो अभिराम ॥ सो० १९ ॥

इतिश्रीमत्संविज्ञ पक्षीय पंडित प्रवर पं श्रीलक्ष्मणविजयजी गणिविनयपं पत्र
 विजय गण विरचिते प्राकृतप्रबंधे श्रीश्रीजयानंद केवलि चरित्रे सहस्राधादि
 राजर्षि चतुष्टय चरित्रेण चारित्र धर्म वर्णन आद्य धर्म कलित चक्रायुध च-
 रित्र वर्णन प्रथम व्रत पालन महात्म्य सूचक भीम सोम द्रष्टांत श्रीजयानंद
 प्रतिबोधोदादि वर्णन हंसकाकनि दर्शनेन श्रीमदानंद गजद्रष्टांतेनचद्वितीय व्रत
 पालन फल दर्शन श्रीजयानंद कुमार कला ग्रहण मणिमंजरी प्रथम पत्नी
 परिणयन श्रीजयानंद कुमारस्य महासेन पल्लीश विजयगिरि मालिनी देवी
 प्रतिबोध तदर्पित महौषधि ध्वयलाभ हेमपुर पुरागमन सौभाग्यमंजरी द्विती-
 य पत्नी परिणयन रेळणी देवी प्रतिबोध तदर्पित कामित रूपकारि महौष-
 धी प्राप्तिहेमप्रभ भूपादि प्रतिबोध लाभादि श्रीजयानंद कुमारस्य देशांतर
 चर्यायां हेमपुर पुरोध्यानगत दुरजय कोलविजय तापसाश्रम गमन स्वर्ण
 जट कुलपत्यादि तापस पंचशति सहित गिरिचूड यक्ष प्रतिबोध कुलपति
 पुत्री तापस सुंदरी तृतीय पत्नी परिणयन कुलपति दत्तपत्यंक विद्या न्वि-
 त गगनगामि पत्यंकवलेन नाना तिर्य नमस्करणादि वर्णनो नामद्वितियः
 खंड समाप्तः प्रथम खंडे गाथा ४४४ द्वितीय खंडे गाथा ९६६ सर्व थइ गा-
 था १४१० प्रथम खंडे उक्त श्लोक १३ द्वितीय खंडे उक्त श्लोक १९ सर्व
 थइ उक्त श्लोक ३२ सबइओ १

॥ खंड त्रीजो. ॥



॥ दुहा ॥

शासन नायक समरीए, वर्द्धमान विख्यात; देवारयने द्रव्य गुण, सर्व भाषा विख्यात. ॥ १ ॥ त्रीजो खंड बहु भातशुं, विगत वरणव्यो एम; त्रीजो खंड कहुं तुरत, सांभलो श्रोता प्रेम. ॥ २ ॥ उंधेने अति आलशुं, शिशुं रमवे करे सान; आहुने अवलुं जूए, वक्ता शुं करे वाख्यान. ॥ ३ ॥ नयने नयन मिलावीने, वदन विकश्वरवंत; वाणि सुणे वक्तातणी, ते दिए हर्ष अत्यंत. ॥ ४ ॥ ते माटे निज मति तजी, सांभलो चतुर मुजाण; श्रीजयानंदना रासमां, आगल कहुं आख्यान. ॥ ५ ॥

॥ ढाल १ ली. ॥

॥ जीरे म्हारे जाग्यो कुमर जाम. ॥ ए देशी. ॥

जीरे मारे एक दिन सातमी भूमि, वेठा रयण सिंहासने जीरेजी; जीरे गगने निरखे कुमार, आवतो देखे निज कने जीरेजी. ॥ ६ ॥ जीरे परि ब्राजक मुरूप, यौवन वय आव्यो तिहां जीरेजी; जीरे देई आशीश वईठ, कुमर कहे रहो छो किहां जीरेजी. ॥ ७ ॥ जीरे कोण तुमे इये हेत, आव्या ते कारण कहो जीरेजी, जीरे कीजे ते तुम काम, थाळं कृतारथ अमे अहो जीरेजी. ॥ ८ ॥ जीरे जाणी न करे काम, आवे कलंक दाता भणी जीरेजी; जीरे तेह कृतारथ जाणि, आश पूरे याचक तणी जीरेजी ॥ ९ ॥ जीरे अवलु सुख करी जेह, याचक देखीने रहा जीरेजी; जीरे द्रुम गिरि समुद्र न भार, ते धरतीने भारे कहा जीरेजी. ॥ १० ॥ यतः मीयतां कथम भीप्सित मेपां, दीयतां हृत मया चित्त मेव; तंधिग स्तुकलयन्नपिवांछा, मर्थि वागव सरसहतेयः १ पूर्व ढाल. जीरे कुमर चितवे एम, किम वोल्या विण जाणीए जीरेजी; जीरे परिव्राजक कहे ताम, तुं मूरवीर कुलखाणीए जीरेजी

॥ ११ ॥ जीरे तुज असाध्य न कांय, पर उपगारी तुं वडो जीरेजी; जीरे तुज सम अवरन कोय, तुं जगमां जिम केवडो जीरेजी. ॥ १२ ॥ जीरे सांभल मारी वात, गंगा तटे मुज गुरु रहे जीरेजी; जीरे भद्रदत्त अभिधान, जे आम्नाय बहु लहे जीरेजी. ॥ १३ ॥ जीरे हुं गंगदत्त तसशीश, औषधी कल्प गुरु दिए जीरेजी; जीरे मलय कूटे बहु तेह, ओलखु सघली छे हूँये जीरेजी. ॥ १४ ॥ जीरे जाणुं सम्यगताम, साधुं विधयी ए यदा जीरेजी; जीरे जई तिहां बहुवार, साधवा मांडी में तदा जीरेजी. ॥ १५ ॥ जीरे मलयमाल क्षेत्रपाल, ए पर्वतनो अधिपाति जीरेजी; जीरे वीवरावे मुज तेह, करे उपसर्ग बली अती जीरेजी. ॥ १६ ॥ जीरे पादलेप गुरु दीध, तेह आम्नायथी अंबरे जीरेजी; जीरे योजन एक उतपात, जाऊं हुं ए शक्ति वरे जीरेजी. ॥ १७ ॥ जीरे आव्यो इण वनमांही, दीतुं धाम कनकतणुं जीरेजी; जीरे पूछी तापसने वात, उत्तर सुणी हरख्योघणुं जीरेजी ॥ १८ ॥ जीरे लोकोत्तर तुज वात, सुरपण तुज न विजय करे जीरेजी; जीरे जाचवा तुमची पास, स्वार्थ सिद्धि तुम आशरे जीरेजी. ॥ १९ ॥ जीरे योगने जाचना जेह, तेहमां लाज आवे नहीं जीरेजी; जीरे जो समरथ छो ताम, उत्तर साधकहो वही जीरेजी. ॥ २० ॥ जीरे कुअर वोल्या ताम, एमां थुं भारे अछे जीरेजी; जीरे यम जीती करुं काम, तेहथी सहु हलका पछे जीरेजी. ॥ २१ ॥ जीरे परिव्राजक कहे ताम, ए सवि तुममां संभवे जीरेजी; जीरे पण सोजोजन दूर, पर्वत इहांथी होए जवे जीरेजी. ॥ २२ ॥ जीरे बारशे मांडवो मंत्र, पुरो होय त्रणे दिनें जीरेजी; जीरे जो निरविघ्ने थाय, चौदश दिन सिद्धि वने जीरेजी. ॥ २३ ॥ जीरे वद आठम छे आज, सज थाओ विहाणे चालीए जीरेजी; जीरे खंध बेसाढी तुज, जातां त्रण दिन भालीए जीरेजी. ॥ २४ ॥ जीरे हसीने कहे कुमार, स्वार्थ साधो तुमे जाओ सुखे जीरेजी, जीरे बारशे आवथुं प्रभात, निज शक्ते जाणो सखे जीरेजी. ॥ २५ ॥ जीरे मधरो संदेह लगार, वयण सयणनां नवि चले जीरेजी; जीरे अचला मेरु दृष्टांत, सांभली ते हर्षज धरे जीरेजी. ॥ २६ ॥ जीरे जणवी मलवा ठाम, परिव्राजक थानिक गयो जीरे-

(१०४)

श्री जयानंद केवळीनी रास.

जी, जीरे नारिने कहे कुमार, परलपगार अवसर थयो जीरेजी. ॥ २७ ॥
जीरे दिवस थये मुज ऋण, कार्य करी आवुं खरो जीरेजी; जीरे पुण्य अंश
थयो तुज, तातनो विनय तुमे करो जीरेजी. ॥२८॥ जीरे एकादशीनी रात,
कुमर पल्यंके आवीयो जीरेजी; जीरे पल्यंक गोपवीतध्ध, साधकने मिल्यो
भावीओ जीरेजी. ॥ २९ ॥ जीरे त्रीजे खंडे एह, पहेली ढाळ सोहामणी
जीरेजी; जीरे पद्यविजय कहे वात, आगल घणुं रळीआमणी जीरेजी.
॥ ३० ॥

॥ दुहा. ॥

कुमर ते साधकने कहे, मुखमां विद्या साध; तिणे पण मांडी ततक्षणे,
विधिए करी विण धाध. ॥ १ श्रीजय सायुध अति सुभट, विघन करे वि-
शाराल; पूरव दिशि निशि पेखतो, धूम बहु धूंघाल. ॥ २ ॥ अंधित दिशि
मुख अति थयुं, देवीए औपश्री दीध; ते संभारे ततक्षणे, नमस्कार वली नि-
ध. ॥ ३ ॥ विलय थयो चारुपरे, अग्नि देखे आप; अट्टहास्य भीषण अति
ततक्षण आपे ताप. ॥ ४ ॥ तोपण शोभ्यो ते नहीं, धीरय हृदय धारि; अं-
वर चाणी एहवी, सांभल अतिहि असार. ॥ ५ ॥

॥ ढाळ २ जी ॥

॥ बन्योरे कुअरजीनो सेहरो. ॥ ए देशी. ॥

कहेतो पहेलां साधक भळुं, के उत्तर साधक एहरे कुमार; तव ऋटकी
श्रीजय बोलीओ, खा पथर ए तुज गेहरे सुरिंद ॥६॥ श्रीजयदेवेशुं जूझतो ॥
नहीं ताहरे वन अमे दौयळुं, किम केसरीने मृग खायरे सुरिंद० अथवा
सिंहे मृग-राखीओ, तेह सामुं नवि जोवायरे ॥ सु० श्री० ७ ॥ जीतुं हुं
सक समानने, तो ताहरी केही वातरे सु०; फरी देव खोख्यो आकाशमां, तुं
मानव कीटक मातरे ॥ कु० श्री० ८ ॥ कुण सुरस कोई माटे मरे, तुं नवि
जाणे कांय वालरे कु० किम सुरने जीते मानवी, ए जाणे बाल गोपालरे
॥ कु० श्री० ९ ॥ जा दूर तुं तुजने नहिं हणुं, तुं निरअपराधि जेणरे कु०,

तू रक्षक छते पण मारथुं, साधक सापराधी तेणरे ॥ कु० श्री० १० ॥
 मुज पर्वत औपधी इच्छतो, विद्या साधे छे एहरे कु०; मुज अरचादिक न
 कर्युं इणे, तिणे मारीश निःसंदेहरे ॥ कु० श्री० ११ ॥ तव बोले कुंमर हसी
 करी, थु अदश रही करे वातरे सु०; जो वरिपणुं चित्तमां धरे, तो परगट
 था साक्षातरे ॥ सु० श्री० १२ ॥ इम तर्जित अमर कोपें करी, थयो कोल
 रूपे प्रगहरे सु०; पादाहत कंपित गिरि, सामो आव्यो रणसट्टरे ॥ सु० श्री०
 १३ ॥ देवी दीधी औपधी वले, कुमरे कर्युं सूअर रूपरे सु०; क्रोधे करी
 युद्ध विहु करे, महा दुर्द्धर रौद्र सरूपरे सु० श्री० १४ ॥ घोर घुर्घुर गरजे
 घणुं, तिणे गिरि गुफा करती गाजरे सु०; मांहोमांहे दंतै विदारता, तिम न-
 ख करकश अति साजरे ॥ सु० श्री० १५ ॥ महा कायने महा पराक्रमी,
 स्पर्द्धावंत विहुं वलगंतरे सु०; पर्वत धरती कंपावता, उछलें वली हेठ पडंत
 रे ॥ सु० श्री० १६ ॥ भीपण रण इणिपरे बहु कर्युं, देवता सूअरनी दाढरे
 सु०; कुंअर कोले भागी तिहां, जेहनी हती अतिशय गाढरे ॥ सु० श्री०
 १७ ॥ करी बुंवारव नाशी गयो, कुंअर कोलथी सुर कोलरे सु०; करि ह-
 स्तिनुं रूप प्रगट थयो, उछालतो सुंड कल्लोले ॥ सु० श्री० १८ ॥ तव
 हस्ति रूप कुंअर करी, करे युद्ध चलावे भूमिरे सु०; गिरि श्रृंग पडे गर्जा-
 रवे, मानुं फुटथो हमणां व्योमरे ॥ सु० श्री० १९ ॥ दंत भाग्या सुंड पीडा
 थई, नाठो सुर करि वरतामरे सु०; तिम सिंह रूपे विहु झलता, सुर केस-
 री हायों ते ठामरे ॥ सु० श्री० २० ॥ इम सर्व युद्धे सर हारिओ, तव क्रोध
 चढथो असंतरे सु०; भीपण रूप करे हवे, अति रौद्र वीभत्स देखंतरे ॥ सु०
 श्री० २१ ॥ ताह उंच्च स्थूल जंघावनी, गिरि कंदरा उदर वखाणरे सु०;
 पृथु लांबी शिला सम ऋदय छे, लांबी कृश कोटि प्रमाणरे ॥ सु० श्री०
 २२ ॥ वड शाखा समभुजा जेहनी, स्थूल रज्जू समान साजालरे सु०; नी-
 सातरा सम जस आंगुली, अंजन सम वर्णे कालरे ॥ सु० श्री० २३ ॥ की-
 लक सम दंतावली, अग्नि थानक सम नयनरे सु०; स्थूलने लघु चिप्पट
 नाशिका, कढाह समान वदजरे ॥ सु० श्री० २४ ॥ शिर त्रण कोण मूढक

समु, स्थूल काबरा-जेहना केशरे सु०; विल कान गाल बेशी गया, नादे गाजतो शैलेशरे ॥ सु० श्री० २५ ॥ डमरूक वजावे कर थकी, स्फुटा टोप करे वली नागरे सु०; मोगर करवाल धर्या करे, इम च्यार हाथनो लागरे ॥ सु० श्री० २६ ॥ भुजा स्फोट अटाट्य हास्य हवे, सांभलरे हुं क्षेत्रपालरे कु०; मलय माल नामे वडो, करुं वैरीनो हुं कालरे ॥ कु० श्री २७ ॥ तुज शुं में युध्ध कर्यो जिके, ते युध्ध क्रीडाने काजरे कु०; मत जाणज्ये हुं जीसो अहुं, सुर न जिताए कोई आजरे ॥ कु० श्री० २८ ॥ हजी कांय गयुं न-थी ताहरुं, मरे परने अर्थे केमरे कु०; मुज बालने मारतां जस नहीं, जिव-तो मुकथो जा क्षेमरे ॥ कु० श्री० २९ ॥ कहे कुमर ताहरे क्रीडा थइ, माहरे थयो उपगाररे सु०; सुर असुरपति पण नवि गणुं, मुज आगळ तुज शो भाररे सु० श्री० ३० ॥ जिताए तेजे न वय थकी, नगशिर दिए पद रवि बालरे सु०, धीर मरण इछे उपगारथी, मत मरणनी बीक दे खालिरे सु० श्री० ३१ ॥ यतःहस्तिस्थूलतमःसर्चाकुशवशःकिंहस्तिमात्रांकुशोवज्रेणापिहताः पनातिगिरयःकिंवज्रमात्रोगिरिःदीपेभ्रजलतिप्रणस्यतितमःकिंदीपमात्रंतमस्तेजो यस्याविराजतेसवलवान्स्थूलेशुकप्रसयः. १ पूर्व ॥ढाळ.॥ जय मरण जाणशुं युध्धे करी, फिरी युद्ध करोजो हुंश होयरे सु०; इम तर्जित क्रोध लही करी, धायो असि मोगर लेई सोयरे ॥ सु० श्री० ३२ ॥ कुंमरे कर्युं रूप ते सारि-खुं, संभारी तव नवकाररे सु०; लेई सज्ज धायां सुर उपरे, दौय घात वंचा-वेतिवाररे ॥ सु० श्री० ३३ ॥ इम खडग युद्ध बहु विध करी, दुर्जय जाणयो ए कुमाररे सु०, करी नागने करडे कुमारने, एक हाथे धरी तरवाररे सु० श्री० ३४ ॥ एक हाथे मोगर लेई करी, एक हाथे वजावे तुररे सु०; सर्व शक्ते झुझे चड करे, तव श्रीजय पण अति सुररे ॥ सु० श्री० ३५ ॥ विघ्न-हर औपधीना बळ थकी, वली धर्म पराक्रम तासरे सु०; करवा ले डमरूक भेदिओ, खंडो खंड कर्या नागपासरे ॥ सु० श्री० ३६ ॥ सज्जने मोगर पण चूरियां, तव वृक्ष उपाडे देवरे सु०; कुमरे पण वृक्षे चूरिओ पुण्ये तस ततखेवरे ॥ सु० श्री० ३७ ॥ इम नव नव वृक्षे झुझीओ, वली

स्फुल शिलां सुरे लीधरे सु०; कुधरे पण कधि तिणी परे, देवने पण विस्मय दीधरे ॥ सु० श्री० ३८ ॥ हवे मल्ल युद्धथी श्रुल्लता, स्कंध भुज शिर स्फोट करंतरे सु०; पदथी धरती कंपावता, कुर्कट परे उपडे पदंतरे सु० श्री० ३९ ॥ करे मुष्टि प्रहार विहु जणा, पडे उपडे पण न जणायरे सु०; आलोटे पृथ्वी उपरे, उपर हेठल वली थायरे सु० श्री० ४० ॥ युद्धे पण मिले विछडे जदा, तव राग परे परसायरे सु०; सिंहनादने मुष्टि प्रहार-जे, स्कंधा घात भुजा स्फोट करायरे ॥ सु० श्री० ४१ ॥ तस नादे विश्व कंपावता, गिरि गाजे पृथ्वी चलंतरे सु०; दिश वे हरी नदीओ विसंस्थूला, सायरनी वेली वधंतरे ॥ सु० श्री० ४२ ॥ पडे वृक्षथी फल व्रूटी करी, नग-श्रृंगथी तिम शिला पातरे सु०; प्रेत नाचे ने वली नासता, प्रीतिने वली भय आपातरे ॥ सु० श्री० ४३ ॥ मुष्ठादिके श्रीजयानंदजी, करी श्रांत लीलाए तासरे सु०; उलाली दूरे नाखी दीओ, पढथो शिल्ला उपर दुःख राशरे ॥ सु० श्री० ४४ ॥ घोर शब्द ने शिल्ला चूरण थई, पीडा थई तास असंतरे सु०; पण देव माटे खंड नवि थया, सुर चमकयो चित अनंतरे ॥ सु० श्री० ४५ ॥ तस महिमा पराक्रम देखीने, माने मुज जीसो एणरे सु०; कहे वीर तुं जगमां एक छे, निज रूप प्रगट कर तेणरे ॥ सु० श्री० ४६ ॥ त्रीजे खंडे पूरण थई, ए वीजी ढाल रसालरे सु०; कहे पञ्चविजय पुण्ये कशी, सघले लहे मंगलमालरे ॥ सु० श्री० ४७ ॥ सर्व गाथा ७७ ॥



॥ दुहा ॥

नावि जीसो मुजने किणे, जीसो मुजने जेण; जग जीसो ते जाल्यमी, तु-
जने मानुं तेणः ॥ १ ॥ मंत्र धर्म ताहरो मने, कहे मुज करुणा आणि; जिण
बलथी तु जीतोओ, मोटोने माहाराण. ॥ २ ॥ जाणी श्री जयानंदजी, धर्मार्थी
धरे शांत; धरी सहजाकृति धर्मेने, भाखे अति भाग्यवंत. ॥ ३ ॥ धीतराग
मुज देव छे, संजमी गुरु सुजाण; अरिहंत भाषित आदरुं, सार धर्म सपराण.

(१०८)

श्री जयानंद-केवळीनो रास.

॥ ४ ॥ तिणे हूं तुजने जीतीओ, सुणी धर्म विस्तार; सुर कहे वूझ्यो समीपरे,
पोहोचाड्यो भवपार. ॥ ५ ॥

॥ ढाळ ३ जी. ॥

॥ मुनि मन सरोवर हंसलो. ॥ एं देवी. ॥

श्री जयानंदजी सांभलो, धर्म दंत इण नामेरे; पांछले भव हूं श्रावक हुतो,
रांछि घणी मुज घामेरे ॥ श्री० ६ ॥ एक दिन दीठो उद्यानमां, मास क्षम-
ण करनाररे, परिव्राजक निश्चलासनी, ध्यान लीन सु विचाररे ॥ श्री० ७ ॥
नाम धनेश्वर तेहनुं, च्यार कोडि धन सागीरे; माहरो मित्र गृहस्थमां, लोक
वंदन आवे रागीरे ॥ श्री० ८ ॥ में परसंस्यो तेहने, अहो तप सागने ध्यानरे;
श्राघ प्रसंसित कारणे, रायं प्रमुख दिए मानरे ॥ श्री० ९ ॥ इंम समकितमां
लगाडीओ, चोथो मे अति चाररे; बहु मिथ्यात्त वर्त्तावियो, दर्शन हायों ति-
वाररे ॥ श्री० १० ॥ थयो मिथ्याली देवता, समकितवंत जो होयरे; वैमा-
निक सुर उपजे, नेही संदेह ते कोयरे ॥ श्री० ११ ॥ यतः सम्मदिठीजीवो ।
विमाणवज्जनबंधएआऊं ॥ जइविनसम्मत्तजढो । अहवनवद्धाऊओपुन्वि ॥ १ ॥
॥ पूर्वढाळ ॥ चोर्थि विराधिने उपजे, नीच देव मांहि प्राणीरे; फरि समकित लहे
दोहिलं, बहु भव भमे कहे नाणीरे ॥ श्री० १२ ॥ धर्म आराध्यो अति
चरी, न गयो दुरगति तिणेरे; तुज थकी समकित पामियो, पूर्व संस्कार ह-
तो जणिरे ॥ श्री० १३ ॥ ज्ञाने जाणीने भाविडं, तिणे मुज तुं उपगारीरे;
तुंहिज मित्र वांधव गुरु, दे समकित निरधारीरे ॥ श्री० १४ ॥ योग्य नि-
यम वली आपीअे, सांभली तेह कुमाररे; श्रीजय कहे तुं धन्य छे, तुज स-
फल अवताररे ॥ श्री० १५ ॥ समकित तेहने आपीडं, हिंसानो नियम आपे
रे, सुर कहे धर्म दायक तुमे, तुज रणकिणी पर कापरे ॥ श्री० १६ ॥ वर
मागो कांय मुख थकी, देई पूजु तुम पायरे; कुमर कहे कांई खप नहीं, तोप-
ण सांभल भायरे ॥ श्री० १७ ॥ साधक पुरुषने औषधी, आपो वांछित
जेहरे; उद्यम अम विहुं एहनो, सफल करो तुमे तेहरे ॥ श्री० १८ ॥ देव
कहे देशुं सही, पण नहि रहे एहपासेरे; भाग्य विना दरिद्री घरे, रयण नि-

धान न ठाखेरे ॥ श्री० १९ ॥ में आणां करी एहने, औषधी ल्यो मन भा-
वेरे; पंडित औषधी कल्पमां, गुरु कीधो सुंपस्तावेरे ॥ श्री० २० ॥ पण तुं
सार औषधी लेई, मुजने करी उपगाररे; गुरु पूजा होय माहरे, कुमर न
बोल्या तिवाररे ॥ श्री० २१ ॥ पांच औषधीं दिए देवतां, श्रीजयकुमर ते
लीधीरे; सुर कहे महिमा सांभलो, एहवी जगपर सिद्धीरे ॥ श्री० २२ ॥
बे आंगुल जाडी बली, लांबी आंगुल च्याररे; पीली ते मंत्र जपे थके, सीझे
वारहजाररे ॥ श्री० २३ ॥ मंत्रश्चायं ॐमहाभैरवीक्षांक्षौक्षः श्रियंवितर वितर
स्वाहाः ॥ ढाल ॥ रत्न पांचसें आपशे, अर्चयां दिन दिन एहरे; हवे बीजी प-
ण एहवी, वरणे राती छे जेहरे ॥ श्री० २४ ॥ तेहने महिमा पूज्या थकी,
इयुं आपुं इम भाखेरे; माग्याथी विमणुं लिओ तुमे, ल्यो त्रमणु इम दाखेरे
॥ श्री० २५ ॥ कहे पण आपे कांय नही, पण कौतुक एह दीसेरे; पूरवपरे
एहनी साधना, मुणतां हीयहुं हीसेरे ॥ श्री० २६ ॥ मंत्रश्चायं ॥ ॐमहा-
वादिनीज्ञांज्ञौमहाश्रियंवदवदस्वाहाः ॥ ढाल ॥ त्रीजी उजली औषधी, पूरव-
थी अर्द्धमानेरे; एहनी साधना कांय नथी, पण महिमा मुणो कानेरे ॥ श्री०
२७ ॥ थावर जंगम विप हणे, रोग संवे मीटी जांयरे; घात त्रणादिक एहना,
जाए नीर सींचाएरे ॥ श्री० २८ ॥ अरधमाने चौथी एहथी, औषधी वरणे
नीलीरे; पूर्वपरे मंत्र साधनां, साधे काम एकेलीरे ॥ श्री० २९ ॥ चितन अथवा
पूतली, मस्तके औषधी दीधीरे; अतीत अनागत वारता, पूछी कहे संवि सि-
धीरे ॥ श्री० ३० ॥ मंत्रोयथा ॥ ॐमहाघंटेचंदेशासनिप्रणार्थवदवदकैस्वाहाः
॥ ढाल ॥ चौथीए ज्ञानी समी कही, हवे पांचमी जेह स्यांमरे; दुष्ट कामण मं-
त्रं चूर्ण जे, ढाले ए अंभिरांमरे ॥ श्री० ३१ ॥ ए विधि महिमा जे भाखीओ,
कुमरे धार्यो विलासेरे; क्षेत्रपाल इयुं आवीआ, साधक पुरुषने पासेरे ॥ श्री०
३२ ॥ त्रीजे खंडे त्रीजी कही, ढाल अधिक उछासेरे; पंचविजय कही पु-
ण्यनी, श्रीजयानंदने रासेरे ॥ श्री० ३३ ॥ सर्व गाथा ११०

॥ दुहा. ॥

सुर कहे साधक सांभले, ले औषधी मन लाय; ध्यान मुकी धारी करी,
 भद्र जे मनमां भाय. ॥१॥ एह कुमर अनुभाव छे, सांभली सुर पूजेय; निर्जर
 कुमर नभी कहे, श्रीजयानंद मुणोय. ॥ २ ॥ काम पडे सपरण करे, पूछी प्र-
 णमी पाय; निज थानक निर्जर गयो, साधक हवे समजाय. ॥ ३ ॥ भमि
 भमिने मन भावती, औषधी लिए अपार; भाग्य प्रमाणे भलीपरे, विधि पू-
 र्वक अवधार. ॥ ४ ॥ साधक कुमरने कहे मुणो, सघलुं सीधुं काज; तुम प-
 सायथी ततक्षण, माहरुं ए महाराज. ॥ ५ ॥ तुम आणाए जाऊ तुरत, निज
 थानिक निरधार; परउपगार प्रयोदयी, करे आणा ते कुमार. ॥ ६ ॥ पल्य-
 क वेसी कुमर पण, आवे अंबर राह; रतनपुरने उपरे, उपवन मांहि अवाह.
 ॥ ७ ॥

॥ ढाळ ४ थी. ॥

राय कहे रांणी प्रते, भरी दीर्घ नीसाशा. ॥ ए देशी. ॥

तिहां जिन चैस मनोहर, देखीने विचारे; उछंधन आशातना, रत्ने घाए
 किवारे. ॥ ८ ॥ हुं वारी एह जिणंदनी, जे भव दुखवारे ॥ ए आंकणी. ॥
 उत्तरी पेसे चैसमां, विधिए प्रणमंतो; योग्यता जाणी ढोलीओ, किहांयक
 गोमंतो ॥ हुं० ९ ॥ विधि सामग्री मेळवी, जिन ध्यानमां लीनो; ऋण उपवा-
 स करी तिहां, मंत्र जापज कीनो ॥ हुं० १० ॥ ऋणे मंत्र ते साधीआ, प्रभु
 ऋषभने पासे; जिनवर पूजी भावश्युं, आणी हर्ष उल्लासे ॥ हुं० ११ ॥ पार-
 णुं फलथी करी हवे, आद्य औषधी पासे; पांचसैं रत्न ते पामीयो, जेहथी
 दुख नासे ॥ हुं० १२ ॥ अठार्ई मोत्सव तेहनो, करी पुरमां आवे; निरधन
 आवकने घरे, भाहुं जे यावे ॥ हुं० १३ ॥ आपी तिहने घर रहे, मन हर्ष ते
 आणी; गोत्रीर्षि चंदननी करे, प्रतिमा गुण खाणी ॥ हुं० १४ ॥ ते लघु प्र-
 तिमा गुरु कने, प्रतिष्ठावी यापे; निख पूजा करे तेहनी, अति आणंद व्यापे
 ॥ हुं० १५ ॥ औषधी प्रतिमा एकठी, ढावढामां मुके; ढावढो गर्भ ग्रहे ठवे,
 तस विधि नवि चूके ॥ हुं० १६ ॥ पांचसैं रत्न ते नित दिए, पहेली औषधी

जेह; अर्थ कामने धर्म ते, साधे ससनेह ॥ हुं० १७ ॥ श्राद्ध कुटंब सेवा करे,
 कुमरनी भक्ते; दान दिए तिणे वश सहु, अढळक अति शक्ते ॥ हुं० १८ ॥ बहु
 परिवार कर्यो तिहां, देतो याचक दान; राज्य पंथे ते करावतो, वेशी गीत गान
 ॥ हुं० १९ ॥ मूल नाम अणजाणते, लोके दियुं नाम; श्रीविलास सान्वयप-
 णे, इच्छित करे काम ॥ हुं० २० ॥ तिण नगरीनो राजीओ, रत्नरथ ईति
 नाम; गांभीर्ये सौर्ये अश्वर्यता, बहु विद्या ठाम ॥ हुं० २१ ॥ विजय यात्रा
 ए जेहने, अचलाचल थाय; रति माला गणिका तिहां, रूपे रंभ हराय ॥ हुं०
 २२ ॥ तरुण पुरुष मन जीपती, कला चोसठ घाम; चंद्र जीती पद नख
 पिसे, करावे परणाम ॥ हुं० २३ ॥ राय कलाथी रीझियो, अंते उर राखे;
 विनयादिक गुण कामना, उपचार ते दाखे ॥ हुं० २४ ॥ रायतणुं चित
 रीझव्युं, क्रमे पुत्री आवी, पूर्वे पुत्री अभावथी, नृप चित अति भावी ॥ हुं०
 २५ ॥ जनम मोत्सव भूपति करे, लक्षण रूपवंती; रति रंभादिक नारिने,
 लावण्ये जीपति ॥ हुं० २६ ॥ स्वजन जमाडी थापतो, रति सुंदरी नाम;
 थापे कल्प वेलिपरे, वधति अभिराम ॥ हुं० २७ ॥ वय स्पर्द्धाए निस वधे,
 गुण विनयने रूप; सुंदरता लावण्य वली, दाक्षिण्य अनूप ॥ हुं० २८ ॥
 योग्य थई कला ग्रहणने, कलाचारय पास; भणवा मुके भूपति, करवा अ-
 भ्यास ॥ हुं० २९ ॥ प्रज्ञाए जीते सरसती, भणी थोडा दिनमां; ऋणे वर्गनां
 शास्त्रनी, जाण थइ सहु जनमां ॥ हुं० ३० ॥ षट दर्शनना रहस्यते, जाणे रु-
 ढी रीते; भारती विहु रूपे थई, मानुं आवी प्रीते ॥ हुं० ३१ ॥ पूरव भव
 संस्कारथी, वली जैनी भणावे, तिणे जिन सासनमां थई, घणुं ते दृढ भावे
 ॥ हुं० ३२ ॥ सरसती पुस्तक लेई करे, मानुं जोवे एम; एहवी कोई थइके
 थशे, इंम जाणवा नेम ॥ हुं० ३३ ॥ त्रीजे खंडे चोथी कही, पञ्चविजये हा-
 ळ; कुमरी गर्व रहित घणुं, जैन भावे रसाल ॥ हुं० ३४ ॥ सर्व गाथा १४४



॥ दुहा ॥

वर जोवा वारू पेरे, रूप देखीने राय; दिशोदिश मुके दूतने, जोवाते पण जाय. ॥ १ ॥ अन्य रांगीनी इरपा, जाणी भूप सृजाण; रति माला पुर वाहिरे, ठवी आवासने ठाण. ॥ २ ॥ कला स्थैर्यने कारणे, रति मुंदरी ने राय; पासे राखे प्रेमथु, आपे द्रव्य अमाय. ॥ ३ ॥ नृप कुल देवी नामथी, उपवन मांही अवल्ल, चंद्रेश्वरी चैसमां रहे, निस थाय पूज नवल्ल. ॥ ४ ॥ उपगारी अणगारजी, चोमासुं चित लाय; चोमासी तप आचरी, आवाशे कोइ आय. ॥ ५ ॥ सहाय ध्यान शुं लीनजे, ते सुणी देवी ताम; गुण रांगी रीझी गणुं, आदर करे उद्दाम. ॥ ६ ॥

॥ ढाल ५ मी. ॥

वीरे वस्राणी राणी चेलणाजी. ॥ ए देशी ॥

पूरव भव तस सांभयोजी, सांभलो भाखीए तेह; विप्र देवशर्मा नंदि पु-
रेजी, नंदीनी पुत्री दुखरेह ॥ कर्म विचित्रता सांभलोजी० ७ ॥ परणी सुशर्मा
वाढव प्रतेजी, दैवथी वरस थयुं एक, मरण लहो तास पति अन्यदाजी,
थई दुखिणी अतिरेक ॥ कर्म० ८ ॥ ताते समजावी पुत्री प्रतेजी, राखे निज
घर तस तात; धर्म गुप्त गुरु हवे अन्यदाजी, निकट आलयमां आयात
॥ कर्म० ९ ॥ देह प्रति बोध श्राविका करीजी, समकित अणुं व्रत शील; ध-
रममां दृढव्रति ते थईजी, साध्वी पासे रहे लील ॥ कर्म० १० ॥ तात आ-
णाए तप ते करेजी, षट आवस्य करे निस; देवगुरु भक्तिवंती घणुजी, अल्प
आरंभ सृविनीत ॥ कर्म० ११ ॥ काम घरनां हवे तस पिताजी, नवि करावे.
तस पास; धर्ममां विघन जाणी करीजी, करे हवे धर्म उल्लास ॥ कर्म० १२ ॥
इम करतां हवे अन्यदाजी, गुरु प्रमुख तणेरे अभाव; आसन्न मठ परिव्रा-
जिका, तास संयोग स्वभाव ॥ कर्म० १३ ॥ गौठ तेहशुं वनी तेहनेजी, म-
धुर वयणे करे घात; समकित मलिन अतिचारथीजी, पाखंडि परिचय
शुंयात ॥ कर्म० १४ ॥ प्रीति थई ते पितां धारतोजी, पण नवि मुके तस सं-
ग; एह स्वभाव छे स्त्री तणोजी, संग सारिसो होए रंग ॥ कर्म० १५ ॥ इण

समै सावित्री ब्राह्मणीजी, छे पाडोसण तस पुत्र, जइदत्त अजना तस भिया-
 जी, पण नहीं प्रीति संयुक्त ॥ कर्म० १६ ॥ परभव गयो नंदि पितार्जी, ज-
 जदत्त देखी तस रूप; मोहिओ पण नवि ते मलीजी, खेद पामे प्रतिकूप
 ॥ कर्म० १७ ॥ दिन दिन दूवलो ते होएजी, पूछे तस सावित्री माय;
 लाज मुकी कहुं मातनेजी, मात कहे श्याने खेदाय ॥ कर्म० १८ ॥ तुज मनो-
 रथ सफला करुजी, हवे एक दिन तसमायं; नंदिनीने एकांत कहेजी, देई
 विश्वास शुभ ठाय ॥ कर्म० १९ ॥ माहरो पुत्र तुज ईच्छतोजी, यौवन वय
 स्मररूप; धन्य तुं देह अंगी करीजी, यौवन सफल अनुरूप ॥ कर्म० २० ॥
 नारिना भोग विण विफलछेजी, रूप लावण्य सौभाग; यौवन विभ्वनिःफ-
 ल सवेजी, तिणे धर मुज सुतराग ॥ कर्म० २१ ॥ वृद्ध वये तप करवो घटे
 जी, तरुणपणुं फोक मत हार; पति मरणे कहुं पांचनेजी, अन्य पति क-
 रण विचार ॥ कर्म० २२ ॥ यदुक्तं ॥ पसौ प्रव्रजितेह्वि, प्रनष्टे पतिते मृ-
 ते; पंच स्नापत्सु नारीणां, पति रन्यो विधीयते ॥ १ ॥ पूर्वं ढाळ ॥ सां-
 भली ते क्रोधे चढीजी, मूढ तुजनेरे धिकार; कर्ण कटुक ए तुं शृं लवीजी, दुर
 गतिनो अधिकार ॥ कर्म० २३ ॥ सतीय ते शील लोपे नहींजी, जो कदि
 होय प्राणांत; इह परलोक विरुद्ध ते जी, आचरे केम निभ्रांत ॥ कर्म० २४ ॥
 तदुक्तं ॥ वरंभविष्टंज्वलितंहुताशनं, नचापिभग्नं चिरसंचितं व्रतं; वरं हिमृत्युः शु-
 चिशुद्धकर्मणा, नचापिशीलस्खलितस्य जीवितं ॥ १ ॥ पूर्वं ढाळ ॥ काम
 शास्त्रोक्त किरिया थकीजी, नरक गति नवि अवराय; शीलखंडन थकीनि-
 श्रयेजी, प्राणियो नरगमां जाय ॥ कर्म० २५ ॥ इम प्रतिहत करी तेहनेजी,
 मौन करी गई निज गेह; दोय व्रण वार इंस कहुं घणुंजी, पण विलखी
 थई तेह ॥ कर्म० २६ ॥ कार्य असाध्य निजथी लहीजी, तेह परिव्राजिका
 पास; नंदिनी तास वश जाणिनेजी, सेवना करती उछास ॥ कर्म० २७ ॥
 पूछे परिव्राजिका एकदाजी, किम करै सेवना मुज, सावित्रीए सघलुं कहुं-
 जी, मोहवशे साध्य छे तुज ॥ कर्म० २८ ॥ अंगी करी तास विसर्जतीजी,
 हवे करै तास ऊपाय; कूतरी एक तिणे वश करीजी, अज्ञान पानादिकदाय

॥ कर्म० २९ ॥ पादपतनादि चेष्टा प्रतेजी, सीखवे अतिअ अभ्यास; नंदिनी देखतां एकदाजी, कूतरी तेडी निज प्रास ॥ कर्म० ३० ॥ चक्षुर्मां चूर्ण नाखुं यदाजी, तेह करती अश्रुपात; पाय लगाडी शुनि प्रतेजी, नंदिनी देखी साक्षात ॥ कर्म० ३१ ॥ पूछे परिव्राजिकाने तदाजी, एह थुं कौतिक आज, सा कहे पूर्व भव सांभलोजी, मुज थुं एहने जे काज ॥ कर्म० ३२ ॥ पृथिव पुरे दत्त ब्राह्मण वसेंजी, तेहने दीकरी होय; प्रथमने आभिदत्त परणीओजी, पुत्र ऋण तेहने होय ॥ कर्म० ३३ ॥ पति मूर थई परिव्राजिकाजी, भगिनी लघु ते पण ताम; अभिसरमा नें ते परणतीजी, मास पट विधि थयो वाम ॥ कर्म० ३४ ॥ तव मरी गयो अति रूपणीजी, ईच्छतो हरिदत्त तास; सान ईच्छे हरिदत्तनेजी, शील खंडु नही खास ॥ कर्म० ३५ ॥ धूर्त्त-उपदेश तस चित वस्योजी, नवि लहे भोग अंतराय; वृद्ध भगिनीने कहे वृत्त दिओजी, ते कहे नविअ अपाय ॥ कर्म० ३६ ॥ अपुत्रीणी नहीं वृत्त यो ग्यनेजी, तेह वारी पण इम, नवि रही थई परि ब्राजिकाजी, नवि इच्छे कोयने तेम ॥ कर्म० ३७ ॥ आयु पुरे थई कूतरीजी, देखी मुज जाति संभार; पाय पढे ए रोती थकीजी, हुं गई मनुष्य भव हारि ॥ कर्म० ३८ ॥ भोग-अंतरायने शोचतीजी, तिणे मुण नंदिनी वात; प्रार्थना भंग नवि कीजीएजी, भोगअंतराय बंधात ॥ कर्म० ३९ ॥ कपटिणी इम कपटे करीजी, भोलवी नंदिनी नार; हीणी संगतथी हीणापणुंजी, आयतां नवि करे वार ॥ कर्म० ४० ॥ खंड ऋजि कही पांचमीजी, उत्तम एह वर ढाल; श्रीजयानंदना रासमाजी, पद्मविजय घुरसाल ॥ कर्म० ४१ ॥ सर्व गाथा १८५ .



॥ दुहा. ॥

ब्रह्म पालंती ब्राह्मणी, कूतरी थई किरतार; कष्ट-सखुं ते किहां-गयुं, ए कोइ अवर प्रकार ॥ १ ॥ मुज पण इम मत नीपजो, भोगवुं तिणे हुं भोग; आवी निज आगारमां, लक्षणे जाणे लोग ॥ २ ॥ सावित्री इंगितसवे, पर-

गट इंगिपरेः पेत; पूरव परे कहे पापिणी; उणिम नरही रेख ॥ ३ ॥ नं-
दिनी कहे नारी प्रते, सावित्री मुण वाण, वांधवथी विहुं वहु, वारु करो
विज्ञाण ॥ ४ ॥ सावित्री कहे साचलुं, जाइयुं तीरय जात; शंका जिम नवि
संपजे, ए छलनो अवदात ॥ ५ ॥ भोगव भोग भली परे, देशांतरे जई, द-
क्ष; द्रव्य पितानो दीधलो, निज हस्ते करि न्यस्त ॥ ६ ॥ इम कही द्रव्य
उपार्जवा, पुत्र मुके परदेश; पीहरमोकलेवहु प्रते, वाढवी करती वेश ॥ ७ ॥
नंदिनीने लेवा नीमित्त, जांणी घर रही जाम; सुव्रता आर्या तिणे समे, आ-
व्यां अवसर पाम ॥ ८ ॥

॥ ढाल ६ टी. ॥

मुण वहिनी पिडडो परदेशी. ॥ ए देशी. ॥

पूर्व परिचित आर्या आव्यां, नंदिनी मनमां भाव्यारे; नंदिनी प्रणमी तव ते
पूछे, धर्म वात तुम शुं छेरे ॥ पूर्व० ९ ॥ वात प्रसंगे स्वाशय भाख्यो, आर्या
ए तव दाख्योरे; भोलीरे तुं किम मूंझाणी, एतो नरग निज्ञाणीरे ॥ पूर्व०
१० ॥ अरिहंत मारगमां तु साचीं, कल्पित वातमां माचीरे; रागी द्वेषीं, मूढ
जे प्राणी, ते कल्पित कहे वाणीरे ॥ पूर्व० ११ ॥ पूरव भवनं ज्ञान न एहने,
कपट पाटव छे जेहनेरे; पुत्रथी स्वर्ग लेहे जो कोइ, तो उत्तर मुण सोईरे
॥ पूर्व० १२ ॥ नागिण कुर्कटीने वली शूकरी, गर्दभी शुनीने बकरिरे; सर्गे
तेह ज्ञे सहु पहेलां, व्रत तप जप करे गहेलारे ॥ पूर्व० १३ ॥ ते कारण
जिन मत लही साचो, जेहवो हीरो जाचोरे; तिणे शीले मन मम कर का-
चो, वीतराग मते रांचोरे ॥ पूर्व० १४ ॥ यतःरागाद्वाद्देषाद्वा । मोहाद्धा वाक्य
मुच्यतेहानृतं ॥ यस्यतुनैतेदोषा, स्तस्यानृतकारणकिंस्वात् ॥ १ ॥ पूर्व ढाल ॥
शीलखंडनथी जिनवर भाखे, आपद ईण भव चाखेरे; परभव नरकनि
गोदमां जावे, उंचो दोहीलो आवेरे ॥ पूर्व० १५ ॥ वली तिर्यचणी गर्द
भीथाप, तुरगी मृगी दुखंदायरे; सूथरणी उंटडी दुख लहेती, भार घणो ति-
हां वहेतीरे ॥ पूर्व० १६ ॥ किमहीक कष्टे नरभव पामे, तो विष कन्या टा-
मेरे; वंध्या निंदने चालरंडा, दुभगा दुर्गधा कुरंडारे ॥ पूर्व० १७ ॥ कूरूपी

ने कडुइ षाणी, योनि रोगे अकुलाणीरे; कोठ रोग हीनांग ने विकला, नि-
कलाने वली दुकुलारे ॥ पूर्व० १८ ॥ दुष्ट जीवित अल्प आयु पामे, पुत्र
वियोग सुख वामेरे; कुशील कर्म किमे नवि लुटे, भव भव दुख नवि वृटेरे
॥ पूर्व० १९ ॥ वात सुणी ते नरगयी वीहनी, साधवी वयणे भीनीरे; थिर
धर्मे शीले थई बोले, नावे कोइ तुम तोलेरे ॥ पूर्व० २० ॥ दुरगति पडती
मुजने राखी, जिन वचनामृत भाखीरे; दुष्ट बोध विपनो कर्यो ज्ञाश; नपडुं
हवे कोइ पाशरे ॥ पूर्व० २१ ॥ इंणि परे कहीने प्रणभी पाया, निज घर
मांहि आयारे; वली सावित्री तास बोलावे, तेहने कहे इण रावेरे ॥ पूर्व०
२२ ॥ हवे हुं नीच आचार न शोवुं, मत कहे जे मुज एहचुंरे; जो ए वात
कहीश हवे मुजने, दुख देवरावीश तुजनेरे, ॥ पूर्व० २३ ॥ नंदिनी भ्रातथी
वीहती नासे, गइ निज पुत्रने पासेरे; अन्य देशे गयां साधवी विचरी, ध-
र्ममां तत्पर इतरीरे ॥ पूर्व० २४ ॥ तप करे मुक्तावली रत्नावली, पाखंड
संग तजे भालीरे, परपाखंडनो परिचय पांमी; समकितमां थइ खामीरे,
॥ पूर्व० २५ ॥ सहस्र वरस श्रावक धर्म पाव्यो, पण नवि कर्मने गाल्योरे;
मरण लही चंद्रेश्वरी देवी, थई अल्प बुद्धि कहेवीरे ॥ पूर्व० २६ ॥ वैमानिक
सुखथी वंचाणी, विराधितनी कमाणीरे; तिणे मुनि वंदन करीने देवी, नि-
ज-अवदात कहेवीरे ॥ पूर्व० २७ ॥ समकित-पापी मुनिवर पासे, सेवा क-
री चउमासेरे; मुनि विचरे संघ सहाय्य करंती, विघन ते सहुनां हरंतीरे
॥ पूर्व० २८ ॥ छठी ढाल ए त्रिजे खंडे, भाखी रंग अखंडेरे; पद्माविजय
कहे उत्तम संगे, उत्तमता होय रंगेरे ॥ पूर्व० २९ ॥ सर्व गाथा २१४



॥ दुहाः ॥

सप्रभावा देवी सुणी, रति सुंदरी अनुरूप; भर्ता मिले इम भावती, भं-
जन चिंता भ्रूप. ॥ १ ॥ अरचे देवी आदरे, तुष्टमान थइ तेह; सुपते भाखे
संकुटपरे, सांभलजे ससनेह ॥ २ ॥ नरपति आगळ नाचतां, पूतली दयेय प्र-

धान; उत्तरी यंभयी आवरो, चाप्रर लेई अचान ॥ ३ ॥ वीणवादकने वीं-
जस्ये, पूरव भव पति तेह; वासुदेव सम वरणव्यो, इह भव भरता एह ॥ ४ ॥
जागीने जिज राजनी, पूजा करे मणाम; दक्षा पूजे देवीने, न सुणे अन्यनुं
नाम ॥ ५ ॥ दासीओ दूरे करे, पुरुष त आवे पास; पूरव भव पति पाम-
वा, आदरीओ अभ्यास ॥ ६ ॥

॥ हाळ ७ मी. ॥

इणे अवसर तिहां हुंवनुरे. ॥ ए देवी. ॥

एक दीन नाटिकणी तिहारि, आवी विजया नामरे चतुरं नर; निज यो-
ग्य बहु परिवारस्युरेलो आवी महाराष्ट्रे देवाथीरे, नृप घर पोलिने ठामरे
च०; वारिने नीर मुके तदारेलो ॥ ७ ॥ नाटिके जीते मुजनेरे, दासी थाडं
तासरे च०; नहीतो तस दासी करुरेलो, एह प्रतिज्ञा माहरीरे; उदघोषणा
करे सासरे च०, नृप पण पडह वजावतेरेलो. ॥ ८ ॥ पण नवि कोई परग-
ट थयोरे, नगरमां जीतण हाररे च०; राय विखाद लही करीरेलो, चितवे
मुज पुरमां नहीरे, कोई केल्या भंडाररे च०, रति सुंदरी ते जाणीनेरेलो.
॥ ९ ॥ तातनो खेद निवारवाररे, कहे जीतुं एह नारिरे च०, पण नर परख-
दमां नहीरेलो, नृप कहे नर दूरे रहेरे, तव साकरे अंगीकाररे च०, दिवस ठ-
रावी घर गइरेलो. ॥ १० ॥ उक्त दिने नरपति हवेरे, विजया तेडावे तथ्येर
च०, रतिसुंदरी नृप आणथीरेलो, वेसी प्रवर सुखासनेरे, उपगरण नृप स-
थ्येर च०, दासीओ नर दूरे करेरेलो. ॥ ११ ॥ बहु परिवारे परिवरीरे,
पण चित चितवे एमरे च०, मुज नाटकने सारखीरेलो, वीणा वादिका को-
य नहीरे, तिणे करइयुं कहे केमरे च०, श्रीविलास चोहटे रबारेलो ॥ १२ ॥
देखी अचरिज पामिनेरे, पुळे कोइकने वातरे च०, तेपण सवि मांडी कहेरे-
लो, नाटिक जोवा कौतिकीरे, पण नरथी न जवातरे च०, रूप करे तव
नारिनुरेलो. ॥ १३ ॥ मन गमती वीणा तदाररे, मागी लाव्यो कोइ पासरे
च०, तेहना पेटकमां अलीहोलो, राय सभामां ते गइरे; धरती मज उल्लासरे
च०, थोडी सभाए नृप उपावसेरेलो ॥ १४ ॥ कौतिक जोजाराजीकरे,

(११८)

श्री जयानंद केवलीनो रास.

ते नर. राख्या दूररे च०; विजयाने नृप आणा करेरेलो, विजयाए नाटिक
मांडीयुरेलो, नाना करणादि पूररे च०; गीत वाजित्र इयुं मेलवीरेलो.
॥ १५ ॥ रीक्षवे ते सघली सभारे, वंश भल्लाग्रे नाचरे च०, असि छुरिका
ग्रे तिमवळीरेलो, तंदुल पुंजे सूची ठवी, उपर फूलनो ताचरे च०, नाटिक
कर्युं तेह उपरेरेलो ॥ १६ ॥ नाटिक नाटिके नृप दिपरे, दान अने बहु
मानरे च०, नाटिक करतां तेहनेरेलो, झूनख अंगुली भंगनारे, विपरीत थ-
यी तिणे थानरे च०, रति सुंदरी सहुने दाखवेरेलो ॥ १७ ॥ नृप आदेशे
रति सुंदरीरे, नाटिक करे अदभूतरे च०, देवता पण मोहीरहेरेलो, कुमर
नारि वजावतीरे, वीणा नृत्य आकूतरे च०, ते ध्वनी श्रवण सुधा समीरेलो
॥ १८ ॥ नाद तथा विष उठीओरे, देवने दुरलभ जाणरे च०, हय गय प-
शु पण थिर रक्षारेलो, तो नरनुं.कहेचुं किश्युरे नाटक पण तिणे ठाणरे
च०, रंभा हरावती सुंदरीरेलो ॥ १९ ॥ विजयानो भारज किश्योरे, तिहां
देवी परभावरे च०, मणि पूतली दोय उतरिरेलो, वीजे सवीणा नारिनेरे,
सहु लक्षा विस्मय तावरे च०, रति सुंदरी चित चितवेरेलो ॥ २० ॥ देवी
कश्युं ते सवि मलयुरे, पण भरता किम नाररे च०, माया इहां कांय संभवेरे
लो, अथवा जाणश्युं आगळेरे, मर्त्तानो निरधाररे च०, पण राखवी पासे
सहीरे ॥ २१ ॥ पद्य तंतु उपरे करेरे, विजया नाटिक साररे च०, रति सुं-
दरी तव नाचतीरेलो, लूता तंतु ऊपर सहीरे, जीती ए निरधाररे च०, जय
जय रव परगट थयोरेलो ॥ २२ ॥ रति माला नृप आणथीरे, करे औत्सव
सु प्रकाररे च०, निज घर लावे पुत्रीनेरेलो, रति सुंदरी तव मोकळेरे, ते-
डवा कुंअरं नाररे च०, निज प्रति हारिओ मानथीरेलो ॥ २३ ॥ केतली भू-
मि आवीआरे, नारि रूपे कुमाररे च०, नाग रूपे ते त्रासवीरेलो, आख्या स-
रूपे निज घरेरे, हवे विजया जे नाररे च०, दासी थइ दंड धारणीरेलो
॥ २४ ॥ दासीओ खोले कुमारनेरे, पण नवि दीठी ते नारिरे च०, रति सुं-
दराने ते सवि कश्युरेलो, सांभली दुखिणीं ते थंडरे, करे प्रतिज्ञा साररे च०,
आरत ध्याने ते पढीरेलो ॥ २५ ॥ न मले ए नार जिहां लगेरे, तिहां लगे

न कहं आहाररे च०, आकुल व्याकुल सह थयारेलो, रतिमांला मुख बहु
 कहेरे, नं करे आहारं जिवाररे च०, दांसीयो नृपने ते जई कहेरेलो ॥ २६ ॥
 त्रण दिन नगर सोधावीयुरे, न जडी कोई उपायरे च०, कुमर हवे चोथे
 दिनेरेलो, एकांते मुज रागिणीरे, आहार विना मरी जायरे च०, पूरव भव
 ना रागथीरेलो ॥ २७ ॥ नारी रूप धरी करीरे, वेठी तस घरवाररे च०,
 दासीयो देखीने ओलखीरेलो, रति सुंदरीने वधामणीरे, दीधी तव अलंका-
 ररे च०, बहु मूलां दिए दासीनेरेलो ॥ २८ ॥ साहमी जई रति सुंदरीरे, ला-
 गी तेहनां पायरे च०, उठावे बहु हर्षथीरेलो, कुशल छे तुजने हे सखीरे,
 माहरा जीव तदायरे च०, अनुकंपा करी माहरीरेलो ॥ २९ ॥ चालो घर-
 मांहि हवेरे, लावी ते घर मांहिरे च०, पल्यंके वेसारिनेरेलो, धर्म शास्त्रक-
 ला तणारे, करे विनोद उत्साहिरे च०, निज हस्ते न्हवरावतीरेलो ॥ ३० ॥
 अमृत संम भुंजाविनेरे, पोते वावरे आहाररे च०, भक्तिए निज घर राख-
 तीरेलो, ते पण पूर्व मोहे करीरे, रही हवे विहुंने प्याररे च०, दिन दिन
 अधिकोधरेरेलो ॥ ३१ ॥ सातमी त्रीजा खंडमारे, पद्म विजये कही ढालरे
 च०, श्रीजयानंदना रासमारेलो, धर्म काम अर्थ शास्त्रनीरे वातो करे सुर-
 सालरे च०, पूरव भवना प्रेमथीरेलो ॥ ३२ ॥ सर्व गाथा २४६

॥ दुहा. ॥

बहु दिन काढे ईम विहु, रतिसुंदरी सुप्रसन्न; सामुद्रिक साचुं लहे, ईम
 चिते एक दिन ॥ १ ॥ लक्षण जोतां हुं ओळखुं, चक्री सम छे चेन; -ना-
 रिपणे तो नवि होए, जाची छे वली जैन ॥ २ ॥ गति चेष्टा स्वर मुख गुणा
 पुरुष योग्य प्रधान; कोई कारणथी कर्युं, नारि रूप निधान ॥ ३ ॥ - एम
 निश्चय करी आवती, स्मेर मुखी ससनेह; जाणुं हुं युक्ते करी, तहत करी
 सुणो तेह ॥ ४ ॥ देवी वयणे दाखीए, पूरव भव पति प्रेम; कला देखावी

(१२०)

श्री जयानंद केवलीनो रास.

अकारमी, कर्तृम रूपे केम ॥ ५ ॥ अन्तग्रह कीजे अमभणी, स्वभाविक या-
ओ स्वामि; स्नेह यकी सांचुं करे, प्रियानो आंग्रह पामि ॥ ५ ॥ इंद्र स्मर-
यी अधिक श्री, देखी तास देदार; रोमाचित रमणी यहै, आणंद अंग अ-
पार. ॥ ७ ॥

॥ ढाळ ८ मी.

प्रेमनां वादळ वरसां दिहाडा सोहिलां. ॥ ए देशी. ॥

आज आणंद थयां पूरव भव पति मलियो धन दिन आजनो, ॥ ए आंकणी ॥

आज पूरव पुण्य विभव फलियो, अण चित्तो चिंतामणी मलियो आज०;
कहे श्रीजयानंद सुणो नारी, तुज सौभाग्यता वावडी सारी ॥ आज० ८ ॥
मुज मन कलहंस तिहां रमीयो, नवि पंकिल जल मुजने गर्मीयो आज०;
रतिमाला दासी मुखे जाणी, आवी लुंछणा करती उजाणी ॥ आज० ९ ॥
हर्षे जइ दासी कहे राय, तुम्ह पुत्री पति आज प्रगटाय आज०; राए तस
दीधुं बहु दान, वली भोकले तेडवा परधान ॥ आज० १० ॥ कुंमर पण
नृप निकटे जावे, उठी आर्लिगन करे नृप भावे आज०; कांय प्रेममां अंत-
र नवि राखे, तोपण वयणे इणि परे भाखे ॥ आज० ११ ॥ तुज रूप अ-
नुचर हुं देखी, थयो लीन धणुं सवि उवेखी आज०, तुम सेवा कहो सीशी
करीए, तुम सुभगता अम मनहुं हरीए ॥ आज० १२ ॥ तुम कुल पूछणहुं
नहीं काम, नवि देवी वाणि कहे वाम आज०; पण जनमे पवित्र करी न-
यरी, तुमे ते कहो अमने सवि विवरी ॥ आज० १३ ॥ हुं विजय पुरी नय-
री वासी, कहे कुंवर सांभलो उलासी आज०; कौतिक जोवाने नीसरीयो
देश ठाम ठाम रुद्धे थरीयो ॥ आज० १४ ॥ फरतो फरतो तुम पूर आयो,
इत्यादिक संरवे संभळोयो आज०; हवे स्नान भोजन साथे राय, करे हर्ष है-
यामां नवि मोय ॥ आज० १५ कहे नृपे ए मुजे कन्या परणो, एहनेए संधा
अन्य नविवरणो आज०, कुंवर कहे जस कुल नवि जाणो, तस कन्या
देवा शो टाणो ॥ आज० १६ ॥ कहे नृप एकतो देवी वाणी, वली प्रकृति
आकृति गुणनी साणी आज०; इम कुल जाणुं अम तुम तणुं, तुमे वचन

प्रयाणो अमत्तणुं ॥ आज० १७ ॥ तव मौन कुमार करे ज्यारे, हवे लगन जोवरावे नृप सारे आज०; परणावे नृप रति सुंदरी, गज घोडा दिए मनोहार करी ॥ आज० १८ ॥ तेहमां कुमार न ले कांय, तव आग्रह अति करीने राय आज०; आठ नगर आपे घणुं मनोहार, ते आपे भियाने नेह धार ॥ आज० १९ ॥ रति सुंदरी सुपे मातने, तस चिंताना अवदातने आज०; रहे भूपति दीधा आवासे, सुख भोगवे विषयनां उच्छासे ॥ आज० २० ॥ कदि वापी वनमां करे क्रीडा, नवि देवे कोइ जनने पीडा आज०; कदि नृस करावे भिया पासे, पोते वाद्य वजावे सुविलासे ॥ आज० २१ ॥ करे देव गुरुना गुण ग्राम, जाचकने बहु आपे दाम आज०; दीनादिकने दिए अतिदान, लहे कीरति घर्म ते अप्रमाण ॥ आज० २२ ॥ जिमे देव गुरुनी पूज करी, जिमे दान सुपात्रे तेह धरी आज०, करो ओरही देहरासर साहि, गोपवी प्रतिमा औषधी साहिं ॥ आज० २३ ॥ तालूं देइ नारिने दिए कूंची, सा आभूषणमां गुप्त मुची आज०; निज जीवितनी परे रखवाले, ते पण नित पांचसैं रत्न आले ॥ आज० २४ ॥ निज नारिने रत्न दिष्ट तेह, तेतो एक जीव मानुं दो देह आज०; निज पुत्री प्रेमें रतिमाला, नित आवे हर्षे सुकमाला ॥ आज० २५ ॥ पुर आठतणुं जे द्रव्य आवे, आपे निज पुत्रीने चावे आज०; एक दिन चिते विस्मय पामी, नृप दीधा धननो ए नहीं कामी ॥ आज० २६ ॥ पुर आठना धननुं न नाम ग्रहे, मागवुं तो ते दूरे रहे आज०; दान भोग करे सुरनि परे, ए अचरिज वात हृदे धरे ॥ आज० २७ ॥ धन आगम मारग नवि लहुं, ए वात एहने पूछु सहु आज०; पूछे श्रीजयने रतिमाला, तव श्रीजय बोले रहीआला ॥ आज० २८ ॥ ते कहे मुज ताते दीधु धन, में पण उपराजयुं बहु दिन्न आज; ते वात सुणी मानी नहीं, तिणीए निज पुत्रीने कही ॥ आज० २९ ॥ धन किहांथी काढे छे ए घणुं, माहरुं ए टाल कौतिकपणुं आज०; पुत्री कहे प्रणनुं श्रु काम, इच्छित पुरे छे अभिराम ॥ आज० ३० ॥ व्रीजे खंडे आठमी ढाल, कहे पद्म विजय सुणो सुरसाल आज०; हवे वेसा शो परपंच करे, निज जाति दे-

खाने इणिये ॥ आज० ३१ ॥ सर्व गाथा २७७



॥ दुहा ॥

पुत्रीने पण्यांगना, क्रोध करी कहे एम; इमही जमें उदरे धरी, कौतिक न कहे केम ॥ १ ॥ सरल घणुं रति सुदरी, आखे दाक्षिण आण; जाणुं छुं ते जल पीए, सांभल मात सुजाण ॥ २ ॥ देहरासरथी दीपतो, रत्न तणी लेइ राश; तालुं देइ निसरे तथा, कुंचि दे मुज सकासि ॥ ३ ॥ वावरतां जे वाधियां, आपे मुजने आवि ; वीजुं कांय वूझूं नहीं, जुगतो जेह जमाव ॥४॥ देहरासरमां दाखीओ, इणिये एह उपाय; पुत्रीने इम प्रेमथुं, चिंती कहे चितलाय ॥ ५ ॥

॥ ढाल ९ मी. ॥

॥ वीजुं पापनुं थान. ॥ ए देशी. ॥

देहरासर देखलाव, ए मुजने कोड पूराव, आज हो रति सुंदरी कहे, मत वोलो तुमे मातजीरे ॥ ६ ॥ मरणाते पण एह, वात थाए कहां केह आ०; वेश्यारे कहे तो मुज कुंची आपीए ॥ ७ ॥ एह मनोरथ तुज, सीजे न जीवतां मुज आ०; रति सुंदरी कहे तू सो, अथ वारु सज्योरे ॥ ८ ॥ द्रोह न करूं भरतार, प्राण सुप्या तस सार आ०; रतिमाला ए निश्चय, जाण्यो पुत्रीनोरे ॥ ९ ॥ कपटे देइ विश्वास, एकदिन सुराचंद्रहास आ०; पाइरे दधि घोलमां, तव मूर्छा लहीरे ॥ १० ॥ सूती पल्यंके तेह, जोइ पुत्री देह आ०; लाधीरे कुंची तव तालुं उघाडीयुरे ॥ ११ ॥ जूए देरासर जाम, औषधी दीठी ताम आ०; रत्नदायक जाणीने लेई पाछी वलीरे ॥ १२ ॥ तालुं देईते तत्थ, कुंची मुंके हती जत्थ आ०; चेतना लही जागी, रति सुंदरी तेट छेरे ॥ १३ ॥ सघलुं दीठुं तेम, शंका न आवी एम आ०; धूतारे कौण नवि वंचाए मानवीरे ॥ १४ ॥ वीजे दिने ते कुमार, पूजा करिने प्यार आ०; औषधी पूजवा जूए, तो नवि लाधी तदारें ॥ १५ ॥ तव पूछे निज नारि,

चितमां शंका धारि आ०; चतुरारे चमकी तव पतिने वीनवेरे ॥ १६ ॥
 नहीं कोइनो परवेश, कूचि न ठवुं अन्य देश आ०; मात दीधी सुराकाल
 तिणे हुं अचेत थइरे ॥ १७ ॥ तिणे जाणुं छलमात, वीजी न जाणुं वात
 आ०; इंगित आकारे करी ए निश्चय हस्येरे ॥ १८ ॥ प्रवणादिक सवि वा-
 च, कही देखाडी साच आ०; कुंमरे पण निश्चय कर्यो सासुए हरीरे
 ॥ १९ ॥ सासूने कहे वात, आ शोछे अवदात आ०; गणकारे कहे कांन
 ढांकीने इंगि परे ॥ २० ॥ आपवुं तो रखुं दूर, कलंक चढावो भूर आ०;
 राजाने वली तुमे, मुज इष्टकारी छतारे ॥ २१ ॥ चोरी करुं शे काम, मुज
 परिवार पण नाम आ०; चोरीनुं नवि जाणे न आवे हुंकडारे ॥ २२ ॥ पु-
 छो तुमे निज नार, साचवे जे रति धार आ०; शंका जो होए मनमां तो
 टालो परीरे ॥ २३ ॥ सांभली श्रीजयानंद, चितवे धिग् ए मंद आ०; नि-
 ज पुत्री नार दोष दिए पोते करीरे ॥ २४ ॥ देशे न वगर उपाय, शिक्षा
 देच इण ठाय आ०; इम चिंतीने केहेजो शुं वीजे स्थलरे ॥ २५ ॥ हर्ष ल-
 ही सुणी तेह, गइनिज थानिक नेह आ०; देहरासरमां वीजेदिनकुंअर गयारे
 ॥ २६ ॥ छांनां सहस्र रत्न, मुंके करीने ते जतन्न आ०; पुजीरे जिन पटु-
 वाक औषधी पुजतोरे ॥ २७ ॥ पांचसें औषधी पास, मागरे रत्न उछास
 आ०; औषधी कहे तुं रत्न सहस ले रीद्वथीरे ॥ २८ ॥ लेइ रत्न हजार,
 नीकलीयो ते धार आ०; पुरव परे तालूं परमुख देई करीरे ॥ २९ ॥
 त्रीजे खडे ढाल, नवमी कही सुरसाल आ०; पत्रविजये हवे सांभलो, वात
 सोहामणीरे ॥ ३० ॥ सर्व गाथा ३०७



॥ दुहा ॥

एक दिन नारिने इम कहे, मुक कुंचि मन आणि; जननी तुज देखे जथा,
 जूए ते मनमां जाणि ॥ १ ॥ दूर रही तुं देखजे, जाणे नहीं ए जेम; तिम-
 ज करे ते तक्षणे, प्रेयसी आणी प्रेम ॥ २ ॥ रतियाला जूए रंगशुं, ध्याए दे-

स्त्री ध्यान; बमणां रतन वनावर्धुं; लावे ए अमिलान ॥ ३ ॥ एक दिन वि-
स्मय आग्निने, देव पुजा क्षणदाव, सांभले वात सोहामणी, भणे जे औपधी भाव,
पुरव औपधी पासथी; नविलह्यां रतन निदान; विधिसाधनविण विफलते, इम
नविलहे अज्ञान ॥ ५ ॥ उतावलमां में अवर, औपधी लीधी एह; बीजी साची वा-
हिरे, रही न दीठी रेह. ॥ ६ ॥ अर्च्याथी आपे अधिक, एहने ओपधी एह;
अवसर पामी एहनो, बदलुं विहुंए नेह. ॥ ७ ॥ चिंतामणी पामी चतुर, कां
करे तूसे कोण; अवसर पामी एक दिने, ग्रेहते मुकी गौण. ॥ ८ ॥ हर्षित
थया कुअर हवे, चित्तमां करे विचार; वाकपट्ट औपधी वालश्युं, करी उ-
पाय किंवार. ॥ ९ ॥

॥ ढाल १० मी.

आंबली लाल रंगावो, वरनां मोलिआं. ॥ ए देशी. ॥

हवे गणिका औपधी पूजीने, धन मागे पण नवि आपेरे; नवि बोले सा-
धन विधि विना, एण पाछी ठामे न थापेरे ॥ नवि पुण्य विना फळ पामीए ॥
६ आंकणी. ॥ १० ॥ करे खेद घणो विधि जाणवा, नवि वदन राग पल-
टावेरे, करे सासु जमाइ गोठडी, धूरते धूरत किम फावेरे ॥ नवि० ११ ॥
प्रीते तिहां करतां वातडी, कुंअरने गणिका पूछेरे, वदश्युं श्युं विज्ञान जाणो
तुमे, कहे कुंअर काम तुमश्युं छेरे ॥ नवि० १२ ॥ जाणुं विविध प्रकारनी
औपधी, वली सकल कला पण जाणुरे; विज्ञान विविध लहुं मंत्रने, कुरुपि-
ने रूप दळे नाणुरे ॥ नवि० १३ ॥ रूप होय तो अधिकेरुं करुं, रुढा विधि-
थी जो आराधेरे; सौभाग्यने यौवन निस रहे, मन ईच्छित वरने साधेरे ॥
नवि० १४ ॥ सासु कहे मुज एहवी करो, जेहथी भूपाति मुज मानेरे; जिम
मान मर्दुं सावि सोकनुं, कोइने न बोलावे सानेरे ॥ नवि० १५ ॥ कहे कुंअर
मुंडावो शिर तुमे, वदने वली कामशि लीपोरे; उपवास करो हैयडे धरी,
वली मंत्र देउ ते जंपोरे ॥ नवि० १६ ॥ रुहु बुहु रुहु बुहु बुहु बुहु स्वाहा,
तिणीए हपें सवि कीधुरे, पासे आव्या संध्याए कुंअरजी, दौय जाणे वंछीत
सीधुरे ॥ नवि० १७ ॥ बहु आढंवर देख्तावतो, औपधी ए सुअरणी कीधीरे

बांधी यामे सांकलथी पापणी, ते औपधी माहरी लाधीरे ॥ नवि० १८ ॥
 पुत्री शिर दोष देखावती, फल भोगव चोरी कोरारं; करी आक्रोश दंडे त्रा-
 डतो, आंखे झरे आंसु घणेरारं ॥ नवि० १९ ॥ रूप दीन चेष्टाए फरी फरी,
 फरी नहीं करुं एहवी चोरीरे; ल्यो औपधी ईम देखावती, तुमे दयावंतमां
 धोरी ॥ नवि० २० ॥ नारी वयणथी हवे किरपा करी, मूल रूपे कीधी ता-
 सरे; औपधी देइ पुत्री जमाइने, खमावती देइ विश्वासरे ॥ नवि० २१ ॥ ते
 हुए पण खमी राखी घरे, एक दिन हवे श्रीजयकुमाररे, सासुना हित अरथे
 कहे, खमो मात तुमे पुज्य ठाररे ॥ नवि० २२ ॥ तुमने जे विटंबना में करी,
 तुम प्रतिबोधनने काजरे; अदत्तनुं फल इह परभवे, दुःख आपे दुरगति रा-
 ज्यरे ॥ नवि० २३ ॥ नरगे जइए दुर्भाग्यता, बली दल्लिद्रपणुं ते आवेरे, को-
 ण इच्छे अदत्त ईम जाणीने, कोण अदत्त लेवाने जावेरे ॥ नवि० २४ ॥
 प्राण नाशे अदत्त न लीजिए, थोडुं पण इहां द्रष्टांतरे; लखमी पुंज जिम ल-
 खमी लक्षा, सांभलज्यो तस वृत्तांतरे ॥ नवि० २५ ॥ हस्तिपुरमां राय पुरंद-
 रु, पौलोमी नामे राणीरे; तेतो पौलोमी परे शोभती, वीलवंती चातुर जा-
 णीरे, ॥ नवि० २६ ॥ तिहां शेठ सुधर्मा नामथी, जिन सासननो घणुं रा-
 गीरे; दयावंतने गुरु भक्तो घणुं, धन्या गेहिनी प्रति अनुरागीरे ॥ नवि०
 २७ ॥ धन क्षीण थरुं तस अन्यदा, अंतराय लाभनो आयोरे; पण श्री अ-
 रिहंतना धर्मने, नवि छाडे स्नेही जिम भायोरे ॥ नवि० २८ ॥ देव पूजाने
 आवश्यक प्रमुखजे, ते अंगीकरुं नवि चूकेरे; एक दिन पुण्यवंत सुत सूचवे,
 एहवुं सुपन नारिने हूकेरे ॥ नवि० २९ ॥ पद्म सरोवर पदमे अलंकार्युं, म-
 रत्तारने आवी भासेरे, सेठ पण तस अरथ विचारिने, नारि आगल ईम प्रकासेरे.
 ॥ नवि० ३० ॥ लक्ष्मी लावण्य पुन्यवंतो बली, सुत होवो सांभली हपेरे;
 रत्न खाण परे गर्भ धारती, प्रिया अंगे शोभा वपेरे ॥ नवि० ३१ ॥ त्री-
 जे खंडे दसमी ढालए, कहि पद्म विजय सुरसालरे; श्रीजयानंदना रासमां,
 सुणतां होए मगल मालरे ॥ नवि० ३२ ॥ सर्व गाथा-३३९

॥ दुहा.-॥

अंगे शोभा अति घणी, गर्भ प्रभावे गेलि; शेटनुं दारिद्र गयुं सवे, करतां
अनिशि केलि. ॥ १ ॥ करतां क्रय विक्रय वली, पास्या लाभ अपार; स-
ज्जने बहु सनमानीआ, अधिकी सोभ आगार. ॥ २ ॥ पूरण मासे प्रस-
विओ, शुभ लग्ने शुभ वार; तिथि करण निरदोष तिम, योग्य घणुं जय-
कार, ॥ ३ ॥ वाय सुगंधी वाय ते, दुरभिन्न नही निज देश; जन पद सु-
खिआ जन सवे, वारु पेहेर्या वेश. ॥ ४ ॥ प्रातसमे उज्वल पखे, पुन्य प्र-
भावे पुत; पूरव दिश सूरजपरे, शोभावे घर सूत. ॥ ५ ॥

॥ ढाल ११ मी. ॥

चारी रंग ढोलणां. ॥ ए देशी. ॥

आवी वधामणी ए हवे होराज, सेठने हर्ष न माय, सोभागी सुत आ-
वीओ, घर वाहिर वेठां थकां होराज, आपवा धन निरमाय ॥ सो० ६ ॥
खोले पण धन नहीं तदा होराज, शेट चित्ते मनमाहि सो०; दान वेला ध-
न दोहिलुं होराज, होय ते आपे नहि ॥ सो० ७ ॥ आमण दुमणो ते थयो हो-
राज, नीचुं मुख करी शेट सो०; अंगुलिए धरती खणे होराज, नजर करी-
ने हेठ ॥ सो० ८ ॥ कीडी नगरा जेटलुं होराज, दीटुं विवर ते ठार सो०;
अधिक खणे मोडुं थयुं होराज, दीटुं सुवर्ण द्रव्य सार ॥ सो० ९ ॥ धन अनर्गल दे-
खी करी होराज, चित्ते चित्त मझार सो०; अदभूत भाग्य ए सुत तणुं होराज,
आपु चित्त उदार ॥ सो० १० ॥ आपे वधामणी तेहने होराज, तेहमांथी
धन लाख सो०; वस्त्रभूषण घत गुड घणां होराज, दलद्र न राखे सराख
॥ सो० ११ ॥ दीन अनाथने आपतो होराज, वाजिन्न वाजे मेह सो०; स-
जन लावे घणां भेटणां होराज, हर्ष न माए देह ॥ सो० १२ ॥ घवल मंगल
गाए सुंदरी होराज, नाटिक नव नव थाय सो०; इम नव नव ओत्सव थकी
होराज, दश दिवस वही जाय ॥ सो० १३ ॥ चंद्र सूरय दर्शन करे होराज,
छडी जागरण वली होय सो०; इम ओत्सव घटे जे दिने होराज, ते ते
दिन करे सोय ॥ सो० १४ ॥ शेट चित्ते जे दिन थकी होराज, आव्यो छे

सुत एह सो०; ते दिनथी लक्ष्मी लहो होराज, मंगलमाला गेह ॥ सो० १५ ॥
 दीनादिक संतोषिया होराज, तोहे न खुटे द्रव्य सो०; द्रव्य जडचो संमला-
 वीए होराज, नृपने तो होय भव्य ॥ सो० १६ ॥ अन्यथा राय अदत्त होए
 होराज, श्रावक माटे शेठ सो०; इम चिंती लेइ भेटणुं होराज, गयो नृप पा;
 से ठेठ ॥ सो० १७ ॥ वात यथास्थित तिहां कही होराज, नरपति बोल्यो
 न्याय सो०; श्रावक अदत्त ग्रहे नहीं होराज, भूपति हरषित थाय ॥ सो०
 १८ ॥ भाग्य निधी सुत पुन्यथी होराज, धन प्रगटुं असराल सो०; राख
 तुं धन ए ताहकें होराज, तुज हो मंगल माल सो० १९ ॥ राज प्रसाद ल-
 ही करी होराज, वाजते गाजते गेह सो०; आव्या शुभ मुहुर्ते हवे होराज,
 पुत्र नामने नेह ॥ सो० २० ॥ स्वजन कुटुंब जमाडिउं होराज, अर्थ धरी
 मनमाहि सो०; लक्ष्मी पुंज इण नामथी होराज, थाप्युं हरष उत्साह
 ॥ सो० २१ ॥ दिन दिन कल्पांकुर परें होराज, मावित्र उमेद साथ सो०;
 वाधे सुखदाइ घणो होराज, सहु जाणे अम आथ ॥ सो० २२ ॥ दांत आ-
 व्या पग मांडतो होराज, इसादिक सहु ठाम सो०; तास पिता ओत्सव क-
 रे होराज, बालक्रीडा करे ताम ॥ सो० २३ ॥ नीशाले भणवा ठव्यो होरा-
 ज, विनय घणो गुरु कीध सो०; पाठक पण तस हर्षथी होराज, विद्या स-
 घली दीध ॥ सो० २४ ॥ विद्याशास्त्र न तेहवुं होराज, जे नवि जाणे कुमार
 सो०; साक्षी मात्र पाठक थयी होराज, सकल कला भंडार ॥ सो० २५ ॥
 तिम जिन धर्म कला लहो होराज, सूक्ष्म वृद्धि सुरूप सो०; जैनशास्त्र शि-
 रोमणि होराज, कला विज्ञाननो भूप ॥ सो० २६ ॥ काव्य छंद नाटिक व-
 ली होराज, प्रण्य पहेलिका न्याय; गित नाटिकने विनोदमां होराज, नित
 नित काल गमाय ॥ सो० २७ ॥ एक दिन मित्रे परवर्यो होराज, क्रीडतो
 उपवन जाय सो०; मुनिवर एकांते रत्ना होराज, देखी प्रणमे पाय,
 ॥ सो० २८ ॥ धर्म लाभ मुनिए दिओ होराज, धर्म सुणे मुनि पास सो०;
 बाल कालमां आदरे होराज, समकित वृत्त उल्लास ॥ सो० २९ ॥ त्रीजे ख-
 डे अग्यारमी होराज, पद्मविजये कही ढाल सो०; श्रीजयानंदना रासमां हो

(१२८)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

राज, मुणर्ता मंगल माल ॥ सो० ३० ॥ सर्व गाथा ३६९



॥ दुहा. ॥

मावित्र वचन माने सदा, समकित ने सदाचार; विनय करे वीतरागनो,
गुरू भगते गुण धार. ॥ १ ॥ यौवन आव्यो जेटले, विवाहनी करे वात;
इच्छे कन्या एहने, सिरिदेवी साक्षात. ॥ २ ॥ धनेश्वर^१ ने पृथ्वधर^२,
कन्या केरा तात; श्रीधर^३ वसोधर^४ श्रीपति^५, वली धनावह^६ विख्यात.
॥ ३ ॥ श्रेष्टि धन ते सातमा, जिनदास आठमा जाण, दाता ज्ञाता दीपता,
ख्याता गुण मणि खाण. ॥ ४ ॥ शेटनें नमे सोभागीआ, भाखे आवी भाख
पुत्री अम तुम पुत्रने, आपणनो अभिलाख. ॥ ५ ॥ रूपसिरि^१ ने रुपरेखा^२,
पदमावाति^३ पहेचाण; पदमा^४ धनश्री^५ पदमणी, वली लखमीतुं^६ वखाण.
॥ ६ ॥ मदनसिरि^१ लखमीवती^२, रूपे रति अनुकार, परणतुं मानो-प्रेमशुं,
अम आग्रह अनुसार. ॥ ७ ॥ शेट कहे तुमे सांमलो, आव्या तुमे अम धाम;
कन्या उदेशी कहो, मान्य विशेषे आम. ॥ ८ ॥ पंथीने भोजन परे, तिणे
मानी तुम वात; हर्प लहो ते हुंशथी, ओत्सवे घर आयात. ॥ ९ ॥

॥ ढाल १२ वारमी. ॥

तुमे पीतांबर पेहेरोजी मुखने अरकलडे. ॥ ए देशी. ॥

इवे लगन दिवस निरघारेजी, रंग वधामणां ॥ सहू सजन तेडी घरवारे
जी रंग वधामणां; निज निज घर ओछव रंगेजी रं०, करे चित्र विचित्र उ-
मंगेजी ॥ रं० १० ॥ तोरण मंडप रुडा रचिआजी रं०, तेतो सावसोनेरी
खचीआजी रं०; पापड वडीओ देवाएजी रं०, पकवान विविध केलवाएजी
॥ रं० ११ ॥ कंचन मणि घाट घडाएजी रं०, वस्त्र विविध प्रकार सीवडा-
एजी रं०, सोपारी पत्र मंगावेजी रं०, वेदिका वली जवहरा वावेजी ॥ रं०
१२ ॥ रच्युं माहिरुं चोरी वंधावेजी रं०, वली धवल मंगल गवरवेजी रं०;
ईम विवाह सामग्री कीधीजी रं०, निमित्तिए वेला भली दीधीजी ॥ रं० १३

॥ वरघोडे कुंअर चढीआजी रं०, ठाम ठाम दान देवा भिडिआजी रं०;
 मिलियुं साजन बहु संगेजी रं०, सावेला बहु उछरंगेजी ॥ रं० १४ ॥ लाम-
 णदीवो मात हाथेजी रं०, जानणी गीत गाए साथेजी रं०; कन्या आठे स-
 मकालेजी रं०, करपीडन कर्युं तिणे तालेजी ॥ रं० १५ ॥ मणि कनक ने
 रयणे जडिआजी रं०, जाणे स्वर्ग मांहि ते घडिआजीरं०; ससरा सहए मि-
 लि आपेजी रं०, लखमी पुंज कुमर पुर थापेजी ॥ रं० १६ ॥ तारुण्य वय
 इंद्र समानजी रं०, चाची सम आठइयुं शुभ वानजी रं०; भोग भोगवे अतिअ
 रसालाजी रं०, निज तात पसाय विशालाजी ॥ रं० १७ ॥ कांय चिता नहीं
 घर भारजी रं०, पण धर्म न पामे हारिजी रं०; श्रावकनुं लक्षण एहजी रं०
 इम भीडमां धर्म धरेहजी ॥ रं० १८ ॥ यतः ॥ सामग्गि अभावे विहु, वस-
 णे विमुहे वितह कुसंगेवि, जस्सनहायइधम्मो, निछय उजाणतं सद्धं ॥१ ॥
 पूर्वं ढाल ॥ पूरव पुन्यने सुपसायजी रं०, सघले ते सुखिआ थायजी रं०; इं-
 म भाग्यवंत गुणवंतोजी रं०, जिन धर्म उपर द्रढ चित्तोजी ॥ रं० १९ ॥ चा-
 कर पण धरमी देखीजी रं०, धरमी थया सर्व उवेखीजी रं०; नवि करे परा
 भव कोइजी रं०, जस पुण्य प्रकृति दढ होइजी ॥ रं० २० ॥ जिम वेलडी
 वृक्षने वलगेजी रं०, जिम सरिता सायर सलगेजी रं०; तिम लक्ष्मी स्वयं-
 रा आवेजी रं०, अनुरक्त थई धिर थावेजी ॥ रं० २१ ॥ जिम माणि मंत्रने
 चूर्ण योगेजी रं०, जिम वश करिए कोई लगेजी रं०; जिम राशे वांधी रा-
 खेजी रं०, तिम लक्ष्मी न छंडे सराखेजी ॥ रं० २२ ॥ अंगे भोग सुपात्रे
 दानजी रं०, बहु जनने खान ने पानजी रं०; सज्जन वाणोत्तर कामेजी रं०
 आवे वली धर्म पण पामेजी ॥ रं० २३ ॥ यतः ॥ गृह कूपी कृपणानां, ल-
 क्ष्मी व्य्वहारिणां नगर वापी; व्यापारिणांच सरसी, तरंगिणी वक्षितीशा-
 नां. ॥१॥ सालक्ष्मीर्या धर्म कर्मोपयुक्ता, सालक्ष्मीर्या वंधुवर्गो पभुक्ता; सा
 लक्ष्मीर्या स्वांग भोग प्रशक्ता, यान्या मान्या. सातुलक्ष्मी रलक्ष्मी. ॥ २ ॥
 पूर्वं ढाल. पूत्रनुं पूण्य शेट हवे जाणीजी रं०, दानादिक करे मन आणीजी
 रं०; व्यापार करे ने करावेजी रं०, कोडयोगमे लाभ तिहां आवेजी ॥ रं०

२४ ॥ इम धर्म साधन करी शैठजी रं०, सौधमें सुरथया ठैठजी रं०; माता पण गृही धर्म पालीजी रं०, स्वर्गे गई धर्म अंजुआलीजी ॥ रं० २५ ॥ तेहने मरणेपण बाधेजी रं०, सुख यश स्त्री सुख नवि बाधेजी रं०; सुत महत्त प्रमुख नवि ओछाजी रं०, संतने किम होय ते छोछाजी ॥ रं० २६ ॥ पाछली राते एक दिन्नजी रं०, धर्म ध्यानमां तत्पर मन्नजी रं०; किम लक्ष्मी जनमथी पाम्यो जी रं०, नवि खूटे दुख सवि वाम्योजी ॥ रं० २७ ॥ इम चिंतवतां एक देवजी रं०, परगट थयो करतो शेवजी रं०; संशय छेदनने नाणीजी रं०, मन चिंते ए कुण प्राणीजी ॥ रं० २८ ॥ देव दानव के भोगींद्रजी रं०, खेचरपति के योगींद्रजी रं०; मन माने तेहो एहजी रं०, पण तेजस्वी गुणी देहजी ॥ रं० २९ ॥ निज घर शत्रु जो आवेजी रं०, पण पूजवा योग्य ते थावेजी रं०; तिम एहना गुण नवि जाणुंजी रं०, पण मणि परे पूजन टाणुंजी ॥ रं० ३० ॥ विनये करी करे परणामजी रं०, तुमे कुणने आव्या शे कामजी रं०; किहांथी तुमे आव्या स्वामीजी रं०, ते चिंते सुर विनय न स्वामीजी रं०; कहे हुं छुं देवता जाणोजी रं०, पूरव स्नेह रज्जु बंधाणोजी रं०; मुज थानिकथी इहां आव्योजी रं०, तुज संशय मुज मन भाव्योजी ॥ रं० ३२ ॥ ते टालवा हुं इहां आयोजी रं०, कहुं ते सांभल सुखदांयोजी रं०; बारमी कही जीजे खंडेजी रं०, ढाल पदमे रंग अखंडेजी ॥ रं० ३३ ॥ सर्व गाथा ४०२



॥ दुहा. ॥

जंबू भरताई जाणिए, मध्य खंडे मणिपूर; नगरे श्रीपाल नरपति, दुशमन कीधा दूर. ॥ १ ॥ धन्न वसे तिहां धनपति, नामे सारथ नाह, प्रीति मती सती तस भिया, अंगे धरे उत्साह. ॥ २ ॥ सुत्राम नामे सुत भलो, गुणधर गिरुओ जेह; कला वहीत्तर केलवे, जोवन पाम्यो जेह. ॥ ३ ॥ शैठनी कन्या सामठी, ओत्सव करी अपार; परणावे तेहनो पिता, सुख भोगवे श्रीकार. ॥ ४ ॥ विविध प्रकारे व्यवहरे, उपराजे बहु आथ; क्रीडा क-

रवा एकदा, सजिओ मित्र लेइ साथ. ॥ ५ ॥

॥ ढाल १३ मी. ॥

विदलीनी देशी ॥ नणदल विदली दै ॥ ए देशी.

वनमां सूरेश्वर देखे, क्रीडा करतां शुभ वेपेहो; भवियण मुनी वंदो ॥
 मुनी अध्यवसाय शुभ ध्यान, चारणमुनीने च्यार ज्ञानहो ॥ भ० ६ ॥ जइने
 मुनी चरणे वंदे, मुनि निरखी मन आणंदेहो; भ० ॥ धर्मलाभ दिए मुनी तास,
 भद्रक जाणी सुविलासहो ॥ भ० ७ ॥ अनुव्रत पांचे विस्तारे, सर्व विरति क-
 हे सुप्रकारेहो भ०; द्रष्टांतर्ने फल देखावे, ते कुमर सुणे शुभ भावेहो ॥ भ० ८
 ॥ समकित करे अंगीकार, करे अभक्ष तणो परिहारहो भ०; निज उचित
 अनंतकाय वारे, वली अदत्तआदान व्रत धारेहो ॥ भ० ९ ॥ सुविज्ञेपे निरति
 चार, वली पूछे तास विचारहो भ०; मुनि कहे सांभल तुं भाई, ए व्रतनी वात
 ठराईहो ॥ भ० १० ॥ मणिने तृण जे परे करू, अण आप्युं न लीजे अनेहं
 हो भ०; मुनि त्रिविध त्रिविध व्रत पाले, गृही दुविध त्रिविध संभालेहो ॥
 भ० ११ ॥ वीजा पण बहु छे भेद, पण कायर पुरुष ना वेदहो भ०; जे भे-
 दे आदर्शु जेणे, ते पाली सुख लक्षां तेणेहो ॥ भ० १२ ॥ वली जिणे विरा-
 र्थु एह, भवसायर भमिआ तेहहो भ०; वध वंधन पीडापामे, दुखी दरिद्री होए
 ठाम ठामेहो ॥ भ० १३ ॥ दुरगति दुखनो नहीं पार, विहु लोक विनाश-
 णहारहो भ०; इम जाणी अदत्त न लीजे, तो जगत जने पूजीजेहो ॥ भ०
 १४ ॥ आराधे उभय लोक साथे, दिन दिन दोलत बहु वाधेहो भ०; व्रत-
 थी न चले जिम मेरु; तस जस होय जगत घणेरुहो ॥ भ० १५ ॥ तेजस्वीमां
 ते रविजेम, सौम्यमां हिम रश्मि नमहो भ०; इम जाणी व्रत तुमे पालो, मत
 कोई कारणे करो टालोहो ॥ भ० १६ ॥ करी तहत आख्या निज धाम,
 गुरु प्रणमी आतमरामहो भ०; व्रणे पुरुषारथ साधंतो, धर्मार्थ काम अवाधं-
 तोहो ॥ भ० १७ ॥ लक्ष्मी बहुछे पण जाणे, परखुं निज भाग्य ए टाणेहो
 भ०; माय ताय प्रिया परिवार, पूछीने थाय तयारहो ॥ भ० १८ ॥ कि-
 रियाणां लेइ दूर देश, गयो लाभनो घरी उद्देशहो भ०; पृथ्विप्रतिष्ठ पुर

तेह, भेटणां भलां भूपने देहहो ॥ भ० १९ ॥ नृप आणेथी भाडे रोह, लेइ
 पण्य उतारे तेहहो भ०; परिवारथी देव गुरु पूजे, निस्र निस्र ते धर्म न मुझे
 हो ॥ भ० २० ॥ वाणोतर लोकने आगे, धर्म उपदेशे धर्म रागेहो भ०;
 व्यापार करे ने करावे, न्याय मारगेसहु वरतावेहो ॥ भ० २१ ॥ व्यवहार शुद्धि
 तो थावे, न्यूनाधिक तोलटलावेहो भ०; चोर आप्युं जेह नलेवे, चोरने नवि धन
 कांय देवेहो ॥ भ० २२ ॥ नकरे भेल संभेल कांए, नृपवयरी देशेन जाएहो भ०; ए
 पांच अतिचार वरजे, तो सुखमां धन बहु अरजेहो ॥ भ० २३ ॥ तिम कर-
 तो पाम्यो प्रसिद्धि, माहिमा घणो लखो बहु रिद्धिहो भ०; नृपने अतिशय
 वश कीधो, सासन ऊन्नति जस लीधोहो ॥ भ० २४ ॥ हवे ताते तेढाव्यो
 ज्यारे, नरपति आणा लहि खारेहो भ०; पूर्वे निज साथ मौकलीओ, पूठे
 पोते नीकलीओहो ॥ भ० २५ ॥ तुरगे हवे थइ असवार, वेगे चाल्यो शुभ
 वारहो भ०; ओलंधे पुरने ग्राम, एक दिन वशीओ कोइ ठामहो ॥ भ०
 २६ ॥ आगल जाए एक दिन, अटवीमां दूर आसन्नहो भ०; रमाणिक दो-
 य कुंडल दीठां, अश्व उपरेथी उक्कीठांहो ॥ भ० २७ ॥ जिम सूर्यथी द्रष्टि
 संकेले, तिम नवि जूए आगल सेलेहो भ०; दीठी आगे मणिमाला; छंडे
 रज्जुपरे ततकालाहो ॥ भ० २८ ॥ मणि रत्न सुवर्णे भरिओ, कुंभ देखी आ-
 गे संचरिओहो भ०; जाणे ऊपल भर्या जिम होय, तिम दृष्टि न देवे सोयहो
 ॥ भ० २९ ॥ मन चिंतवे माहरे आगे, किम आवे ए त्रण मुज भागेहो भ०;
 अथवा सींचित ए महारे, पण विस्मय चित्तमां धारेहो ॥ भ० ३० ॥ धन्य
 एहनी मातने तात, जे पाले वृत्त साक्षातहो भ०; कारण मले मन न डगायो,
 ए किणी परे जाय ठगायोहो ॥ भ० ३१ ॥ खंड त्रीजे तेरमी ढाळ, पद्मवि-
 जय कही सुरसालहो भ०; इम सांभली वृत्त तुमें पालो, जिम होए मंगल मा-
 लोहो ॥ भ० ३२ ॥ सर्व गाथा ४३४

॥ दुहा ॥

ततक्षिण धाको तुरंगते, चाले नहीति चाल, ऊतरीओ तव अश्वधी, आ
शुं चिते अकाल. ॥ १ ॥ चितवतां इम चित्तमां, प्राण गया परे प्राय; दिल-
गीर थयो देखी करी, शुं ए अश्वने थाय. ॥ २ ॥ किम ए तरको आकलो,
अथवा मूर्छा एह; मरण लखो अथ मुजने, कोय न खवर करेह. ॥ ३ ॥ देव
शुद्र कोइ दाखीए, अथवा मानुं एम; दैव सरापे दुखीओ, कहो अकाले ए
केम. ॥ ४ ॥ वक्र वदन चालहीक ए, स्वामि भक्त मुजाण; चित अभिप्राए
चालतो, कर्ण कृश केकाण. ॥ ५ ॥ मार्ग सखाइने मृदु, मांसल मध्य सं-
स्थान; रीद्धि दातारणमां रहे, वारु करे वाख्यान. ॥ ६ ॥ माहरी अपेसा
मुकीने, आवेला थयो एम; अश्व विना हवे आगले, कहोने चालिए केम. ७

॥ ढाल १४ मी. ॥

भाव श्रावकना भाखीए ॥ ए देशी. ॥

पंथी वैद्य कोई मले, करे ओपथे करी उपगाररे; दाताररे, जीवनो जा-
णुं ते सहीए ॥ ८ ॥ आपुं धन तेहने बहु, इम करी इतउत ते जोवेरे; होवे
रे, इम करतां बेला घणीए ॥ ९ ॥ पण नवि पंथी को आवीओ, पण फि-
रतां तरस ते लागीरे; शक्ति भागीरे, तोपण भमतो नवि रहेए ॥ १० ॥ शुद्धि
न लाधी वैद्यनी, नवि लाधुं खोलतां पाणीरे; थाक आणीरे, वेठो छाहे तरु
तालेंए ॥ ११ ॥ इणो समे मसक पाणी भरी, शाखा अवलांवि तहेरे; जेहरे,
गलती जलने विंदूएए ॥ १२ ॥ क्रोणे ए नीर भरी ठवी, गयो किहां कहो
एहनो स्वामीरे; शिर नामीरे, मागीने जल पीजीएए ॥ १३ ॥ तरस टालु
इम चितवी, जोतां न जडयो कोयरे; तव जोयरे, शाखाए वेठो सूडलोए ॥
१४ ॥ नर भाषाए ते वदे, ताहरें अंगितने आकारेरे; जाणु प्यारेरे, तरइयो
छे तुं अति घणोए, ॥ १५ ॥ पाणि देखे पण नवि पीए, कहे कारण मुजने
तासरे; मुज वासरे, इणहीज वृक्ष मांहिअछेए ॥ १६ ॥ तुं अमचो छे प्राहु-
णो, वली गुणवंतमां शिरदाररे; आकाररे, देखी ताहरो भाखीएए ॥ १७ ॥
धर आच्यो ते सहू पूजीए, वली उज सरिखा मुविओपरे; तुं देखरे, भक्ति

करुं हुं ताहरीरे ॥ १८ ॥ जेहनुं हो तेहनुं होयज्यो, ए पाणी पी निर्शकरे;
 ईहां बंकरे, लेश मात्र नहीं ताहरोरे ॥ १९ ॥ माहरे यानिक ए जलअछे,
 तिणे आणा आपुं रंगेरे; उछरंगेरे, तरस टालो जल पी करीए ॥ २० ॥ त-
 रस्यां धर्म न होयश्ये, उलटुं थाय आरतध्यानरे; लाघो ज्ञानरे, पछे व्रत
 दृढपणे पालज्योए ॥ २१ ॥ यतः ॥ सच्चत्यसंजमं संजमाओ, अप्पाणमेव-
 रखिज्जा; मुच्चइ अइवायाओ, पुणो विसोहीतयाविरई ॥ १ ॥ पूर्व ढाळ ॥
 कहे कुंअर मूंण सूडला, तुं तत्वनी वात न जाणेरे; मुज आणेरे, हित पण
 सांभल वातडीरे ॥ २२ ॥ मसक ने जल ताहरुं नहीं, आणा दिए जे होय
 स्वामीरे; मुखकामीरे, ते लिए तस दुपण नहींरे ॥ २३ ॥ जेह अदत्त लिए
 नहीं, इह परभव संपदा पागेरे; दुःख ठामेरे, होए अदत्त जे आदरेए ॥ २४
 ॥ मुख जस लक्ष्मी लहे नहीं, वात धर्म तणी रहे दूरेरे; संपूरेरे, दुरगति दु-
 ख पागे सहीए ॥ २५ ॥ एक वार लिए अदत्त जो, तो जनमनी कीरति हारे
 रे; प्यारेरे, आपे जल ते नवि लेउए ॥ २६ ॥ प्राणांते पण नवि पीछं, तर-
 शो मरण एक वाररे; पीछं वारिरे, मरण अनंत लहुं अदत्तथीए ॥ २७ ॥ थि-
 रता मन वच कायथी, सांभली शुक अदृश थायरे; तव आयरे, एक पुरूष
 अर्णांचित्तव्योए ॥ २८ ॥ सत्य प्रतिज्ञावंत तुं, तुजने हो परणामरे; सत्व धामरे
 दृढमां द्रढ तुं एक छेए ॥ २९ ॥ इम प्रज्ञांसा सांभली, कुमर वदे इम वाणी
 रे; गुण खाणीरे, तुमें गुण अनुमोदन थकीए ॥ ३० ॥ पण तुमने पूछुं अमो
 तुम चरित्र घणुं चित्रकारीरे; अवधारीरे, कहो तुमे कोण किम आवीआए ॥
 ३१ ॥ ते कहे सांभलो वातडी; बैताढये विपुला नयरीरे; जित वयरीरे, चंद्र
 विद्याधर राजीयोए ॥ ३२ ॥ त्रिजे खंडे चौदमी, ढाळ अधिक उछासेरे; सु-
 विलासेरे, पद्मविजय भाखी मुदाए ॥ ३३ ॥ सर्व गाथा ॥ ४६७ ॥



॥ दुहा ॥

विशद नाम विद्याधर, तेह नगरमां त्राम; रमणी रूपे रुअडी, मणिमाला

अभिराम. ॥ १ ॥ सुत तेहनो सुरयअच्छुं, कंला ग्रही में काल; शास्त्र भण्यो
हुं समजणे, काहुं हर्षे काल ॥ २ ॥ विद्या विविध प्रकारनी, आपे पिता अ-
नूप; साधन शुं विद्या सवे, साधु सिद्ध सरूप- ॥ ३ ॥ फिरतो पृथ्विमां फरुं
विविध क्रिडा वन माहिं; विद्या बले वारु परे, आणी अंग उत्साह. ॥ ४ ॥

॥ ढाल १५ मी. ॥

दीठी हो प्रभु दीठी जग गुरु तुज्ज. ॥ ए देशी. ॥

एक दिन हां तिहां एक दिन सांभले कान, देशना हो भली देशना वि-
मलसूरि कनेजी, बूझ्या हो गुज बूझ्या भली परे तात, दीक्षा हो लिए दी-
क्षा राज्य तजी मनेजी ॥ ५ ॥ शिक्षा हो बिहु शिक्षा ग्रहे गुरु पास, तपथी
हो बली तपथी लबधि लहे घणीजी; अतिशय हो श्रुत अतिशय गुरुथी पा-
मि, परिसह हो खमे परिसह खमे अप्रमत्त मुणीजी ॥ ६ ॥ पाम्या हो क्रमे
पाम्या सूरिपद खास, चारित्र हो धरे चारित्र समता संगथीजी; पाम्या हो
रूपि पाम्या ते चचनाण, बूझवे हो भवि बूझवे विचरे रंगथीजी ॥ ७ ॥ व-
सतो हो घर वसतो हुं करुं राज्य, चोरी हो शिख्यो चोरी हुं कुसंगथीजी;
लावुं हो धन लावुं अनर्गल ताम, निस निस हो ईम निस निस विद्या अभं-
गथीजी ॥ ८ ॥ भूचर हो नृप भूचरनुं हरुं द्रव्य, क्रूरता हो थइ क्रूरता मन-
मां आकरीजी; बीजा हो बहु दोष आव्या निज अंग, सन्मति हो गुण स-
ख गया मुकी करीजी ॥ ९ ॥ भाग्ये हो गुज भाग्ये प्रेर्या ताम, आव्या हो
ऋषि आव्या विशदसूरिसरुजी; जाणी हो गयो जाणी विद्याधर साथ, म-
होत्सवे हो घणे महोत्सवे प्रणम्या जनक गुरुजी ॥ १० ॥ स्तवीआ हो सुणी
स्तवीआ सुणी उपदेश, समकित हो मुख समकित मुख लक्षा जन घणाजी;
निज निजहो सहु निज-निज थानिक जाय, हितनीहो गुज हितनी नहीं काई
मणाजी ॥ ११ ॥ शिक्षा हो गुज शिक्षा बहु परकार, देइहो गुज देई त्री-
जुं वृत्त आपिडंजी, चोरी हो नवि चोरी न करवी कोय, पूजे हो द्विधा पू-
ज्ये गुज दुख कापिडंजी ॥ १२ ॥ दीधो हो गुज दीधो तुज दृष्टांत, करवा
हो गुज करवा दृढता कारणेजी, बिहु भव हो हित बिहु भव जाणी हेत,

आदरयुं हो वृत्त आदरयुं दुःख निवारणेजी. ॥१३॥ चिंतव्युं हो में चिंतव्यु
परखुं तेह, जोडं हो वली जोड आकार आचारनेजी, दृढता हो वृते दृढता
जोडं तास, जेहना हो गुरु जेहना वखाणे व्यापारनेजी. ॥ १४ ॥ तिणे में
हो तुज तिणे परोक्षा कीव, कुंडल हो आदि कुंडल प्रमुखनी जाणजेजी,
अश्व हो कयो अश्व ते आश्वय मंद, करणी हो माहरी करणी वीजानी
माणजेजी. ॥ १५ ॥ पाणी हो तुमे पाणी न पंधि रेष, तरस्यां हो तुमे तरस्यां
पण अचरिज करयुजी, साचीही एह सांची प्रतिज्ञा तुज्ज, कनक हो परे क-
नक परं वृत्त तुमे धरयुंजी॥१६॥गुरुनीहो इहां गुरुनीमली सविवात, मिच्छा
मि हो तुज मिच्छामिदुक्कड हुं देउंजी, तुठो हो तुज तूठो मागो कांय, आपी
हो मुज आपी जनमनुं फल लेउंजी. ॥ १७ ॥ पठित हो सिद्धि पठित सिद्धि
दिए ताम, गगन हो गामि गगन गामिनी विद्या भलीजी, वीजी हो घणी
वीजी विद्याआं अनेक, आपी हो हवे आपी धन आपे वलीजी. ॥ १८ ॥
पूछे हो तव पूछे सारथ वाह, केहनुं हो एह केहनु वित्त छे ते कहोजी, खे-
चर हो कहे खेचर कांयक मुज, कांयक हो वली कांयक पारकुं ए लहोजी.
॥ १९ ॥ सांभली हो कहे सांभली सारथ वाह, निंदित हो कहो निंदित
वात किणी परेजी, धर्मनी हो कहो धर्मनी एकतो वात, वीजुं हो दिओ वी-
जुं अदत्त इणि परेजी. ॥ २० ॥ चोरिए हो आव्यु चोरिए शुद्ध पण एह,
अशुद्ध हो घणुं अशुद्ध मदिरा ए जल यथाजी, धर्म हो लह्या धर्म जो तात-
नी पास, मुको हो तुमे मुको लाव्या तिम तथाजी. ॥ २१ ॥ जाणो हो जे-
हउं जाणो सांभरे जेह, वावरयुंहो अथ अण वावरयुं ते आपीएजी, तिणथी
हो थाय तिणथी बहु जस वाद, पुण्यनो हो वली पुण्यनो संचय थापीएजी.
॥ २२ ॥ सांभली हो तव सांभली सार्थप वांण, कीधुं हो में कीधुं जेह सवे
कहुंजी, साजो हो थयो साजो अश्व तिणी वार, भुजने हो धन मुजने दीए
ते नवि लहुंजी. ॥ २३ ॥ साखे हो मुज साखे करयुं धर्म ठाम, पण ते हो
कांय पण ते नवि राख्युं तदाजी, पोहता ही तेह पोहता निज निज ठाम,
वरंते हो तुं वरते धर्म मांहि सदाजी. ॥ २४ ॥ वावरे हो धन वावरे साते

क्षेत्र, दीनने हो दीए दीन अनाथने संपदाजी, पाले हो वृत पाले निरविचार,
 टाले हो वली टाले लोकनी आपदाजी. ॥२५॥ मेरु हो वली मेरुने गिरनार,
 सिद्धगिरि हो वली सिद्ध गिरि नंदीश्वर करेजी, जाना हो करे जाना ति-
 र्थनी एम, गगने हो जाए गगने विद्याधर परेजी. ॥ २६ ॥ ओत्सवहो करे
 ओत्सव पूजा गीत, सफलो हो करे सफलो मानव भव तिहांजी, धर्म हो
 करी धर्म दानादिक च्यार, उपनो हो तुं उपनो आयु क्षये इहांजी. ॥ २७ ॥
 त्रीजे हो खंडे त्रीजे पनरमी ढाल, भाखी हो श्री भाखी श्रीजयानंद रासमां
 जी, उचम हो गुरु उत्तमविजय पसाय, पदमे हो भाखी पद्मविजये उछा-
 समांजी. ॥ २८ ॥ सर्वे गाथा ४६२

॥ दुहा. ॥

विद्याधर गुरु चाण्डी, पाली धर्म प्रपंच; आयु क्षये तिहां उपनो, सुर
 महा रीद्धिनो संच. ॥ १ ॥ व्यंतर पत्य आयु बढो, देवता ययो दयाल; पूर-
 वभव वृत पालिने, तुं सिरिवंत रसाल. ॥ २ ॥ तुज जनपथी ताहरे, घर ल-
 खमी घणी होय; पूरवभव कृत पुन्यना, योगथी सघलुं जोय. ॥ ३ ॥ धरम
 स्नेह पूरव धरी, आच्यो तुज घर आप; लखमी पूरुं लख गमे, मौज यकी
 विण माप. ॥ ४ ॥ अधिपति व्यंतरनो अछुं, आच्यो ए कहेवा आज; आ-
 भूषण वख आपिने, स्वघर गयो सुरराज. ॥ ५ ॥ हरख्यो लखमी पुंज हवे,
 जातिसमरण जात; सुर कछुं जाणी साचलुं, धर्म दृढ थई धात. ॥ ६ ॥
 दान अनर्गल देयतो, सुख भोगवे सुरसाल; सांभली एक दिन देशना, ल-
 ह्यो वैराग्य विशाल. ॥ ७ ॥ गुरु पासे दीक्षा ग्रही, ओत्सव करी आपार,
 अंग भण्या अगीयार ते, तप वली बहु तपनार. ॥ ८ ॥ चोखुं पाली चरण
 ते, अणसण विषे आराधि; देव लोक वारमे देवता, वावीस अयर अवाध.
 ॥ ९ ॥ भोगवी आबखु सुरभवे, नृप थयो नरभव पाभि; केवल ज्ञान लही
 करी, विचरे भावे विश्राम. ॥ १० ॥ सिद्धि वरे सुख शाश्वतां, ए धारी अ-

(१३८)

श्री जयानंद केवलीनो रास.

वदात; श्रीजुं वृत पालो तुमे, सहु लहो जिम सुखशात. ॥ ११ ॥

॥ ढाल १६ मी. ॥

मजरौ ल्योने जालिम जाटिनी. ॥ ए देशी. ॥

सांभली रतिमाला जे कुमार कस्युं, लखमी पुंज द्रष्टांत; बूझी अदत्तादान
निषेधती. अदत्त न लेडं एकांत ॥ वृत इम पालो भविक सोहामणुं १२ ॥
श्रावकवर्म तिहां अंगी करे, हवे साधर्मिक थाय, त्रिहुं जण प्रिते सुखमां-
हि रहे, धर्मे काल गमाय ॥ वृ० १३ ॥ रात समे एकादिन सूतां थकां, देखे
सुपन कुमार; कोइक नगरे पर्वत हुंकडो, भिक्षुनो अवतार ॥ वृ० १४ ॥ काष्ठ
भार उपाडथो मस्तके, कूरूपी शिरदार; चौटामां उभो इम देखिने, जाग्यो
तेह कुमार ॥ वृ० १५ ॥ मन चिंते ए सुपननुं फल किश्यु, चात असंभव एह;
जिमणुं लोचन फरक्युं तिणे समे, सुपननी साख पूरेह ॥ वृ० १६ ॥ चित-
थी तास उपाय विचारिने, मोहोटोपट एक कीध; स्वपन दीहुं जिम नगरा
दिकतणुं, तिम आलेखाची लीध ॥ वृ० १७ ॥ क्रीडा परवत वावि सरोवर,
चोहटां हाटने गेह; नव नव रंगे चित्रित पट थयो, मनोहर अतिशय एह
॥ वृ० १८ ॥ तेह नगरना वाह्य उद्यानमां, चैस ते रीखभजिणंद; तेहना
द्वारने मिलतुं वारणुं, शक्तशाल करंद ॥ वृ० १९ ॥ तस आगल एक पीठ
करावतो, तेडी वर मुत्रधार; दानशाला मंडावी तिहां कणे, दीन अनाथ उ-
द्धार ॥ वृ० २० ॥ चाकर मुक्या तास जमाडवा, सेवक दक्ष वली जेह; पट
विस्तारि देखाडे लोकने, जे जूए अति ससनेह ॥ वृ० २१ ॥ जे जूए दृष्टि
करी थिर तेहने, कहे नगरादिक नाम; ते मुजने मेलवजो पुरुषने, पट जाल-
वज्यो सुठाम ॥ वृ० २२ ॥ तेपण सेवक कस्युं तिषहीज करे, वर्णव करे सहु
लोक; देहरे आवे ते सहु देखता, मिली मिली ते थोके थोक ॥ वृ० २३ ॥
एक दिन पंथी आव्या दूरथी, धूले खरडित देह; देखी पटने विस्मय पामी-
आ, अहो कीणे चितर्युं एह; अमचुं नगर वस्युं अमे एहमां, नामे पन्नपुर जेह
॥ वृ० २४ ॥ पटपालक कहे आव्या किहां थकी, कौण तुमे किहां वास;
ते कहे पन्नपुरथी आवीआ, लाव्या ते कुमरने पास ॥ वृ० २५ ॥ कुमरे वा-

त सुणी तस मुस थकी, संतोप्या भली रीत; कुमर पूछे फिरी तास स्वरू-
पने, ते पण कहे धरी प्रीति ॥ वृ० २६ ॥ सो योजन ते नगर इहां थकी,
पद्मकूट गिरि पास; राजा पदमरथ तिहां राजिओ, कोई न जोडि छे तास
॥ वृ० २७ ॥ रूपे अश्वर्ये जीते इंद्रने, चंद्र उजवल गुण जास; पण ते नास्ति-
क धरमी आकरो, चंद्र कलंक परे तास ॥ वृ० २८ ॥ सांभली कुमरे तास
विसर्जिआ, देई इच्छित दान; तिणे नगरी जावानुं चित्त धरी, नारिने कहे
सावधान ॥ वृ० २९ ॥ तरिय नभीने आचुं जिहां लगे, रहेज्यो मातनी पास;
अहपुर धननुं दान देज्यो सदा, करज्यो कलानो अभ्यास ॥ वृ० ३० ॥
खेद लही पण आणा पालवी, एह पतिवृता धर्ये; मान्युं तव ते वेसी ढोलीए,
गगने चाल्यो सुशर्म ॥ वृ० ३१ ॥ पद्मकूट गिरि पहेतो रंगशुं, त्रीजे खंडेरे
ढाल; पद्मविजये कही सोलमी, मुणो हवे वात रसाल ॥ वृ० ३२ ॥ सर्व
गाथा ४९४



॥ दुहा. ॥

पल्यंक किहांयक गोपवी, रूप करे कूरूप; भिल्ल काष्ट भारो धरी, चा-
ल्यो मन धरी जुंप. ॥ १ ॥ पद्मपुरमां पाधरो, आच्यो चोहटे आप; वेचण
उभो वेगशुं, पण मनुं मुरति पाप. ॥ २ ॥

॥ ढाल १७ मी. ॥

कर्म न छुटेरे प्राणिआ. ॥ ए देवी. ॥

राज पुरुष तिहां आषीआ, देखे भिल्लने ताम; कूंतलपीत जाडा घणुं, हो-
ठ लांवा वली स्याम ॥ कर्म न छूटे रे आतमा. ॥ ३ ॥ मस्तक कडाह त-
लिआसमुं, दंतुरने स्थूल पाय; आंख्यो पीलीने सांमलो, नाक चीपुट वेसी
जाय ॥ क० ४ ॥ धूल नसाजाल देखीए, कंकालभैरव रूप; कूलक्षण स-
वि अंगनां, मानुं पिशाच सरूप ॥ क० ५ ॥ धोटी माथेरे वेलडी, वस्त्र ते
क्रोपीन एक; देखी थू थू करे सवे, बोले इणिपरे छेक ॥ क० ६ ॥ बो-

लावे तुझ भूपति, चालो सभा मजार; ते कहे हूं किहां राजा किहां, हूं नवि
 आवु किवार ॥ क० ७ ॥ जो तुम काष्टनो खप होये, तो ल्यो काष्टनो भार, पण
 तिहां हूं नवि आवगुं, तव ते बोले विचार ॥ क० ८ ॥ बीहक मकर तुरे वापडा,
 राजा करशे पसाय; तेहनी साथे तव चालीओ, देखाढयो तेह राय ॥ क०
 ९ ॥ भेटणुं काष्ट भारातणुं, करीने उभो किरात; पूछे भूपति इणि परे, कुण
 तुं किहांथी आयात ॥ क० १० ॥ नाम किश्युं तुज किहां वसे, ते कहे पिठर
 मुज नाम; पन्नकूट गिरिमां वसु, माहरे रहेवा नहीं धाम ॥ क० ११ ॥ का-
 ष्टनो भार वेची करी, आजीविका करुं स्वाम; नृप कहे दुखीओ मुज नगर-
 मां, किम तुं रेछेरे आम ॥ क० १२ ॥ ते कहे तुम पुर स्वर्गज्युं, हूं दुखीओ
 वसुं एम; सरोवर पांणी भयुं घणुं, चातुक तरस्यो रहे नेम ॥ क० १३ ॥
 नृप कहे माग जे जोइए; ते कहे उदरनुं पूर; काष्ट थकी सुखमां होए, भा-
 ग्यथी अधिकुं होए दूर ॥ क० १४ ॥ तुमे तुम मुज खप नहीं, चीवर दो-
 लत दाम; पण नहीं धान्यनी रंधनी, आपो तो होए काम ॥ क० १५ ॥
 भूप कहे देउं रंधनी, इम कही बोलावे ताम; विजयसुंदरी निज सुता, कहे
 तेहने नृप आम ॥ क० १६ ॥ जिन धर्मे तुझ सुख होए, तो भोगवो भोग
 रसाल, ए तुझ भर्ता में आपीओ, कर्म फल्यां ततकाल ॥ क० १७ ॥ एह-
 थी तुझने वहु सुख थयो, तव बोली तेह वाण; तातनुं वचन प्रमाण छे,
 खेद नहीं इण ठाण ॥ क० १८ ॥ कुलस्त्रीनो एह धर्म छे, ताते दीघो जे
 कंत; जाणे देव तणी परे, आराधे मन संत ॥ क० १९ ॥ पूरव भवना संबंधथी
 जो पण दीठो कुरूप; पण तस प्रेम घणो धरे, भिल पण तद अनुरूप ॥
 क० २० ॥ कोइक ज्योतिपी तिहां रह्यो, छानी कहे इम वात; एह मुहूर्त्ते प-
 रणे जिके, ते होए चक्री विख्यात ॥ क० २१ ॥ राणी होए ते तेहनी, स्त्री-
 मां उत्तम नारि; एहनी खबर न को पडे, थुं फळ होशे ए वारि ॥ क० २२ ॥
 इर्पा कोपथी भूपती, साहस अतिशय धार; राय सभां मांही इम कहे, सां-
 भलजो निरधार ॥ क० २३ ॥ बरना वेचने सारिखो, लावो वधूनोरे वेप;

तव ते पुरुष लेवा गया, रायनी आणे विशेष ॥ क० २४ ॥ बलय लांब्यारे कधीरना, सोहासणनुं निसाण; कोइक नीचना घर थकी, साडी लाव्या पुराण ॥ क० २५ ॥ पूरव वेप मुकी करी; नवलो पेहेरो ते वेडा; भिल कहे तव रायने, शी ए वात नरेडा ॥ क० २६ ॥ मणिवंटा नवि सोहिए, रासभ केरेरे कंठ; कांणी कुडी ने सामली, दासी द्यो योग्य वंठ ॥ क० २७ ॥ कागने योग्य ते कागडी, हंसली पामे न सोह; भिल्ल कहे पण रायने, नवि लाग्यो पडिवोह ॥ क० २८ ॥ विजयसुंदरी ए धन्य छे, कीधो नवि मन खेद; एवी भीड पडे थके, नवि पामी निरवेद ॥ क० २९ ॥ सत्तरमी त्रीजा खंडमां, पद्मविजये कही ढाल; श्री जयानंदना रासमां, सुंणतां मंगल माल ॥ क० ३० ॥ सर्व गाया ५२४

॥ दुहा ॥

रुप सार रंभा तणुं, करी धाता लेई केल; तेहने पवनसी लघु तुमे, भिल्ल कहे करी मन भेल ॥ १ ॥ चंद्रमुखी चोसठ कला, पद्म नेत्रापिकराव; धर्म जाण धर्म चारिणी, भाग्यवंती भलो भाव ॥ २ ॥ राजहंस गति राजनी, रति जीते रुपेण; विनयादिक गुणवंत ए, सोभागी सुखरेण ॥ ३ ॥ भिल्ल किहां दो भागीओ, कवीआरो ने कुरूप; लक्षण हीण लखी मने, भिल्लने किम द्यो भूप ॥ ४ ॥ खेद लहे बहु परखदा, हा हा ए थुं होय; मंत्री कहणनी नहीं मणा, कहे इणि परे सहु कोय ॥ ५ ॥ अपत्य उपर आति क्रोध शो, दुख आगल देनार; विपदा लहि ए विरुद्धी, भूपति भणे तिवार ॥ ६ ॥ दोष शाने मुज दाखवो, जैन धरमिणी जेह; मंत्री दोष न माहरो, आपे वरिओ एह ॥ ७ ॥

॥ ढाल १८ मी. ॥

घरि आवोजी आंघो मोरीओ ॥ ए देशी. ॥

कहे भूपति सांभलो मंत्रवी; नरपतिनी रीति छे एह; निज भाग्य प्रमाणे

पाति वरे, साक्षी मात्र पिता होय जेह ॥ ८ ॥ भवि दृष्टि राग तुमे परिहरो,
 दृष्टि राग अनर्थनी ठाय; दृष्टि रागे भूपति कहे भिछने, में दीधी ते
 फेर न थाय ॥ भ० ९ ॥ कलावंतीशुं सुख भोगव सुखे, तुज साहिब
 तूगो जाण, कहे पुत्रीने पंडित मानिनी, करी कूलआचारनी हाण ॥
 भ० १० ॥ अवज्ञा पितानी करी घणी, भिछ आपे वरिओ एह; तेहनां फल
 भोगवो भोजशुं, करी अरिहंत धर्मशुं नेह ॥ भ० ११ ॥ कहे विजयसुंदरी
 तातने, इहां वांक नही तुम रेप; सुख दुख जे जगमां पामीए, ते कर्म तणा छे
 विशेष ॥ भ० १२ ॥ यतः सव्वोपुव्वकयाणं, कम्ममाणंपावएफलविवागं; अ-
 वराहेसुगुणेसुअ, निमित्तमेत्तंपरोहोई ॥ १ ॥ पूर्व ढाल ॥ तुम कुल अजुआ-
 लीश तातजी, एह भर्तार इंद्र समान; ते सांभली नृप क्रोधे चढयो, निम
 अगनिमां घृत असमान ॥ भ० १३ ॥ विप भावित तांबूल आपियुं, व्रण पो-
 हरे अंघ ते थाय; भोजन अंतै निज पुत्रिने, वरने दीधुं शुद्ध जाय ॥ भ०
 १४ ॥ नृप कहे जाओ निज थानिके, सांभली चाल्यो निज थान; छायाणी
 परे नृप नंदनी, चाली भरता अनुमान ॥ भ० १५ ॥ राजा कहे सहने सांभ-
 लो, जे जाओ एहनी साय; अथवा धन आपणे एहने, तो मारीश तेहने हाथ
 ॥ भ० १६ ॥ नृप क्रोधथी मौन करी रक्षा, सचिवादिक पुरना लोक; देवने
 ओलंभो आपता, धरता मनमां अति शोक ॥ भ० १७ ॥ पुर बाहिर आच्यो
 दंपति, देव कुलमां कीध आवास; पतिपद उत्संगे लेइ करी, ओलासे नि-
 ज करे तास ॥ भ० १८ ॥ ते देखी दुरथी नृप भये, स्तवना करे नारिनी
 ताम; नृपनी निंदा करे सहजु जना, भूप महा अधर्मनो धाम ॥ भ० १९ ॥
 हवे पूछे भिछ निज नारिने, तुं रुपेरंम समान; किम मुजने आपी तुज पिता,
 तव सुंदरी कहे घरी सान ॥ भ० २० ॥ कहे मोटी कथा छे एहनी, सांभलो
 पबरय भूपाल; पद्मपुरमां राज्य करे सदा, अरिकाल सबल करवाल ॥
 भ० २१ ॥ परजाने सुखदाइ सदा, पण नास्तिक मतमां सोय; राणी द्योय
 अतिशय बालही, पदमा कमला नामे होय ॥ भ० २२ ॥ पदमापति धर्म ते
 आचरे, कमला जैन गुरु उपदेश; वली श्रावक कुलमां उपनी, तिणे जैन ध-

रमी सुविशेष ॥ भ० २३ ॥ पद्म नामे पुत्र पद्मा तणो, जयसुंदरी पुत्री एक;
कमलाने तो एक पुत्रिका, नामे विजयसुंदरी सुविवेक ॥ भ० २४ ॥ दोए
कुमरी धावि पालीजती, वधतां थई भणवा योग; मिथ्यात्वी पाठकने कने,
पद्मा मुके ते अयोग ॥ भ० २५ ॥ जे जैन कलाचारय होए, निज पुत्री क-
मला मुंके; तस पासे शास्त्र अभ्यासवा, कांय विनय विवेक न चूके ॥ भ०
२६ ॥ जयसुंदरी मात संयोगथी, तिम अध्यापक अज्ञान; तिणे कौलधर्मी
थई आकरी, बीजी जैन धरम विज्ञान ॥ भ० २७ ॥ ते पाठक विहुं तस
मातने, सुंपे लही यौवन बेद; धन आपे अध्यापक प्रते, करे प्रीतिवंत गत
खेद ॥ भ० २८ ॥ त्रीजे खंडे अढारपी, कही पद्मविजय वर ढाल; दृष्टि
राग तजो तुमे भवि जना, दृष्टि रागथी बहु जंजाल ॥ भ० २९ ॥ सर्व गा-
था ५५३ ॥



॥ दुहा.

सिणगारी विहु सुता, पाठकथुं नृप पास; चिंता वरनी चितवी, भणवा-
नो अभ्यास ॥ १ ॥ जोवा मुके जालवी, माता मनमां आण; पोहती नर-
पति पाउले, सकल कला सुभ जाण. ॥ २ ॥ बेसारी उत्संग विहु, पूछे
पाठ स्वरूप; पाठक बोलावी पछे, नव नव प्रश्न अनूप ॥ ३ ॥


॥ ढाल १९ मी. ॥

साहेलडीयां ॥ ए देवी ॥

पूछे नृप निज नंदिनी साहेलडीयां, पद समशानुं एक गुण वेलडीयां;
कहे तुमे जो निज शास्त्रमां सा०, मति कीधी होय छेक गु० ॥ ४ ॥ समशा-
पदयथा ॥ पेरुखएसुखसयाए ॥ ते जयसुंदरी सांभली सा०, तात धरममां
जेह गु०; पद समशानुं पूरती सा०, सांभलो आगल तेह गु० ॥ ५ ॥ दुहोः
तुहं शंकर तुहं बंभनिव, तुहंपूरिसुत्तमताय; तुज्ज प्रसाएण सव्वपया, पेरुख
ए सुखस सयाए ॥ १-॥ पूर्व ढाल ॥ सांभली राजा रंजीओ सा०, सहु पर-

खदना लोक गु०; पाठक ने सुंदरी तणा सा०, गुण सबे मिली मिली थोक
 गु० ॥ ६ ॥ पण बीजी कन्या हसे सा०, पेले नरपति ताम गु०; कारण पूछे
 भूपति सा०, हसवुं शे थयुं आम गु० ॥ ७ ॥ कुमरी कहे कांड नहीं सा०,
 तव आग्रह करे भूप गु०; विजयसुंदरी तव कहे सा०, सांभलो तात अनूप
 गु० ॥ ८ ॥ बृहस्पति जीसो बुद्धिथी सा० नीतिशास्त्रना जाण गु०; तुमे
 अति निपुण छो लोकयां सा० जगमां अधिक विज्ञाण गु० ॥ ९ ॥ मुज भ-
 गिनी पद सांभली सा०, मोद लखा अति रेक गु०; तत्व न समजे ए सभा
 सा०, परसंसे अविवेक गु० ॥ १० ॥ तल अजाणने आगले सा०, जाण ते
 वरते केम गु०; एहवुं अचरिज देखिने सा०, मुज हसवुं थयुं एम गु० ॥ ११
 ॥ राय कहे कुमरी सुंणो सा०, तुमे तत्वनां जाण गु०; पूरो समज्ञा हवे तुमे
 सा०, जोइए तुम विज्ञाण गु० ॥ १२ ॥ नृप आणा हवे लेइ करी सा०,
 तल वासितपति जास गु०; हरखी समज्ञा पूरती सा०, जैनागम अभ्यास
 गु० ॥ १३ ॥ दुहो ॥ जिनवर जसु हियदें वसे, जिण गुणि जिण तत्ताए;
 ते पंडिय जण उभय भवि, पिखलए सुखल सयाए ॥ १ ॥ पूर्व दाळ ॥ एह
 समज्ञा सांभली सा०, पाठक पाम्या हर्ष गु०; सभा लोक पण केइ जना
 सा०, हरख्या अति उत्कर्ष गु० ॥ १४ ॥ पण भूपतिना भय थकी सा०,
 मौन करी रखा तेह गु०; चमतकार चित्त पामिया सा०, अतिशय धरता
 नेह गु० ॥ १५ ॥ भूप पूछे सहू लोकने सा०, बोली तुमे सहू साच गु०; के-
 हनी समज्ञा तलनी सा०, कहेनी रूढी वाच गु० ॥ १६ ॥ कहे ते आद्य सा-
 ची कही सा०, अनुभव सिद्ध ए अर्थ गु०; विजयसुंदरीने कहे सा०, भूपति
 ते कथुं व्यर्थ गु० ॥ १७ ॥ रे कदुभाषिणी तुं सुता सा०, बोले लोक विरू-
 द्ध गु०; पुत्री वेरण भावयी सा०, इम बोले नृप क्रुद्ध गु० ॥ १८ ॥ कुमरी
 कहे में तुम कथुं सा०, तल न जाणे लोक गु०; हाजीहा सघला करे सा०,
 रुहु मनावे फोक गु० ॥ १९ ॥ कोपे राजा कलकली सा०, कहे तुं कूण प-
 साय गु०; सुख भोगवे तव में कथुं सा०, कर्म प्रसादे राय गु० ॥ २० ॥
 सहूए निज निज कर्मथी सा०, सुख दुख लहे संसार गु०; तुम प्रसाद जो

सुख होए सा०, केइ दुखिआ किम धार गु० ॥ २१ ॥ तव राजा क्रोधे चढयो सा०, कहे भरता कुंण तुझ गु०; में कहुं जे तुमे आपशो सा०, देव समान ते मुझ गु० ॥ २२ ॥ कर्म प्रमाणे आपशो सा०, तुमे पण मुझ भर-तार गु०; क्रोधे कहे मुझ जा परी सा०, आवजे तेहुं तिवार गु० ॥ २३ ॥ निज थानिक वीहु अमे गयां सा०, निज भटने कहे राय गु०; दुखिओ जे कोइ नयरमां सा०, ते लावो मुझ पाय गु० ॥ २४ ॥ ते पण तुमने लावीया सा०, आगल जाणो सर्व गु०; एम सांभली विस्मय लह्यो सा०, भिल्ल कहे अहो गर्व गु० ॥ २५ ॥ निज अपसने उपरे सा०, केवुं अकारय कीध गु०; नास्तिकने कह्यो किम होए सा०, जैन विवेक प्रसिद्ध गु० ॥ २६ ॥ भिल्ल वि-चारे चित्तमां सा०, शील तथा बली स्नेह गु०; जोउं दृढता एहमां सा०, धर्म स्नेह बली जेह गु० ॥ २७ ॥ त्रीजे खंडे ए कही सा०, ओगणीसमी वर ढाल गु०; पद्मविजये सोहामणी सा०, धर्म मंगल माल गु० ॥ २८ ॥ सर्व गाथा.५८१ ॥



॥ दुहा ॥

तांबूल भखियो तेहवो; विप वाप्युं विकराल; आंखव्यथा थइ आकरी, भिल्लने कहे जुओ भाल. ॥ १ ॥ नृप पासे विप छे नवल, जेहथी आंख्यो जाय; ऋण पहोरमां ततक्षणो, वेदन अति वेदाय. ॥ २ ॥ विश्वासी वयरी भणी, आपे अवनीपाल; तंबोल मांहे तेहने, कोपे थई कराल ॥ ३ ॥ में परसाद जाण्यो मने, खाधो तंबोल खांत; कर्म शुभाशुभ कीघलां, आवे उ-दय एकांत. ॥ ४ ॥ आंख्यो जात्रे आफणी, देवे अंधापो दीध; किम तुम शेवा करणनो, थशे मनोरथ सिद्ध. ॥ ५ ॥ भारभूत तमने भई, वधी वेदन तिणी वार; रोवे तिम रोवरावती, वनमां पशुनावार. ॥ ६ ॥


॥ ढाल २० मी. ॥

कोयलो परवत धूंधलोरे लो ॥ ए देशी. ॥

करम मकरजो प्राणिआरे लो, करम करयां नवि जायरे ॥ भविकजन ॥

वचनयोगे करी बांधीआरे लो, काययोगे भोगवायरे भ० ॥ क० ७ ॥ मं-
 त्रिनी खूपि मुनिने कष्टुरे लो, नावि सूक्ष्म तुम केमरे भ०; एहवा सूर्य प्रका-
 शमारि लो, अंध जणाओ एमरे भ० ॥ क० ८ ॥ अंधने आपो भिल्लनेरे लो,
 ए पूरव भव वाणिरे भ०; आलोयुं ने पडिकम्युरे लो, पश्चात्ताप बहु आणिरे
 भ० ॥ क० ९ ॥ पण एक भवे जे भोगवेरे लो, तेदळुं रहुं तस शेपरे भ०;
 करम करयां छुटे नहीरे लो, भोगव्या विण ते अशेपरे भ० ॥ क० १० ॥
 भिल्लने दीधी आंख्यो गइरे लो, इण भव आव्युं कर्मरे भ०; आशातना मुनि
 राजनीरे लो, महा दुखदाई अधर्मरे भ० ॥ क० ११ ॥ राये मुक्या मानवीरे
 लो, छाना जोवा काजरे भ०; सर्व वृत्तांत जई कहोरे लो, सांभली हरख्यो
 राजरे भ० ॥ क० १२ ॥ क्रोधी निर्दयी ने कदारं लो, नावि होय पश्चात्तापरे
 भ०; कमला पूरवे मोकलीरे लो, कार्य उद्देशी आपरे भ० ॥ क० १३ ॥
 इष्ट विघन शंका धरीरे लो, कपट करयुं इम रायरे भ०; कार्य करी आवी
 हवेरे लो, वात मुंणे सवि मायरे भ० ॥ क० १४ ॥ मूर्खा पामीने पडीरे लो,
 शीतादिक उपचाररे भ०; दाशीए कीधा तेहथीरे लो, पामी चैतन्य तिवाररे
 भ० ॥ क० १५ ॥ करीय विलाप रुदन करेरे लो, पुत्री जोवा कामरे भ०;
 राते दोय दाशी लेइंर लो, पोहती तिणहीज ठामरे भ० ॥ क० १६ ॥ दूरथी
 जोइ पाळी वलीरे लो, क्रोधने दुःख अपाररे भ०; रायने कहे धिग दुर्मतिरे
 लो, सर्व विरुद्ध करनाररे भ० ॥ क० १७ ॥ चंडाल पण न करे कदारे
 लो, निज संतानशुं द्वेषरे भ०; पुत्री विटंवी माहरीरे लो, वली अंधित सुवि-
 शेपरे भ० ॥ क० १८ ॥ वात यथार्थ कही तुजनेरे लो, शो कीधो अन्याय
 रे भ०; निंदित कर्मथी तुजनेरे लो, नरगे निश्चय ठायरे भ० ॥ क० १९ ॥
 पेट छुरी नांखी मरुरे लो, एम कही नांखे जामरे भ०; ते छुरी उद्दाली लि-
 एरे लो, नरपति बळथी तामरे भ० ॥ क० २० ॥ भूप क्रहे मुंण सुंदरीरे लो,
 क्रोधे ए करयुं कामरे भ०; हवे लोक सचिव निंदा करेरे लो, पग पग माहरी
 आमरे भ० ॥ क० २१ ॥ ताहरी पण प्रेरणा शकीरे लो, पश्चात्ताप घणो
 थायरे भ०; विहाणे शोध करावथुंरे लो, साणशुं आर्पणे ठायरे भ० ॥ क०

॥ औपध माहरे छे बलीरे लो, अंधापो जिणे जांयरे भ०; ते औपधे साजी करुरे लो, चिंता न कर तुं कांयरे भ० ॥ क० २३ ॥ देशुं कोइ नृप पुत्रनेरे लो, क्रोधे जे करयुं कामरे भ०; तेह प्रमाण नाहि कदारे लो, आश्वासे नृप वामरे भ० ॥ क० २४ ॥ रात गइ दुखनी तिहारें लो, विजयसुंदरीनां नयणरे भ०; शंभलां हवे निज कर्मनेरे लो, निंदे दुखिणी वयणरे भ० ॥ क० २५ ॥ के जिनवर आशातनारे लो, अथवा गुरु गुणवंतरे भ०; गर्हा करी अथ संघ नेरे लो, उपद्रव कीध अनंतरे भ० ॥ क० २६ ॥ हा मुज जनम शाने थयोरे लो, शाने पाली मुझरे भ०; किम नवि मुइ वालक थकारे लो, पण ए कर्मनुं गुझरे भ० ॥ क० २७ ॥ इम ते विलपती देखिनेरे लो, कृपा उपनी तव भिल्लरे भ०; औपधी पाणिए सज करेरे लो, आंख्यो थई ते नवल्लरे भ० ॥ क० २८ ॥ वेदना भागी सर्वथारे लो, दिव्यनेत्र थई तेहरे भ०; चिंतवे कर्म थकी लक्षोरे लो, एहवो भरता एहरे भ० ॥ २९ ॥ त्रीजे खंडे वीसमीरे लो, पद्माविजय कही ढाळरे भ०; श्रीजयानंदना रासमारें लो, पुण्ये मंगलमालरे भ० ॥ क० ३० ॥ सर्व गाथा ६११



॥ दुहा. ॥

देव सानिध पण दोहिली, एहवी औपधी एह; भिल्ल कहे भमता थकां, गिरि उपर गुण गेह. ॥ १ ॥ काष्ठने अरथे किहां थके, वृद्ध सवरने वयण; औपधी महिमा ओलखुं, निरखी चिन्हे नयण. ॥ २ ॥ लीधी विधि पूर्वक लता, राखी रुडी रीति; हवणां ते सफली हुइ, नेत्रदाननी नीति. ॥ ३ ॥ पण दरिद्रि कदरुप हुं, जघन्य अछे कुल जाति; उत्तम कुल तुं उपनी, ताहारो भूपति तात. ॥ ४ ॥ भिल्ल हुं भरता योग्य नहीं, नव विटलाबुं नाम; रूपे तुं रंभा जिसी, किम करुं पापनिकाम. ॥ ५ ॥

॥ ढाल २१ मी. ॥

वारी हुं गोडी गामने ॥ ए देशी. ॥

तुं सुकमाल शरीर छे, रवि कर फरश्यो नाहि सुंदरी; तो किम काष्ठ

वही शके, जा नृप पास उत्साह सुंदरी ॥ काम विचारी कीजीए ६ ॥ रोप शम्यो होशे हवे, मावित्रने जे क्रोध सुंदरीः नवि बहु काल लगे रहे, वली अपवादे लहो बोध सुं० ॥ का० ७ ॥ तुज माता हरपित थशे, राजकुमर कोइ सार सुं०; तस परणावशे ओत्सवे, सफल थशे अवतार सुं० ॥ का० ८ ॥ करग्रह मात्रज मुज वरी, हुं आणा देउं तुझ सुं०; दोष नही इहां तुझ कोइ, अधिक संबंध न मुझ सुं० ॥ का० ९ ॥ तुज मुंकु नृपने घरे, जिम न-वि जाणे कोय सुं०; हुं जाइश छानो वली, परगट वात न होय सुं० ॥ का० १० ॥ सांभली खेद लही घणो, गदगद बोले वाण प्रीतम; शं बोल्या ए स्वामिजी, वज्राघात समाण प्री० ॥ का० ११ ॥ कुलवंती कन्या होए, एकजघार देवाय प्री०; जेह पीताए पति दिओ, प्राणांते न छंडाय प्री० ॥ का० १२ ॥ तुमे पति तुमे मति तुमे गति, जेहवा हो ते प्रमाण प्री०; शरण तुमारुं आदरुं, अवर ते भ्रात समान प्री० ॥ का० १३ ॥ जो तुमे छंडी मुजने, तो संयम आधार प्री०; अथवा अग्नि शरण करुं, बीजो को न विचार प्री० ॥ का० १४ ॥ वात मुणो भिल्ल चितवे, दृढ शीलने वली स्नेह सुं०; आणंदभर भिल्ल बोलीओ, सांभलजे कहुं जेह सुं० ॥ का० १५ ॥ तुठी तुझ कुल देवता, वली मातानी आशीष सुं०; पुण्य जागतां ताहरां, ताहरी चढती जगीश सुं० ॥ का० १६ ॥ कारमो भिल्ल हुं कारणे, स्वाभाविक जो रूप सुं०; देखाहुं तुझ माहरुं, जो हवे शुद्ध स्वरूप सुं० ॥ का० १७ ॥ इम कही स्वाभिक करे, अप्सरा मोहेजास सुं०; तो नारीनुं कहेहुं किश्रुं, देदीप्यमान आभास सुं० ॥ का० १८ ॥ रत्नोद्योते देखी करी, आणंद अंग नमाय सुं०; विजयसुंदरी इम कहे, ए शं कौतिक थाय प्री० ॥ का० १९ ॥ नाना रूपे सुरपरे, मुंझवो किणि परे स्वाम प्री०; कुमर कहे मुण सुंदरी, सत्रिय सुत अभिराम सुं० ॥ का० २० ॥ देश भमु कौतिक थकी, कला विज्ञानने हेत सुं०; विविध देश भमतां थकां, थयो बहु कला उपेत सुं० ॥ का० २१ ॥ विविध महिमावंत औषधी, पाम्यो वली देव दी-ध सुं०; आकाशगामी दोलिओ, जिणथी मुज प्रसिध्ध सुं० ॥ का० २२ ॥

गिरि नगरादिक बहु जोडं, रत्न पुरे एक दिन सुं०; भुष-पुत्री रतिसुंदरी,
 परण्यो पूरव पुत्र सुं० ॥ का० २३ ॥ नृप दीधा आवासमां, भोगवुं भोग
 रसाल सुं०; संग्र दीतुं में अन्यदा, भिक्षुरूप विकराल सुं० ॥ का० २४ ॥
 सुपन विघातने कारणे, भिल्लरूप करयुं एह सुं०; राज पुरुष मुज छावीआ,
 तुं जाणे सवि तेह सुं० ॥ का० २५ ॥ वात कही ते सांभळी, हर्षे विकश्वर
 देह सुं०; ज्ञानी वचन साचुं थयुं, ईम कहे अहो न संदेह प्री० ॥ का० २६ ॥
 सुंणो एक दिन उद्यानमां, आव्या ज्ञान निधान प्री०; गुरु गुणवंत दाशी
 ए कंठां, हुं गई तेह उद्यान प्री० ॥ का० २७ ॥ माता सहित वंदन करी,
 देशना अंत ए मात प्री०; मुझ पुत्री वर कुंण थशे, नास्तिक कुमरी तात प्री०
 ॥ का० २८ ॥ हुं मुझ पुत्री जैन छं, तातने अल्प छे राग प्री०; मुनि कहे
 धर्म शील सुंणो, जेह थशे महाभाग प्री० ॥ का० २९ ॥ अरघ भरतनो अ-
 धिपति, तुझ पुत्री भरतार प्री०; फरी कहे किम मळशे कहो, तव भाखे अ-
 णगार प्री० ॥ का० ३० ॥ इहां उद्याने रीषभनुं, चैस अछे तेह मांहीं प्री०;
 चकेशरी छे तेहनी, पूजाथी मिलशे उत्साहि प्री० ॥ का० ३१ ॥ ते दिनथी
 पूजा करी, मानुं ते तुष्टमान प्री०; स्वप्नादिक सवि तिणे करयुं, मेळव्यो यो-
 ग समान प्री० ॥ का० ३२ ॥ कुमर कहे जिन धर्मथी, सघळुं थाय कल्याण
 सुं०; योग आपणे शुभ जडयो, सांभळो हवे कहुं वाण सुं० ॥ का० ३३ ॥
 त्रीजे खंडे पूरण थई, एकवीसमी एढाल प्री०; पद्मविजय कहे धर्मथी, होवे
 मंगलमाल प्री० ॥ का० ३४ ॥ सर्व गाथा ६४६ ॥

॥ दुहा. ॥

सांभल वात सोहामणी, नवि जाणे कोई नाम; तिम ईहांथी चालो तुमे,
 ठाळके जइए ठाम. ॥ १ ॥ शिक्षा देउं सारी पठे, तुझ तातने खां सीम; प्रगट
 न थाउं प्रेयसी, सांभल ए मुझ नीम. ॥ २ ॥ परगट नाहिं ऊपाय ते, शिक्षा
 माने साम; अवसरे शिक्षा देई अमे, धर्म तणो करुं धाम. ॥ ३ ॥ आरिहत
 धर्म ओलखावथुं, कौलपणुं करुं दूर; उपगार करवो अवरने, सज्जननुं ए

(१६०)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

सुर. ॥ ४ ॥ उपगार घर्म ऊपर नहीं, करुं एहने उपगार; औपधी बलथी
इहां रहे, विघन रहित इण वार. ॥ ५ ॥ पल्यंक आभरण गोपव्यां, लेई
आवुं ल्हार; वस्त्र लावु तुज वासते, नयरीथी निरधार. ॥ ६ ॥

॥ ढाल २२ मी. ॥

॥ भटिआणीनी देशी. ॥

मानी नारिए वात, औपधी देई चाल्यो हो, तिहां लेइ पल्यंक आभूपणां
पेहेरी गयो पुर मांहि, चोहटा मांहि दीठां हो, कांय व्यवहारीनां आपणां.
॥ ७ ॥ कोई शेठने हाट, वेशी मागे वस्त्रहो, बली आभरणां घणुं दीपतां,
विमणां मुलां रन्त, आपीने लिए तेहहो, कांय स्वर्ग संबंधी जीपतां. ॥ ८ ॥
लोभे वणिक जात, आप्यां वस्त्र अमुलांहो, बली नारीनां आभूपण घणां;
नवां करान्यां तेह, द्रव्ये शुं नवि सीझेहो, धरे मनमां जे होए कामणां. ॥ ९ ॥
॥ देवकुले जई तेह, नारीने पेहेरावेहो, ते वस्त्र आभूपण सोहतां; पल्यंके सू-
तां दौय, ब्राह्ममुहुत्ते जागेहो, तव वयण कहे मन मोहतां. ॥ १० ॥ जइए
आकाश पंथ, नारि कहे किहां जाशुंहो, तव कुमर कहे सुंगो सुदरी; रत्न-
पुरे छे ठाम, तुझ सरिखी मुझ नारीहो, घणुं प्यारी छे रतिसुंदरी. ॥ ११ ॥
विजयसुंदरी कहे ताम, तुमे उपगारी मोहटाहो, तिणे वात सुंगो एक माहरी
कमलपुरे छे भूप, कमलप्रभ मुझ मामोहो, दीन अनाथनो वाहरी. ॥ १२ ॥
प्रीतिमती प्रिया आद्य, तेहने सुत जयसूरहो, रोगीने दोभागीओ, बली अ-
न्याई क्रूर, अग्रिय बोले निखेहो, नहीं सज्जन कोई पागीयो. ॥ १३ ॥ भो-
गवती बीजी नारि, शोभागिण मुझ माताहो, दाता प्रिय बल्लभ घणुं, तेहने
पुत्री एक, कमलसुंदरी रुढीहो, रूप धर्मे मुझ सम गणुं. ॥ १४ ॥ वय पण
मुझ सम तास, पुत्र विजयसूर नामेहो, दाता विनई पराक्रमी; एक दीन पूछे
राय, निमित्तियाने भाखोहो, राज्य योग्य कुण उद्यमी. ॥ १५ ॥ ते कहे
जे लघु पुत्र, गुणवंतो ते योग्यहो, सांभली राजा हरखीओ; निमित्तियो देई
दान, विसज्ज्यो ते जाणीहो, प्रीतिमती विष वरषीओ. ॥ १६ ॥ चितवे एणि.

परे चित्त, विजयसूर निरोगीहो, गुणवंतो छे जिहां लगे; रोगी माहरो पुत्र
 अविनइने क्रेवीहो, राज्यनी आशा तिहां लगे: ॥ १७ ॥ अविनीतने दोभा-
 ग्य, नृपने पण नहिं रागहो, वली निमित्तिओ इम कहे, चांदे खारनो क्षेप,
 राजा तोए घरमीहो, अवसर लही दीक्षा ग्रहे. ॥ १८ ॥ मुजथी तो न लेवाय,
 शक्ति अभावे तिणेहो, शोक पुत्र थाय राजीओ; देखीने न खमाय, मुझ सुत
 दुखीओ देखीहो, यद्यपि ए गुण गाजीओ. ॥ १९ ॥ मारू कोई ऊपाय,
 अथवा अंगे हीणोहो, करूं जिम राज्य नए लहे; कोई कपालिणी देखि
 चूर्ण योगादिक जाणेहो, तेहने एक दिन एम कहे. ॥ २० ॥ शेवा करे तस
 निस, ते कहे शाने शेवेहो, तुज काम होए ते भाखीए; ए कहे मुझ सुत साल
 काढो एहज कामहो, घणुं घणुं थुं तुम दाखीए. ॥ २१ ॥ कहे ए कपालिनी,
 अल्प खाथुं करपद खंभेहो, देखं तुज चूरण एहवुं; भोजन मांहि आपि, ता-
 हरा अर्थनी सिद्धिहो, थाशे चित्त छे जेहवुं. ॥ २२ ॥ सांभली हरखी तेह,
 चुरण लीथुं तिणिएहो, करी सतकार तेहने घणो; शोक्य उपर घणो नेह,
 तस सुत उपर दाखवेहो, वली ते विश्वाशीपणो. ॥ २३ ॥ अधिक अधिक
 धरे स्नेह, दुरजननी गति भांतिहो, सज्जन किमही नचि लहे; एक दिन
 कांयक पर्व, पामीने ते शोक्यहो, तिम तस पुत्रने इम कहे. ॥ २४ ॥ चालो
 भोजन काम, आज परवनो दाहाढोहो, संज्जन ते भेला जिये; सरलसभावी
 तेह, भोजन अर्थे आंच्यांहो, आसन मांडर्या मन गमे. ॥ २५ ॥ गौरव भ-
 क्ति देखाय, प्रीतिमती घणी नेहेहो, विधिए सर्व कारय करे; मोदक प्रमुख
 जे सार, कपालिनी दत्त चूर्णहो, कुमरने सहित दोए शुभ परे. ॥ २६ ॥
 त्रीजे खंडे ढाळ, बावीसमी पत्राविजयेहो, भाखी एह सोहामणी, श्रजियान-
 दने रास, दुरजन सज्जन पटंतरहो, इम जाणी सज्जन थाओ गुणी. ॥ २७ ॥
 सर्व गाथा ६७२ ॥

॥ दुहा.

जमी उठ्या जोपे करी, वली संत्कार विशेष; आव्या घारे आणंदशुं,
 लिख्युं जे थाए लेख ॥ १ ॥ हलूप हलूप हाय पग, थंभाए जिम थंभ; चू-
 रणनां ए चिन्ह छे, आवे सहुने अचंभ ॥ २ ॥ करथी कांय न करी शके,
 पगे न चाले पथ; कर्म तणी गति केहवी, आगे न चले अंथ ॥ ३ ॥ राय
 राणी व्याकुल रूप, करे विविध प्रतिकार; वैद्य औषध करे नवनवां, गुण
 नवि थाए लगार ॥ ४ ॥ प्रीतिमती विना सहु प्रजा, दुःख पामी खेदाय;
 शका आवी सर्वने, प्रीतिमती ए उपाय ॥ ५ ॥

॥ ढाल २३ मी. ॥

॥ राग धन्यासिरि. ॥ ॥ गिरुआरे गुण तुम तणा. ए देशी. ॥

चेष्टा प्रीतिमती तणी, वली भोजन दिन संभारीरे; निमित्तिआने पूछीं
 कहो ए किम कर्मनो भारीरे ॥ ६ ॥ कर्म प्रमाणे फल लहे. ए आंकणी. ॥
 निमित्तिओ कहे नारीथी, यथो दुष्ट चूरण संयोगरे; विविध औषधथी नही
 टले, पण आगे धात्रो निरोगरे ॥ क० ७ ॥ निमित्तिआने विसरजिओ, देई
 धणो सतकाररे; दासी कहाथी जाणीओ, प्रीतिमती कपालिनी प्याररे ॥
 क० ८ ॥ सुभट मुकी कपालिनी, तेडीने त्राडना कीधीरे; तव ते बोली सा-
 चलुं, चूर्णादिक वस्तु जे दीधीरे ॥ क० ९ ॥ करथो धिक्कार सहु जने, प्री-
 तिमतीने नरपति काढेरे; पीहर गइ ते पाधरी, तीहां पण लोक निंदे गाढेरे
 ॥ क० १० ॥ घारे कटुक फल भोगवे, पाप इह परभव दुःखदाइरे; पण
 ए असार संसारमां, एक धर्मज थाय सहाइरे ॥ क० ११ ॥ जे अन्यने माहुं
 चितवे, परने तो भजना जाणोरे; पण एहने अभिप्रायथी, होय दुरगति दुः-
 खनी खाण्योरे ॥ क० १२ ॥ भूपतिने राज्य वरगीआ, पुर लोक मली कहे
 वातोरे; अहो अहो स्त्रीना हृदयने, दुष्टताने साहसघातोरे ॥ क० १३ ॥ धि-
 ग इहलोकनुं सुख अणुं, तेहने अरथे करे प्राणीरे; विविध प्रकारना कर्मने,
 करे जिणथी लहे दुःख खाणीरे ॥ क० १४ ॥ हवे भूप पढह वज्रदावतो,
 कोइक पददेशी आवेरे; अथवा कोइ निज देशनो, आवीने परगट आवेरे ॥

क० १५ ॥ जे मुज पुत्र साजो करे, तेहने आपुं एक देशरे; कमलसुंदरी क-
न्या देउं, वली कहे ते करुं विशेषरे ॥ क० १६ ॥ इम त्रण त्रण दिन वज-
डावतो, पंदर पंदर दिन अंतरे; मामे मुज तैडी घरे, घणुं मुज उपर प्रीतिव-
तेरे ॥ क० १७ ॥ सांभल्यो में मोसालमां, ए भाख्यो ते वृतांतरे; कमलसुंदरी
शुं माहरे, घणी प्रीति हती एकांतरे ॥ क० १८ ॥ माहरे एहने एक पति,
करचो इम कीध विचार; पण भाईना शोकथी, नवि वात करी लगाररे ॥
क० १९ ॥ विजयसुंदरी कहे तिणे तुमे, ते नगर जई सुख कीजेरे; मोसाल
सहुं सुखीयुं थशे, जगमां जश मोहोदो लीजेरे ॥ क० २० ॥ मुज लोचन
दीधा थकी, तुममां निश्चय छे शक्तिरे; श्री एहवी वस्तु जगे, कल्प वृक्ष करे
वहीं व्यक्तिरे ॥ क० २१ ॥ पर उपकार परम थशे, एह साजो थाशे कुमा-
ररे; परजाने सुख आपशे, न्याय धरमी शुभ आचाररे ॥ क० २२ ॥ ए
तुमने सावि जस अछे, नारिनां सुंणी वयण कुमाररे; तिहां जावुं अगीकरे,
करवा तेहने उपगाररे ॥ क० २३ ॥ निज भाग्य परीक्षा इम करी, पान्या
इंणि रीते नारीरे; श्रीजयानंद मुदित थया, जे निख निख परउपगारीरे ॥
क० २४ ॥ श्रीजे खंडे त्रेवीसमी, ढाल भाखी चढते रंगेरे; त्रीजो खंड पूरण
थयो, ए रासमां रंग अभंगेरे ॥ क० २५ ॥ सखविजय पन्यासना, वर कपूर
विजय पन्यासरे; खिमाविजय शीश तेहना, पूरवमुनि मुद्रा जासरे ॥ क०
२६ ॥ जिनविजयो जगमां जयो, जेहना शिष्य अनेकरे; तेहमां उत्तमवि-
जयजी, थया पंडित वारु विवेकरे ॥ क० २७ ॥ तस पदपंकज अलिसमो,
शीष्य पद्मविजय जस नामरे; तास कृपाथी भाखीओ, खंड त्रीजो ए अभि-
रामरे ॥ क० २८ ॥ सर्व गाथा ७०० ॥

इतिश्रीमत्सविज्ञपक्षीयपंडितप्रवरपं० श्रीउत्तमविजयजिह्वाविनेयपं०पद्म-
विजयगणिविरचितेप्राकृतप्रबंधेश्रीश्रीजयानंदकेवलचिरेत्रे श्रीजयानंदकुमार-
स्यदेशांतरचर्यायांगंगदत्तपरिव्राजकोपकारमल्लयमालक्षेत्रपालजयतदपितसम-
हिममहौपधीपंचकभासिततत्पूर्वमंत्रिभवपत्नीध्वयजीवरतिमुंदरी,विजयसुंदरीम-
हावदातसोत्सवपाणिग्रहणलक्ष्मीपुंजद्रष्टांतत्रतीयवृत्तपालनादिफलदर्शनकमल-

(१६४)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

सुंदरीकरग्रहणप्रस्तावनादिवर्णनोनामत्रतीयखंड समाप्तः प्रथमखंडे गार्था४४४
द्वितीयखंडेगाथा९६६त्रतीयखंडेगाथा ७०० सर्वगाथा२११० प्रथमखंडे उक्त
श्लोक१३ द्वितीयखंडेउक्तश्लोक १९ त्रतीयखंडे उक्तश्लोक११ सर्व थइ उक्त
श्लोक४३ सवइयो १ समस्या २ प्रथमखंडे ढाल १५ द्वितीयखंडे ढाल ३३
त्रतीयखंडे ढाल २३ सर्वढाल ७१ इति.

॥ खंड चौथो ॥



॥ दुहा. ॥

शासन नायक शिवकरण, बंधु श्रीवर्द्धमान; चौथा खंडतुं चुंपसुं, वरण-
चशु वाख्यान ॥ १ ॥ सामलज्यो श्रोतासवे, आलस दूर उतारि; निद्रा वि-
कथा नवि करो, वाधे जिणथी विकार ॥ २ ॥ प्रिया सहित पल्यंकयी,
चाल्यो गगनविचाल, आव्यो कमलपुरे कुंवर, करेवांचित ततत्काल ॥ ३ ॥
पल्यंक किहांपक गोपव्यो, उद्याने एकांत, बुद्धि निधि शावरतणुं, रूपकरे
रूचिवंत ॥ ४ ॥ प्रिया शावरी रूपथी, साथे लेइ सार, वेधरी वैद्यजतणो,
भयतां स्त्रीभरतार ॥ ५ ॥

॥ ढाल १ ली ॥

॥ चोपाइनी देशी. ॥

ओषधीनी हवे ग्रंथी करी, चाल्यो काख मांहे ते धरी; अलकार पहैया
बहु मूल, विहु जण धरतां सबल दुकूल ॥ ६ ॥ पेटो नयरीमां अभिराम,
साथे लेइ पोतानी वाम, पोहतो एक शेटने घरद्वार, शेटने कहे सांभलो इं-
णिवार ॥ ७ ॥ चित्रशालाद्यो रहेवा भणी, भाहुं आपुं तुमने गणी; शेट
कहे तुमे कुणछो कहो, किहांथी आव्या किहां वासे रहो ॥ ८ ॥ ते कहे
भिल्लुं वैद्य मुजाण, टालुं रोग विविध दुखखाण; कौतिकथी भुं देशांतरे,
नारी साथ राहु शुभपरे ॥ ९ ॥ नयर दीहुं ए रिद्धिनुं ठाम, वसवा मागुं
तुमचुं धाम; शेट कहे कोपे कलकल्यो, भिलवाड जातुं हलफल्यो ॥ १० ॥
भिल्ल अशुचि ने अन्नाण, किहां मुज घरमां रहेवा ठाण; किहां मीजां ने
किहां महादेव, किहां वाणीग घर तुं रहे हेव ॥ ११ ॥ अर्द्ध लक्ष ल्यो भाहुं
तुमे, थोडा दिन रहेथुं इहां अमे; इम करी आप्युं एक रत्न, शेट विचार
करे शुभ यत्न ॥ १२ ॥ धनद हरो के विद्या धरो, के इश्वरदाने आकरो;

(१५६)

श्रीजयानंद केवळीनो रास.

एहवी दानलीला किहां होय, द्रव्य देखी चित चलिओ सोय ॥ १३ ॥ शेट
भिल्लने आदर करी, कहे ल्यो चित्रशाला मनहरी; शुचि अशुचि न जाति
विचार, गुण ते पवित्र अछे संसार ॥ १४ ॥ नारि सहित चित्रशालाए रहे,
शेट देखी चितमां गहगेहे; रतने घरवाखरो तस दिए, आणद शेटने नमा-
ए हिये ॥ १५ ॥ रत्ने मनोरथ पूरा करे, नारी रूपे रंभा हरे; तेहशुं भोग-
वे नवला भोग, श्रीजयानंद ते शुभ संयोग ॥ १६ ॥ विविध लोकनां औपध
करे, लोक तणा बहु रोगज हरे; शावरवैद्य प्रगट कर्तुं नाम, नावि लिए
कोई पासेथी दाम. ॥ १७ ॥ वीणा प्रमुख वजावे आप, राग तणा वलीकरे
आलाप; वीण वजावे कोई दिन नार, गायन पासे मुंणे किवार. ॥ १८ ॥
नाच करावे नाटिकणी पास, अढलक दान दिए वली तास; नाम शवर व-
श्रमण ते कहुं, लोके हरप थकी ते लहुं. ॥ १९ ॥ ए नामे थयो लोक प्र-
सिद्ध, स्वेच्छाए विलसे जिम सिद्ध; एक दिन नगर उद्यान मझार, एक ब्रा-
ह्मण उत्तम शिरदार. ॥ २० ॥ भरत कीधा जे आर्यवेद, छात्र भणावे बहु
गतखेद; महा बुद्धिवंत ते खाले विप्र, विप्र विना वेदनापे क्षीप्र. ॥ २१ ॥
इंम चितीने पूछे शेट, जाशुं अमे हवे इहां नेठ; घरवाखरो मुंपी लेइ नारि,
नीकलीओ हवे रात मझार. ॥ २२ ॥ रात रक्षो हवे ते उद्यान, विप्ररूप की-
धुं असमान; ब्राह्मणी रूपे नारी करी, हेतु तास कहुं चित्त धरी. ॥ २३ ॥
यीवनवय पेहेरया अलंकार, पेठां विहाणे नगर मझार; वाणिक ग्रहे पूरवनी
परे, भाहुं आपी रहे शुभ परे. ॥ २४ ॥ घरवाखरो तिणे पण दीध, बहु दा-
स दासी तिहां वली कीध; परिक्षा करी वृद्ध स्त्री वली एक, राखी नारी पा-
से सुविवेक. ॥ २५ ॥ विनय उपाध्यायनो करी हवे, पूजा करवा रतन ते
ठवे; उपाध्याय भणावे तास, वेद ते नीति धर्म प्रकाश. ॥ २६ ॥ चौथे खंडे
पेहेली ढाल, श्रीजयानंदनुं चारित्र रसाल; पद्म कहे मुंणो वालगापोल, मुण-
तां होवे मंगलमाल. ॥ २७ ॥



॥ दुहा ॥

भाग्यथी अल्प दिने भण्यो, प्रज्ञावंत प्रधान; पदानुसारिणी पामीओ, सकलवेद सावधान. ॥ १ ॥ प्रसंशा बहु पामीओ, गुरु पूजे गुरुदान; दाने छात्र प्रमोदीआ, चमक्या सहु पहेचान. ॥ २ ॥ भोग रसाला भोगवे, पूरव परे प्रसिद्ध; ब्रह्म वैद्य विख्यातथी, सहुमां थयो समृद्ध. ॥ ३ ॥ करे उपगार कोळयोगमे, गीत नाटिकने गान; राजपंथे रलीआमणो, देवे अतिशय दान. ॥ ४ ॥ वैद्य वैश्रमण कह्यो वली, दाने आति दातार; रूप्य सुवर्ण ने रत्ननुं, लेखुं नहीं लगार. ॥ ५ ॥

॥ ढाल २ जी. ॥

॥ भाव श्रावकना भाखीए. एं देशी. ॥

पढह धाजतो एक दिने, सांभलीओ निज कानेरे, बहु मानेरे, नवि आव्यो राजा कनेए. ॥ ६ ॥ कन्या लोभ शंका धरी, हवे लोक कहे थुं ए देवरे; नही देवरे, अधर जावानी एहनेरे. ॥ ७ ॥ अश्वनी पुत्र ए पण नहीं, एह रहे नित एकरे सुविवेकरे, दाता एह धनद जिश्योए. ॥ ८ ॥ भेषज दान लीला वली, सकलकला भंडाररे, जूओ प्याररे, एहवा दीठा न सांभल्याए ॥ ९ ॥ पहेलां भिल्ल एक एहवो, दीठो तेहवो एहरे; गुण गेहरे, मानुं रूपांतरे आवीओए ॥ १० ॥ इम विकल्प सहु करे, एकदा बहु जन परिवाररे, शुभ ठारेरे, वेठो राजपंथे जइए. ॥ ११ ॥ वीणा बजावे कौतुकी, बहु मित्रथुं गावे हपेरे; श्रुति वर्षेरे, अमृतरस शुभ स्वर थकीरे. ॥ १२ ॥ दासी वृंद हवे जायती, पाणी भरवा कापरे; तापरे, कुब्जादासी एकछेए. ॥ १३ ॥ गीत रसे उभी रही, पूछे ब्राह्मण तासरे; किहां वासरे, ताहरो ने तुं कोण छेए. ॥ १४ ॥ दासी कहे सुण साहिबा, भोगवती नृप राणीरे, तस जाणीरे, छुं कुवजादासी घरेए. ॥ १५ ॥ किम कुबजा ब्राह्मण भणे, साकहे मुज वायु दोषेरे; विप्र भाखेरे, वैद्य कह्यो कोई नवि मल्योए. ॥ १६ ॥ सा कहे बहु औषध करयां, पण न मल्यो तुम सम कोईरे; मुज होईरे, भाग्यमंद ते कारणेए. ॥ १७ ॥ तेडी दासी डूंकडी, जोई नसाजाल मर्मरे; शुभ कर्मरे, मुष्टिए

(१५८)

श्री जयानंद केवळीनो रास-

हणी हणी सज करीए- ॥ १८ ॥ तेह सरल थई हरखती, बोले इम ते वाणी
रे; बहु प्राणीरे, भाग्य थकी तुमे आनीयाए ॥ १९ ॥ आवो नरपतिने घरे,
तस पुत्र निरोगी कीजेरे; लीजेरे, पूजा भूपति लोकनीए ॥ २० ॥ द्विज कोठे
जा ताहरे घरे, नहीं राजकुले मुज कामरे; राणी धामरे, आवी ते उतावली
ए ॥ २१ ॥ राणी कहे तुं कुण छे, कहे हुं कुवजा तुम दासीरे; नहीं दासीरे
राणी कहे किम सरल तुंए ॥ २२ ॥ तव कहे वैद्य वैश्रवणनी, वात ते अ-
चरिजकारीरे; मनोहारीरे, सांभली वात राणी वदेए ॥ २३ ॥ किहां छे तव
दासी कहे, श्रीपंथे छे तेहरे; नेहरे, आणीने राणी कहेए ॥ २४ ॥ पुत्र सा-
जो करे के नहीं, तव दासी कहे जगते नहींरे; जे अही नहींरे, शक्ति ते
अदभूत देखीएए ॥ २५ ॥ राणी जइ कहे रायने, राजा मुके परधानरे; बहु
मानरे, करीने तेहने तेहवाए ॥ २६ ॥ तव आव्यो नृप परखदा, औषधी
गांठडी लेइरे, सुख सेइरे, यज्ञोपवितादिक धरीए ॥ २७ ॥ आशीश दिए
नरनाथने, हित मित भक्षी वामशायीरे; निरमायीरे, गद परे शत्रुजय
करोए ॥ २८ ॥ यतः भुंजानोहितमितपक्वमेवसात्म्य, कुर्वाणःश्रममुखसिंह
वामशायी; स्त्रीसेवानिलममलमूत्रशल्लपमुज्जन् भूनेतर्गदगणवज्जयारिचक्रं ॥
१ ॥ पूर्व ढाल ॥ आशीरवादमां सांभली, भैषज्य तत्त्वनी वातरे; हर्ष
जातरे, कनक आसन बेसाडीओए ॥ २९ ॥ नृप पछे भद्र कोण छो, आ-
व्या किहांथी बुद्धिनिधानरे, पुरवानरे, तुम आवे वाध्यो घणोए ॥ ३० ॥
ते कहे ब्राह्मण छुं अमे, गिरिपाले वसे मुझ तातरे; तस जातरे, उपदेशे बहु
औषधीरे ॥ ३१ ॥ परवत वनमां बहु भूम्यो, ओलखी औषधी बहु लीधीरे
कीधीरे, नीरोगी जन श्रेणिनेए ॥ ३२ ॥ गाम नगर फरतां फरुं, एक को-
तुक परउपगाररे; आगाररे, आव्यो इंणिपरे तुम तणेए ॥ ३३ ॥ चोथे खंडे
ए कही, पद्मविजय वर ढाळरे; रसालरे, बीजी सुंदर रासमांए ॥ ३४ ॥
सर्व गाथा ६१ ॥



॥ दुहा.

राय कहे रुडं करयुं, आव्या परउपगार; बोल्या ते पालो वली, तुभ उ-
त्तम अवतार ॥ १ ॥ माहरे सुत महारोगीओ, संकोचाणुं शरीर; औषध
शक्ति अर्चिसथी, परी करो मुज पीर ॥ २ ॥ तुम आकार वचन तथा, म-
हाशय प्रकृति महत; उपगारी अवनी तले, प्रगट्या तुमे पुण्यवंत ॥ ३ ॥ नं-
दन तुमचो निरखीए, वाढव बोले वाण; साध्य हशे तो साधथुं, प्रथम कहुं
पहेचाण ॥ ४ ॥ मंत्री राय वाढवमुखा, साये लेइ सनूर; निज नंदन निर-
खाववा, हितथी कर्यो हजर ॥ ५ ॥

॥ ढाळ ३ जी. ॥

शांझरिया मुनिवर धनधन तुम अवतार ॥ ए देशी ॥

माया विम कहे सुणोजी, रोग ए विषम विकार; औषधी साध्य के-
वल नहींजी, जोइए मंत्र प्रकार ॥ सुविवेकी साजन जूओ जूओ शक्ति अ-
र्चिस ॥ ६ ॥ मंत्र औषध परकारथीजी, टालथुं रोग महंत; मंत्र पूजामां
जोइएजी, उपगरणां असंत ॥ सु० ७ ॥ राजाए पण आणिओजी, पूजानो
सामान; बंधावी परिअचि वलीजी, आढंबर असमान ॥ सु० ८ ॥ लोक
करावी वेगलाजी, मंडल रचियुं ताम, चंदन होमी अगनिमांजी, मंत्र बोले
हवे आम ॥ सु० ९ ॥ ॐ नमो अर्हते वलीजी, ॐ ँही सिद्ध सनाह; नमो
बषट् इसादिकाजी, मंत्र उच्चरे निरवाह ॥ सु० १० ॥ ध्यान मुद्रा आसन
करेजी, अगर कपूर ने फूल; होम करी वली नांखतोजी, दस दिश तेह
अमूल ॥ सु० ११ ॥ मंडल पासे थापीओजी, नंदन नृपनो तेह; औषधी जल
धारा थकीजी, सींचे तेहनो देह ॥ सु० १२ ॥ सज्ज थयो कुंअर हवेजी,
परिअचि काढी जाम; कुंअरने जोवा भणीजी, नरपति आव्यो ताम ॥ सु०
१३ ॥ ऊठी कुंअर साहमो जइजी, प्रणमे नरपति पाय; राजा पण सुत वै-
द्यनेजी, गाढ आलिगन दाय ॥ सु० १४ ॥ सोवन आसन उपरेजी, त्रिहुं
वेठा तिणीवार; मंत्री सामंत सहू मल्याजी, हैडे हर्ष अपार ॥ सु० १५ ॥
विविध वाजिंत्रना शब्दथीजी, गाजि रह्यो आकाश; गीत गान गायन करेजी,

(१६०)

श्री जयानंद केवलीनो राम.

मोद भरे सुविलास ॥ सु० १६ ॥ साहासण मंगल तणांजी, गाए गीत र-
साल; हयें माता लुंछणांजी, धरती मोद विशाल ॥ सु० १७ ॥ मायाविप्र
भणी कहेजी, हर्षित ते भूपाल; भाग्य अमारुं मोटकुंजी, जीणे तुमे मिलिआ
दयाल ॥ सु० १८ ॥ मंत्रवादी तुमे मोटकाजी, अहो औपधी महिमाय; तुम
सम उपगारी नहींजी, जग मांहे कोइ ठाय ॥ सु० १९ ॥ सर्व राज्य तुम
आपतांजी, औरणीआं न थवाय; पण अमे आपुं शक्तिधीजी, लेइ अम हर्ष
कराय ॥ सु० २० ॥ जे तुमने मनमां गमेजी, देश उत्तम ल्यो एक; इम
कही भूपति मंत्रवीजी, बीजा पण जे अनेक ॥ सु० २१ ॥ वत्सादिक बहु मू-
लनांजी; रतन तणा अलंकार; देवा तैयारी करीजी, विप्र भणे नाकार ॥
सु० २२ ॥ मायाविप्र कहे सुंणोजी, करी परने उपगार; पुण्य अर्ये इच्छे
नहींजी, सज्जन प्रत्युपकार ॥ सु० २३ ॥ करी चिकीत्सा अराजिऊजी, पूरवे
धन असराल; करू निर्वाह तिणे हवेजी, अधिक करुं थुं आल ॥ सु० २४
॥ लाभे लोभ वधे घणोजी, संतोष सुखनुं मूल; मात्राहीन जीते नहींजी,
मात्राधिक प्रतिकूल ॥ सु० २५ ॥ इंद्र थकी अधिको कहाजी, संतोषी सुख
लीन; देश ते माहरा धर्ममांजी, विघन करे अति पीन ॥ सु० २६ ॥ राज
तीर्थ माए कर्णोजी, धर्म वली लोकने हर्ष; तेहमां किम हवे वरसिएजी, किम
अंगारानो वर्ष ॥ सु० २७ ॥ तो पण अवसरे जाणथुंजी, चोये खंडे ढाल;
त्रीजी पद्माविजय कहीजी, सुंणतां मंगलमाल ॥ सु० २८ ॥ सर्व गाथा ८९



॥ दुहा. ॥

इत्यादिक वाणी अवल, निरखी वली निर्वाह; दान अधिक दीपे धनुं,
लक्षो घनादयमां लीह. ॥ १ ॥ भूपति कहे इमज भलुं, पण कहो एह प्रपंच;
किहां रहो तव ते कहे, सघलो भाटक संच. ॥ २ ॥ नारिथुं रहुळुं नरपति,
अवनिपाते कहे एम; मुज घर रहिए मोजथुं, किहांए रहो हवे केम. ॥ ३ ॥
विभे ते मान्थुं वचन, नरपति तेडचा नार; सुखासन तव सन्युत्ते, मोकळे महा

परिवार. ॥ ४ ॥ तास भिया दासी तथा, वस्तु वीणादिक सर्व; चित्रशाला तेहने उचित, आपे राय अगर्व. ॥ ५ ॥ चाकर प्रमुखने चौपशुं, मोकले सेवा मांहि; भोजन स्नानादिक भलां, अधिक करे उत्साहिं. ॥ ६ ॥

॥ ढाळ ४ थी. ॥

जीरेजी. ॥ ए देशी ॥

जीरे म्हारे एकदिन ते नरनाथ, बुद्धिवंतमंत्रीमली जीरेजी; जीरे० भोगवती चली नारि, बेठा विचार करे वली जीरेजी ॥ ७ ॥ जीरे० देशुं मोहटो देश, तेहमां कोय हाणी नहीं जीरेजी; जीरे० कन्या देशुं केम, किहां क्षत्री ब्राह्मण कहीं जीरेजी ॥ ८ ॥ जीरे० भिसाचर कुले एह, राजकन्या किम दीजां ए जीरेजी; जीरे० विण दीधे जाधे बोल, जगमां अपजश लीजीए जीरेजी ॥ ९ ॥ जीरे० नरपति वचन अमोघ, व्याघ्र नदी न्याय आवीओ जीरेजी; जीरे० कहे मंत्री शो खेद, ए मुज मनमां भावीओ जीरेजी ॥ १० ॥ जीरे० विप्र मात्र नहीं एह, लक्षण शौर्य पराक्रमे जीरेजी; जीरे० एहना गुण नृप योग्य, वीजे ठाम न होय किमे जीरेजी ॥ ११ ॥ जीरे० कमलसुंदरी नाम, कन्या दिजे एहने जीरेजी; जीरे० कन्या भाग्य प्रमाण, वीजा तो शाखी तेहने जीरेजी ॥ १२ ॥ जीरे० भूपे मानी वात, राणी पण अंगीकरे जीरेजी; जीरे० नगर पदमपुर नाम, तिहां एक वात इण अवसरे जीरेजी ॥ १३ ॥ जीरे० तिहां पदमरथ राय, पुत्री रूपवती घणुं जीरेजी; जीरे० ते उपर करी रोश, वली अतिशय राभशपणु जीरेजी ॥ १४ ॥ जीरे० तादृश भिल्लने दीध, बहु ठवको मंत्री दिए जीरेजी; जीरे० राणी पण करे शोर, तव नृप धरे अनुशय हिये जीरेजी ॥ १५ ॥ जीरे० भिल्लने शोधवा ताम, भिल्लवाडे नर मोकल्या जीरेजी; जीरे० शोध करी बहु तास, पण नवि कोइ थानिके मल्या जीरेजी ॥ १६ ॥ जीरे० नाना पुर वर ग्राम, पाल गिरि वन निजनरे जीरेजी; जीरे० शोध करावे राय, पण नवि लाधा कोइ परे जीरेजी ॥ १७ ॥ जीरे० स्नेह मुतानो आणि, शोच करे नृप दुःख धरी जीरेजी; जीरे० अनुक्रमे वारी शोक, बेठो छे परषद करी जीरेजी ॥ १८ ॥ जीरे० इण अ-

बसर नरासह, नयर पुरंदरनो घणी जीरेजी; जीरे० नर कुंजर तस पुत्र,
 आव्या तिहां सेवा भणी जीरेजी ॥ १९ ॥ जीरे० जयसुंदरी नृप घूय, राग
 ययो तेह उपरे जीरेजी; जीरे० राये दीधी तास, उत्सव मांडयो भली परे
 जीरेजी ॥ २० ॥ जीरे० निज नयरे गयो तेह, भोग भोगवे तेहशुं जीरेजी;
 जीरे० कमला नयणे देखि, दुस्र सलक्युं घण नेहशुं जीरेजी ॥ २१ ॥
 जीरे० निज पुत्रीनी शोध, नवि लाधी, बली सोकनी जीरेजी; जीरे० पुत्रीनो
 विवाह, देखी वियोग विलोकिनी जीरेजी ॥ २२ ॥ जीरे० रुदन करी बहु
 काल, राय उपर क्रोधे भरी जीरेजी; जीरे० पुत्री विडंबी मुज, कांय मिल-
 न आगा घरी जीरेजी ॥ २३ ॥ जीरे० केडक दिवस गमाय, देखी जयसुंद-
 री तणो जीरेजी; जीरे० विवाह शोकने मोद, वाजिन्नादि उत्सव घणो जी-
 रेजी ॥ २४ ॥ जीरे० क्रोध ईर्षा ने शोक, दुस्रथी तिहां नवि रही शकी
 जीरेजी; जीरे० लेई निज परिवार, राय तणी आज्ञा थकी जीरेजी ॥ २५ ॥
 जीरे० चाली तातने गेह, नयर उद्याने आवी रही जीरेजी; जीरे० दामी
 मांकली ताम, निज भाई पासे वही जीरेजी ॥ २६ ॥ जीरे० अंतैडर परिवार,
 लेई नृप सामो गयो जीरेजी; जीरे० प्रणमे बहेनना पाय, देखी दुस्रथीयो
 अति थयो जीरेजी ॥ २७ ॥ जीरे० दुःस्रथी रोती ताम, भूपति आसासन
 करे जीरेजी; जीरे० भूपति पूछे एम, किम आव्यां तुमे इणि परे जीरेजी ॥
 २८ ॥ जीरे० रुदन करो किम एम, तव मूलथी मांडी कहे जीरेजी; जीरे०
 सांभली नृप खेगाय, दुःस्र तेहथी अधिकुं लहे जीरेजी ॥ २९ ॥ जीरे० निंदे
 भगिनी नाथ, नास्तिकवादी शिरोमणी जीरेजी; जीरे० मंत्र्यादिक तस मूढ,
 निंदे सहजुं अवगणी जीरेजी ॥ ३० ॥ जीरे० खेद न कीजे बेहेन, देशुं शि-
 मा अवमरे जीरेजी; जीरे० कर्म तणो अपराध, दीजा निमित्तपणुं धरे जी-
 रेजी ॥ ३१ ॥ जीरे० इंम आस्वासी ताम, चोये खंडे एकही जीरेजी; जीरे०
 चोथी ढाळ रमाळ, पञ्चविजय गुरुथी लही जीरेजी ॥ ३२ ॥ सर्व गाथा
 १२१ ॥

॥ दुहा. ॥

एहवो ए अपराधीओ, शिक्षा देशुं तास; सघले शोध करावथुं, पुत्री तु-
म चिहुं पास. ॥ १ ॥ भाणेजी लावी भली, प्रगुण करावुं प्राय; ब्रह्म वै-
श्रवण वारुअळे, दक्ष ते आवे दाय. ॥ २ ॥ पूछे कुंण तव भूपति, सघलो
कहे संबंध; निज सुत करचो निरोगीओ, पभणे तेह प्रबंध. ॥ ३ ॥ सांभली
ते संबंधने, आणंद अंग न माय, पुत्री दुःख पाळुं पड्युं, सुखनी वात सुंणाय
॥ ४ ॥ भोगवती मुख भाभिनी, प्रणमे नणंदना पाय, आर्लिगन आशीश दे,
हियडे हरख न माय. ॥ ५ ॥

॥ ढाल ५ मी. ॥

॥ देश मनोहर मालवो. ए देशी. ॥

थापी सुखासन वेहेनिने, लावे निज आवास ललनां, महा महोत्सव अति
गौरवे, रायने हर्ष लल्लास ल० ॥ ६ ॥ पुण्ये सावि आवी मिले. ए आंकणी.
विजयसूर भत्रीज जे, फईने प्रणमे पाय ल०; आशीश देई शिर चुंवती,
लुंछणां वलीअ कराय ल० ॥ पु० ७ ॥ यणि मुक्ताफलथी करे, वर्द्धापन सु-
विशेष ल०; कुल भाग्यादिक वर्णवे, ब्रह्म वैश्रवण विशेष ल० ॥ पु० ८ ॥
सर्वने सतकारी करी, रहे सुखे भाईने गेह ल०; ब्रह्म वैश्रवण मिया प्रते,
देखी उपजे नेह ल० ॥ पु० ९ ॥ पासे राखे ब्राह्मणी, वात करावे प्रेम ल०
मातने ओलखी ब्राह्मणी, मात न ओलखे नेम ल० ॥ पु० १० ॥ हवे नर-
पतिए निमित्तिओ, तेडचो पूछवा हेत ल०; पूर्व परिचित रायनो, पुत्र नि-
मित्त संकेत ल० ॥ पु० ११ ॥ भाणेजी शुद्धि पूछतो, ते कहे सांभलो राय
ल०; काले निजपति रीद्धिथुं, मलशे इणहीज ठाय ल० ॥ पु० १२ ॥ अधिक
न जाणुं एहथी, राये करी सत्कार ल०; विसरज्यो निमित्तिओ, धरतो हर्ष
अपार ल० ॥ पु० १३ ॥ वहेन भणी आवी कहे, ते पण हरपित थाय ल०
निजचर चिहुंदिश मोकले, ग्राम पुरादिक ठाय ल० ॥ पु० १४ ॥ दूत मु-
क्या वली चिहुंदिशो, पण नवि लाधी शुद्धि ल०; छदमस्यने पासे थकां, प-
ण नवि चाले बुद्धि ल० ॥ पु० १५ ॥ ब्रह्म वैश्रवण ते जाणतो, शोधन

•(१६४)

श्रीजयानंद केवळीनो रास.

वारे न तेह ल०; नास्तिक शिक्षा दीधा विना, प्रगट थाचं नही रेह ल० ॥
पु० १६ ॥ एहवी प्रतिज्ञा धारतो, प्रगट न थाये तेह ल०; इणे अवसरे पर-
देशीओ, आन्व्यो कलागुण गेह ल० ॥ पु० १७ ॥ नाट्य कला मद आकरो
आप समो परिवार ल०; जे मुज जीते हुं तेहनो, दास थाचं निरधार ल० ॥
पु० १८ ॥ एहवी प्रतिज्ञा प्रसिद्धथी, चार तथा वली नीर ल०; राजद्वारे
ठवे दर्पथी, राय कहे मुंण धीर ल० ॥ पु० १९ ॥ नाटिक देखाडो तुमे, जो-
उं कला अमे जेण ल०; नाटिक शुचि असि कुंतना, अग्रभागे करयुं तेण ल०
॥ पु० २० ॥ देखी रीझ लही सभा, अभिनय वीर चरित्र ल०; नवरस दे-
खाडे तथा, सहू तन्मय थाय चित्र ल० ॥ पु० २१ ॥ राय प्रमुख सहू ए
सभा, विस्मय लही दिए दान ल०; लोक प्रशंसा वहु करे, तास कला नही
मान ल० ॥ पु० २२ ॥ ब्रह्म वैश्रवण तदा भणे, मुख मरडाने वाण ल०;
विपरीत भ्रूभगादिका, देखाडे जह ठाण ल० ॥ पु० २३ ॥ निज नाटकीआ
मेलवी, भाखे इम भूपाल ल०, एहने जीते एहवो, छे कोइ मुज पुर भाल ल०
॥ पु० २४ ॥ रायने नाटकीआ घणा, विविध कलाना जाण ल०, पण नी-
चुं मुख करी रखा, जीतवा तास अजाण ल० ॥ पु० २५ ॥ ब्रह्म वैश्रवण
कहे मुंणो, शी कला एहमां भूप ल०; लीलाए जितुं एहने, जूओ तुमे अनु-
रूप ल० ॥ पु० २६ ॥ चोये खंडे ए कही, परवडी पंचम ढाल ल०; पद्मवि-
जय कहे सांभलो, आगल वात रसाळ ल० ॥ पु० २७ ॥ सर्व गाथा १४८



॥ दुहा. ॥

ब्रह्म वैश्रवण वदे इशुं, पुरुष नारि परिवार; नाटकीआमां निरखीने,
आपो इणाहिज वार. ॥ १ ॥ तुम इच्छाए ल्यो तुरत, वाते न करो वार; नृप
कहे नट पेटक थकी, लेई शीखवो ल्हार. ॥ २ ॥ कुंमर कहे करथुं अमे,
नाटिक सातमे दिन; जिम एहनो मद गली जज्ञे, आखुं तुम आसन्न. ॥ ३
॥ नरपति कहे नटने इशुं, सातमे दिन तुमे सर्व; आवज्यो कही विसर्जिया,
गया ते धरता गर्व. ॥ ४ ॥ नट पेटकमां निरखीने, कुमरे काढ्या केई; युव-

ती युवान यथामति, सहुने आदर सेई. ॥ ५ ॥

॥ ढाल ६ ठी. ॥

माली केरा वागमां, ॥ ए देशी. ॥

हवे तेहने सवि चातुरी, कला शीखवे साररे लो ॥ अहो क० ॥ सामग्री
सावि मेलवी, करी सवि शिणगाररे लो ॥ अहो क० ६ ॥ रायने कही सातमे
दिने, आन्या समा मझाररे लो ॥ अहो आ० ॥ रंगमंडपमां उपविशो, नृप
नृप परिवाररे लो ॥ अहो नृ० ७ ॥ नगरलोक सवि तेडीआ, तिम नट प-
रिवाररे लो ॥ अहो ति० ॥ वहिन कन्या निज राणीओ, जवन्न्यंतर ठाररे
लो ॥ अहो ज० ८ ॥ छिद्रे ते सवि जोयती, हवे नाटिक मांडेरे लो ॥ अ-
हो ह० ॥ वंश वीणादिक वाजतां, मृदंग वली ताडेरे लो ॥ अहो मृ० ९ ॥
नाटिकणी थाने ठवी, निज नारी सुजाणरे लो ॥ अहो नि० ॥ पात्र वीजां
तस भूमिका, अनुसार प्रमाणरे लो ॥ अहो अ० १० ॥ गंधर्व गीत मधुर
ध्वनि, गाय मनोहाररे लो ॥ अहो गा० ॥ तालने लयना तानशुं, माया
वटु विस्ताररे लो ॥ अहो मा० ११ ॥ मांडयु चरित्र ते आपतुं, जय विजय
दो भायरे लो ॥ अहो ज० ॥ विजयपुरीना राजीआ, पुत्र एकेक थायरे लो
॥ अहो पु० १२ ॥ सिंहसार सुत प्रथमनो, अन्यायी तेहरे लो ॥ अहो अ० ॥
श्रीजयानंद वीजा तणो, ते गुण गण गेहरे लो ॥ अहो ते० १३ ॥ राते पर्वत
उपरे, वेवलीने पासेरे लो ॥ अहो के० ॥ धर्म पापी देशांतरे, जाता उल्ला-
सेरे लो ॥ अहो जा० १४ ॥ विशालपुरे विद्या भण्या, परण्या नृप कन्यारे
लो ॥ अहो प० ॥ प्रतिवोधी गिरि मालनी, देवी थई धन्यारे लो ॥ अहो दे०
१५ ॥ कनकपुरे जूवट्ट रम्या, परण्या नृप कुमरीरे लो ॥ अहो प० ॥ प्रति-
वोधी देवी रेळणी, ते अतिशय सुमरीरे लो ॥ अहो ते० १६ ॥ सूअर युद्ध
करयुं तिणे, करयो तापस बोधरे लो ॥ अहो क० ॥ तस पुत्री परण्या वली,
सूरवीर ते योधरे लो ॥ अहो सू० १७ ॥ मलयमाल क्षेत्र देवता, साथे जुद्ध
कीधोरे लो ॥ अहो सा० ॥ जीसा तेहशुं जेटले, औषधी वर दीधोरे लो ॥
अहो औ० १८ ॥ रत्नपुरे नाटिक वली, रतिमुंदरी केरोरे लो ॥ अहो र०

(१६६)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

॥ पाणिग्रहण करयो तिहां, भिल्लरूप भलेरोरे लो ॥ अहो भि० १९ ॥ ते सवि
अभिनय विधि थकी, नाटिकमां देखावेरे लो ॥ अहो ना० ॥ पद्मपुरे नृप भि-
छुने, कन्या परणावेरे लो ॥ अहो क० २० ॥ देव कुले ते आंधली, भिल्ल
औषधी योगरे लो ॥ अहो भि० ॥ नवलोचना करी ततक्षणे, काढ्यो तस
रोगरे लो ॥ अहो का० २१ ॥ जिम नीपन्युं तिम नाटिके, प्रसक्ष देखावेरे
लो ॥ अहो प्र० ॥ भिल्ल पासे ते कुंअरी, सहुने भ्रम आवेरे लो ॥ अहो स०
२२ ॥ माता देखे छिद्रथी, संकल्प मन थायरे लो ॥ अहो सं० ॥ नाम परा-
वर्चन करे, पद्मपुरे ठायरे लो ॥ अहो प० २३ ॥ भोगपुरे छे राजीओ,
नास्तिक भोगदत्तरे लो ॥ अहो ना० ॥ सुजया विजया दोय छे, राणी वर
गत्तरे लो ॥ अहो रा० २४ ॥ सुदामा सुभगा थइ, दोय पुत्री तासरेलो ॥
अहो दो० ॥ पेहेली दीधी कोई रायने, वीजी भिल्ल सकासेरे लो ॥ अहो
वी० २५ ॥ नाम परावर्चन सुंण्यु, पण भिल्लने पासेरे लो ॥ अहो प० ॥ वि-
जयसुंदरी सख देखीने, माय हर्ष च्छासेरे लो ॥ अहो मा० २६ ॥ जवनि-
कामांथी नीकली, पुत्रीने गले वलगीरे लो ॥ अहो पु० ॥ भाग्यथी दीठी तु
ज प्रते, किहां गईती अलग्गीरे लो ॥ अहो कि० २७ ॥ इसादिक केहेतां थ-
कां, चोये खंडे ढाळरे लो ॥ अहो चो० ॥ छठी पद्म कहे सुंणो, आगे वात
रसालरे लो ॥ अहो आ० २८ ॥ सर्व गाथा १७६ ॥



॥ दुहा. ॥

एहवे ब्राह्मण आवीओ, करी ब्राह्मणी ततकाल; कहे माता कांय इम क-
रो, आंते अवळुं भालि. ॥ १ ॥ ए माहरी नारीअछे, सुभगा ठामे सार;
पण तुम ए पुत्री नही, सरिखे रूप संभार. ॥ २ ॥ रूप नाटिकमां जे करयुं,
किम परमाण कराय; अद्भुत व्रीडा खेद इम, ज्याकुल तस व्यवसाय. ॥ ३
॥ मुकी दीधी मन थकी, करे विचार अनेक; शुं रूपांतरे ए हसो, अथवा
सदश अनेक. ॥ ४ ॥ दीठे एहने दरिमणे, वधतो स्नेह विशेष; ब्राह्मणनी
विनिता कियु, आगळ लहिशुं अशेष. ॥ ५ ॥

॥ ढाल ७ मी. ॥

बेडले भार घणो छे राज वार्ता केम करोछो ॥ ए देशी ॥

मुभगा थई देवकुलमां साजी, तिहां लगे नाटिक कीधुं; पण तिहां सर्व सभानुं तिणे, चिचडुं चोरी लीधुं ॥ ६ ॥ साजन प्रेम धरीने एह नाटिक नवलुं देखो. ॥ एआंकणी. ॥ वलिअ विशेषे अचरिज हेते, नाटिक नवलुं करतो; कुंताग्र सूची मांडी तस परे, फूल एक वर धरतो ॥ सा० ७ ॥ ते उपरे नाटिक ते करतो, इम जे जे रस पोखे; ते ते रसमां तन्मय सहुए, न रहे चिच कांइ धोखे ॥ सा० ८ ॥ डाह्ये पुरुषे नाटिक मांहि, पण नवि दोष ते दीठो; अमंगादिक सूक्ष्म पण कोई, जोतां नहीअ अनीठो ॥ सा० ९ ॥ नृप मंत्री मुख दान दिप् ते, नट पेटकने आपे; महा दान पण आप न लेवे, तेहनुं दारिद्र कापे ॥ सा० १० ॥ विस्मय पाम्या तेहनी देखी, कला कलावंत सघला; सायर आगल कूप तणी परे, हंस आगल जिम बगला ॥ सा० ११ ॥ पूरवलो नाटकीओ चमक्यो, वटु नाटकीओ देखी; हारयो वटुकने पाये लाग्यो, वीजुं सर्व उवेखी ॥ सा० १२ ॥ कहे ताहरो हुं दास छुं साचो, तें मुजने आज जीसो; कोइ मुजने नवि जीसो भाई, एतलो काल व्यतीतो ॥ सा० १३ ॥ सूरय किरणे हिम गले जिम, तिम मुज मद ते गलीओ; परिकर सहित हुं ताहरो चाकर, तूहि शिरोमणि मलीओ ॥ सा० १४ ॥ वटुक कहे मुज नाही प्रयोजन, जाओ आपणे ठाम; अधिक कला जग मांहिं दीसे, मद करवो किण काम ॥ सा० १५ ॥ राये विसरज्यो नाटकीओ हवे, पोहतो आपणे ठाम; सभा विसरजी नरपति बढने, पूछे इम अभिराम ॥ सा० १६ ॥ कमला पासे राखी पूछे, नृप अंगज कुण एह; जेहनो अभिनय तें देख्ताड्यो, नाटिकमां धरी नेह ॥ सा० १७ ॥ भिछ ते देवकुलमांथी विहाणे, गयो किहां छेइ नारि; तव कहे वटुओ सांभल नरपति, आगल कहु अधिकार ॥ सा० १८ ॥ प्रिया सहित हुं कौतिक जोतो, प्रथ्वि मांहिं भमतो; विचित्र प्रकारनां नाटिक करतो, भोगपुरे गयो रमतो ॥ सा० १९ ॥ रहेवा यानिक वीजे न जडयुं, देवकुलमां करयो त्रास; भिछ दपती दोय विपरीत

देखी, मनमां थयो विखास ॥ सा० २० ॥ भिल्लने पृच्छयुं तुं कुरूपी, एह दे-
वांगना नारि; ताहरे हाथे किणीपरे आवी, कहे तुं तास विचार ॥ सा०
२१ ॥ खारे तिणे सघळुं भाळ्युं, चरित्र पोतानु एह; कुंण नवि आदरे
एह मुंणीने, चित्रकारी होय जेह ॥ सा० २२ ॥ मुखनिद्राए सहुए सुतां,
विहाणुं विहायुं ज्यारे; जागीने अमे जोयुं ततक्षण, नवि दीतुं कोइ खारे ॥
सा० २३ ॥ प्रिया सहित हुं भमतो भमतो, आव्यो तुमचे ठाम; चित्रकारी
ए चरित्र जाणिने, नाटिक कीधुं आम ॥ सा० २४ ॥ आगल वात तो तेहज
जाणे, चोथे खंडे ढाळ; सातमी पद्मविजय कहे मुणज्यो, आगल वात रसा-
ल ॥ सा० २५ ॥ सर्व गाथा २०१



॥ दुहा. ॥

मुंणी राजा विस्मय लह्यो, कमला कमल विकास; अहो विहुं इम चिं-
तवे, शो ए वचन विलास. ॥ १ ॥

॥ ढाल ८ मी ॥

तेह नगर मांहीं वसे, साहेलडीरे ॥ ए देशी. ॥

भाइ भगिनी इम चिंतवे साहेलडीरे, एहना रूप अनुसार नो; दान ध-
नादिक नवि घटे सा० वरसे जिम जल धारतो. ॥ २ ॥ विप्र रूपे भिल्लज
हशे सा० अथवा उचम कोइ विप्रतो, चेष्टा गहन एहनी घणुं सा०, मालिम
न पडे क्षीप्रतो. ॥ ३ ॥ ब्राह्मणी रूपे मुज सुता सा० किं अथवा अन्य एह
तो; कलावंतना चरित्रनी सा०, कुंण जाणे गति जेहतो. ॥ ४ ॥ एहो कि
अथ अन्यहो सा०, पणएक निश्चय थायतो; कलावंत कोइ भाग्यनिधि सा०
परण्यो मुज सुता आयतो. ॥ ५ ॥ दिव्य नेत्रवती थइ सा०, हर्ष तणो बहु
ठायतो; एह वटु ईहां रहेतां सा०, जाणशुं आगे जे थायतो. ॥ ६ ॥ कमला
इणि परे चिंतवी सा०, भाखे भाईने एमतो; कमलमुंदरी दीजीए सा०. पूरो
प्रतिज्ञा नेमतो ॥ ७ ॥ जिम तिम राखो एहने सा०, इणि परे करीय विचा-
रतो; नरपति वटु तेढी कहे सा०, तुम विज्ञान अपारतो ॥ ८ ॥ जे नवि दी-

डी न सांभली सा०, तेह कला तुम पासतो; एकज नाटिकनी कला सा०, देखाडी मुविलासतो. ॥ ९ ॥ माहरी उन्नति बहु करी सा०, वहोत्तेर कला निधानतो; सोल कलाए चंद्रमा सा०, नवि होए तुम समानतो ॥ १० ॥ रहेहुं मुज पासे तुमे सा०, इष्ट दर्शन तुम मुजतो; अंगीकार वाडव करे सा० पण नवि लहे कोइ गुज्जतो. ॥ ११ ॥ सहु निज निज थानिक गया सा०, स्तवता तास विज्ञानतो; वधते प्रेमे बटु मिया सा०, कमला करी सनमानतो ॥ १२ ॥ राखे पुत्रीनी परे सा०, करे निस प्रीति आलापतो; राज्य लभादिकथी घणो सा०, लहे संतोपनो व्यापतो ॥ १३ ॥ कमलसुंदरी एकदा सा०, कहे निज मातने एमतो; ब्राह्मणने मुज नरपती सा०, हजीअ न आपे केमतो. ॥ १४ ॥ आप प्रतिज्ञा पूरवा सा०, सज्जन न करे वारतो; नाटिकथी रीझी तिणे सा०, बटु बांछे भरतारतो ॥ १५ ॥ राणीए कह्यो रायने सा०, निज पुत्री अभिप्रायतो; भूपति सांभली हरलीओ सा०, तस आशय शुभ ठायतो ॥ १६ ॥ एक दिन शेठ सेनापति सा०, मंत्री सामंत परिवारतो; वेठो पूरीने सभा सा०, दीपतो भू भरतारतो. ॥ १७ ॥ ब्रह्म वैश्रवण ते आवीआ सा०, देई नृपने आशीशतो; वेठो रायने हूंकडो सा०; चढती जास जंगीसतो. ॥ १८ ॥ राय कहे ब्राह्मण प्रते सा०, रूपे रंभ समानतो; गुणवंती मुज अंगजा सा०, परणो देऊं बहु मानतो ॥ १९ ॥ पुत्र साजो जे मुज करे सा०, तेहने कन्यादानतो; करशु एह प्रतिज्ञा जे सा०, न चले मेरू परे धारतो. ॥ २० ॥ बटु बोले ए साचळुं सा०, पण एक सांभलो वाततो; धान्यनी रांघणि ब्राह्मणी सा०, छे माहरे मुजाततो ॥ २१ ॥ अधिक मिया नवि जोइए सा०, जेह सामान्य नर होयतो; मदन कथाने सांभली सा०, दोय मिया न करे कोयतो. ॥ २२ ॥ कोण ते मदन कह्यो तुमे सा०, वाडव भाखे तामतो; सरस कथा तुमे सांभलो सा०, मदन कथा कहुं आमतो. ॥ २३ ॥ चोथे खंडे ए कही सा०, पद्मविजय वर ढाळतो; आठमी अधिके रंगशुं सा०, सुणतां मंगलमालतो. ॥ २४ ॥ सर्व गाथा २२५



॥ दुहा.

सुख ईच्छक सहु जीव छे, सुख नवि ओलखे कोय; जिहां आत्मिक सुख
निपजे, ते शिव मंदिर होय. ॥ १ ॥ दुर्बेद्धि सुख भ्रांतिथी, रमे विषयमां
लीन; न गमे सज्जन पुरुषने, जास सुकृत मति पीन. ॥ २ ॥ तेह विषय सा-
धन अछे, मुख्य थकी वरनार; तेतो क्रूर कुटिल कही, सापिण परे निरधा
र. ॥ ३ ॥ जूठी क्रोधमुखी घणुं, निरदयी साहसवंत; कलहकारी कपटी व-
ली, पार लहे नहीं संत. ॥ ४ ॥ कटुक विपाक परिणामयी, मुंणजो इहां दृ-
ष्टांत; मदन तथा धनदेवनो, विवरी कहु वृत्तांत. ॥ ५ ॥ चरित्र देखी ना-
रि तणुं, विरम्या जेह महंत; ते सुखीआ संसारमां, ते थाए गुणवंत. ॥ ६ ॥
ते पण ए दृष्टांतथी, जाणो मुगुण निधान; किम आदरी छांडी वली, जा-
णी दुख निदान. ॥ ७ ॥ कौतुकने वैराग्यनी, बात घणुं सुविनोद; सांभलतां
सुख उपजे, पूरण लहे प्रमोद. ॥ ८ ॥

॥ ढाल ९ मी. ॥

माली केरा वागमां दोंयनारिंग पकेरेलो, अहो दोंयनारिंग पकेरेलो ॥ एदेशी ॥

जंबूद्वीप लख जोयणो, जगतीशुं सोहेरेलो अहो ज०; मेरु पर्वत मध्य
भागमां, देखी मन मोहेरे लो अहो दे० ॥ ९ ॥ तेहथी दक्षिण दिश भलुं,
क्षेत्र भरत देदारुरे लो अहो क्षे०; विचमे नग वैतादथ छे, रूपानो वारुरेलो,
अहो रू० ॥ १० ॥ तेहथी दक्षिण भरतमां, सोहे सन्निवेश रे लो अहो सो०;
नाम कुशस्थल जाणिए, बहु पुण्य प्रवेशरेलो अहो व० ॥ ११ ॥ तिहां कुल
पुत्र सोहामणी, रूपे जिसो कामरेलो अहो रू०; मदन नामे परसिद्ध जे, ल-
खपीनो धामरेलो अहो ल० ॥ १२ ॥ किहांए थकी बाल कालथी, विद्या
बहु पामीरेलो अहो वि०; क्रोधमुखी कुटिला घणुं, नारी गुणे जामीरेलो
अहो ना० ॥ १३ ॥ नारी दोंय सोहामणी, जाणिए रति प्रीतिरेलो अहो
जा०; वंडा प्रचंडा नामथी, तिम गुणथी प्रतीतरेलो अहो ति० ॥ १४ ॥ प्रेम
घणो बिहु उपरे, तेहने पण प्रेमरेलो अहो ते०; पण बिहु सोक कलह करे,
सोक धर्म ए नेमरेलो अहो सो० ॥ १५ ॥ यतः ॥ दुही ॥ सोक वंघ अति

आकरा, जेहवां तीखां तीर; भाला मूल तणी परे, परे परे दाखे पीर. ॥ १
 पूर्व ढाल ॥ मदन वारे पण नवि रहे, कोप ने वळी मानरेलो अहो को०;
 राखी प्रचंडा नारिने, पासे गामने थानरेलो अहो पा० ॥ १६ ॥ एक एक
 दिनना नियमथी, रहे मदन तेवारेरेलो अहो र०; मदन ते नियम चुके न-
 ही, इम करतां किवारेरे लो अहो इ० ॥ १७ ॥ कारण कोईक पाभिने, पर-
 चंडा गेहरेलो अहो प०; एक दिन अधिको तिहां रह्यो, धरी तास सनेहरे
 लो अहो घ० ॥ १८ ॥ आंव्यो चंडाने घरे, कण खांडती तेहरेलो अहो क०
 आवतो दीठो निज पति, क्रोधे भरी देहरेलो अहो क्रो० ॥ १९ ॥ मुसलुं
 नांख्युं सनमुखे, मुखे इणि परे भासरेलो अहो मु०; रेरे दुष्ट अभागीआ, तुज
 नही इहां वासरेलो अहो तु० ॥ २० ॥ दुष्ट प्रचंडा तुजने, घणुं प्राण आ-
 धाररेलो अहो घ०; जा तेहने घेर मुख थकी, रहेजे धरी प्याररेलो अहो
 र० ॥ २१ ॥ ते देखी वीहनो अति, नाठो तिणी वेलारेलो अहो ना०; थो-
 ढी भूमिका जई करी, पूंटे जूए हेळारेलो अहो पूं० ॥ २२ ॥ सर्प भयंकर
 देखीओ, फणाटोप विशालरेलो अहो फ०; थूल मुसल सम आवतो, जाणि-
 ए महाकालरेलो अहो जा० ॥ २३ ॥ नाठो सवित्रोपे वळी, परचंडा पासरे
 लो अहो प०; दीठो तिणीए आवतो, नवि माय सासरेलो अहो न० ॥ २४
 ॥ पूछे किम भय भ्रांत तुं, आंव्यो ततकालरेलो अहो आ०; मदन कहे चं-
 डा चरी, पूंटे तुं भालरेलो अहो पूं० ॥ २५ ॥ सांभलि परचंडा कहे, मत
 भय मन आणरलो अहो म०; तुं मुज प्राणथी वालह्यो, हुं करशुं त्राणरेलो
 अहो हुं० ॥ २६ ॥ घीरो था कांय भय नथी, एहनो शो भाररेलो अहो
 ए०; इम करी आश्वस्यो तिणे, नारि चरित्र अपाररेलो अहो ना० ॥ २७
 ॥ घन घन ते मुनिराजने, दूर छंडी नाररेलो अहो दू०; संजम लेई सुखी-
 आ थया, पास्या भवपाररेलो अहो पा० ॥ २८ ॥ नवमी चौथा खंडमां,
 भाखी इम ढालरेलो अहो भा०; पद्मविजय कहे सांभलो, आगे वात रसालरे
 लो अहो आ० ॥ २९ ॥ सर्व गाथा २५४



(१७२)

श्रीजयानंद केवळीनो रास.

॥ दुहा ॥

परचंडा दीठो प्रवळ, भुजंगम भयकार; आंगणा आगळ आवीओ, की-
नाशने अनुकार. ॥ १ ॥ क्रोधे ते देखी करी, तनु उद्वर्चन ताम; करी मळ
पिंडनी गोलिका, नाखे सनमुख जाम. ॥ २ ॥ नकुल थया ते ततक्षण, नाग
करयो नवखंड; चमक्यो मदन ते चित्तमां, चंडाथी आ प्रचंड. ॥ ३ ॥ जो-
तां जोतां नोलिआ, सर्व थया विशराल; नाना रसवेदे मने, चिते मदन र-
साल. ॥ ४ ॥ अहो चंडाना कोपथी, आव्यो प्रचंडा पास; शरण थई ए
मुजने, राख्यो देह आश्वास. ॥ ५ ॥ पण जो दैवयोगे करी, कोपे प्रचंडा एह;
तो कुंण शरण हवे तदा, जाळं केहने गेह. ॥ ६ ॥ वाहलो पण कोपे नहीं,
एहवो दुर्लभ कोय; तो नारिने कुभारया, नवि कोपे किम होय. ॥ ७ ॥ ए
राक्षसणी दाय जणी, छांडी जाळं परदेश; आप कुशलने कारणे, तजीए
राज्य ने देश. ॥ ८ ॥ यतः ॥ सजेदेकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुळं सजेत्; ग्रामं
जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे प्रथिवीं सजेत् ॥१ ॥

॥ ढाल १० मी ॥

पुण्य प्रगट थयो. ॥ ए देशी. ॥

इम चितवीने नीकल्योरे, सुहृज्जन; साथे बहु धन लेय, पुण्य प्रगट थयो;
मदन भमे देशांतरेरे सु०, स्वेच्छाए गत खेय पु० ॥ ९ ॥ केइक वासर वही
गयारे सु०, पृथिवी जोतां तास पु०; भयतो भयतो आवीओरे सु०, नगर
नाम संकाश पु० ॥ १० ॥ जीते निज लक्ष्मी थकीरे सु०, सुरपुरी लंकावा-
स पु०, तेह नगर उद्यानमारिरे सु०; वेठो अशोक सकाश पु० ॥ ११ ॥ इण
अवसर एक आवीओरे सु०, भानुदत्त इण नाम पु०; शेट मांहि शिरोमणिरे
सु०, वोळे ते हवे आम पु० ॥ १२ ॥ मदन मुखे तुं आवीओरे सु०, कुशल
अळे मुखे शात पु०; चालो निज घर जाईएरे सु०, मानो अमची वात पु०
॥ १३ ॥ नाम सुंणी चित्त चमकिओरे सु०, श्रुं जाणे मुज नाम पु०; चाल्यो
नगरमां तेहशुरे सु०, पोहतो तेहने धाम पु० ॥ १४ ॥ शेट करावे तेहनेरे
सु०, स्नान भोजन भली भात पु०; गौरव आदर बहु करीरे सु०, नाखे इम

एकांत पु० ॥ १५ ॥ कुमरी निज आगल करीरे सु०, कहे परणो महाभाग पु०; मदन देखी ते नारिनेरे सु०, भाल अरध चंद्र भाग पु० ॥ १६ ॥ चतुरा चंपकवानथुरे सु०, वदन ते चंद्र समान पु०; पक विवोष्ठी भामिनीरे सु०, नयण कमल दल जाण पु० ॥ १७ ॥ रूपे रतिने हरावतीरे सु०, बोले अमृत वाण पु०; नदी तिलोत्तमा एहवीरे सु०, बोल्यो मदन सुजाण पु० ॥ १८ ॥ किम जाणो मुज नामनेरे सु०, नवि जाणो कुल शील पु०; किम गौरव करो एवढारे सु०, वली कन्या दिओ लील पु० ॥ १९ ॥ शेठ कहे सुंण साहिवारे सु०, माहरे पुत्र छे च्यार पु०; ते उपर एक इच्छतारे सु०, पुत्री हुई मनोहार पु० ॥ २० ॥ प्राण थकी मुज वालडीरे सु०, विद्युतलता इण नाम पु०; पाठवी सकल कला वलीरे सु०, आवी यौवन जाम पु० ॥ २१ ॥ ते देखी में चिंतव्युरे सु०, वर योग्या थई एह पु०; देवी कोई वरने हवेरे सु०, लोक रीति धरी नेह पु० ॥ २२ ॥ वलीय वियोग न सही शकुं रे सु०, एहनो क्षण एक मात पु०; इम चिंतातुर हुं थयारे सु०, नवि निद्रा आयात पु० ॥ २३ ॥ भूख तरस सवि उपशमीरे सु०, छांड्यो सवि व्यापार पु०; शून्य मनं वरतुं सदारे सु०, सूतो रात मझार पु० ॥ २४ ॥ मध्यराते कुल देवतारे सु०, आवी भाखे एम पु०; वत्स कांय चिंता करेरे सु०, कहुं ते सांभल नेम पु० ॥ २५ ॥ विहाणे नगर उद्यानमारे सु०, अशोक वृक्षने मूल पु०; पुरुष रतनकुल उपनारे सु०, तरुण कला अतुकूल पु० ॥ २६ ॥ दिवस प्रहर एकने समेरे सु०, मदन नाम गुणवंत पु०; देखी कन्या देजे तेहनेरे सु०, तव में भाख्युं तंत पु० ॥ २७ ॥ चिंता समुद्रमां वूढतारे सु०, मुजने उद्धरथो मात पु०; अहश थई कुल देवतारे सु०, अनुक्रमे थयो परभात पु० ॥ २८ ॥ कृत्त करी विहाणा तणारे सु०, आव्यो हु इण ठाम पु०; देवी भाख्युं ते सवेरे सु०, नयणे दीदुं ताम पु० ॥ २९ ॥ दसमी चोथा खंडमारे सु०, भाखी ए वर ढाल पु०; पद्मविजय कहे सांभलोरे सु०, आगल वात रसाल पु० ॥ ३० ॥ सर्व गाथा २८४



॥ दुहा. ॥


ते माटे करुं विनती, जाणुं तुमचुं नाम; माहरुं वचन मानी करी, करो अमारुं काम. ॥ १ ॥ ते सांभलीने चितवे, मदन ते चित्त मझार; विना प्रिया हुं एकलो, वंठ परे निरघार. ॥ २ ॥ काल गमावुं किणीपरे, रहुं हवे किणे ठाण, देवे दीधी कन्यका, आपेछे मुज पाणि. ॥ ३ ॥ भाग्य योगे आवी मली, मन विश्रामनुं ठाम; परणीने धन भोगवुं, एह शेटने धाम. ॥ ४ ॥ इम चितवी अंगीकरे, तेह शेटनी चाणि; शुभ लगने परण्यो तिहां, मनमां उछरंग आणि. ॥ ५ ॥

॥ ढाल ११ मी. ॥

चतुर सनेही मोहनां ॥ ए देशी ॥

भानुदत्त हवे शेठीओ, वल्ल अने अलंकाररे; बहु धन कंचनपुरिओ, भूव न दीए मनोहाररे, पुण्यवंत इम जाणीए. ॥६॥ विद्युत्तलताशुं तिहां रल्लो, सुख भोगवे सुरसालरे; पुण्ये मन वंछित मले, दुख थाए विसरालरे ॥ पु० ७ ॥ सुपुरुष जिहां जाए तिहां, नावे जाणे कुल शीलरे; पण ते पुण्य उदये करी, पामे सुखभर लीलरे ॥ पु० ८ ॥ जो ईच्छक कल्याणना, इहभव परभव प्राणीरे; तो पुण्य उद्यम आदरे, करिए गुणमणी खाणीरे ॥ पु० ९ ॥ श्वसुर द्रव्यथी संपजे, भोग भला भरपुररे; मदन मग्न सुखसागरे, दुख वात गई दुररे ॥ पु० १० ॥ केईक वरस वही गयां, एक दिन पाउस आयोरे; पंथी लोक विरही जिके, ते घर भणी सहू धायोरे ॥ पु० ११ ॥ कामिनी विरह अगनि थकी, धूमलेखा धनमालारे; विस्तरी गगने तिणे करी, मेघ हूआ मानुकालारे ॥ पु० १२ ॥ दिशि वधूने आभरण परे, जलद भर्त्ताए दीधरे; चमके चिहुं दिशि वीजते, कनकमथी सुप्रसीधरे ॥ पु० १३ ॥ ढिंढिम पाउस रायनो, च्यारे दिशि विस्तरीओरे; हुं राजा हुं इंणिपरे, लोक गर्जारवे भरीओरे ॥ पु० १४ ॥ मानिनी मान खंडन भणी, खल्लधाराज्यु प्रचंडरे; वरसे निरंतर तिणे समे, जलधारा ते अखंडरे ॥ पु० १५ ॥ प्रथवी महिलाने हृदे, हार सेंर अभिरामरे; सरिता पसरी-सोहिए, देखी पसरे का-

मरे ॥ पु० १६ ॥ कुदुज कदंब ने केतकी, सल्लकी अर्जुन फूल्यारे; कुरंच च-
कोर ने मोरना, मद बाध्या तेम मोलारे ॥ पु० १७ ॥ मेघ घटा मटिपी व-
ली, पृथिवीने आकाशेरे; पय झरती गाजे घणुं, शाम वरण मुप्रकाशेरे ॥
पु० १८ ॥ गरभ धरे वगली तदा, हरितांशुक घरा पहेरेरे; नृप यात्रा रज
उपसमे, कामिनी पति पथ हेरेरे ॥ पु० १९ ॥ मदन वेठो तिहां गोखडे,
जोवे पाउस सोहारे; पाढोशण नयणे पढी, करती दुख विछोहारे ॥ पु०
२० ॥ करती विलाप इंगि परे, मुकी मुज अनाथरे; देशांतर गयो ते हजी,
नवि आव्यो मुज नाथरे ॥ पु० २१ ॥ घन गर्जारव वीजली, दादुर मुज डर-
पावेरे; झुंफडी पण पाणी झरे, थरहर देह कंपावेरे ॥ पु० २२ ॥ निठवीयु ध-
न पुर्वनुं, बालक पण इम रोवेरे; आणी श्रुं आपुं हवे, दैव न साहसुं जोवेरे
॥ पु० २३ ॥ दुखकुल भुवन हुं नीपनी, मदन सुणी इम कानेरे; अतिशय
करुणा उपनी, चित्तमां धरी इम सानेरे ॥ पु० २४ ॥ चोथे खंडे अग्यारमी,
श्रीजयानंदने रासरे; पद्मविजय कहे पुण्यथी, पामे लील विलासरे ॥ पु०
२५ ॥ सर्व गाथा ३०९ .



॥ दुहा. ॥

मदन विचारे चित्तमां, अहो ए रांक अनाथ; पति विरहे इम विलपती,
नही को एहनो साथ. ॥ १ ॥ चंडा प्रचंडा चापडी, माहरो धरती वियोग;
इंगि परे दुखिणी बहु हसो, भरता विण शो भोग. ॥ २ ॥ इम चित्तवतो ते
हवे, नयणे नीर झरंत; ते देखीने नाहने, विद्युतलता भणत. ॥ ३ ॥ शो उ-
दवेग तुम चित्तमां, भाखो कारण मुज; बहु आग्रहथी भापियुं, जेह हियानुं
गुज्ज. ॥ ४ ॥ पुरव भार्या सांभरी, तिणे मुज दुख बहु थाय; देखी पाढो-
शण रोवती, सांभरी चित्तमां आय. ॥ ५ ॥

॥ ढाल १२ मी. ॥

आघा आम पधारो पूज्य अम घर बोहोरण वेला ॥ ए देशी. ॥

वात सांभली कामिनी ते चित्तमां.करती इम विचार; इंगिपरे सुख भो-
 गवे मुज साये, पण सांभरि ते नार. स्वामी सुखे पधारो घेर, तेहनी खव-
 र ते लीजे ६ ॥ बाह्य विकार नवि देखावे, बोले इंगिपरे वाणी; स्वामी ए-
 वहुं दुख उपजावो, शे कारण हित आणी ॥ स्वा० ७ ॥ तिहां जइने तस
 रति उपजावो, मदन कहे तव एम; ताहरी आणा होंयतो जाउं, नहीतो
 जाउं केम ॥ स्वा. ८ ॥ सांभली चितवे ईर्षा आणी, जुओ दासीपरे सेवुं;
 वचन नलोपुं एहनुं कवही, करुं एहना चित्त जेहवुं ॥ स्वा० ९ ॥ तोपण
 दुखदायक ते विहुने, संभारे छे आम; मॅतो स्वामी न शकीए क्षण पण, दुर्द्धर
 पीडे काम ॥ स्वा० १० ॥ पाउसऋतुए काम जगावे, वात विसारे पाहुं;
 काल क्षेप करिए कोइ रीते, इम चिती कहे आहुं ॥ स्वा. ११ ॥ स्वामी
 वाट विषम ए ऋतुमां, मारग दुर्गम कचरे; गिरि नदीओ अति विषम छे
 वाटे, जावा चित्त किम पसरे ॥ स्वा. १२ ॥ शरदकाले जब पाउस उतरे,
 तव जाज्यो तुमे स्वामी; वात सुणीने मान्युं मदने, स्त्रीने वश होय कामी ॥
 स्वा० १३ ॥ भोग सुखे हवे काल गमावे, शरद ऋतु जब आवे; तव जावा
 उक्तंठित पुछे, जाउं जो तुं फरमावे ॥ स्वा. १४ ॥ कांय विचार करीने
 मान्युं, संवल साये आपे; करी सुगंध करंवो विधिथुं, मदनने साये थापे ॥
 स्वा. १५ ॥ कुशस्थल भणी चाल्यो वेगे, लेइ करंवो तेह; जातां थयो म-
 ध्यान समय तव, कोड गामे गयो एह ॥ स्वा. १६ ॥ तास उद्याने सरोव-
 र तीरे, तरु मूले विश्राम; नाही देव गुरु संभारी, इच्छे भोजन काम ॥ स्वा०
 १७ ॥ चित्तवे जो कोइ आवे अतिथि, नयणे इणहिज काल; तो तस ग्रास
 अरथ आपीने, पुण्य करु ततकाल ॥ स्वा. १८ ॥ परने शब्द करीने भुंजे,
 जगमां ते धन्य प्राणी; अतिथी संविभाग करयो तिणे, लखमी करतल
 आणी ॥ स्वा. १९ ॥ इम चित्तवतां दीठो पासे, देवकुलथी नीकलतो; ज-
 टा मुकुटने भस्म विलेपित, गाम भणी सलसलतो ॥ स्वा. २० ॥ तपसी दे-
 स्ती हरख्यो इदये, बोलाव्यो बहु माने; आप्यो करंवो आहार प्रमाणे, लेइ
 वलीओ निज थाने ॥ स्वा० २१ ॥ भुरूप्यो तपसी खावा वेठो, तेह सरोवर

तीरे; खावा मदन आरंभे जेते, लेई समीप ते नीरे ॥ स्वा० २२ ॥ एहवे
छोँक थई तव चिंते, कांइ विलंब ते कीजे; एहवे योगी बकरो हूओ, करंब
प्रभाव वदीजे ॥ स्वा० २३ ॥ श्री गुरु उत्तमविजय प्रभावे, चौथे खंडे ढाल;
चारमी पद्मविजय कहे पुण्ये, होवे मंगलमाल ॥ स्वा० २४ ॥ सर्व गाथा ३३३

॥ दुहा. ॥

वें वें करतो वोकडो, चाल्यो नगर संकाश; मदन लह्यो विस्मय घणुं, दे
खी तेह विलास. ॥ १ ॥ किहां जायछे वोकडो, जोडं पूंठे जाय; इम चिंति
ने चालीओ, कौतुक मन नवि माय. ॥२॥ मदन वोकडो विहुं जणा, पोह-
ता नयर मझार; पेठो बकरो भवनमां, जिहां विद्युतलता नार. ॥ ३ ॥ मदन
जोवा छानो रह्यो, कोइ थानिक ते पास; जोडं बकरो शु करे, पेरीने आ-
यास. ॥ ४ ॥ बकरो आब्यो जाणीने, विद्युतलता दिए द्वार; लेइ लकुटने
मारवा, उठी उंधी नार ॥ ५ ॥ बुंब पाडे ते वोकडो, तव बोले ते नार; नि-
रपराध मुजने तजी, रे तुज पडो धिक्कार. ॥६॥ बहु काले पण पूर्वनी, ना-
रिथी विरम्यो नांदि; चाल्यो तिहां उतकंठथी, शुं जोइ आब्यो आंहीं. ॥७॥

॥ ढाल १३ मी. ॥

करेलणां घड घेने. ॥ ए देशी. ॥

नारी कहे मुसलेकरी, दया करीने आज; मारुं नहीं भरता भणी, जा-
णी मोटुं अकाज. ॥ ८ ॥ भविकजन सुंणज्योरे, नारी चरित्र विचित्र, ह-
दयमां मुणज्योरे ॥ वीहनो चंडा मुसलथी, गयो प्रचंडा पास; मुज मारंतं
हवे कहो, चित्तमां केहनी आश ॥ भ० ९ ॥ कही कहीने इम मारती, मिली-
ओ लोक अपार; मदन विचारे चित्तमां, अहो अहो चरित्र अपार ॥ भ०
१० ॥ करंबो जो खातो कदा, माहरी पण ए रीति; लोक बुवारव सांभली
देखी एह अनीति ॥ भ० ११ ॥ रे रे मूढ पशु भणी, मारेछे तुं केम; वणिक
कुले तुं उपनी, किम हिंसा करे एम ॥ भ० १२ ॥ तव पाणी यंत्री करी,
छांटयुं तेहने जाम; भस्म गुंडित जटाधरो, ऊरण योगी थयो ताम ॥ भ० १५

(१७८)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

॥ लोक देखी पूछे इशुं; भगवन शी ए वात; तव ते आंसु नांखतो, भाखे नि-
ज अवदात ॥ भ० १४ ॥ वीहके तपसी नासतो, विस्मय पास्या लोक; वि-
द्युतलताने जंपनो, मन मांर्हि घणो शोक ॥ भ० १५ ॥ धिग धिग निरप-
राधी ए, तपसी मारयो आज; नवि जाणुं किहां ए गयो, पति जाणी ए अ-
काज ॥ भ० १६ ॥ मलशे अथवा नर्ही मले, ते माहरो भरतार; में जाण्युं
सिंहा देई, भोग भोगवशुं सार ॥ भ० १७ ॥ मनना मनोरथ मन रक्षा,
जनमां थयो अपवाद; पति विरहणी हुं थई, किहां करुं शोरने दाद ॥ भ०
१८ ॥ पुंक खवाणो पण नर्ही, हाये दाधो जेम; ए उखाणो मुज थयो,
कहो हवे करीए केम ॥ भ० १९ ॥ मदन विचारे देखीने, निज चरित्रे करी
एह; चंडा प्रचंडा विहु जणी, जीती कपटनी गेह ॥ भ० २० ॥ योगीने
पण गम्य नर्ही, नारि चरित्रनो अंत; धिग धिग विपयी जीवने, तो पण
तिहां राचंत ॥ भ० २१ ॥ राखसणी सापिण वली, वाधिण जीती एण; जे
विश्वास करे नरा, ते पशु नर रूपेण ॥ भ० २२ ॥ पुण्ये त्रणयी लुटीओ,
हवे करुं निज काज, इम चिंतवतो आवीओ, नाम हसंती पुरी पाज ॥ भ०
२३ ॥ तेरमी चोथा खंडमां, पबविजय कही ढाल; पुण्ये मति सबली होवे,
पुण्ये मंगलमाल ॥ भ० २४ ॥ सर्व गाथा ३५७



॥ दुहा. ॥

गौरी घर घर चारणे, ईश्वर मानुष्य मात; रंभा वन वन देखीए, धनद-
नी केइ कहुं वात. ॥ १ ॥ गौरी ईश्वर रंभा धनद, सहने हसती तेह; नाम
हसंती तेहनं, मुरपुरी अधिक छे एह. ॥ २ ॥ तस उद्यानमां चैख छे, जाणे
मेरु गिरिंद; कनक थंभ पंचालिका, जिहां श्रीरीस्रभोजणंद. ॥ ३ ॥

॥ ढाल १४ मी. ॥

भावि तुम वंदोरे सुमातेने शांतिजिणंदा ॥ ए देशी. ॥

मदन देवलमां पेठो हरखे, रीस्रभ जिनेश्वर दीठा, जनम मरण ढाले भ-

विजननां, मनमां लाग्धा मीठा ॥ ४ ॥ जिनवर निरखी लाल हैयडे हर्ष ध-
 रीजे ॥ जिनगुण परखी लाल नरभव सफल करीजे ॥ भवसायरमां भमतां
 जनने, आलंवन जिनराया; देवनोदेव सुरासुर वंदित, पूरव पुण्ये पाया ॥
 जि० ५ ॥ हाथे नहीं हथीआर न माला, नहीं उत्तंगे वामा; अविकारी अ-
 कपाई मुद्रा, निरभयीने गुणधामा ॥ जि० ६ ॥ एह सरूप न जगमां दीसे,
 सफल थयो अवतार; नयन क्रतारथ माहरां हूआं, धन्य हुं जग शिरदार ॥
 जि० ७ ॥ भवसायरनो पार हुं पाम्यो, दुरलभ जिनपद पामी; भव क्षय
 कारण भव दुख वारण, हवे थयो शिवगति गामी ॥ जि० ८ ॥ इम बहु
 माने जिनवर प्रणमी, वेठो तिणहीज ठाम; वणिक पुत्र इण अवसर आव्यो,
 धनदेव तेहनुं नाम ॥ जि० ९ ॥ ते पण परमातम प्रणमीने, मनमां उल्लसित
 भावे; मदनने धनदेव रंगमंडपमां, हरपे चिहु जण आवे ॥ जि० १० ॥ पृछे
 धनदेव स्नेह धरीने, साधमिक तस जाणी; भद्र तुमे आव्या कहो किहांथी,
 जिनमुख जोवा जाणी ॥ जि० ११ ॥ दुःख हृदयमां तुम बहु देखुं, तव चिते
 ते एम; कोइ महातमा मुजने पूछे, आणी बहुलो प्रेम ॥ जि० १२ ॥ बोल्यो
 मदन भद्र हुं आव्यो, नगर संकाशथी जाणी; दुःख कारण मुज हृदयनुं पू-
 छयुं, ते सांभल गुणखाणी ॥ जि० १३ ॥ वात लज्जा जेहवी छे तोपण, तु-
 मचुं दरिसण देखी; स्नेह घणो दीठो तिणे भाखुं, वीजुं सर्व उवेखी ॥ जि०
 १४ ॥ निज वृत्तांत सरव तिणे भाख्यो, धनदेव बोल्यो तिहारे; केटलुं मुज
 दुःख आगले ताहरुं, तुजथी अधिक दुःख माहरे ॥ जि० १५ ॥ माहरी
 वात घणी अचरिजनी, सुणतां अचरिज थाय; भार्या माहरे तुजथी अधिकी,
 सुणतां तुज दुःख जाय ॥ जि० १६ ॥ मदन कहे कहो तुम भार्यानी, वात.
 ते विस्मयकारी; धनदेव कहे ते कहिए सुणज्यो, हर्ष धरी नरनारी ॥ जि०
 १७ ॥ चोथा खंडमां चौदमी भाखी, श्रीजयानंदने रास; पद्मविजय कहे गु-
 णी गुण सुणतां, होए लील विलास ॥ जि० १८ ॥ सर्व गाथा ३७५



॥ दुहा.

इण नयरी मांही वसे, धनपति नामे शेठ; निश्चल श्री जिन धर्ममां, वी-
जुं जाणे वेठ. ॥ १ ॥ मुनिजननी सेवा करे, करे वली पर उपगार; गुणरा-
गि गीरुओ वणुं, श्रीवंतमां शिरदार. ॥ २ ॥ लखमी नाम सोहामणुं, नाम
तिस्रो परिणाम; लखमी घर आंगण वसे, सकल कलानुं धाम. ॥ ३ ॥ ए-
हवी नारिशुं शेठजी, उभय लोक अतिरुद्ध; साधंतां मुत दो थया, तेठ
मदा मुविशुद्ध. ॥ ४ ॥ तिहां पहेलो धनसार छे, वीजो छे धनदेव; यौवन
वय आव्या विहुं, स्वामि कार्तिक महादेव. ॥ ५ ॥

॥ ढाल. १५ मी.

गेव सागररी पालि उभी दोय नागरी मारा लाल. ॥ ए देशी. ॥

दोय कला हवे शीख्या, यौवन वय आवीआ मारालाल, रूप लावण्य
विशिष्ट, कन्या परणावीआ मा०; निख निख निज व्यापार करे ते विहुं
जणा मा०, काल गमावे इणि परे सहुए एक मना. ॥ मा० ६ ॥ जीव
लोकने मरण अंते आवे सदा मा०, समय समय विणसे रस रूपने संपदा
मा०; धनपति शेठ आयु निज अथिर जाणी करी मा०, शत्रु मित्र सम-
भाव हृदय मांही धरी ॥ मा० ७ ॥ थई विरक्त संसारयी सहु जीव खां-
मणां मा०, मन एकाग्रे पंच परमेष्ठि सुमरणा मा०; पंथ साध्यो परलोक-
नो धनपति वाणिए मा०, मरण लहो इम उत्तम थावक जाणिए ॥ मा०
८ ॥ निज भरतार वियोग शोक हवे बहु करे मा०, लखमि पण घरवास
वीहामणो चित्त धरे मा०; बहु संवेग विषय विमुक्ती ते निख रहे मा०, त-
पयी विभेपे शोपवी काय मरण लहे ॥ मा० ९ ॥ मात पिताना मरणयी शो-
क करे धणो मा०, नावे सुख पामे किणही ठामे चित्त दोय तणो मा०; त-
जीओ सकल व्यापार हवे इण अवसरे मा०, श्री मुनिचंद मुण्ड आव्या
पुर परिमरे ॥ मा० १० ॥ तिणे उपदेश करयो इम भो भो किम करो मा०,
एवडो शोक संभार धरो चित्तमां खरो मा०; नावे संसार सरुप निरुपण
चित्त करो मा०, चर थिर सकल संसारमां सर्वने जम हरो ॥ मा० ११ ॥

नित्य पंथी ए प्राण शरीर ए चल अच्छे मा०, यौवन चपल मर्ण ध्रुव अनुक्रमे सवि गच्छे मा०; एक जिनेश्वर भाषित शरण ते धर्म छे मा०, तहे आधार गति स्थिति अवर अधर्म छे ॥मा० १२॥ तेह सुणीने शोक मंद करी घर गया मा०, निज घर कार्य व्यापारमां विहुए सज थया मा०; विहुनी नारि ते घरमां नित्य कलह करे मा०, विहुं जण समजी भिन्न भिन्न राखे घरे ॥ मा० १३ ॥ जाते दिन एक दिन पूछयुं वृद्ध भाईए मा०, किम उदवेग सहित तुज मनहुं पाईए मा०; तव लघु भाई कहे मुज नारिनुं दुख घणुं मा०, तिणे मुज उदवेग थाए तनु दुरवलपणुं ॥ मा० १४ ॥ मोठो भाई कहे तुं मन मत दुख करे मा० कन्या वीजी परणावुं तेहथी सुख घरे मा०; लघुभाई कहे इमज करो जिम सुख लहुं मा०, एह बात तुम आगल झाझी शी कहुं ॥ मा० १५ ॥ तव वृद्ध भाईए कोईक कुलवंतीकनी मा०, परणाव्यो धनदेवने वीजी शोभा वनी मा०; चौथे खंडे ढाल पनरमी ए कही मा०, पद्मविजय कहे श्री गुरु उच्चमथी लही ॥ मा० १६ ॥ सर्व गाथा ३९१



॥ दुहा ॥

अभिनव परणी नारिशुं, भोगवे नवला भोग; भावी भावना योगथी, सरखी मिल्यो संयोग. ॥ १ ॥ स्वेच्छाचारी नारिते, पहिली सरखी एह; चित्त संतोप न उपनो, धनदेवने तिहां रेह. ॥ २ ॥ मन चिते निरभाग्य हुं, घर उठथो गयो रन्न; तिहां पण भावी भावथी, लागी व्होत अगन्न. ॥ ३ ॥ तास परिक्षा कारणे, जोवे तास चरित्त; एक दिन वेठो ध्रुजतो, नारिने कहे इणि रीत. ॥ ४ ॥ शीत ज्वर मुज आवीयो, वेशी न शकुं तेण; वहेली शज्या पाथरो, शयन करुं हुं जेण ॥ ५ ॥ प्रगुण करी शज्या तिणे, धनदेव सूतो जाम; पावरण सीरप प्रमुख, ओढाड्यां तस ताम. ॥ ६ ॥

॥ ढाल १६ मी ॥

हांझरिया, मुनिवर धन धन तुम अवतार. ॥ ए देशी. ॥

तिणे सभे सूरय आथम्योजी, रात थयो अंधकार; आच्छादे सविदोपने-
 जी, गूहड करे घृतकार. ॥ सोभागी सयणां सांभलो नारि चरित्र ७ ॥
 घोर नाद कपटे करीजी, उंचे तिहां धनदेव; तव मोहटी लघुने कहेजी,
 सांभलरे तुं हेव ॥ सो० ८ ॥ तुं परवार उतावलीजी, आपणने छे काम; तव
 ते काम उतावलीजी, करीने प्रगुण थई ताम ॥ सो० ९ ॥ घोर निद्रा आ-
 व्यो वहीजी, जाणी ते दोय नार; घरमांथी ते नीकलीजी, घर उद्यान सह-
 कार ॥ सो० १० ॥ ते उपर दोये चढीजी, पाछलथी धनदव, तेहने अनुसा-
 रे गयोजी, हल्लए हल्लए हेव ॥ सो० ११ ॥ तेहज आवे वस्त्रथीजी, वांध्युं
 आप शरीर; वेठो पृथ्वी उपरेजी, साहस धरीने धीर ॥ सो० १२ ॥ मंत्र
 संभारथो तिणीएजी, शक्ति अचिंस छे मंत; उढीने आंवा गयोजी, चाल्यो
 ते गगनांत ॥ सो० १३ ॥ जल जंतु वीहामणोजी, रयणायर मध्य भाग;
 रतन द्वीप रलीआमणोजी, अवर द्वीप वडभाग ॥ सो० १४ ॥ तस शिर
 मुगट मणि समुजी, नगर रयणपुर तत्थ; रतने मंडित घर घणांजी, सहस
 गमे छे जत्थ ॥ सो० १५ ॥ विद्याधर वासो जिहांजी, रूपे जीखो अनंग; वि-
 द्याधरी रूपे करीजी, रति हारी एकंग ॥ सो० १६ ॥ तिण नगरी उद्यान-
 मांजी, उतरीओ सहकार; धनदेव तिहांथी नीकळीजी, दूर गयो कोई ठार
 ॥ सो० १७ ॥ भार्याओ पण उतरीजी, पेठी नगर मझार; धनदेव पण पंठे
 थयोजी, ताम चरण अनुसार ॥ सो० १८ ॥ कौतुक नगरीमां जूएजी, ना-
 ना विध मनोहार; निज ई.उए विचरतीजी, पूठे तस भरतार ॥ सो० १९ ॥
 तेह चरित्र जोतां थकांजी, चित्तमां चमक्यो एह; जाणे स्वर्गमां आवीओजी,
 सुपन परे लहे तेह ॥ सो० २० ॥ चौथे खंडे ए कहीजी, सोलमी ढाळ र-
 साळ, पद्मविजय कहे पुण्यथीजी, होवे मंगलमाल ॥ सो० २१ ॥ सर्व
 गाथा ४१२



॥ दुहा. ॥

इण अवसर ते नयरमां, श्रीपुंज नामे शेट; वीजा सहू व्यवहारिया, मा-

नु एहथी हेठ ॥ १ ॥ च्यार पुत्र उपर सुता, श्रीमति नामे तास; तिलक स-
मी त्रण लोकमां, रूप लावण्यनो वास ॥ २ ॥ एहवी नारि न पामीओ,
क्षीण देह तिणे काम; हलवे हलवे अनंग थयो, ते दुखथी मानुं आम.
॥ ३ ॥ विद्या कला सरवे तिहां, स्पर्द्धाए करयो वास; सोभाग्य थानिक ए
समुं, नवि लार्थुं कोइ पास. ॥ ४ ॥ सार्थवाह वसुदत्त तिहां, तेहना पुत्रने
तेह, करयो विवाह हवे परणवा, मांडघो उत्सव गोह. ॥ ५ ॥

॥ ढाळ १७ मी. ॥

राग खंभाती ॥ हवे श्रीपाल कुमार. ॥ ए देशी. ॥

सारथ वाहनो पृत, वस्त्र अमूलिक अंग धरेजी; रयण तणा अलंकार, ता-
स किरण अति विस्तरेजी. ॥ ६ ॥ सावेला श्रीकार, पहेरया वागा जरकशी
जी; नाटिक करे वर पात्र, जाणे रंभा उरवशीजी. ॥ ७ ॥ वाजे विविध
वार्जित्र, शरणाई टहके घणीजी, साजन मिलिओ साथ, मगल गावे जाण-
णीजी ॥ ८ ॥ बोले विरुद अनेक, लोक जोवा बहु आवीओजी; श्रीफल
ने वली पान, वरराजा कर भावीओजी. ॥ ९ ॥ वीजे चांमर पास, छत्र
धरयुं शिर उपरेजी; नोयत गडगडे छदि, चोहटे चाले इणि परेजी. ॥ १० ॥
देखी नारि चरित्र, धनदेव चिंते इण समेजी; बलशे जव ए नारि, तव व-
लथुं हुं अनुक्रमेजी. ॥ ११ ॥ जोतो ओच्छव तेह, श्रीपुंज शेठ घर आंग-
णेजी, उभो तोरणे तेह; दीसे ते रलीआमणोजी. ॥ १२ ॥ इण अवसर वर
राय, तुरग चढ्यो सांहे घणुंजी; वसुदत्त सुत श्रीपुंज, शेठनुं सोहावे आं-
गणुंजी. ॥ १३ ॥ लोक तणी भीड भाड, जोवा मिलियो छे घणोजी; थंभ
ते डगीओ ताम, तीखी धार तोरण तणोजी. ॥ १४ ॥ पढीओ त्रीछो तेह,
भवितव्यता योगे करीजी; लागो ते उत्तमांग, वर ततकाल गयो मरीजी.
॥ १५ ॥ वसुदत्त परिजन जेह, तेह शोकातुर बहु थयोजी, रोवे सवि परि-
वार, शिर कूटे पीटे हियोजी. ॥ १६ ॥ सहु गयो ते निज घेर, हवे श्रीपुंज
चित्त चितवेजी; शो आव्यो अंतराय, कहो हा थुं करिये हवेजी. ॥ १७ ॥
शी गति होशे धूय, खेद करे चित्त आपणेजी; निज पारिवारने साथ, चितवे

(१८४)

श्री जयानंद केवलीनो रास.

इणिपरे डहापणेजी. ॥ १८ ॥ यतः प्रारब्धमन्यथाकार्यं । देवेनविदधेऽन्य-
था ॥ कोवेत्तिप्राणिनांप्राच्य । कर्मणांविपमांगतिं ॥ १ ॥ पूर्व ढाल ॥
परणे नहिं जो आज, लगने तो ए अभागणीजी; इम लोके परसिद्ध; स-
कलंकी कन्या भणीजी. ॥ १९ ॥ नहिं परणे नर कोय, सहुने जीवित वा-
लहुंजी; परणावुं कोई आज, कन्या भाग्य शास्त्रे कह्युंजी. ॥ २० ॥ सयण
कहे कांई खेद, तुमने करवो नवि घटेजी; विण भावी नवि होय, भावी भाव
ते नवि मिटेजी. ॥ २१ ॥ वीजाने घो एह, सांभली चित्तमां हरखीओजी; नि-
ज नरने करे आण, लावो कोइ नर परखीओजी. ॥ २२ ॥ ते नर ततक्षण
ताम, वर जोवाने नीकल्याजी, राज मारग सवि ठाम, जोतां कोइने नवि
मल्याजी. ॥ २३ ॥ इण अवसर धनदेव, नयणे पढीओ तेहनेजी, दिव्य
रूपधर जेह, आव्यो ते भर यौवनेजी. ॥ २४ ॥ लाव्या शेठने पास, निज
पुत्री सम निरखीओजी; प्रार्थना करे तास, शेटीओ हैडे हरखीओजी.
॥ २५ ॥ चौथे खंडे ढाल, सत्तरमी सोहामणीजी; पद्मविजय कही एह, श्री
जयानंद रासज तणीजी. ॥ २६ ॥ सर्व गाथा ४३८



॥ दुहा. ॥

प्रार्थना सुणी शेठनी, चित्ते चित्त मझार, ए रूपवंती देखीए, जेहवी पू-
रव नार. ॥ १ ॥ खेम कुशल निज वांछते, पूरव छंडवी नार; पण नारी
विण माहरो, अफल थयो संसार. ॥ २ ॥ अतिथी ने वली प्राहुणा, न लहे
आदरमान; नारी विना हालीसमो, पुरुष ते विटल समान ॥ ३ ॥ तात करे
इम प्रार्थना, आदर करी अपार; एहवी किम छंडुं हवे, नारी रति अनुहार
॥ ४ ॥ इम करी हाकारो भण्यो, न्हवराव्यो धनदेव; करिय विलेपन चंदने,
वस्त्र पहरेयां ततखेव ॥ ५ ॥ आभूपण अंगे धरयां, पहरेरीने फुलमाल; श्रीमति
कन्या परणीओ, हरये थइ उजमाल. ॥ ६ ॥ शेठ कन्या धनदेवने, आणं-
द वरखो एम; देखी जमाई रुअढो, शेठ घरे बहु प्रेम. ॥ ७ ॥

॥ ढाळ १८ मी. ॥

वाडी फूली अति मली मन भमरारे. ॥ ए देशी. ॥

धनदेव चिंतातुर थई सुणो सयणारे; वेठो देखे वहार, लाल सुणो वय-
णारे; दौय भार्या धनदेवनी सु०, फिरी फिरी नयर मझार ॥ ला० ८ ॥
सांभली कौतिक अव नवुं सु०, विवाह जोवा काज ला०; मोहटी नाह-
नीने कहे सु०, रात्रि घणी छे आज ॥ ला० ९ ॥ जोइए ओत्सव हेजशुं
सु०, लघुए पडिवज्युं तेह ला०; जोवे विहुं जणी रंगशुं सु०, लघु बोली
सुणो एह ॥ ला० १० ॥ देव देवी सम मनहरू सु०, वर बहु अतीहि उ-
दार ला०; आर्य पुत्र सम देखीए सु०, मोहटी कहे तव नार ॥ ला० ११ ॥
भोली तु कांइ नवि लहे सु०, सरिखा नर बहु होय ला०; आर्य पुत्रने
सारिखो सु०, दीसे बीजो कोय ॥ ला० १२ ॥ शीत ज्वर करी पीडीओ
सु०, तेतो सूतो गेह ला०; निद्रा माहि आवीओ सु०, नहीं विद्यावली
एह ॥ ला० १३ ॥ किहांथी आव्यो होय इहां सु०, खिण एक रही तिण
ठाय ला०; कौतिक देखी विहु जणी सु०, सहकार साहमी जाय ॥ ला०
१४ ॥ उंचे गोख वेठो हवे सु०, नव परीणत स्त्रीयुत्त ला०; धनदेव शंका
धारतो सु०, गमन नारिनुं गुत्त ॥ ला० १५ ॥ सिरिमति वस्त्रने छेहडे सु०,
इलोक ते लिखिओ एक ला०; कुंकुम रसथी सहनाणी सु०, करी निपुणार्ई
छेक ॥ ला० १६ ॥ यतः कहसंतीकवारत्न । पुरंचुतोभ्रगःकच ॥ सूनु-
र्धनपतेर्भाग्या । धनदेवोभ्यगात्श्रियं ॥ १ ॥ पूर्वे ढाळ ॥ हसंती नगरी कि-
हां सु०, किहां रत्नपुर ठाम ला०; किहां आंभो गगने चलयो सु०, किहां
कहो धनदेव नाम ॥ ला० १७ ॥ कायक कार्य उदेशीने सु०, नीकलीओ
हवे तेह ला०; आवे चढी ते दौय जणी सु०, मनमां हर्ष धरेह ॥ ला० १८ ॥
आंवे पूर्व परे रझो सु०, नारिए गणिओ मंत ला०; चाल्यो आकाशे आं-
वलो सु०, पोहतो निर्ज घर तंत ॥ ला० १९ ॥ उतरयोनिज उद्यानमां सु०,
धनदेव छानो ताम ला०; घरमां जई सूतो वली सु०, शय्याए करी आ-
राम ॥ ला० २० ॥ ओढी निद्राभर थयो सु०, आवी हवे दौय नार ला०;

भर निद्राए देखीओ सु०, सूतो निज भरथार ॥ ला० २१ ॥ शंका रहित
 सूती विहु सु०, जागी क्षणेकमां जाम ला०; थयो प्रभात रयणी गई
 सु०, सूरय उगयो ताम ॥ ला० २२ ॥ सवि अंधकार नसाडीओ सु०, चंड
 किरण दिन नाह ला०; वलगी घर कारय भणी सु०, धंधो घरनो अथाह ॥
 ला०; २३ ॥ किमहि क हवे लघु नारीए सु०, सोढ वाहर रह्यो हाथ ला०;
 कंकण सहित ते देखीओ सु०; विवाहवंतो नाथ ला०; मोहटीने देसाडी-
 ओ सु०, तव कहे मोहटी वाणि ला०; तें तिहां कछुं ते सवि मलयुं सु०,
 देखी एहनो पाणि ॥ ला० २५ ॥ किमहीक आव्यो तिहां कणे सु०,
 परण्यो कन्या ताम ला०; जाण्यो इंणे आपणो सु०, सवि वृत्तांत ते आम
 ॥ ला० २६ मत वीहजे मन मांहिथी सु०, करशुं तस प्रतिकार ला; क-
 रवुं तो वीहवुं किशुं सु०, सघलुं थाशे सार ॥ ला० २७ ॥ श्रीजयानंदना रासमां
 सु०, चोथे खंडे ढाळ ला०; अढारमी पदमे कही सु०, आगल वात रसाल
 ॥ ला० २८ ॥ सर्व गाथा ४५६



॥ दुहा. ॥

वीक म कर तुं वापडी, करुं एहनो उपचार; सात गांठ देइ मंत्रीने,
 दोरो करयो तैआर. ॥ १ ॥ धनदेवने डावे पगे, नारिए वांध्यो ताम; मूरखने
 निरदयपणे, कूढ कपटनुं धाम. ॥ २ ॥ मंत्र तणा परभावथी, सूडो थयो
 ततखेव; देखी निज सूडापणुं, दीन वदन धनदेव. ॥ ३ ॥ नवि छोटयुं कं-
 कण करे, नवि सांभरयुं जेण; धनदेव मनमां चितवे, शंका आवी तेण. ॥
 ४ ॥ रात्रि वृत्तांत जाणी करी, सूडो कीधो आम; इंणे चरित्रे ए नारिने,
 असंभाव्य नही काम. ॥ ५ ॥ मन चिते हा हारिओ, मानवनो अवतार; प-
 शुपणुं हु पामीओ, इम ध्याए तिणी वार. ॥ ६ ॥ उडवा जाए जेटले, क-
 रथी चांप्यो तास; इणपरे बोले पापणी, क्रोध तणो आवास. ॥ ७ ॥

॥ ढाल १९ मी. ॥

वटाउनी देशी.

आंखे समझावे अन्यनेरे, करे वली अन्यशु वात; अन्य हृदयमां धारती, कांय नारी कुटिल कुजातरे; जो होय पोतानो भ्रातरे, वली जो होय नि-जनो तातरे, तेहने पण वंचत्रा जातरे, एहवा गुण जगत विख्यातरे. ॥ ८ ॥ सयण सलूणे सांभलो मेरे लाल ॥ कोयनी न होए ए कदारे, मुकी निज प-त्तेराय; रांक साथे रमे रंगशुं, तस जाणे जीवित प्रायरे; नदीनी परे नीची जायरे, सापिण परे कुटिल सदायरे; राक्षसणी परे खावा धायरे; जिहां मन मान्युं सां उजायरे ॥ स० ९ ॥ क्षण एक रोवे क्षण हसेरे, क्षण देखावे राग; क्षणमां विरागण हुइ रहे, क्षणमां कहे मीठी वागरे, क्षणमां कटु वच-ननो लागरे; क्षण रूसे तूसे अथागरे, क्षणमां करे निज घर तागरे; क्षणमां दिए निज पति दागरे. ॥ स० १० ॥ निज पति परदेशे जतारे, परम होए सुख देह, मुखे कहे तुम विण किम रहुरे, आ सूनं ढंढेर छे गेहरे; तुमशुं मुज अतिअ सनेहरे, घडी वरस समी मुज एहरे, हवे थाशे कहो करुं तेहरे, हवे दुखना वरसशे मेहरे ॥ स० ११ ॥ नारी रंग पतंगशोरे,जातां न लागे वार; जिम वादलनी छांहडी, जिम बीजलीनी चमकाररे; जिम राजमांन अल्प वाररे, जिम कपटी ध्यान विचाररे, नहीं साचुं वचन किवाररे, अशुचि अ-पवित्र भंडाररे ॥ स० १२ ॥ पंखी पगलुं आकाशमांरे, जलमां मछ पद जोय; तिम नारीना हृदयनो, जन न लहे मारग कोयरे, बुद्धिए सुरगुरु यदि हो-यरे, तारानुं गणित करे लोयरे, एहनो पार न पामे सोयरे, क्षण हसती क्षणमां रोयरे ॥ स० १३ ॥ धीठ हृदय नारी हवेरे, बोले एणि परे वाण; अम चरित्र जोवा भणी, तें कीधुं इम मंडाणरे; सूतो जूठो ज्वर आणरे, अम साथे पराडि पठाणरे, आवी पकडयो कनी पाणरे; आवी सुतो ओढ्युं वल्ल ताणरे ॥ स० १४ ॥ तेहनु फल हवे देखजेरे, ते विण न वले सान; इम करी पांजरे घालिओ, सूडाने देई अपमानरे; वहु वचन प्रहारनुं दानरे, सांभले सूडो निज कानरे; लघु मीटीनुं करे वहु मानरे, तुम सम नहीं अ-

(१८८)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

घर को ठानरे ॥ स० १५ ॥ घर परिजन देखी घणुंरे, शुक करे पथाताप;
धिग मुज सूडानो भव लहो, मुज आवी पोहतुं पापरे; न करथो परमेष्ठिनो
जापरे, तिणे पाम्यो इम सतापरे; हवे परवश शुं कंरुं आपरे; नवि आडां
आवे माय वापरे ॥ स० १६ ॥ घर कारय करती थकीरे, रांधे जब ते नार
तव भाजी छमकावती, तेहना होए छमकाररे; लावी सूडो तिणी वाररे, वी-
हवरावे श्मसनी धाररे, कहे सांभल तुं निरधाररे, करु एहवो तुज परकाररे
॥ स० १७ ॥ तुजने मारी इंधि परेरे, एक दिन एह हवाल; छमकावीशुं
तुजने, इम बोले तेविकरालरे; सुणी पामे भय असरालरे, निस निस ए दुख
जंजालरे; लहेतो काढे कोई कालरे; जाणे मिलिओ छे नर्कपालरे ॥ स०
१८ ॥ धन धन ते नर राजिआरे, जाणी एहवी नार; दूर रत्ना महाभाग ते,
जाणो जिम जंबूकुमाररे, वली वयरसामी अणगाररे, चौथे खंडे ए साररे;
ढाल ओगणीसमी अधिकाररे, कहे पद्मविजय धरी प्याररे ॥ स० १९ ॥
सर्व गाथा ४७५ ॥



॥ दुदा. ॥

हवे जे रत्नपुरे थयो, ते सुणज्यो अधिकार; शोठे जाण्युं किहां गयो,
श्रीमतिनो भरतार. ॥ १ ॥ गयो ते पाछो नावीओ, खोलाज्यो वहु ठाम;
विहाणे दीठो जे लिख्यो, इलोक मनोहर ताम. ॥ २ ॥ तथाहि ॥ हसंतीपुरे
धनपति, शोठनो सुत धनदेव; व्योम भारग आवी करी, परणी गयो ततखेव
॥ ३ ॥ तेह सुणी शोठे हवे, श्रीमति रोती जेह; आसासना देइ इम कहे, इहां
तेढावुं तेह. ॥ ४ ॥

॥ ढाल २० मी. ॥

॥ वींछिआनी देसी. ॥

एक दिन एक सारथपति, सागरदत्त नामे शोठरे; व्यापारने अरथे तिहां
जतो, हसंतीपुरी जिहां ठेठरे ॥५॥ जूओ जूओ करम विटंघना. ए आंकणी ॥
तेहने श्रीपुंजे आपीओ, वहु मुख्य रयण अलंकाररे; कहे धनदेवने तुमे आ-

पजो, करी आदर अति सतकाररे ॥ जू० ६ ॥ कहेजो संदेसो इणि परे,
 तुमे आवो आणे ठामरे; निज नारि संभालो मोदशुं, तुम न घटे एवुं कामरं
 ॥ जू० ७ ॥ हवे सागरदत्त पण चालिओ, ओलंघ्यो सागर जिहाजरे; पहा-
 तो हसंती नयरीए, तिहां करे व्यवसायनां काजरे ॥ जू० ८ ॥ धनदेव घरे
 गयो अन्यदा, नवि दीठो तिहां धनदेवरे; तव पूछे तेहनी नारिने, भाखो मु-
 जने ततखेवरे ॥ जू० ९ ॥ धनदेव किहां छे दाखवो, तव बोली ते मुणो
 नारिरे; देशांतरे व्यापारे गयो, आवशे ते दिन दस बाररे ॥ जू० १० ॥
 कहे सारथवाह नारी प्रते, श्रीपुंजे दिओ अलंकाररे; धनदेव जमाईने कारणे,
 श्रीमति झूरे तस नारिरे ॥ जू० ११ ॥ ते कारण तेढया छे तिहां, तव बोली
 ते विहु नारिरे; ए वात तो तेहु कहेता हता; उत्सुकता चित्त बहु धारिरे ॥
 जू० १२ ॥ पण कार्य वशे देशांतरे, जावुं पढयुं ततकालरे; जातां तिणे इं-
 णिपरे भाखिउं, धरी हर्ष ने रई उजमालरे ॥ जू० १३ ॥ रत्नपुरथी आवे
 जो कोई, आपजो तस ए शुकराजरे; मुज नारि नवोढा रमणने, वली प्रेम
 उपावण काजरे ॥ जू० १४ ॥ लेजो वली सुसरो मोकले, इम कही आप्युं
 तस हाथरे; शुक्र सहित रुहु ते पांजरुं, लीघी अलंकृतिनी आथरे ॥ जू० १५
 ॥ हवे सागरदत्त ते नयरमां, करी क्रय विक्रय व्यवहाररे; चढीओ घर
 जावा प्रवहणे, क्रमे सागर पाम्यो पाररे ॥ जू० १६ ॥ उत्तरी हवे नयर-
 मां संचरयो, पोहोतो श्रीपुंजने गेहरे; कखो सर्व वृत्तांत ते शेठने, जे नारिए
 भाख्यो तेहरे ॥ जू० १७ ॥ आ शुक्र पंजर तिणे आपीउं, नारीने रमवा हे-
 तरे; ते लईने अति मोदशुं, निज पुत्रीने दिए संकेतरे ॥ जू० १८ ॥ भरतार
 प्रसाद ए पामीने, शुक्रशुं रमती सुरसालरे; चोथे खंडे ए वीसमी, पद्मविज-
 ये भाखी ढालरे ॥ जू० १९ ॥ सर्व गाथा. ४९४



॥ दुहा ॥

रमतां रमतां एकदा, दवरंक दीठो पाय; विस्मय पामी त्रोडीओ, तव

तिहां अचरिज थाय. ॥ १ ॥ मूल रूपे धनदेव ते, देखी हरख न माय; वि-
स्मय लहीने पूछती, प्रणमी निज पति पाय. ॥ २ ॥ स्वामी ए अदभूत
किशुं, कही मुजने अवदात; ते कहे जिम देखो तुमे, तिमहीज छे ए वात.
॥ ३ ॥ हवणां अधिक म पृछशो, सांभली एह विचार; हरखे जई निज तात
ने, भाख्यो तेह प्रकार. ॥ ४ ॥

॥ ढाल २१ मी ॥

आवो जमाई प्राहुणा जयवंताजी ॥ ए देशी ॥

श्रीपुंज शेट हवे हरखशुं जयवंताजी, जोई जमाई रूप गुणवंताजी;
अति हरषित सहु कुंटव ते ज०, सांभली तेह स्वरूप ॥ गु० ५ ॥ अति
आदर सनमानयी ज०, रहेवाने आवास गु०; आप्यो स्वर्ग विमानशो
ज०, वहु धन पुरित ग्रास ॥ गु० ६ ॥ तिहां धनदेव सुखे रहे ज०, नव प-
रणित लेइ नार गु०; स्वेच्छाए अति स्नेहथी ज०, भोगवे भोग श्रीकार ॥
गु० ७ ॥ जाणे पुण्य उदय थकी ज०, पाम्यो फरी अवतार गु०, करे व्य-
वसाय घणा तिहां ज०, सकल कला मंडार ॥ गु० ८ ॥ लाभ घणो तेह-
मां थयो ज०, द्रव्य पात्र हुओ ताम गु०; काल केतोहिकनीगमे ज०,
रहेतां तिणहीज ठाम ॥ गु० ९ ॥ इंद्रजाल सुपना समो ज०, एह अनिस
संसार गु०; आयुष्ये तिणे कारणे ज०, शेट गया यमद्वार ॥ गु० १० ॥
भाई भोजाई एकमनां ज०, श्रीमति उपर राग गु०; अल्प थयो तिहां अनु-
क्रमे ज०, विरुइ बोले वाग ॥ गु० ११ ॥ यतः स्त्री पीहर नर सासरे, संज-
मीआं सहवास; एतां होय अलखामणां, जो मंडे थिरवास ॥ १ ॥ पूर्वढाळ् ॥
श्रीमति निज भरतारथुं ज०, जावाने परिणाम गु०; मन चिते भरतारनो
ज०, केवो रहेवा ठाम ॥ गु० १२ ॥ केवी दोय नारी अछे ज०, जोडं ता-
स स्वरूप गु०; उतकठित चित तेहथुं ज०, कहे पतिने करी चूप ॥ गु०
१३ ॥ जनकनुं घर निज स्वामीजी ज०, नवि देखाडो केम गु०; सासरे र-
हेवुं नाराने ज०, जनक गृहे नर नेम ॥ गु० १४ ॥ जस करिति पामे घणी
ज०, अन्यथा होय अपमान गु०; तव बोल्यो धनदेव ते ज०, अवसरे मे-

लशुं तान ॥ गु० १५ ॥ धीरयवंती श्रीमाते ज०, मौन करी रही ताम गु;
 वली कालांतरे एकदा ज०, श्रीमति कहे सुणो स्वाम ॥ गु० १६ ॥ त्रण
 जातिना पुरुष छे ज०, जघन्य उत्तम नर जात गु०; त्रीजा मध्यय जाणिण
 ज०, प्रथम स्वसुर गुणे ख्यात ॥ गु० १७ ॥ निज गुण ख्यात उत्तम कह्या
 ज०, मध्यम वाप गुणेन गु; तिणे तुमने रहेतां इहां ज०, स्वसुर तणे द्रवेण
 ॥ गु० १८ ॥ उत्तमता नवि एहमां ज०, वली सुणो त्रण प्रकार गु०, वाप
 गुणे उत्तम कह्या ज०, मध्यम मात प्रकार ॥ गु० १९ ॥ नारि गुणे जे वि-
 स्तरयाज०, तेह जघन्य कहेवाय गु०, यद्यपी गुणवंता तुमे ज०, सकल क-
 लाना ठाय ॥ गु० २० ॥ समरथ द्रव्य उपार्जवा ज०, तोपण इम कहेवाय
 गु०, जमाइ श्रीपुंज शेटनो ज०, कहे जननो समवाय ॥ गु० २१ ॥ तिणे
 जो उत्तम पुरुषना ज०, मारगनी करो चाह गु०; जनम भूमि तो अनुसरो
 ज०, शुं कहिए घणुं नाह ॥ गु० २२ ॥ खंड चौथे एकवीसमी ज०, पद्म वि-
 जये कही ढाल गु०; श्री जयानंदना रासमां ज०, सुणतां मंगल माल ॥ गु०
 २३ ॥ सर्व गाथा ५१७

॥ दुहा ॥

धनदेव नारी वयणथी, बोले इणिपरे बोल; स्वसुर तणे घर जे रहे, जाणुं
 तेह निटोल. ॥ १ ॥ पण छमका भाजी तणा, नवि विसरीया मुज, हैयामां
 खटके घणा, शुं भाखुं हुं तुज. ॥ २ ॥ ते सांभली श्रीमति कहे, छमकानी
 कहो वात; तव ते घुरथी सावि कहे, छमकानो अवदात. ॥ ३ ॥

॥ ढाल २२ मी. ॥

रूढीने रढीआलीरे, बालहा ताहरी वांसलीरे. ॥ ए देशी ॥

रूढीने रढीआलीरे, सुगुणा श्रीमतीरे; हसीने बोली तव तिणीवार, ए-
 हनो शो गणवो चित्त भार रू० ॥ ४ ॥ मुजने देखावोरें ते तुम भार्यारे, श-
 क्ति हुं जोडं केहवी तास; मुजने जोवा अति पीपास रू० ॥ ५ ॥ शंका

मुकीरे चालो निज घरेरे, तुमने बाधा नही लगाए; मुज सरिखी पासे थका
 नार रू० ॥ ६ ॥ तेह सुणीनेरे धीरय धारतोरे, द्रव्य करी सहु भेलो ताम;
 साथे लेई पोतानी वाम रू० ॥ ७ ॥ सयणने पूछीरे धनदेव चालीयोरे, सा-
 गर उत्तरी पाम्यो पार, पोहतो हसंती नयरी मझार रू० ॥ ८ ॥ बहु धन
 देतोरे दीन अनाथनेरे, गंधहस्ति परे पहतो द्वार; विस्मय पामी तव विहु
 नार रू० ॥ ९ ॥ एशो अचंभोरे आव्यो किहां थकीरे, थुक टलिओ किंम
 धरे संदेह; मलपतो आव्यो ए निज गेह रू० ॥ १० ॥ इम विचारिरे विहु
 उभी थईरे, जाणिए ह्यडे हरख न माय; करे मंगल उपचार बनाय रू०
 ॥ ११ ॥ गौरव करतीरे विनय देखावतीरे, चित्रशालीमां लावी ताम; सिं-
 हासन मांड्युं तिणे ठाम रू० ॥ १२ ॥ धनदेव वेठोरे साथे श्रीमतीरे, कुश-
 ल क्षेमनी पूछे वात, धनदेव कहे मुजने सुखशात रू० ॥ १३ ॥ मोटी भाखे
 रे नानीने सुणोरे, जलथी पखालो पियुना पाय, लघु पण शीघ्र थई जल
 लाय रू० ॥ १४ ॥ भक्तिथी नानीरे पाय पखालतीरे, त्रांवाकुंडी मांहि ते-
 ह; ते मोहटी ग्रही ससनेह रू० ॥ १५ ॥ मंत्रे मंत्रीरे तिम आछोटिचंरे, प्र-
 थवी उपर वलथी तांम; मंत्रनो महिमा अर्चिस छे आम रू० ॥ १६ ॥ व-
 धवा लाग्युंरे पाणी बेलज्युंरे, भय पाम्यो धनदेव असंत; श्रीमती साहमुं
 जावे तंत रू० ॥ १७ ॥ श्रीमति भाखेरेमत वीहजे मनेरे, पाणी वधतुं चा-
 ल्युं जाय; अनुक्रमे घुंटी पग बोलाय रू० ॥ १७ ॥ ढींचणे आव्युंरे साथलो
 बूढतीरे, कटि तटने वली नाभि प्रमाण; उदर हृदयने कंठने माण रू०
 ॥ १९ ॥ वधतुं वधतुंरे नासाए अड्युंरे, धनदेव मनमां अति खेदाय; किम
 थाशे जल वधतुं जाय रू० ॥ २० ॥ श्रीमति भाखेरे भय मन मांणज्योरे,
 करुं एहनो हवे हुं प्रतिकार; जोज्यो माहरो ए चमत्कार रू० ॥ २१ ॥ घुं-
 टडे एकेरे ते जल पी गईरे; जिम नवि धरतीए जल देखाय; एक विहु नवि
 तिणे ठाय रू० ॥ २२ ॥ विहुं ते नारीरे श्रीमति पाये पढेरे, शक्तिए जी-
 ती तें इंगिवार; तुं विद्यागुणनो भंडार रू० ॥ २३ ॥ तुजने आराधुंरे स्वा-
 मिनीनी परेरे, त्रणे प्रीति परस्पर जोडि, काम करे धरना मन कोड रू० ॥ २४ ॥

क्षुद्र विद्याएरे ऋणे बरावरीरे, प्रीति घणी नित्य वधती जाय; सरित्ते शी-
लेसहुंसमठाय. ॥६०२६॥ दोयसमत्रीजीरेस्वेच्छाचारिणीरे, अवगुणि संगे अ-
वगुण थाय; गुणसघळातस नाशी जाय. ॥६०२६॥ यतः अंबस्सयनिवस्सडा दो-
ए हवि समागयाए मूलाए ॥ संसग्गीएविणटो। अंबोनिवत्तणंपत्तो ॥१॥ पूर्वढाळ
धनदेवचितेरे मनमां इणि परेरे, जो ए वे समत्रीजी थाय; तो हुं शरण करुं
किहां जाय. ॥ ६०२७ ॥ राक्षसी सरखीरे ऋणने छांढिनेरे, करुं हवे आतम
केरुं हित; जिम नवि होय एहवी मुज भीत. ॥६०२८॥ चोथे खंडेरे ढाळ वा-
वीसमीरे, पद्मविजय इम भाखी सार; धनदेव पामशे जयजयकार ॥ ६०
२९ ॥ सर्व गाथा ५४६



॥ दुहा. ॥

क्रांतिक कारय मिस करी, घर छोडणने हेत; ऋषभदेवने देहरे, आच्यो
धर्म संकेत. ॥१॥ ते धनदेव हुं जाणजे, वेठो ताहरी पास; सूडापणुं में अनु-
भन्नुं, केवल दुख आवास. ॥२॥ पसुता आवी टूंकडी, पण कोइ दैव संयोग;
पशुपणुं नवि पामिआ, तिणे तुमे सुखीआ लोग. ॥३॥ में तो मारा तनुथकी,
दुख अनुभविडं जोर; तिणे तुमथी मुज आकरां, जाणो कर्म कठोर. ॥४॥ म-
दन मुणी रीझ्यो घणुं, विस्मय लही कहे एम; तुम दुख जाणी कीजीए,
आतम हित विहु प्रेम. ॥५॥

॥ ढाळ २३ मी ॥

वे वे मुनिवर वहिरण पांगरयाजी ॥ ए देशी. ॥

इणे अवसर तिहां मुनिवर आवीआजी, विमलबाहु जस नामरे; बहु मु-
निवरने वृंदे परिवरथाजी, साधु गुणे अभिरामरे. ॥६०६॥ पंच मुमते मुमता स-
दाजी, ऋण गुपतिना धाररे; दसविध साधु धरम आराधताजी, भावना भा-
वता वाररे ॥ ६०७ ॥ जिनवर चैत्यमां जिनवर वांदीआजी, स्तवना करीने
स्तवीआ देवरे; तेह मंडपमां मुनिवर आवीआजी, जिहां मदन धनदेवरे

॥३०८॥शिष्ये कंवळ प्राथुक थानिकेजी, पाथरुं आवी वेठा तामरे; भक्ति-
 थी विहु जणे मुनिवर वंदीआजी, करिय पचांग प्रणामरे ॥३०९॥धर्मलाभ
 दीधो मुनिवरेजी, ज्ञाने करी जाणी तास चरित्ररे; धर्मदेशना दिए प्रति-
 बोधनीजी, सांभलो प्राणी कर्म विचित्ररे ॥३०१०॥ जीवित तटिनी पूर स-
 मु कच्युजी, नट पेटक सम एह कुटंब परिवाररे; शरदना अन्न समी लक्ष्मी
 कहीजी, धर्ममां जे मुंझे ते गमाररे ॥३०११॥ आपद काले शरण न को
 होएजी, स्वारथ तत्पर ए परिवाररे; शडन पडन विध्वांसए तनुजी, ललना
 कूड कपट आगाररे॥३०१२॥ इणिपरे विघ्न भरयां संसारमांजी, जीवने सु-
 ख नही लवलेशरे; विषयनुं सुख अणुसम ते मानतोजी, ते ललना आयत
 छे सुविषेशरे॥३०१३॥ललना तो आपदानी छे प्रिय सखीजी, सापिणवाघ-
 ण राक्षसणीने तोलरे; स्वर्गनी भोगल नरगनी दीपिकाजी, राचे कूण पं-
 ढित जेह अमोलरे॥३०१४॥ कार्य अकारय न गणे प्राणिओजी, विविध प्र-
 कारनां करतो पापरे, तेहथी ए संसार मांही भमेजी, खमतो ते चिहुं गति-
 नां दुख आपरे॥३०१५॥ ते कारण तुम धर्म समाचरोजी, विषयथी विरभी
 महानुभावरे; सर्व विरति रूडी अंगीकरोजी, धरम कारयमां आणी भावरे
 ॥३०१६॥निग्रह कीजे सर्व कपायनोजी, इंद्रिय जे छे चपल तुरंगरे; दुर्दम
 टमीए तपथी तेहनेजी, गुरु कुल वासे वशिष्ट रंगरे॥३०१७॥उपसर्गेने वळी
 सहीए परीसहाजी, तो भवसायर तरिए भव्यरे; जन्म जरा कळोले न वूडि-
 एजी, निर्मल होय शुद्धातम द्रव्यरे ॥ ३० १८ ॥ सकल संसारिक
 दुखने वामताजी, अकल अवाधित लहे निरवाणरे; निरद्वंधी शाश्वत सुखने
 अनुभवेजी, विलसे वर केवल दंसण नाणरे ॥३०१९॥ देशना सांभली मन
 संवेगीआजी, मदनने धनदेव प्रणमी पायरे; कहे भव अंध कूआथी उधरोजी,
 दीक्षा कर आलंघने गुरुरायरे॥३०२०॥करो उपगार स्वामी अम रांकनेजी,
 गुरुए पण दीक्षा दीधी तामरे; ग्रहण आसेवना शिक्षा विहु ग्रहेजी, द्वादशां-
 गी घरे जिम निज नामरे ॥३०२१॥ तीव्र तप चरण आराधे विहु मुनीजी,
 विहु जण स्नेह परस्पर धाररे; गुरु कुल वासे वसता विहु जणाजी, प्राये ते

साथे करता विहाररे ॥इ०२२॥ अणसण आराधी गया सोहमेजी, पचप-
ल्योपम आय रसालरे; खंड चोथे त्रेवीसमी एकहीजी, पद्मविजय वर द्वाळरे
॥ इ०२३ ॥ सर्व गाथा ५६९



॥ दुहा ॥

देव भवे प्रीतिज घणी, करता कार्य अशेष; तिहांथी चवी हवे उपना,
ते सांभळो सुविशेष ॥ १ ॥

॥ ढाल २४ मी, ॥

करकंडुने करु वंदना हुं वारिलाल ॥ ए देशी, ॥

मदन जीव हवे उपनो, हुं वारिलाल, महा विदेह मझाररे हुं०; नयर
विजयपुर सोहतुं हुं०, अलकापुरी अनुहाररे हुं०॥म०२॥समरसेन तिहां रा-
जोओ हुं०, विजया वली तस नाररे हुं०; मणिप्रभ नामे तेथयोहुं०, स-
कल कला सिरदाररे हुं०॥म०३॥यौवन पाम्यो जेटले हुं०, परणाव्यो तस
तामरे हुं०; पलि देखी प्रतिबूझीओ हुं०, थाप्यो सुत निज ठामरे हुं० ॥म०
४ ॥ मणिप्रभ राज्यने पालतो हुं०, वश कीथा बहु रायरे हुं०, सामंत
मंत्रीश्वर घणा हुं०, प्रेमे प्रणमे पायरे हुं० ॥ म० ५ ॥ काल गयो इम के-
टलो हुं०, गज चढीओ एक दीनरे हुं०; रयवाढीए नीकल्यो हुं०, करी ए-
काग्र मन्त्ररे हुं० ॥ म० ६ ॥ एक सरोवर मोटकुं हुं०, कमल विकश्वर मां-
हिरे हुं०; गगन तारा गणनी परे हुं०, शोभे अतिशय सांहिरे हुं०॥ म०७ ॥
देखी रमणिकता घणी हुं०, जोई रण्यो चिरकालरे हुं०; पायक पासे अ-
णाविळ हुं०, एक कमल ततकालरे हुं० ॥ म० ८ ॥ राय गयो हवे आ-
गळे हुं०, वलिओ तेहज मगरे हुं०;तेह सरोवर देखिउं हुं०, शोभा गई ते
अलग्गरे हुं० ॥ म०९ ॥ अहो अहो ए कहो शुं थयु हुं०; पृळे परिजन रा-
यरे हुं०; परिजन कहे सुणो नरपती हुं०, जिम शोभा कमलायरे हुं०
॥ म० १० ॥ कमल एकेकुं सहु लिप हुं०, तव ए नीपतुं एमरे हुं०; सुणी
राजा मन चिंतवे हुं०, अहो ए सरोवर जेमरे हुं० ॥ म० ११ ॥ राज

(१९६)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

रीद्धि विण नर तथा हुं०, नवि शोभे कोई कालरे हुं०; ऋद्धि अशाश्वती
जाणिए हुं०, सुपनने जिम इंद्रजालरे हुं० ॥ म० १२ ॥ रमणिक जिम
किपाकनां हुं०, फल कडुआं परिणामरे हुं०; इसादिक चिंतापरो हुं०,
चाल्यो आगल जामरे हुं० ॥ म० १३ ॥ तव दीठा उद्यानमां हुं०, सूरी-
जिनेश्वर नामरे हुं०; धर्म कथा कहेतां थकां हुं०, कीधो तास प्रणामरे हुं०
॥ म० १४ ॥ देशना सांभली हर्षशुं हुं०, सुतने सोंपी राज्यरे हुं०; संयम
लिए सूरि कने हुं०, आप यथा ऋषिराजरें हुं० ॥ म० १५ ॥ तीव्र तपस्या
आदरी हुं०, पाले शुद्ध आचाररे हुं०; गगन गामिनी उपनी हुं०, ल-
ब्धि वीजां पण साररे हुं० ॥ म० १६ ॥ अवधि नाण वळी उपनुं हुं०,
जाणे पागल स्वभावरे हुं०; विचरे प्रथवी पावन करे हुं०, लब्धि तणे पर
भावरें हुं० ॥ म० १७ ॥ धनदेव जीव हवे उपनो हुं०, ते मुणजो अ-
धिकाररे हुं०; दगवैताढ्य सोहे घणुं हुं०, जोषण पंचास विस्ताररे हुं०
॥ म० १८ ॥ ज्ञेयण पचीस उंचो दली हुं०, गगनशुं करतो वातरे हुं०,
निर्झर कृण शीतल घणत हुं०, फरसी पवन आयातरे हुं० ॥ म० १९ ॥
तिणे सुर किन्नर यक्षनां हुं०, सुखीं मिथुन उद्यानरे हुं०; रयणिए औ
षधी दीपती हुं०, दीपे दीप समानरे हुं० ॥ म० २० ॥ तिहां नयर वर
नामथी हुं०, रथनेवरचक्रवालरे हुं०; प्रतिभवने जिहां धूपना हुं०,
धुन्न ते मेघनी मालरे हुं० ॥ म० २१ ॥ रयण मणि पांक्ति तणी हुं०; प्रभा
ते इंद्र चापरे हुं०; गगने विद्याधर मणि तणा हुं०, किरण ते वीजली व्या-
परे हुं० ॥ म० २२ ॥ चोथे खंडे चोवीसमी हुं०, श्री जयानंदने रासरे
हुं०; ढाल पद्ये कही पुन्यथी हुं०, होए लील विलासरे हुं० ॥ म० २३ ॥
सर्व गाथा ५९२



॥ दुहा ॥

विद्याधर चक्री वडो, महेंद्रसींह अभिधान; बहु विद्याधर पय नमे, तेह म-
हेंद्र समान ॥१॥ दस दिश जश कीरति घणी, करतो सवलो न्याय; वंधुने

पण परिहरे, जो जाणे अन्याय ॥२॥ न्यायवंतने वंधुपरे, जाणे तेह नरिंद;
पररामायी परमुहो, गुण गण केरो हृद.॥३॥ राणी रयणमाला भली, पा-
णी पत्र समान; खाणी सोहग गुण तणी, वाणी कोकील मान.॥४॥ राय
हाणी कंदर्पनी, पहिचाणी मुख चंद्र, रीसाणी दोषावली, जाणी लोयण
अरविंद ॥५॥ सुख भोगवतां दंपती, दाय पुत्र थया तास; रतनचूड मणि-
चूड तिम, करे कला अभ्यास. ॥६॥ सार्थी विद्या बहु तिणे, पाम्या यौवन
वेश; परणाव्या विहु पुत्रने, रतनचूड सुविशेश ॥७॥ योग्य ज्ञाणीने खग-
पति, रतनचूडने ताम; पदवी दिए युवराजनी, राज्यभारनां काम ॥८॥

॥ ढाल २५ मी. ॥

जगतगुरु हीरजीरे ॥ ए देशी. ॥

इण अवसर हवे एकदारे अशुभ कर्मने योग; पूर्व निकाचित उदयथीरे,
राणीने थयो रोग ॥ ९ ॥ देखो गति कर्मनारे ॥ कर्मे सुख दुख होय दे०
॥ रतनमाला राणी तणेरे, अंगे ज्वर असराल; भूख गई अन नवि रुचेरे,
टलवले जिम मच्छ जाल ॥ दे० १० ॥ दाह घणो अंगे थयोरे,
बलती झूरे जोर; क्षण पण निद्रा नवि लहेरे, थिर न रहे
एक ठोर ॥ दे० ११ ॥ मुख कमलाणुं मालतीरे, फूल ते
जिम कमलाय; राजवैद्य बहु तेडीआरे, विकल्प बहु करे राय ॥ दे० १२ ॥
औषध विविध प्रकारनारे, करता तेह उपाय; मंत्रवादी मंत्रे घणारे, पण
ते गुण नवि थाय ॥ दे० १३ ॥ राणीने रोग व्यापीआरे, वैद्य जाणी
असाध्य; हाथ खंखेरी उठीआरे, कोई उपाय न लाय ॥ दे० १४ ॥ अनु-
क्रमे आयु अधिरथीरे, छांडयो तेणीए प्राण; तव आक्रंद ते उछल्योरे,
रोवे सहु तिणे ठाण ॥ दे० १५ ॥ राय आंसुभर लोयणरे, करतो अनेक
विलाप; हा देवी तुं मुजनेरे, किम नवि आपे जवाप ॥ दे० १६ ॥ पोक
मेळी राजा रूपरे, बोले रोतो वाणि; कंकलि दल रातडारे, हा तुज चरण ने
पाणि ॥ दे० १७ ॥ नेत्र ते कमलना दल समारे, चंद्रवयणी दे बोल; कुंद
सुंदर दंत ताहरारे, विद्रुम अघर अमोल ॥ दे० १८ ॥ तुजने किहां हवे दे-

(१९८)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

खथुरे, त्रिमूवन सुजुं आज; भासे तुज विण मुजनेरे, इम रोवे महाराज ॥
दे० १९ ॥ दाघ देई हवे तेहनेरे, दोय पुत्रशुं राय, रोटो न रहे कोयथीरे,
न करे कांय व्यवसाय ॥ दे० २० ॥ राजकाज सवि छांडीउंरे, रहे यो-
गीश्वर रीति; मंत्री प्रमुख सवि रायनेरे, इम समजावे नीति ॥ दे० २१ ॥
तुम सरिखा धीर पुरुषनेरे, न घटे करवो शोक; राज्य सदाए तुम तणुंरे,
दुखीओ होए लोक ॥ दे० २२ ॥ उत्पत्ति लय युत्त सर्वछेरे, धिर नहि ज-
गमां कांय; समजाव्यो समजे नहीरे, अधिक धरे दुख राय ॥ दे० २३ ॥
राणी सांभरे सणे सणेरे. दुख धरे तास वियोग; शाता काहिए नवि लहेरे,
कठिन करमना भोग ॥ दे० २४ ॥ चौथे खडे ए कहीरे, पञ्चीसमी वर
ढाल, पद्म कहे मुनि आवशेरे, दुख थाशे विसराल ॥ दे० २५ ॥ सर्व
गाथा ६१७

॥ दुहा. ॥

गगन गाभिनी लब्धियी, मणिप्रभजे अणगार; गगन मारगथी आ-
वीआ, तास उद्यान मझार ॥१॥ कुमर सहित वंदन भणी, जाय विद्याधर रा-
य; परम हर्ष धरतो थको, प्रणमे मुनिवर पाय ॥ २ ॥ वेठो निज उचिता-
सने, मुनिवर दिए उपदेश; भव्य जीव समजाववा, वली विशेष नरेश ॥३॥

॥ ढाल २६ मी. ॥

वात म काढो व्रत तणी ॥ ए देशी. ॥

अंग चार कळां दोहिलां, तिहां मानव अवताररे; दस दृष्टांते दोहिलो,
भमतां इणे संसाररे ॥ ४ ॥ इम जाणी वृत आदरो ॥ ए आंकणी ॥ ते पामे
पण दोहिलुं, सांभलवुं सिद्धांतरे; घांची मोची आहेडी तणा, भव वली म्ले-
च्छमां हुंतरे ॥ इ० ५ ॥ वाघरी मांछी कसाईना, छींपाने सूत्रधाररे; सांभळवुं
कथांथी होए, पामी एह अवताररे ॥ इ० ६ ॥ कुल पामे रोमी घणा, नि-
रोगि कदि थायरे; सांभले श्रद्धादोहिली, मिथ्या मत मुंझायरे ॥ इ० ७ ॥ सरघा
पुण्ये पामीओ, दुर्लभ संयम साररे; विषय कपायमां राचीओ, वली आ-

रंभ अपाररे ॥ इ० ८ ॥ अण वाहलां आवी मले, तिम वाहलांनो वियोगरे;
तेहलुं दुख धरतो थको, न लहे तत्व संयोगरे ॥ इ० ९ ॥ मोहे आकुल व्या-
कुलो, करे विखाद अनेकरे; नवि जाणे इंद्रजाल ए, सुपन थकी अति रे-
करे ॥ इ० १० ॥ तीर्थकर चक्री जिस्या, बलदेवने वासुदेवरे; काले कोई
रक्षा नहीं, जस करता सुर सेवरे ॥ इ० ११ ॥ कुश अग्रे जल विंदुओ, चप-
ल जीवित तिम जोयरे; नेत्र कटाक्षने सारिखा, प्रिय संगम तिम होयरे ॥
इ० १२ ॥ गिरि नदी कल्लोल सारिखी, लक्ष्मी अथिर असाररे; यौवन
गजकर्ण सारिखुं, रूप संध्या रग धाररे ॥ इ० १३ ॥ देशना सुणी कहे
खगपति; स्वामि सुणो मुज वातरै; तुम देखी मुज हियडले, हरख आनंद
न मातरै ॥ इ० १४ ॥ शोक भयो मुज वेगलो, हियहुं हसवा जायरे; तुम
मुखचंद विलोकवा, अधिक पीपासा थायरे ॥ इ० १५ ॥ वात न जाए ने
कही, शं कारण तस होयरे; तुमशु पूरव भव तणो, स्वामी संबंध छे को-
यरे ॥ इ० १६ ॥ तव गुरु बोल्या ज्ञानथी, छे तुज मुज संबंधरे, इम कही
धनदेव मदननो, सर्व कळो प्रबंधरे ॥ इ० १७ ॥ धनदेव ते तुं उपनो, मदन
ते मुजने जाणरे; सोहमथी आव्या विहु, ए संबंध प्रमाणरे ॥ इ० १८ ॥
तुज प्रतिबोधन कारणे, हुं आव्यो सुण रायरे, आपण मित्र पूरवभवे, ना-
रिनो दुख चित्त लायरे ॥ इ० १९ ॥ संजम लेइ गुरु कुले बश्या, उपना
एक विमानरे; नारि तणे हवे कारणे, किम दुख धरे अमानरे ॥ इ० २० ॥
सांभली ईहापो थयो, जातिसमरण पायोरे; नरपति गुरुने वीनवे, भगव-
न सख कहायोरे ॥ इ० २१ ॥ मुज उपर अनुग्रह करी, पाउधारया मुनि-
रायरे; भव सायरमां वृढतां, कीधो मुज सुपसायरे ॥ इ० २२ ॥ रतनचूडने
थापीओ, ओत्सवथी निज ठामरे; विरचावे जिर्नमंदिरे, पूजा अति अ-
भिरामरे ॥ इ० २३ ॥ गुरु पासे दीक्षा ग्रही, श्रुत सायर लह्या पाररं; त-
प तपतां अति आकरा, अभिग्रह अनेक प्रकाररे ॥ इ० २४ ॥ विद्याधर
मुनि अनुक्रमे, लब्धितणा भंडाररे; विहु मुनि अनुक्रमे विचरता, शुद्ध
ध्यान लहे पाररे ॥ इ० २५ ॥ क्षपक श्रेणि मांडी करी, पाम या केवल ज्ञा-

(२००)

श्रीजयानंद केवळीनी रास.

नरे; सकल करमनो क्षय करी, पाम्या शाश्वत यानरे ॥ ३० २६ ॥ चोथे
खंडे छव्वीसमी, पद्मविजय इम ढाळरे, ब्रह्म वैश्रवण वदे वली, आगल वात
रसालरे ॥ ३० २७ ॥ सर्व गाथा ६४४

॥ दुहा ॥

धनदेव मदन दुषिधतणुं, चरित्र विचारे जेह; इह भव परभव दुख दिए,
तरुणी किम ग्रहे तेह ॥ १ ॥ सांभली सहू विस्मय लह्या, चमक्या चातुर
लोक; राय कहे चित्त रीझीओ, हृदयथी वाणी रोक ॥ २ ॥ वात कही
वारू परे, नारी चरित्र निदान; दुखे तजाए देवता, माळयुं जिणे घरमान.
॥ ३ ॥ निंदनीक सघली नहीं, अबला ए एकांत; मुगते गई महिला घणी,
पुष्ट घणुं ते पंत ॥ ४ ॥ कर्म वशे सहू कोयने, गुणने दोष गणाय; आश्रव त-
स कारण अछे, निंदा आश्रव न्याय ॥ ५ ॥

॥ ढाल २७ मी. ॥

सुंदर पाप यानिक तजो सोलमुं. ॥ ए देखी. ॥

सुंदर तुमे अमने धुर भाखिचं, वयण संभालो आपहो; सुं० सामान्यने
घर नवि घटे, दोय भिया संतापहो ॥ ६ ॥ सुंदर तुमे अम बहु उपगारिआ ॥
सुं० नहीं सामान्य पुरुष तुमे, जेने पीडे नारिहो; सुं० प्रार्थना भंग करे न-
हीं, सज्जन कोई प्रकारहो ॥ सुं० तु० ७ ॥ सुं० भूज पुत्री अंगीकरो, तव
बोले भूदेवहो; सुं० इम छेतो पण पढसिए, अवसरे जाणथुं देवहो ॥ सुं०
तु० ८ ॥ सुं० कांयक प्रतिज्ञा माहरे, ते जिहां नवि पूरायहो; सुं० तिहां
लगे तुमे नवि बोलवुं, इम सुणी चुप रह्यो रायहो ॥ सुं० तु० ९ ॥ सुं० राय
मंत्री मुख हरखीआ, सांभली कन्या तेहहो; सुं० मोद लही मनमां घणुं,
अंगीकरी ससनहेहो ॥ सुं० तु० १० ॥ सुं० एक दिन राय सभा करी,
बेठा सहू परिवारहो; सुं० तिणे सभे प्रणमी वीनवे, आवीने प्रतिहारहो ॥
सुं० तु० ११ ॥ सुं० दूत आव्यो पन्नरथ तणो, ते आवे के जायहो;

सुं० मोकल बेहेलो तेहने, इणिपरे बोले रायहो ॥ सुं० तु० १२ ॥ सुं०
मोकल्यो दूत ते आवीओ, परखदा देखे तामहो, सुं० रतन आभूषण झळ-
कतां, रूपं जेहवो कामहो ॥ सुं० तु १३ ॥ सुं० मंत्री सामंतने शेठीआ, से-
नापति सत्थवाहहो; सुं० अंगरक्षक विविधायुधे, परिवरयो नृप उत्साह
हो ॥ सुं० तु० १४ ॥ सुं० वेठो कनक सिंहासने, चामर छत्र धरंतहो; सुं०
ब्रह्मवैश्रवण पासे रहो, दूत ते नृप प्रणमंतहो ॥ सुं० तु० १५ ॥ सुं० पं-
डित कथकने दूर्धरा, बखतरिआ वडवीरहो; सुं० शोभा अधिकी इंद्रयी,
चमक्यो देखी नृप नीरहो ॥ सुं० तु० १६ ॥ सुं० दृष्टि संग्राए बेसारिओ,
पूछे नृप सुख ज्ञातहो; सुं० भगिनीपतिने वली कहे, तुज आगमननी जा-
तहो ॥ सुं० तु० १७ ॥ सुं० ते कहे तुम पसायथी, मुजने छे सुख ज्ञातहो;
सुं० तुम भगिनीपति सुखे रहे, हवे सुणो मुज अवदातहो ॥ सुं० तु० १८
॥ सुं० तुम पासे मुज मोकल्यो, सांभलो कारण तेहहो; सुं० दैव योगे क्रोध
उपनो, पुत्री उपर मुज देहहो ॥ सुं० तु० १९ ॥ सुं० विजयसुंदरी दीधी
भिल्लने, तेह गयां कोइ ठामहो; सुं० खोल करी घणी तेहनी, बनवाडीपुर
गामहां ॥ सुं० तु० २० ॥ सुं० खबर न छाधी तेहनी, तिणे नित खेद ते
थाय हो; सुं० तुमे पण तस जोवरावजो, विविध प्रकारनां ठायहो ॥ सुं०
तु० २१ ॥ सुं० वात सुणो एक माहरी, छे तुम पुत्री जेहहो; सुं० पद्मदत्त
मुज पुत्रने, परणावो तुमे तेहहो ॥ सुं० तु० २२ ॥ सुं० तेह वचन श्रवणे सुणी,
नरपति करे विचारहो; सुं० उत्तर एहने आपीए, कांयक उचित प्रकारहो
॥ सुं० तु० २३ ॥ सुं० भगिनी जो दीधी कौलने, तो ए अनरथ कीधहो,
सुं० देडं जो पुत्री तस कुले, तो अनरथ प्रसिद्धहो ॥ सुं० तु० २४ ॥ सुं०
ए नृप सूरवीर घणो, कोश सैन्य बल सारहो; सुं० मीठे वयणे निषेधीए,
न्याय युक्ति अनुहारहो ॥ सुं० तु० २५ ॥ सुं० इम विचार करी कहे, भद्र
करी में शोधहो; सुं० भिल्ल कुमरी कोइ थानिके, नवि पाम्यो तस बोधहो
॥ सुं० तु० २६ ॥ सुं० कुमरने जे साजो करे, निज पुत्री देडं तासहो;
सुं० एह प्रतिज्ञा कारणे, दीधी ब्राह्मणने स्वासहो ॥ सुं० तु० २७ ॥ सुं०

(२०२)

श्रीजयानंद केवळीनो रास.

कुमरीने पण ए गम्यो, देखी कला विलासहो; सुं० ए सम अवर न को
गुणी, जोतां जोड न जासहो ॥ सुं० तु० २८ ॥ सुं० चोथे खंडे ए कही,
सत्तावीसमी ढाळहो; सुं० पद्मावजय-कहे सांभळो, सुणतां मंगल मालहो ॥
सुं० तु० २९ ॥ सर्व गाथा ६७३.

॥ दुहा ॥

मिष्टुकने भली दीकरी, दूत कहे किम दीध; भूप कहे भिल्लज भणी, पू-
रवे अर्पण कीध ॥ १ ॥ ब्राह्मण वारू भिल्लथी, वदे दूत तव वाण, क्रोध
वशे ए कीधलुं, जगतीपाति कहे जाण ॥ २ ॥ प्रतिज्ञा अमे पालवा, कीधुं
एहवुं काम; दक्षपणे दूतज कहे, अवलुं कीधुं आम. ॥ ३ ॥ राजकुमर अं-
तरग छे, ब्राह्मण वाह्य सरूप; मारग पाधरो मुकीने, विरुओ करो विरूप
॥ ४ ॥ रूपे हरब्यो रतिपति, किहां ए कुमर सरूप; नट विद्या प्रमुखे नि-
खर, किहां ए ब्रह्म कुरूप. ॥ ५ ॥ उपगारिने आपिए, दक्षणा धननुं दान;
राजकुमरी ए विप्रने, पण देवी न प्रधान ॥ ६ ॥

॥ ढाळ २८ मी. ॥

ओलगढी आदि नाथनीजो. ॥ ए देशी. ॥

दूतने कहे हवे नरपतिजो, करी प्रतिज्ञा जेहजो; तेह युगातिं नवि फरेजो,
निरवहवुं धरी नेहजो ॥ ६०७ ॥ यतः दिगांजकूर्मकुलाचल। फणिपतिविधृता-
पिचलतिवसुधेयं ॥ प्रतिपन्नममेलमनसां। नचलतिपुंसांयुगातेपि ॥ १ ॥ पूर्व
ढाळ ॥ सहू सम्मत में ए करयुंजो, हवे न करो अन्य विचारजो; दूत कहे हि-
त तुम कहुंजो, मुज मानो वचन ए वारजो ॥ दू० ८ ॥ बलीयोशुं सज्जन-
पणुजो, राखिए तो सीजे कारजजो; कन्या राजकुमारनेजो, नहीं आपो तो
नहीं रहे लाजजो ॥ दू० ९ ॥ बलथी लेशे जो कदाजो, कुण वारणहा-
रो तासजो; सूरवीर ते भूपतिजो, प्रतिवीर ते तृण छे जासजो ॥ दू० १०
॥ तेहना सैन्य समुद्रमांजो, तुम वल साथूचूर्ण प्रमाणजो; तेह आक्रमशे

तुजनेजो, तव नवि थाशे कोइ बाणजो ॥ दू० ११ ॥ ते माटे तुज राज्य-
नीजो, जीववानी जो होय चाहजो; तो कन्या द्यो नृपकुमारनेजो, एहज
सीधो छे राहजो ॥ दू० १२ ॥ सांभली रायने उपनोजो, बहु क्रोध तथा
अभिमानजो; कहे रे दूत तुं बोलवाजो, घणुं निपुणने वली सावधानजो ॥ दू०
१३ ॥ मुज आगळ पण बोलतोजो, धीठाई धरीने जोरजो; पण निज स्वा-
मिने नवि कहेजो, उपदेश वचन करी सोरजो ॥ दू० १४ ॥ क्षत्री कुल मे-
लुं करेजो, ते क्षत्री पंक्तिमां नांहिजो; नास्तिकमां अग्रेसरीजो, किम अंतर
किम उत्साहजो ॥ दू० १५ ॥ तेहशुं सज्जनता करेजो, कुलवंतने आवे ला-
जजो; पापी अन्यायीने नहीं रहेजो, चिरकाल लक्ष्मीने राजजो ॥ दू० १६ ॥
यतः तरुवत्ताटिनीतटोद्गतं । प्रमदाहृद्गतगुह्यमंत्रवत् ॥ जलवच्चमुदामभांजने ।
नचिरंतिष्टितिपापिषुश्रियः ॥ १ ॥ पूर्व ढाळ ॥ सूरता ते निज गेहमांजो, प-
ण सूरता नहीं संग्रामजो; सहजे तृण सरिखा थशेजो, गली जाशे सघलुं
धामजो ॥ दू० १७ ॥ तेहना सैन्यने सायरेजो, साथूचूर्ण ते बीजा राय-
जो; पीवा ते सायर भणीजो, मुज वडवानल सम कायजो ॥ दू० १८ ॥ को-
ण वीहे छे एहथीजो, निज जीवित रूठो एहजो; तो सनद्ध थई आवजोजो;
संग्रामे जोईशुं तेहजो ॥ दू० १९ ॥ निग्रह योग्य छे माहरेजो, मुज भाणेजी-
ने अपमानजो; कीधुं पण में राखियुंजो, स्वाजन्यपणु बहु मानजो ॥ दू०
२० ॥ मदमातो ठकुराईथीजो, जो लोपे स्वजनपणुं तेहजो; तो खीर खांड
घृत भोजनेजो, भूख्याने आव्युं-एहजो, ॥ दू० २१ ॥ जा वहेलो निज स्वा
मिनेजो, केहजे तुं माहरी वाणजो; कौल कुले नवि दीजीएजो, ए कन्या
अनरथ जाणजो ॥ दू० २२ ॥ करजो जिम जाणो तुमेजो, तव बोल्यो
ब्राह्मण वाणजो; अहो राजन अतिशय क्षयाजो, तुमची दीठी गुण खाणजो
॥ दू० २३ ॥ इम कहे पण दूतनेजो, अजी गलहस्त न कीधजो; कोइक सु-
भट ते सांभलीजो, दूतने गलहस्त ते दीधजो ॥ दू० २४ ॥ दूतने क्रोध
चढ्यो घणोजो, देखी निज अपकारजो; चाल्यो पाछो वेगशुंजो, अमर-
ष धरतो अपारजो-॥ दू०-२५ ॥ पन्नरथ राजाने कस्योजो, सघल्यो तेहनो

(२०४)

श्री जयानंद केवळीनो रास

अवंदातजो; नरपति मुणो कोप्यो घणुंजो, अगनिमां मधुनो पातजो ॥ दू०
२६ ॥ चोथे खंडे ए कहीजो, अठावीसमी रुढी ढालजो; पद्मविजय कहे मद
छांडीएजो, मदथी होए बहु जंजालजो ॥ दू० २७ ॥ सर्व गाया ७००

॥ दुहा. ॥

सैन्य मलयुं तिहां सामटुं, वाज्यां रण वाजिन्न; गजवर वेढो गेलथुं, चाल्यो
सैन्य विचित्र. ॥ १ ॥ अति उत्साह इलापति, छत्र चामर छाजंत; गाजे वाजिन्ने
गगन, हैडे हर्ष घरंत ॥ २ ॥ शब्द शकुन वारे सकल, पण न रह्यो पल एक;
कमलमभ नृपने निकट, आव्यो अति अविवेक ॥ ३ ॥ हाथी त्रिस ह-
जारथुं, रथ पण त्रीस हजार; त्रीस लाख बली तुरगथुं, चंचल पवन प्रचार.
॥ ४ ॥ त्रीस कोडि पायक तुरत, आव्यो मेळी आम; सांमली निज मंत्री
सहित, करे विचार एह काम. ॥ ५ ॥

॥ ढाल २९ मी. ॥

जीहो जाण्युं अवधि प्रयुंजिने. ॥ ए देशी. ॥


जीहो कमलमभ कहे मंत्रीने, लाला बलीआथुं भरी वाय; जीहो कोप-
मान थुं बोलीआ, लाला किम रहेथो एह साय. ॥ भाविक जन जोड्यो पुन्य
प्रकार० ६ ॥ जीहो मंत्री कहे जे कीधलुं, लाला अणकीधु नवि होय;
जीहो परपराभव न सहि शके, लाला क्षत्रि कुलनो कोय ॥ भ० ७ ॥ जी
हो दोष देखी नास्तिक कुळे, लाला कन्या नवि देवराय; जीहो
अणघटती ए कांय नथी, लाला सैन्य करी समुदाय ॥ भ० ८ ॥ जी-
हो व्रम सज्ज करी झुंझीए, लाला भरीए कण ने नीर; जीहो नृप कहे नगर-
धी नीकली, लाला युद्ध कहं इण तीर ॥ भ० ९ ॥ जीहो गढमां रहीने झु-
झीए, लाला देश भंग निज थाय; जीहो शत्रु देशने आक्रमे, लाला वीरथी
किम सेहेवाय ॥ भ० १० ॥ जीहो ब्रह्मवैश्रवण कहे तदा, लाला भूपे कही
सख वात; जीहो भय मनमां मत राखजो, लाला जय थासे सुखवात.
॥ भ० ११ ॥ जीहो जीतीथुं हुं एकलो, लाला रहो सघला सुखमाहि; जी-

हो नाटिकनी परे देखजो, लाला संगर गुज उत्साह ॥ भ० १२ ॥ जीहो
 सांभली नरपति हरखीओ, लाला मेली सैन्य अपार; जीहो पंच परमेष्ठि
 समरतो, लाला करे मंगल उपचार ॥ भ० १३ ॥ जीहो चामर छत्र धरावतो, लाला
 वेढो ते गजराज; जीहो सुभ शकुने ते नीकल्यो, लाला पुर बाहिर नरराज ॥ भ०
 १४ ॥ जीहो विविध आयुद्ध धरी रथ चढयो, लाला नृपने पुठे जाय; जीहो
 ब्रह्मवैश्रवण श्रोभे घणो, लाला युद्ध सामग्री सजाय ॥ भ० १५ ॥ जीहो पूरवे
 कमलाए कहुं, लाला तुमे कोई अगम सरूप; जीहो गुज भरता मत मार-
 जो, लाला यद्यपि आग अनूप ॥ भ० १६ ॥ जीहो निज नारी पण इम
 कहे, लाला मत मारजोरे तात; जीहो ब्रह्मवैश्रवण अंगीकरयुं, लाला ता-
 स वचन विख्यात ॥ भ० १७ ॥ जीहो शीघ्र थई साहमो जई, लाला जे
 निज देशनी सीम; जीहो हय गय रहभट अर्द्ध छे, लाला पण उत्साह अ-
 नीम ॥ भ० १८ ॥ जीहो विहु दल सुभट ओच्छव परे, लाला माने निज
 निज ठाम; जीहो शस्त्र जागरिका जागता, लाला मूर उदय थयो ताम ॥
 भ० १९ ॥ जीहो रण वाजितर वाजिआं, लाला दोय सैन्यमां ताम; जी-
 हो नादे विल फणीं सलसल्या, लाला गज गया गह्वर ठाम ॥ भ० २० ॥
 जीहो कौतिक जोवाने मिल्या, लाला राक्षसने भूत प्रेत; जीहो सन्नद्ध बद्ध
 थई मिल्या, लाला दोय सुभट रण हेत ॥ भ० २१ ॥ जीहो हय गय रथ
 भट विहु तणा, लाला निज निज ठाम रहंत; जीहो अग्र सेनानी विहु त-
 णा, लाला मांहो मांहि मिलंत ॥ भ० २२ ॥ जीहो गजवर सोहे गिरि स-
 मा, लाला रथ ते जाणुं विमान; जीहो सुभट पडे वली उछले, लाला दिसे
 सिंह समान ॥ भ० २३ ॥ जीहो गरुडपरे हय हँखता, लाला गज गर्जा-
 रव जोर; जीहो रथ चित्कार घणा होए, लाला सुभटतणा बहु शोर ॥
 भ० २४ ॥ जीहो अट्टहास भूत व्यंतरा, लाला फूटो मानुं आकाश;
 जीहो भट मुद्गरे हस्ति पख्या, लाला पक्ष छेद नग खास ॥ भ० २५ ॥ जी-
 हो पापडपरे रथ भांजतो, लाला बाण मंडप तिहां होत; जीहो आतप ति-
 हां पसरे नहीं, लाला शस्त्र अगनि उद्योत ॥ भ० २६ ॥ जीहो इम धैरव

(२०६)

श्री जयानंद केवलीनो रास.

संग्राममां, लाला हारयुं कमलप्रभसेन; जीहो कमलप्रभ उठे हवे, लाला रातो रोश रसेन ॥ भ० २७ ॥ जीहो ब्रह्मवैश्रवण वदे तदा, लाला शो तु म उद्यम एह; जीहो मुज वेठे सुखमां रद्दो, लाला इम वारी नृप तेह ॥ भ० २८ ॥ जीहो रय वेठो विविधायुधे, लाला चाल्यो वरसे वांग; जीहो कवच सहित हणे सुभटने, लाला केइकनां शिर त्राण ॥ भ० २९ ॥ जीहो लोह त्राणथुं हाथीआ, लाला पाखर सहित तुरंग; जीहो समकाले सहस्रोगमे, लाला लागे अलक्षित अंग ॥ भ० ३० ॥ जीहो मस्तक रहित केई थया, लाला करपद रहित अनेक; जीहो निज सैन्य औपधी वले, लाला सज्ज करे ते छेक ॥ भ० ३१ ॥ जीहो चक्र गदा मुद्गर वली, लाला खडगते थयां अर्क तूल; जीहो शत्रु सैन्य लही त्रासने, लाला देखी ते प्रतिकूल ॥ भ० ३२ ॥ जीहो केईक मुखे तरणां दिए, लाला केईक मुके शस्त्र; जीहो केई जलाश्रये केइ वली, लाला पहेरे नारिनां वस्त्र ॥ भ० ३३ ॥ जीहो केईक गह्वरमां गया, लाला केई लिए जपमाल, जीहो केईक शरण तेहनुं करे, लाला मारो रखे कृपाल ॥ भ० ३४ ॥ जीहो नमो अरिहंताणं कहे, लाला कपट श्रावक थई तेह; जीहो मुके तेहने जीवता, लाला कुमर कृपानो गेह ॥ भ० ३५ ॥ जीहो अरिहंत नामे विशेषथी, मुके आणी प्यार; जीहो पुण्ये जय लछीवरे, लाला कोई न लोपे कार ॥ भ० ३६ ॥ जीहो चोथे खडे इणिपरे, लाला ओगणत्रीसमी ढाल; जीहो पद्य कहे श्रोता घरे, लाला होए मंगलमाल ॥ भ० ३७ ॥ सर्व गाथा ७३७



॥ दुहा ॥

सैन्य विसंखल निज सबल, देखी तेह नारिंद; उठी क्रोधे आवीओ, सुभटना साथे वृंद ॥ १ ॥ ब्रह्मवैश्रवण प्रते वदे, आज सुंगाल अनत; भिक्षा कृण दिए भामिनी, मार्गी खाओ मरणांत ॥ २ ॥ ताम्र भाजन देउं तिणवती, परकामे किम प्राण; छांडे छोकरवादथी, एहवो केम अजाण ॥ ३ ॥

ब्रह्म जाणी उवेखीओ, मारंतां तुज मुज; लाजे वाण ते लोकमां, तिणे न-
वि मारुं तुज ॥ ४ ॥ नाथ अळुं सेनातणो, मारे तेहने केम; क्रोध करी तव
द्विज कहे, पृथ्विपति सुण प्रेम ॥ ५ ॥ जिहां पराक्रम जोईए, तिहां ब्रह्म
क्षत्री न हेत; कुलनु काम ताहरे क्रिथुं, जाणथुं जुध संकेत ॥ ६ ॥ परनिं-
दानो प्रेम तुज, माहरे प्राक्रम प्रेम; सेनानाथतणो हवे, आणुं अंत हुं एम.
॥ ७ ॥ ताहरा प्राण थकी तुरत, सारो करुं सगाल; प्रेत पति. घर प्रेमथी,
जाए सहु जंजाल ॥ ८ ॥ विधि भिक्षा देशे भली, ताहरुं राज्य तैयार; न-
हीं ताम्रपात्रनुं काम मुज. वली सांभलो विचार ॥ ९ ॥ पुत्री वधथी पापी-
आ, नवि वीहनो मन मांहि; ब्रह्महत्यानी वातथी, समजावे थुं आंहि ॥ १० ॥
ब्रह्म जाणी उवेखीओ, ए कायर अवदात; परउपगार पराक्रमे, करवो मुज
एक्रांत ॥ ११ ॥ रवि द्रुम चंद्र वारिद वली, दृष्टांते तुं देख; धर्म द्वेषे करी
आंधली, निज पुत्री निरवेखि ॥ १२ ॥ वली नाम्तिक थई घांछतो, पुत्री
श्राधनी प्रेम; तस फल देखावुं तने, जोतुं करिए जेम ॥ १३ ॥

॥ ढाल ३० मी. ॥

धवलशेठ लेई भेटणुं. ॥ ए देशी. ॥

सत्रीवट हवे दाखवो, गुण तो फलथी जणायरे; उत्तम नर लव नवि क-
ने, सांभल तुं नररायरे, सूरपणुं जृओ सूरनुं ॥ १४ ॥ ए आंकणी ॥ क्रोध
अगनि दीप्यो घणुं, वरसे ब्रह्मो ब्रह्म वाणरे; ब्रह्मवैश्रवण करे तदा; खंडो-
खंड प्रमाणरे ॥ सू० १५ ॥ सृष्ट भूपतिना कोळ्योगमे, वांण मुके समका-
लरे; ते सहुने ब्रह्म एकलो, वाणे बींधे ततकालरे ॥ सू० १६ ॥ व्याधथी मृग
परे नासता, जांए दिशो दिश भागारे; लेतां मुकतां वाणने, नवि देखे को-
ई लागारे ॥ सू० १७ ॥ अद्भुत शक्ति देखी करी, सहुए विस्मय पायारे; भा-
ग्यतणी स्तवना करे, अहो बल अतिशय भायारे ॥ सू० १८ ॥ कमलप्रभ-
ना सुप्रदने, अति वधीओ उत्साहरे; न रह्या वारथा ते सहु, पेठा संगर मां-
हिरे ॥ सू० १९ ॥ कुमरने नृम वेहु लडे, झुझे सैन्य ते दोषरे; सुभट मस्तक

बहु गगनमां, राहुमय परे होयरे ॥ सू० २० ॥ शस्त्र मुकी जा मुकीओ,
 कायरने नवि मारुंरे; जो क्षत्रीपणुं धारतो, तो बल जोचं ताहुरे ॥ सू०
 २१ ॥ बाल तुं फोकट कां मरे, जा तुं मुक्यो जाणीरे; वीर तुं शर वींध्यो य-
 को, मूझे छे इंम बांणीरे ॥ सू० २२ ॥ उठो उठो मारो तुमे, मारो मारो इम
 भाखेरे; शोर वकोर घणो थयो, कविजन केसुं दाखेरे ॥ सू० २३ ॥ राय-
 नुं धनुष छेद्युं हवे, छत्र चामर शिर त्राणरे; राय ग्रहे अभिनव धनुं, तेहथी
 चलावे बाणरे ॥ सू० २४ ॥ धनुष वाढवनुं छेदियुं, वाढव आणी रीसररे; छेई
 मोगर रथ भांजीओ, हवे कोपे पृथिवीशरे ॥ सू० २५ ॥ विप्रनो रथ खंडो
 खंड करयो, गदा करी चकचूररे; ब्राह्मणे धनुष द्विधा करयुं, आणी अतिशय
 मूररे ॥ सू० २६ ॥ खड्ग घात तव नृप करे, ते ब्राह्मण वंचावेरे; खडग
 वाढवनुं छेदिचं, उलट पालट इम थावेरे ॥ सू० २७ ॥ अमरष धरी ब्राह्मण
 तदा, नृपने इंम बोलावेरे; मछ युद्ध करिए विहु, नृप पण सनमुख आवेरे-
 ॥ सू० २८ ॥ भुजा स्फोट पद घातथी, ते पृथवी कंपावेरे; कुर्कट परे उपडे
 पडे, विस्मय सहु तिहां पावेरे ॥ सू० २९ ॥ तर्जना करे गाजे घणु, उठे
 आलोटे दोयरे, उपर अघ थाए वली; बलगे विछडे दोयरे ॥ सू० ३० ॥
 सूरवीर जय इच्छता, थाक्यो भूपति तामरे; माया विम थाक्यो नहीं, गजशुं
 हरिजिमहामरे ॥ सू० ३१ ॥ शुष्टिण मारयो हृदयमां, मूर्छा लहो तव भूपरे;
 मुखथी तिम लोही वमे, पडियो काष्ठ सरूपरे ॥ सू० ३२ ॥ सूरसुभट
 लखलो गमे, नृपने लेवा आवेरे; तव वाढव वर्षा तिहां, बाण तणो
 बरसावेरे ॥ सू० ३३ ॥ शस्त्र सवे तस भांजिथां, नाठा मृगपरे तेहरे;
 वाणे आकुल व्याकुला, अति उत्सुक पण जेहरे ॥ सू० ३४ ॥ संग्रामे
 क्षय कालमां, स्वामीने न लेवायरे; भूसंज्ञा करी सुभटने, जेरे कमल-
 प्रभ रायरे ॥ सू० ३५ ॥ पत्तरथ राजा प्रते, वांघी निज रथे घालेरे; तेहना
 सुभट देखी करी, चिंतवे इंम तिण कालेरे ॥ सू० ३६ ॥ हवे सुभटुं शे कार
 णे, एहनूं शरण करीजेरे; इंम करी द्विज शरणुं करे, द्विज पण तास वदी-

० ३७ ॥ वीहक म करो स्वामीअर्छुं, इम आसासना देवेरे; जय
थया तिहां, पुष्प वृष्टि सूर खेवेरे ॥ सू० ३८ ॥ दुंदभि वाजे आ-
जय वाजां बहु वाजेरे; कमलप्रभ नृप सैन्यमां, जय जय शब्द
॥ सू० ३९ ॥ अरिहा देव गुरु निस्पृही, धर्म केवलीनो भाख्योरे;
हृदय मांहीं वदया, जय पण तेहनो दाख्योरे ॥ सू० ४० ॥ चोथे
समी, पद्मविजय कही ढाळरे; धर्म करो भवि प्राणिया, धर्मथी मं-
लरे ॥ सू० ४१ ॥ सर्व गाथा ७७८



दुहा.

पुण्य तत्व जस चित्त नहीं, ते लहे दुःख अनंत; सुख भाजन नवि संभवे,
करे कर्मनो अंत ॥ १ ॥ सामू वयण संभारिने, वली निज वधुनी वा-
औषधिथी कीघो अवल, वाडवे जग विख्यात ॥ २ ॥ निगडित करीने
खीओ, पिंजरमां भूपाल; मत नास्तिकनो मुकशे, छोडिश तव छोगाल.
॥ शत्रु सैन्य निज सैन्यमां, सज्ज करथा सविजीव; औषधि जल साँची
गे, ते लह्या हर्ष अतीव ॥ ४ ॥ अहो स्वपर सरिखा अछे, उत्तम करे उप-
हार; इम स्तवना अतिशय करे, प्रमुदित थई अपार ॥ ५ ॥

॥ ढाळ ३१ मी. ॥

जीरे मारे जाग्यो कुंअर जाम. ॥ ए देशी. ॥

जीरे मारे कमलप्रभ हवे राय, कुमरने आँलिंगन करे जीरेजी; जीरे० स्त-
वना करे इम तास, तुम सम कुण अम उपगरे जीरेजी ॥ ६ ॥ जीरे० अहो तु-
म शक्ति अगाध, अहो सूरवीर गंभीरपणुं जीरेजी; जीरे० पूरव पुण्य पसाय,
अमे कृतार्थ थया घणुं जीरेजी ॥ ७ ॥ जीरे० धुणाक्षरने न्याय, तुमे एक
विधि नीपजावीआ जीरेजी; जीरे० नृप चढ्यो गजवर खंध, साथे कुमर वे-
सारिया जीरेजी ॥ ८ ॥ जीरे० पेसे नगरी मांहीं, विविध वाजिन्न वजावते जी-
रेजी; जीरे० ब्राह्मण शत्रु सैन्य, नगर आसन्न ते थापते जीरेजी ॥ ९ ॥
जीरे० मंत्री सेनानी मुख, परिकर सार जोई करी जीरेजी; जीरे० राखे ते-

। जयानंद केवळीनो रास.

मांथी आप, सेवा कारण चित्त धरी जीरेजी ॥ १० ॥ जारो
 तौरण माल, स्वस्तिक मुक्ताफले करे जीरेजी; जीरे० नाटिक नपे
 त, ध्वज आपण घरने दिरे जीरेजी ॥ ११ ॥ जीरे० पृथिवीप
 युक्त, चामर छत्र धरावता जीरेजी; जीरे० महा महोत्सव मंडाण
 दिर क्रमे पावता जीरेजी ॥ १२ ॥ जीरे० मंत्री सामंत सहु लोक,
 ज्या निज घर गया जीरेजी; जीरे० परिवरथो निज परिवार, द्विज
 ज घर आवीआ जीरेजी ॥ १३ ॥ जीरे० राजवर्गी पुरलोक, ब्रा
 वणना गुण स्तवे जीरेजी; जीरे० रण कथा तेह संभारि, करे आलाप
 व नवे जीरेजी ॥ १४ ॥ जीरे० पिंजर रथमां थापि, तेढाव्यो पद्मर
 जीरेजी; जीरे० हुकम करी द्विजराज, मुंजाव्यो अवसर थते ज
 ॥ १५ ॥ जीरे० बीजे दिन हवे भूप, वेठा अर्द्धासने द्विज मली जीरेजी; ज
 मेळी सभा तिणी वार, तेढ्यो पद्म राजा वली जीरेजी ॥ १६ ॥ ज
 काढी पिंजरवहार, बोलावी द्विज इंम कहे जीरेजी; जीरे० पुत्री विटवण ।
 तुज सरिखा इंणि परे लहे जीरेजी ॥ १७ ॥ जीरे० हजिअ न आव्यो
 त, फल देखावुं ते हवे जीरेजी; जीरे० औपधिमस्तके थापि, मंकड कीधो
 डवे जीरेजी ॥ १८ ॥ जीरे० लोह शृंखला आणि, घाली गळे कौति क
 जीरेजी; जीरे० सभा लोक सहु देखि, होंबो जोवे फिरि फिरि जीरेज
 ॥ १९ ॥ जीरे० निज नरने कहे विप्र, राज मारग त्रिक चाचरे जीरेजी; जी
 रे० फेरवो घर घर हाट, जिम वली फरी न समाचरे जीरेजी ॥ २० ॥
 जीरे० मारो कोरडा तास, ते सहु नर अंगीकरे जीरेजी; जीरे० लेई जाण
 जाम, तव कमला आसुं झरे जीरेजी ॥ २१ ॥ जीरे० पति विटवना दे-
 खि, कहे निज नृपभ्राता भणी जीरेजी; जीरे० मुज तुज थाए अपवाद;
 वात वारो अनरथ तणी जीरेजी ॥ २२ ॥ जीरे० कमला कहे मुणो वत्स)
 मांत वचने मुको तुमे जीरेजी; जीरे० अपराधी भरतार, पतिव्रता सेवुं अमे
 जीरेजी ॥ २३ ॥ जीरे० नृप कहे ए अनाथ, दीनशुं क्रोध घटे नहीं जी-
 रेजी; जीरे० प्रणामांत होय क्रोध, सज्जन ते कहीए सही जीरेजी ॥ २४ ॥

जीरे० क्रोध शक्ति तुम दीठ, हवे प्रसाद ते दाखवो जीरेजी; जीरे० कीजे भूप स्वरूप, ए अम वचन ते राखवो जीरेजी ॥ २५ ॥ जीरे० विप्र कहे जो एह, जैन घरम चित्तथी करे जीरेजी; जीरे० तो करुं मूल स्वरूप, पूछो एहने दिल खरे जीरेजी ॥ २६ ॥ जीरे० पूछयुं तेहने ताम, चेष्टाए कहे ए खरुं जीरेजी; जीरे० मुकुं नास्तिक वाद, जैन घरम साचो करुं जीरेजी ॥ २७ ॥ जीरे० ब्रह्मवैश्रवणे कीध, मूल गुरुऔषधि थकी जीरेजी; जीरे० निगड भंजावी ताम, आसासना दिए प्रतीतकी जीरेजी ॥ २८ ॥ जीरे० सिंहासने ते राय, वेसारयो आणंद थयो जीरेजी; जीरे० कमलप्रभ मुख राय, प्रणमे चित्र हृदय भयो जीरेजी ॥ २९ ॥ जीरे० सौंष्युं सघळुं सैन्य, ते प्रणमे अति नेहशुं जीरेजी; जीरे० बोळे तव भूपाल, नीचूं मुख करी तेहशुं जीरेजी ॥ ३० ॥ जीरे० एकत्रीसमी ढाळ, चोथे खंडे ए कही जीरेजी; जीरे० पद्मविजय सुरसाल, भाखि जिम शास्त्रे लही जीरेजी ॥ ३१ ॥ सर्व गाथा ८०९



॥ दुहा ॥

गद गद स्वरथी नृप वदे, नमवा योग्य हुं नांदिं; महा पाप पंकिल मने,
किम जाण्युं जशुं क्यांदि ॥ १ ॥ दीतुं सांभल्युं नहिं कदा, कीधुं कर्म कठोर;
पुत्री हत्या करी पापीए, अंध करी वली ओर ॥ २ ॥ भिल्लनी कीधी
मामिनी, किहां ए गइ कोइ ठाय; ए पातिक उदय थयुं, क्रीडां कर्म न जाय
॥ ३ ॥ उग्र पाप पूण्य उदयथी, आवे तुरत अचान, सहस गमे भट साखथी,
पकडथो वाडवे पाणि ॥ ४ ॥ मर्कट कीधो मानवी, ए दुखनो शो अंत; म-
रण श्रेय मुजने अछे, सर्व प्रकारे संत ॥ ५ ॥ प्रगुण करो चय पेसीए, इम
सुणी अक्नीपाल; कमलप्रभ कहे सांभलो, रुढी वात रसाल ॥ ६ ॥

॥ ढाळ ३२ मी. ॥

कर्म न छुटेरे प्राणिआ. ॥ ए देशी. ॥

बहुए जीसो इम जाणिने, कमलाओ मत स्वामि; भरतादिक पराभव

लह्या, बाहुवली मुख पामी ॥ ७ ॥ कर्म तणी गति एहवी ॥ ए आंकणी
 ॥ वहुओ मात्र म जाणजो, दिव्य पुरुष कोई एह; ते तो अवसरे जाणशुं,
 तव बोले द्विज तेह ॥ क० ८ ॥ एतो फूल उग्यां अछे, फलतो नारकि
 मांहि; वचने कहे जाए ते नहीं, एहवां भोगवशो सांहि ॥ क० ९ ॥ आ-
 भव परभव सुख दिए, आदरो श्री जिन धर्म; दीठां पापनां फल तुमे, मु-
 को नास्तिक कर्म ॥ क० १० ॥ राणी मनावो रुठी तुमे, भोगवो आपनुं रा-
 ज्य; श्री जिन धर्म प्रभावथी, सरसे सघलां काज ॥ क० ११ ॥ नृप सांभ-
 ली तस वयणडां, चित्तमां पाम्यो समाधि; कहे पुत्री शुद्धि पामिने, करशुं
 वचन आराधि ॥ क० १२ ॥ पामी आणा भर्तारनी, बटु भार्या कहे एम;
 जयसुंदरी कहुं ते खरुं, के विजयसुंदरीए केम ॥ क० १३ ॥ राय चित्ते
 ए जाणे किशुं, ज्ञानीए भाखुं होय एह, अथवा विजय ए सुंदरी, रुपांत-
 रथी रहे एह ॥ क० १४ ॥ अथवा कमला पासे रहे, सांभळीयुं तस पास;
 नृप कहे संकटमां हुं पळ्यो, ते न रखाणोरे खाम ॥ क० १५ ॥ तो परजा
 मुजथी सुखी, कीम कहेवापरे एम, पुण्ये सुखीआरे वटु परे, पापे मुज सम
 नेम ॥ क० १६ ॥ सा कहे जो इंम तो तुमे, पुण्य करो नहीं केम; पुत्री पी-
 डा जो तुम नडे, तो पूछो वटु प्रेम ॥ क० १७ ॥ निमित्त बले कहेसे स-
 वे, अतीत अनागत बात, पूछे भूप मिलशे कदा, पुत्री थशे सुखशात ॥
 क० १८ ॥ करी आडंबर वटु कहे, क्लेश न कीजे भूपाल; लग्न बले इंम
 तुम कहुं, मिलशे ते ततकाल ॥ क० १९ ॥ पण अम दंपतीने तुमे, कांय ओ-
 लखोछो के नांहीं; नृप कहे तुम गुणे ओलखुं, तुमे अधिका जग मांहि ॥
 क० २० ॥ तव विवाहने अवसरे, जेहवुं भिल्लनुं रूप; प्रगट करीने उभो र-
 क्षो, पत्नी मूल स्वरूप ॥ क० २१ ॥ रूपवती शिर सुंदरी, कुरूपी भिल्ल ए-
 ह; क्रोधने मांने विहंबीयो, दीधी भिल्लने जेह ॥ क० २२ ॥ सा कहे हवे मु-
 ज ओलखो, तव नृप वदन नमाय; ओलखुंहुं हुं भली परे, बोले इणि परे
 राय ॥ क० २३ ॥ दुर्वुद्धिमां शिरोमणी, शुं देखाडुं हुं मुख; विस्मय खेद
 चिंता भरथो, बली कांय आणंद सुख ॥ क० २४ ॥ विविध रसे भरथा रा-

यना; मणमे सुंदरी पाय; बोले सुंदरी जे हवे, ते आगल कहेवाय ॥ क०
२५ ॥ चौथे खंडे बन्नीसमी, पद्मविजय कही ढाल; श्री जयानंदना रासमां,
सुणतां मंगल माल ॥ क० २६ ॥ सर्व गाथा ८३५

॥ दुहा. ॥

मम करो खेद महीपति, करयो तुमे जे क्रोध; सुखदायक मुज सामटो, थ-
ई रह्यो थिर थोभ ॥ १ ॥ क्रोध न जो मुजने करत, तो किम पति मुज ए-
हं; तात क्रोध ते ततक्षणो, हितकारी हूओ देह ॥ २ ॥ सांभली वयण सने-
हथी, आलिंगे अवनीश; खोले वेसारी खवर, पूछे जव पृथिवीश ॥ ३ ॥
भिल्ल भणे तव सांभलो, जिम ओलखी निज जात; मुज ओलखे कांय मही-
पति, तव कहे पृथवीतात ॥ ४ ॥ लक्ष्यालक्ष्य तुमे लखुं, स्यादवाद जिम
सूत; रूपकला ने रिद्धि तुम, किम लहिए आकूत ॥ ५ ॥ पंडित पण पर-
खे नहीं, शक्ति तुमारी स्वाम; पुत्री जे आपी प्रथम, रूपे ते अभिराम
॥ ६ ॥ कमलप्रभ मुख इम कहे, कीधुं कारयुं रूप; भिल्ल तणुं तिम वंभनुं,
नारिनुं तिमज अनूप ॥ ७ ॥ विम वखत एहवुं नहीं, लक्षणो लखिए एम;
तव पद्मरथ बोलतो, आणी अधिको प्रेम. ॥ ८ ॥

॥ ढाल ३३ मी. ॥

मन मोहन मोहन पावन देहडीजी ॥ ए देशी. ॥

स्वामि अरज अरज मुणो एक अम तणीजी, कहे पद्म पद्मरथ राजान-
हो; जिम कीधुं कीधुं स्वरूप ते भिल्लनुंजी, तिम दाखो दाखो मूल संस्थान-
हो ॥ स्वा० ९ ॥ मुझावो मुझावो केटलुं अम प्रतेजी, माया भिल्ल भिल्ल ते
बोले तत्थहो, जव चूरणे चूरणे आंधली निज सुताजी, करी सारे सारे
में साजी सुसत्थहो ॥ स्वा० १० ॥ तिहां कीधी कीधी प्रतिज्ञा क्रोधथीजी,
देडं शिक्षा शिक्षा ए नररायहो; तिहां सुधी सुधी प्रगट न थायवुंजी,
निज रूपे रूपे में कोई ठायहो ॥ स्वा० ११ ॥ ते कीधुं कीधुं धारयुं जे हतुं
जी, तुम दीधुं दीधुं दुख असरालहो; ते खमजो खमजो पूज्य तुमे अछोजी,

वे थयो थयो प्रतिज्ञापालहो ॥ स्वा० १२ ॥ हवे प्रगट प्रगट थाई एम
 .हीजी, निज दाख्युं दाख्युं मूल स्वरूपहो; निज परने परने नाना रूप
 करणयीजी, नवि जाणे जाणे प्रजा तिम भूपहो ॥ स्वा० १३ ॥ रूप देखी
 देखी नृपादिक हरखीआजी, मोह पापी पापी स्तवे गुण रूपहो; अहो ना-
 टिक नाटिक इणहिज कीधळुंजी, वरणवीए वरणवीए शुं गुण रूपहो; ॥
 स्वा० १४ ॥ लाज मुकी मुकी आवी सुणी वारताजी, घरी हर्ष हर्ष ने लेई
 वरमालहो; नृप कुमरी कुमरी कुमर तणे गलेजी, नाखे अति अति प्रेम
 विशालहो ॥ स्वा० १५ ॥ रुहुं वरिओ वरिओ सहु इम भाखताजी, वाज्यां
 तव तव मंगल तूरहो; वंदिजन वंदिजन बोले विरुदावलीजी, सहुने मुखे
 मुखे वाध्यां नूरहो ॥ स्वा० १६ ॥ आवी कमला कमला राणी ते सुणीजी,
 विजय सुंदरी सुंदरी प्रणमे पायहो; माताने माताने हर्षे आलिगतीजी,
 आंसु आवे आवे हर्ष भरायहो ॥ स्वा० १७ ॥ जन्म सफलो सफलो आज
 अमारडोजी, थया पूरा पूरा मनोरथ आजहो; गई आपद आपद सुख सं-
 पद मलीजी, आज सीध्यां सीध्यां सघलां काजहो ॥ स्वा० १८ ॥ सासूने
 सासूने कुमार नमे वलीजी, आशीश आशीश दिए बहु सासहो; लही कुम-
 र कुमरनी आणने पुत्रिशुंजी, पोहोर्ता ते पोहोती ते निज आवासहो ॥ स्वा०
 १९ ॥ सहु देखी देखी शीश धूणावताजी, हवे कमल कमलप्रभ राजान-
 हो; मंडाव्यो मंडाव्यो ओत्सव नयरमांजी, भेट लेवे लेवे देवे दानहो ॥
 स्वा० २० ॥ खमावी खमावी श्वसुरनं प्रणमतोजी, प्रतिबोधन बोधन का-
 जे कुमारहो; कहे शेवक शेवक अन्य राजा तुमेजी, तुमे दाता दाता अन्य
 जाचनारहो ॥ स्वा० २१ ॥ फल पुण्य पुण्यने पापनां ए सवेजी, घर ल-
 क्ष्मी लक्ष्मी जाचक करे संसहो; हृदय बुद्धि बुद्धि शरीरे सौभाग्यताजी, यश
 दस दिश दिश वल होय अंसहो ॥ स्वा० २२ ॥ एह जिनना जिनना धर्मनुं
 फल अछेजी, निच कुलमां कुलमां जनम दोभाग्यहो; रोग निरधन निरध-
 न ने कुकुटंवाताजी, वध अपजश अपजशने नहीं तागहो ॥ स्वा० २३ ॥
 अण वहालां वहालां सहेजे आवी मलेजी, वहालांनो वाहालानो घाय

वियोगहो; ए पाप पाप तणां फल देखजोजी, पराभव भव ने वली बहु शो-
गहो ॥ स्वा० २४ ॥ विपुलाशय विपुलाशय शास्त्रना जाणछोजी, सुकुलीना-
सुकुलीना अतिअ विवेकहो; करो सफलो सफलो भव जिन धर्मथीजी, इह
परभव परभव जिन धर्म छेकहो ॥ स्वा० २५ ॥ पुण्यनां फल फल पामी तुम
सुताजी, तुमे दीदुं दीदुं नयणे साक्षातहो; हवे करवी करवी ढील न धर्ममां-
जी, नृप बोले बोले सख ए वातहो. ॥ स्वा० २६ ॥ प्रतिवूझ्यो वूझ्यो हुं
तुम वयणथीजी, गुरु पासे पासे करुं अंगीकारहो; मत करजो करजो संशय
एहमांजी, धन्य तुमने तुमने कहे कुमारहो ॥ स्वा० २७ ॥ आपदाए आप-
दाए पण वूझे नहींजी, दुरजन दुरजनने कहे बहु वारहो; कमलप्रभ कमल-
प्रभ गौरव बहु करेजी, नृपने देदे वख अलंकारहो ॥ स्वा० २८ ॥ पद्मरथ
पद्मरथने छत्र चामर दिएजी, पामी आणा आणा कुमरनी तामहो; निज
सेना सेनामां पहोचीओजी, हवे कमल कमलसुंदरी नामहो ॥ स्वा० २९ ॥
निज पुत्री पुत्री कमलप्रभ राजीओजी, परणावे परणावे करी मनोहारहो;
देश आपे आपे पराणे कुमरनेजी, नवोढाने नवोढाने दिए ते सारहो. ॥
स्वा० ३० ॥ गज घोडा घोडातो लीघा नहींजी, रहे नृपना नृपना दीघा
आवासहो; रतने करी करी दान देतो थकोजी, पूरवपरे परे करे विलासहो
॥ स्वा० ३१ ॥ पद्मरथ पण पण आपे जमाइनेजी, विवाह समय समय ऊ-
चित एक देशहो; आपे तस तस पुत्रीने देश तेजी, कमलाने कमलाने मनावे
नरेशहो ॥ स्वा० ३२ ॥ भाईए पण पण सतकारी घणुंजी, कमलप्रभ कमलप्रभ
कुमर ए दोयहो; पूजीने पूजीने विदाय करे हवेजी, सैन्य शुंते शुंते प्रिया
लेई सोयहो ॥ स्वा० ३३ ॥ निज नयरे नयरे पोहतो ते भूपतिजी, गुरु पासे
पासे सुणी उपदेशहो; शुभ भावे भावे धर्म अंगीकरेजी, श्रावकनां श्रावकनां
वृत धरे देशहो ॥ स्वा० ३४ ॥ चिंतामणि मणि पाम्यो हुं मानतोजी, बं-
धादिक बंधादिक पाम्यो जेहहो; ते आपद आपद तलथी संपदाजी, धर्म
पाम्या पाम्याथी माने तेहहो ॥ स्वा० ३५ ॥ रति प्रीति प्रीतिशुं काम प-
रे रमेजी, दोय नारि नारिशुं कुमर विलासहो; मूल अभिधा अभिधा कोय

(२१६)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

जाणे नहीजी, गुणथी कहे कहे नाम ते तासहो ॥ स्वा० ३६ ॥ दानलीला
लीला धन ठकुरातथीजी, बल रूप रूप कला गुण ग्रामहो; लोक सत्री क्ष-
त्रीतुं तेज देखी घणुंजी, कहे क्षत्र क्षत्रवैश्रवण ते नामहो ॥ स्वा० ३७ ॥
बहु मित्र मित्र स्नेही थया कुमरनेजी, भक्तिवंतो वंतो सह परिवारहो; लोक
रीझे रीझे देखी एहनीजी, लक्ष्मीने लक्ष्मीने परउपगारहो ॥ स्वा० ३८ ॥
इम चोथे चोथे खंडे तेत्रीसमीजी, ढाल पुरो पुरो थयो चोथो खंडहो; सस
विजय विजय पन्यास संवेगीआजी, ज्ञान क्रिया क्रिया जस प्रचंडहो ॥ स्वा०
३९ ॥ तस शिष्य शिष्य कपूरविजय कविजी, खिमाविजय विजय ते ते-
हना शिष्यहो; जिनविजय विजय विबुध वर तेहनाजी, जस जगमां जगमां
चढती जगीसहो ॥ स्वा० ४० ॥ तस शिष्य शिष्य उत्तमविजयो जयोजी,
सिद्धांत सिद्धांत शिरोमणी सारहो; तस सेवक सेवक पद्मविजय कहेजी,
मुणतां होय होय जयजयकारहो ॥ स्वा० ४१ ॥ सर्व गाथा ८७८.

इति श्रीमदुत्तमविजयगणी विनेयपं० पद्मविजय ग० विरचितेश्री श्री
जयानंद केवळी चरित्रे प्राकृत प्रबंधे गगनगति पल्यंकवल सकत्र कमलपुर
प्राप्ति कमलप्रभ भूप पुत्राद्युपकार स्वपुत्री विजय मुंदरी पितृपद्मरथजयपुर्व
प्रतिबोध कमल मुंदरी परिणयन वर्णनोनाम चतुर्थखंडः समाप्तः॥खंडत्रय मी-
लने गाथा २१०९ चतुर्थखंडे गाथा ८७८ सर्वगाथा २९८७ ॥ खंडत्रय उक्त
श्लोक ४३ चतुर्थे उक्त श्लोक ६ सर्वे यइ उक्त श्लोक ४९ सवइओ १ स-
मस्या १ दुहो १, सर्वे ढाल १०४ ॥

खंड पांचमो.

॥ दुहा. ॥

नंदीश्वर प्रमुखे नमुं, शाश्वत जिन शुभ ध्यान; रीखभ चंद्रानन रूअडा,
वारिषेण वर्द्धमान ॥ १ ॥ पंचम खंड प्रेमे करी, श्रोता सुणो सुजाण; आ-
गे आगे रस अवल, चित्तमां जूओ पहिचाण. ॥ २ ॥ एक दिन क्रीडाउ-
द्यानमां, क्रीडा करवा काज; मानिनीने निज मिलथुं, सघलो लेई साज.
॥ ३ ॥ दीठा तिहां विद्याधरा, मानातीत विमान; देवपरे तिहां देखतो,
आकाशे असमान. ॥ ४ ॥ किहां जाय कोळ्यो गमे, चित्तमां करे विचार;
एक विद्याधर आवीयो, वाच्यमां पीवा वारि. ॥ ५ ॥ पाणी पाय प्रिया
प्रते, तव जइ तिहां कुमार; पूछे तेहने प्रेमथुं, कहो ए किस्यो विचार.
॥ ६ ॥ कहो जाय किण कारणे, एवढा खेचर एह; तेह कहे तुमे सांभलो,
जिण कारण जाय तेह. ॥ ७ ॥

॥ ढाळ पहेली. ॥

आछेलाल ॥ ए देशी. ॥

द्वीप नंदीश्वर नाम, आठमो ते अभिराम, आछेलाल० वावन चोमुखे सो-
हतोजी ॥ ८ ॥ च्यार दधि मुख सार, एक अंजन गिरिधार, आछे० र-
तिकर आठ मनोहरुजी ॥ ९ ॥ एक दिशे ए तेर, चिहु दिशे नही कांय
फेर; आछे० इम वावन चैख चोमुखांजी ॥ १० ॥ एकसो चोवीस जिन
माण, एक एक देहरे जाण; आछे० अढतालीस ने चोसठ सयांजी ॥ ११ ॥
सोल अछे वली भद्र, सोहम ईशान जे ईद्र; आछे० अढ अढ तस अग्रमहि-
पीनाजी ॥ १२ ॥ सोल प्रासाद वली तेह, प्रणमो आणी नेह; आछे० शो-
भा तस केत्ती कहुंजी ॥ १३ ॥ आगममां विस्तार, कहेतां नावे पार; आ-
छे० मान प्रमाण तणो बहुजी ॥ १४ ॥ अढाई महोत्सव सांहि, करशे अ-
ति उत्साहि; आछे० चैत्र मास छे ते वतीजी ॥ १५ ॥ मिलशे घुरना वृंद,

(२१८)

श्री जयानंद केवलीनो रास.

‘तिम विद्याधर इंद्र, आछे० ओत्सव महोत्सव बहु धरोजी ॥ १६ ॥ अठा-
ईतुं पर्व, विद्याधर सुपर्व; आछे० शाश्वतुं जाणी आराधरोजी ॥ १७ ॥
घन्य तेह नरनारि, साश्वतुं पर्व ए धारि; आछे० त्रिकरण शुद्धि आराध-
रोजी ॥ १८ ॥ ते कारण ए लोक, जाए जिनवर ओक; आछे० सांभली
कुमर ते चित्तवेजी ॥ १९ ॥ क्रीडाए काहुं काल, हुं पण प्रणमुं दयाल; आ-
छे० घर जई नारिने इम कहेजी ॥ २० ॥ वृद्ध नारिशुं दौय, चित्त समाधि
जिणे होय; आछे० करजो धर्म कथा सदाजी ॥ २१ ॥ नदीश्वरनी यात्र,
करवा निरमल गात्र; आछे० विद्याधर साथे जशुंजी ॥ २२ ॥ रेहजो तु-
मे सुख मांढि, तुरत आहुं हुं आंदि; आछे० साथ जायछे उतावलोजी
॥ २३ ॥ भक्ति विनयथी तांम, मांने वचन दौय वाम; आछे० वेशी पल्पं-
के चालीओजी ॥ २४ ॥ खेचर उंचा जाय, कुमर पल्पंक खलाय; आछे०
जंबुद्वीपनी जगतीएजी ॥ २५ ॥ जाणे धर्म अंतराय, कुमर मन खेदाय;
आछे० गगन गामिनी ईछतोजी ॥ २६ ॥ विद्या जो होय पास, जाहुं मन
उछास; आछे० इम चिंती पाछो वल्योजी ॥ २७ ॥ एक नगर उद्यान, चै-
स सोवन शुभवान; आछे० मणि कलसे गगने अहयुंजी ॥ २८ ॥ तीर्थ उ-
लंघन थाय, आशातना चित्त लाय; आछे० उत्तरचो हेठो धरतीएजी ॥ २९ ॥
चैसमां पेठो तेह, विधिपूर्वक ससनेह; आछे० रयणमयी ऋषभप्रभुजी
॥ ३० ॥ देखी करे परणाम, स्तवना करे अभिराम; आछे० रोमरोम तनु
उछसेजी ॥ ३१ ॥ पांचमे खंडे ढाल, भाखी प्रथम रसाल; आछे० पद्मवि-
जय पुण्ये करीजी ॥ ३२ ॥



दुहा.

चैस वहार चित्त चमकतो, नीकलीओ निरधार; देखे तिहां दृष्टे करी,
रुढा राज कुमार. ॥ १ ॥ वीणा वश करे वरु, रसिकने रसनुं नाण; करे
अभ्यास कला तणो, गीत नृत्य गुण जाण ॥ २ ॥ जाणुं गांधर्व जन मिल्त्या
जाता आवता जाणि, पूछे कोईक पूरुषने, कहो इहां किश्युं मंडाण ॥ ३ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ सत्तरमुं पापनुं ठाम ॥ ए देखी ॥

कहें पुरुष ते सांभळो वांण, लक्ष्मीपुर नयर ते जाण, उपमा नहीं कोई
ठाण होराज, सांभळो वयण रसालां ॥४॥ आंकणी ॥ छे श्रीपति नामे राय,
देखी ठकुरात अचरिज थाय, श्रीपति पण लाजे भगय होराज ॥ सां० ५ ॥
त्रण कन्या तेहने थाय, तेहनी जूदी जूदी माय, नरपतिने आवे दाय होराज
॥ सां० ६ ॥ स्त्री सर्वना लेई परमाणुं, सारसारथी ए घडी जाणुं, तिणे सर्व
स्त्री लाजनुं ठाणुं होराज ॥ सां० ७ ॥ पूरवे पुण्य ओछुं कीधुं, तिणे एहनुं
रूप न सीधुं, देवे चितवे दान न दीधुं होराज ॥ सां० ८ ॥ फरी लहीए मनु
अवतार, तप दान दीजे अपार, एवुं रूप लहीए निरधार होराज ॥ सां० ९ ॥
विम्र नाम कलाविलास, कलावेदि अनुत्तर खास, जैन धर्ममां मति छे जास
होराज ॥ सां० १० ॥ गंभीर घणो गुणवंत, धन आपी तस भूकंत, भणवा
कुमरी दिए खंत होराज ॥ सां० ११ ॥ जैन धर्मीं मात ने तात, उपाध्याय जैन
विख्यात, जैन धर्मीं कुमरीओ थात होराज ॥ सां० १२ ॥ भणी थोडा दि-
नमां तेह, ते प्रज्ञानुं मानुं गेह, त्रण रूपे सरसती एह होराज ॥ सां० १३ ॥
पहेली नाट्यकलानी धार, नृप नाम दिए श्रीकार, नाट्यसुंदरी जगमां सार
होराज ॥ सां० १४ ॥ नाटिकथी जीते कोय, वली जैन धर्मीं जग होय, वरुं
करीय प्रतिज्ञा सोय होराज ॥ सां० १५ ॥ बीजी गीतकलाए रुडी, गीतसुं-
दरी नामन कूडी, तस एह प्रतिज्ञा उंडी होराज ॥ सां० १६ ॥ जैन गीतकला
मुज जीते, वरुं तेहने जगत वदीते, करी एह प्रतिज्ञा नीते होराज ॥ सां० १७ ॥
नृप नादसुंदरी दिए नाम, त्रीजीनुं अति अभिराम, तेतो बीणा नाद गुण
धाम होराज ॥ सां० १८ ॥ मुज नादकलाए जीपे, वली जैनधरमी आति
दीपे, वरुं एह प्रतिज्ञा समीपे होराज ॥ सां० १९ ॥ नृप पढह वजावे ताम,
मुज कन्या प्रतिज्ञा आम, ए वात त्रिस्तरी ठामठाम होराज ॥ सां० २० ॥
निज पर राज्ये दूत मुके, वात संभलावे नवि चूके, सुणि ते पण आवी दूके
होराज ॥ सां० २१ ॥ सह्यु क्षत्री कुपर ते मलीआ, मन गमता अभ्यासमां

भलीआ, कुमरि आगळे सहू खलिआ होराज ॥ सां० २२ ॥ ते कुमरोने शी-
खवा सारु, नृपे धन आप्युं अतिवारु, उपाध्याय थया देदारु होराज ॥ सां०
२३ ॥ कहे सत्रकुमार शीखावो, उद्यानमां जई रखावो, पण लोकने घ-
णुं न देखावो होराज ॥ सां० २४ ॥ तिणे उद्याने उपाध्याय, शीखवेळे कला
इणे ठाय, अभ्यास युवान कराय होराज ॥ सां० २५ ॥ महीने महीने भूपाल,
परीक्षा करे सुविशाल, कुमरी आगे सहू वाल होराज ॥ सां० २६ ॥ के
इ शीखतां भागा जाय, केई शीखवाने थिर थाय, तिणे गत आगत करे भा
य होराज ॥ सां० २७ ॥ तुमे पूछी ते में भाखी, कांईए नवि उणिम राखी,
कुमर पण थया अभिलाषी होराज ॥ सां० २८ ॥ पल्यंक ठव्यो गुप्त ठामे,
वज्रादिक आयुध वामे, कौतिक करवाने कामे होराज ॥ सां० २९ ॥ औप-
धिथी वामण रूप, लोकने होय हास्य स्वरूप, अलंकार ने वस्त्र अनूप होराज
॥ सां० ३० ॥ पाठकने कीध प्रणाम, आशीश दीधी तिणे ताम, पूछे पाठक
हवे आम होराज ॥ सां० ३१ ॥ खंडपांचमे बीजी ढाळ, कही पद्मविजये सु
रसाल, मुणतां होय मंगलमाल होराज ॥ सां० ३२ ॥ सर्व गाथा ६४ ॥



दुहा.

कुंणछो आव्या किहां थकी, शे कामे कहो साच; पाठक इम पूछे थके,
वामन बोले वाच ॥१॥ नयर देशनेपालमां, विजय पत्तनवरनाम; क्षत्रीय अंगज
हुं खरो, वामन कर्म ए वाम ॥२॥ कुंकणक नाम कण्ठो मुने, थौवन पाम्यो
जाम; कला नहीं कोई मुज कने, धननो तात ते धाम ॥३॥ कोइ न दिए क-
न्या कदा, वामन रूप विचारि; पण तातने प्रिय अति घणो, आप्यां वस्त्र
अलंकार ॥४॥ कला ग्रहण कामे चल्यो, आव्यो फिरतो आंहि; नाट्यादि-
क मुजने कला, आपो धरी उत्साह ॥५॥

॥ ढाळ त्रीजी ॥

थारा माथा उपर मेह झवूके बीजली होलाल झवूके० ॥ ए देशी ॥
तेह मुणीने राज कुमरहसता महु होलाल कु० अहोअहो आव्यो छात्र भाग्य

गुरुनुं बहु होलाल भा० एहने भणाव्ये भूप कन्या देशे खरी होलाल कं०
तेहथी संतोष दान देशे गुरु घर भरी होलाल दे० ॥ ६ ॥ कन्या केरुं भाग्य
घणुं ए वर मळ्यो होलाल घ०, एहवुं रूप न विश्वमां तिणे सहु भय टल्यो
होलाल ति०; सांभली छात्रनां वयण गुरु लाज्यो घणुं होलाल गु०, गुरु
कहे पाठकला नही तुज योग्यतापणुं होलाल तु० ॥ ७ ॥ करथी उतारी कं
कण पाठकने दिए होलाल पा० लाख सवानुं देखी गुरु हरख्या हिये होलाल
गु० सीखवे नाट्यकला गुरु तेहने आदरे होलाल ते० पण ते कुंभार परे मृ-
त्तिका मर्दन करे होलाल मृ० ॥८॥ पद घाते कंपावे पृथिवी उछले होलाल
पृ०, कंदुक परे वली गिरि शिछापरे खलभले होलाल शि०; पदना करे ध-
बकार तिणे जन सहु हसे होलाल ति० शीखवतां दिन दाय त्रण इम नीक-
से होलाल त्र० ॥ ९ ॥ खेद लही गुरु कहे तुज नाट्य न आवडे होलाल
ना०, भण तुं गीत कहे तंव ते मुज आवडे होलाल ते०; गुरु कहे तुजने केहवुं
आवडे तव कहे होलाल आ०, विकृत मुखध्वनि करी कहे जिम हाश्यता
लहे होलाल जि० ॥ १० ॥ यतः ॥ पंचनियंठासुरठईपविठा, कविठस्स
दिठातओसंनिविठा; पडिअंकविठंभगंगंगस्ससीसं, अब्बोहसंतीकिलती-
हसेसा ॥ १ ॥ पूर्व ढाल ॥ सांभली गीतने छात्र सहु खडखड हसे हो-
लाल स०, अहो अहो गीतने गाननुं डहापण चित्त वसे होलाल डा०; इणे
गीते नृप कुमरी परणचो एहने होलाल प०, अधिक भण्यानुं काम ते थुं छे
जेहने होलाल थुं० ॥११॥ तोपण अधिक दानथी पाठक हरखता होलाल
पा०, ग्राम रागादिक रागनां तेहने वरषता होलालके ते०; पण नवि समजे
कांय घणे यतने करी होलाल घ०, खेद लही क्षण षट दिने गुरु कहे हित
धरी होलाल गु० ॥ १२ ॥ वीणकला तुम सीखवुं ल्यो वीणा करे होलाल
ल्यो०, इम करी शीखवे वीणकला गुरु शुभ परे होलाल क०; ततक्षिण
त्रूटी तांत वीजी वीणा दिए होलाल वी०, नांख्यु तुंबडुं भांजि तदा वीजी
लिए होलाल त० ॥ १३ ॥ दंड भांज्यो वीजीवार गुरु तव दुख धरे होला-
ल गु०, तुजने न आवडे कांय विसरज्यो तत्परे होलाल वि; चाल्यो क-

लागुरु गेह पाठकणीने मल्यो होलाल पा०, कंकण आपी अन्य हेजे तेह श्रुं हल्यो होलाल हे० ॥ १४ ॥ पामी विस्मय ताम पूछे कारण किश्युं होलाल पू०, ते कहे तुज पति मुज भणावे नेहश्रुं होलाल भ०; एह शिपारश मा-री करो तुमे वेगश्रुं होलाल क०, सा पण दान वशीकृत छे अतिरेगश्रुं होलाल छे० ॥ १५ ॥ कहेश्रुं मुज पतिने तव निज थानिक गयो होलाल नि०, भाडे लेइ घर दास दासी परिवृत भयो होलाल दा०; जिन पूजा-दिक रक्त आवे पाठक कने होलाल आ०, पाठकने कहे नारि सुणो तुमे एक मने होलाल सु० ॥ १६ ॥ जेहनुं अद्भूत दान भणावो वामणो होलाल भ०, एहवो नहीं दानेशरी जन मन कामणो होलाल ज०; सहु मिली आपे तो पण इणो समोवढ नहीं होलाल इ०, बहु मुकी तुमे एक भणावो रही अहीं होलाल भ० ॥ १७ ॥ पाठक कहे नवि जगमां कंकण एहवुं हो-लाल कं०, पूरवे दीधुं मुजने ए पण तेहवुं होलाल ए०; आ-प्युं नारिने ते पण पेहेरे दाय करे होलाल पे०, निज आत-मने माने अप्सरा उपरे होलाल अ० ॥ १८ ॥ पाठक कहे हुं भ-णावीश एहने यत्नथी होलाल ए०, पण नवि समजे कांय बहु प्रयत्नथी होलाल ब०; सा कहे अंगलालिय ने स्वर वली जोईए होलालके स्व०, नद टिक गीत आवे तव सहु मन मोहिए होलाल स० ॥ १९ ॥ वीणानो अ-भ्यास करावो किम नहीं होलाल क०, पाठक कहे त्रण भंग वात वेगे वही होलाल वा०; तंति दुर्वल जुनुं तुंवडुं होशे सा कहे होलाल हो०, शडीओ डंड होए ते किणीपरे निरवहे होलाल कि० ॥ २० ॥ नविन वीणा देउं इम कही एकांते रही होलाल ए० शीखवे तेहने छात्र हासी चित्तमां लही होलाल हा०; आब्यो परीक्षा समय हवे सहु आवीआ होलाल ह०, राय परिच्छद नगरना लोक ते भावीआ होलाल लो० ॥ २१ ॥ आवे पाठक छात्र सहुश्रुं परवरी होलाल स०, तव वामण कहे वात सुणो एक मुज खरी हो-लाल सु०; आहुं तुमचि साथ पासे बेसारजो होलाल पा०, नाट्या-दिक अवसरे मुज मत विसारजो होलाल के म० ॥ २२ ॥ पाठक

कहे तुज पास वेठां लाजुं घणो होलाल वे०, आणि करु किम नाहि
अभ्यास कला तणो होलाल अ०; कोडि मूलनो हार पाठकने आपीओ हो-
लाल पा०, तव मान्युं सवि तेह हरख बहु व्यापीओ होलाल ह० ॥ २३ ॥
मन चिंते सवि भवयां एहवुं न पामीओ होलाल ए०, ते एणे एक पलक-
मां मुजने धामिओ होलाल मु०; ए आश्चर्य सहित गुरु वामन लेईने होलाल
चा०, वेठा परीक्षा मंडपे आशीश देईने होलाल आ. ॥ २४ ॥ भूपना
कुमर सवे राजवर्गीय आबीआ होलाल व०, निज निज परिच्छद लेई
कन्या चिच भावीआ होलाल क०; वारे तव कोलाहल नृप आणा लही
होलाल नृ०, कहे प्रतिहार सुणो सभा लोक आव्या अहिं होलाल
छो० ॥ २५ ॥ नाट्य कला निज दाखवी जीते जे कुंअरी होलाल जी०,
तेहज परणे नृपनी ए नाट्यसुंदरी होलाल ए०; पंचम खंडे ढाल तीजी
ए मन वशी होलाल ती०, पद्मविजय कहे सांभळो भविजन उल्लसी होला-
ल भ० ॥ २६ ॥ सर्व गाथा ९० ॥

दुहा.

सामग्री सवि साथ ले, आव्या कुमर अनेक; एक एकथी अधिक रस,
विज्ञानी सुविवेक ॥१॥ नाचे नव नव भांतथुं, कौतिककारी केम; वरणवी-
ए वयणे करी पण कहुं कांयक प्रेम. ॥२॥


॥ ढाल ४ चौथी ॥

॥ एकवीसानी देशी ॥

एक नाचेरे धनुषं पणच उपर रही, एक नाचेरे खंडग धारा उपर सही,
कोई बाणाग्रेरे कोई भलाग्रे जाणीए, हवे कोईकरे जल भाजन शिर आं-
णीए ॥३॥ ब्रूटक ॥ आणी जलने हाथ गोलक, चलावे तिम पग थकी, चक्र
भमाडे नाच करतो हस्तादिके सहु रहा चंकी; कोईक करने दंत मांढि खंडग
वृण ब्रही करी, किरणे करीने भ्रमण करतो अळात परे चिचयां घरी ॥४॥
कोई अधोमुखरे उर्दपादे मुसलां घरे, रमता तिहारि गोल नचावे निज करे;

निज मस्तकेरे नाटिक करतो इणिपरे, खड्ग भमाडेरे कोईक मेली दौय करे ॥५॥ झूटक ॥ वली पादांगुले चक्र फेरवे शिरे धरी जल भाजनं, विहु खंघ उपर दीपिका धरी नाभीए भुंगळां वादनं; मणि व्रात जिब्हाग्रे परोवे करे नाटिक इणिपरे, राय प्रमुख सहु लोक देखी शिर धूणी शंसा करे ॥ ६ ॥ हस्तकादिकेरे नाट्यसुंदरी वीपर्यासरे, देखावेरे दूषण तेहमां तासरे; वामन पणरे मुख मरडे करे हासरे, रुहुं कीधुरे तुम सम कुण करे खासरे ॥७॥ त्रू० ॥ हवे सुंदर वेप धरीने भूप आणा पामीए, सामग्री शं नाट्यसुंदरी नाचवाने काम ए; चित्त हरती विश्वनां तिहां जाणना मद गालती, नाटिक विविध प्रकार करती कुमर दोष देखालती ॥८॥ नासा अधरनेरे नयन तारा पयोधर वली, चलावतिरे तिमज कपोलने सलसली; देखी विपरीतरे कपोल नयन तारा भंगए, वामन तवरे वारे तुमुल उछरंगरे ॥९॥ त्रू० ॥ बोले वामन सुणो सुंदरी प्रथम शास्त्र रीते करयुं, पछेतो विपरीत कीधुं नयन तारा भंग धरयुं; एहवो भाव शास्त्रे कहींछे तव चमकी कहे सा सुणो, भरतशास्त्रे विधि कळोछे एहमां दोष न को गणो ॥१०॥ कहे वामनरे मत कडो एहवी वातरे, कंठे माहरेरे भरतशास्त्र आयातरे; मुनि भरतेरे नवि भाष्यो ए भाव रे, तेहना श्लोकारे वामन बोलया तावरे ॥११॥ त्रू० ॥ तव कहे सुंदरी भ्रांति थई हशे, वामन कहे होए नहीं, भ्रांति सूक्ष्म विज्ञान मांहि पण जाणुं इण विधि सही; परीसार्थे करयुं इणिपरे पण समामां मृग वसे, नहीं सूक्ष्म विज्ञान ज्ञाता जे देखी हियहु हसे ॥ १२ ॥ लोक भाषेरे गुरु अनुग्रह एहने अछे, नाट्यसुंदरीरे दोष निहाली निज पछे; करे नाटिकरे भछाग्रे धरी फूल रे, उपर नाचतीरे वात धणी अमूलरे ॥१३॥ त्रू० ॥ कला करीनेसर्व जीसा जय जय रव तव उछलयो, वर चिंतातुर भूप बोले उपाध्यायजी सांभलो; परिक्षा विण कोई तुमचो छात्र छेके नहीं हवे, दान प्रीणित कहे पाठक एह वामन संभवे ॥१४॥ भूप चिंतवेरे वामनमां नवि संभवे, कदि संभवेरेमत जीतो कोई कैतवे; मुन पुत्रीरे वामनने वरशे कदा, दुख थाशेरे मुज मन मांहीं तदा ॥१५॥ त्रू० ॥ तोय संदेह टालवाने वामनने आणा करी, नाट्य-

कला जो जाणतो होए तो उठो चित्तमां धरी; बुभुक्षितने जिम परमाज्ञे नि-
मंत्रणा कोई करे, वामन नाटिक करण उठे हर्ष हियडे अति धरे ॥ १६ ॥
कला सघलीरे करी हवे शी करशे कला, नथी मृत्तिकारे खुंदशे इम चि-
तवे खला; हांसी करतारे केईक भाषे इणिपरे, छो नाचतारे शाने निपेधो
परपरे ॥१७॥ त्रु० ॥ हास्य थाशे लोकने घणुं विगोवाशे ए खरो, ते मुणी
वामन सहु उवेखी नाट्य करवा तत्परो; पंचपरमेष्ठी नमीने गायन वादक
मानवी, परीक्षा करी सज्ज करतो कला करवा अभिनवी ॥ १८ ॥ सा-
मग्री युत्तरे विश्वमोहन नाटिक करे, छल ताकतारे छात्र अनेक परेपरे; पण
दुषणरे हस्तकादिकमां नवि लहे, एक चित्तरे जोवे सभा चित्त गहगहे ॥१९॥
त्रु० ॥ करी नाटिक वली भलाग्रे फूल उपर भुचि धरी, तेह उपर कुसुम उ-
पर नाचतो रंगे करी; वामेतर द्वादश किरण दिए आंखे फूल लिए तदा,
हर्षे बोले सहु सभा तिहां जीखो जीखो ए सदा ॥ २० ॥ जय जयर-
वरे वाजित्र नाद बहु थया, वंदि बोलेरे गायन गीत तत्पर भया; अराथिनेरे
दान दिए अढलकपणे, नाट्यसुंदरीरे रीझी लही कौतिक घणे ॥२१॥त्रु० ॥
नाट्यसुंदरी वरे वामन देव कहे साधु वरयुं, भूप चित्तवे खेद धरीने है है
देव अवलुं करयुं; इणे वामन वरयो हवे दोय राज कुमरने जो वरे, प्रतिहारने
हवे तुमुल रोकी इणिपरे आज्ञा करे ॥ २२ ॥ भूप आणथीरे कुमरोने
इणि परे उच्चरे, गीतसुंदरीरे एह कलामां सहु धुरे; जेह जीतिरे ते कर ग्रहण
एहनुं करे, गीत कुशलारे सांभली जैनधर्मा शिरे ॥ २३ ॥ त्रु० ॥ सांभली
निज सामग्री संयुक्त गावे अति हर्षे करी, चोथी ढाल ए खंड पंचम पद्य-
विजये चित्त धरी; भाखी जेजे रसे गावे तन्मयता सघळा थया, जाण पुरुष
ते गीत लीना भूख त्रपादिक गत भया ॥२४॥ सर्वगाथा १.१.४



दुहा.

चडते रस ते चतुर नर, गातां विरम्या गीत; निज पुत्रीने नरपति, प्रेरे ध-
रतो प्रीत ॥१॥ गीतसुंदरी हवे गायनां, मनुज थया रसमज्ञ; निद्रा पाम्या

नर सवे, अति मूर्छित जिम अह्न ॥२॥ संकेतित दासी सवे, आयुध प्रमुख अपार; भूपादिकेनां भलीपरे, लेइ गोपवे लगार ॥ ३ ॥ गाइ रही गीतधुं-दरी, तव ते जाग्या ताम; खडगादिक खोले खरा, मन जाणे गइ मांम ॥४॥ मान देइने मानिनी, आपे सघलां आणि, जय जयरव जीया तणो, प्रगटथो जग परमाण ॥५॥ पूछे भूप पाठक प्रते, वर नवि पाभी वाम; वरमालाशुं वामणो, देखाड्यो उदाम ॥६॥ वामनने नरपति वदे, गाई जाणे गीत; तास स्वरूप कही तुमे, राखी सखरी रीत ॥७॥ गुरू प्रसादे गाननुं, सखरुं लहु स्वरूप; संक्षेपे तुमने सवे, भाखुं सुंणजो भूप ॥८॥ तथाहि श्लोकाः गांधर्वं त्रिसमुत्थानं, तंत्री १ वेणु २ नरोद्भवं ३ वीणा त्रिसरि कासारं, ज्याद्यातं अत्ननेकथा १. रागोविभ्रममाणोतुर्हृदिमंद्रादिभेदतः तस्यास्त्रिद्रक संस्पर्श वशेनोत्पद्यतेकिल २ एवंवंशेषित्रीणाया नालशुद्धिस्तुवर्जनात्, नाल्पादीनांत-धातुंब, शुद्धिर्वृत्तादिकैर्गुणैः ३ तंत्रीशुद्धिर्वलिस्त्रायु, वालाशुद्धिततकृतेःइत्या-दि वेणु सारंगी, त्रिसर्यादिष्वपीष्यते ॥ ४ ॥ दुहा. ॥ इसादिक शास्त्रे अत्ति, विस्तरछे व्याख्यान; केचुं कहिए इहां कही, गांधर्वनुं सुणो गान ॥ ९ ॥ नही दुर्वल थूलज नही, गल मुख रोग न होय; यौवन मुदित निरुज वली, कहिए गायन कोय ॥ १० ॥ तिल कुल माप ने तेल गुड, खाय नहीं वली खाय; साकर दूध संगत पीए, गह गही तेहज गाय ॥११॥ सात प्रकारे स्वर वली, त्रण ग्राम वली तत्थ; ग्रामे ग्रामे सग गणो, एकवीस मूर्छना एत्थ ॥ १२ ॥ साते खट रागे सहित, इम बैतालीस एह; श्री रागादिक पट् सवे, रागिणी पट्क करेह ॥ १३ ॥ षट रागनी पट लीस होए, रागिणी रंग मझार; भेद घणा तेहमां भले, अभिनव होए विचार ॥ १४ ॥ अनुक्रमे हुं भणीओअळुं, काले ते कहेवाय; प्राये निंदा स्तुतिपणे, गीत सकल गवराय ॥ १५ ॥

॥ ढाल ५ मी. ॥

राग सारंग ॥ ह्य गगने भये प्रभु ध्यानगां ॥ ए देशी ॥

सहु मगन भए तस गानमां, सज्जन मुख निंदा नवि होवे, शुं कहिए ते मा-

नमां, स्तुति पण द्विविध छता अछता गुण, तेसुणजो सहु सानमां ॥ स० १६ ॥
 विवाहादिक कारणे अछता, गुण गाप् अभिमानमां; ते पण मरषा दोपथी
 सज्जन, नवि भाखे निज वाणमां ॥ स० १७ ॥ अछता गुण केइ विविध
 प्रकारे, गावे देव अज्ञानमां; केइक अंगना धरे उत्संगे, केइ धरे शस्त्र पाणमां
 ॥ स० १८ ॥ केती वात कहु अज्ञानकी, द्रष्टी रागना ठानमां; बुधजन अं-
 गीकरे नही कोई, सम्यग द्रष्टी भानमां ॥ स० १९ ॥ अरिहंत शासनमां जे
 नीरागी, जेह छता असमानमां; ते गुणथी पावन जीहा करुं, सांभलो तुमे
 सहु कानमां ॥ स० २० ॥ दोष अढार रहित जे देवा, गुरु निस्पृह रह्या
 ध्यानमां; इम कही सहुनी हासी अवगणी, निज सम पुरुष ले तांनमां ॥ स०
 २१ ॥ वामन गीत गाए हवे एहवां, अधिक सुधारस पांनमां; हाहा हूह
 देव गायन जे, श्रोता ते करे अपमानमां ॥ स० २२ ॥ एक ध्याने सवि लीन
 थईने, श्रोता रहे तिणे टाणमां; उत्कृष्टे रसे गान थयुं तव, निद्रा लही
 अचानमां ॥ स० २३ ॥ भूप प्रमुखनां शस्त्र अलंकृति, लेई मुक्क्या कोई थानमां,
 बली हासी कारक नर मस्तक, मुंडे जे पंच प्रधानमां ॥ स० २४ ॥ वेदे रसां-
 तर नहीं तेहज रस, कोई न जाणे तिणे करी; गाई रह्यो तव चमत्कार ल-
 ही, जीस्यो जीस्यो कहे फिरी ॥ स० २५ ॥ सहु मगन थई कहे चित्त धरी
 ए टेक ॥ जय वाजिन्न वाज्यां जयरव थयो, वामने मुज कलाहरी; इम चिंती
 वरमाला नाखे, वामन गले गीतसुदरी ॥ स० २६ ॥ नृप कुलदेवीए बहु
 परसंश्यो, विहु शिर पुष्प वृष्टि भरी; निज शिर मुंडित देखी लाज्या, नाशी
 गया हासी खरी ॥ स० २७ ॥ आयुध वस्त्र अलंकृति आपे, दासीओ धन आ-
 दरी; दासीओ पण वामन परसंसे, अमने पण इंगे लद्धरी ॥ स० २८ ॥ नृप
 चिंते हलकाई मुज थई, विहु पुत्री वामन वरी; हरखुं जो कोई राज कुमर वरे,
 जीतीने नादसुंदरी ॥ स० २९ ॥ इम विचारी लद्धोषणा करे, वामने वरी
 दोय कुमरी; जीते कोई कुमर नादसुंदरी, सहुमां थई अग्रेसरी ॥ स० ३० ॥
 पंचम खंडे पंचमी ढाले, पन्नविजय उत्तम चरी; श्रीजयानंदना रासमां भा-
 ख्युं, आगल मुणो श्रोता वरी ॥ सहु० ३१ ॥ सर्वगाथा. १४६

(२२८)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

दुहा.

वामने अमने लाजव्या, इम मन आणी खेद; भूप तथा कुमर भला, अधिको धरत उमेद ॥ १ ॥ नाना राग निपजावता, तेहने नादे तेह; परिहरि सर्व व्यापारने, सभा थया ससनेह ॥ २ ॥

॥ ढाल छठी. ॥

तुमे तो भले विराजोनी सिद्धाचलके वासि साहिव

भले विराजोजी ॥ ए देशी ॥


तुमे तो जोज्यो जोज्योरे वीणने वजावे, ए आंकणी॥ सहुए अनुक्रमे तेह वजावे, सांभले सहु लयलाय; एक एकथी चढीआती वाजे, चित्रपरे थंभाय ॥ तुमे० ३ ॥ निद्रितनी परे सहुए घुंमे, कोईक वजावे ताम; उतकृष्टे रस तेह कला थई, कुमर तणे परिणाम ॥ तु० ४ ॥ पूर्व संकेतित महावत महागज, मुके छूटो जाम; गर्जारव करतो ते आवे, नाठी सभा तिणे ठाम ॥ तु० ५ ॥ नादना रसथी वाहळुं सहुने, जीवित अतिशय होय; नादसुंदरीने हवे आणा, नरपति आपे सोय ॥ तु० ६ ॥ वीण वजावे नादसुंदरी, काने अभृत संमान; गज थंभाणो सभालोक पण, थंभाणा गई सान ॥ तु० ७ ॥ विरम्यो नाद तदा तिहां महावत, गज खेंचे ततखेव; कन्या जीती इय जय जयरव, लोके करथो स्वयमेव ॥ तु० ८ ॥ खेद लहीने राजा पूछे, उपाध्यायने जाम, पूर्व परे वामन देखाडे, उपाध्याय पण ताम ॥ तु० ९ ॥ वामन दोय मालाए रमणिक, उभो आगल आय; वीण वजाववा वामनने तव, भूपति आणा थाय ॥ तु० १० ॥ तव वामन तिहां वीणा मागे, राय पुरुष तव एक; वीणा आपे भूप वयणथी, वामन कहे सुविवेक ॥ तु० ११ ॥ वीणा दंडमांहिं छे कीडो, पाम्यो कौतिक भूप; भागीने ते कीट देख्वाव्यो, सहुए दीदुं अनूप ॥ तु० १२ ॥ वीजी वीणा आपी तेहनूं, तुंवदुं कडबुं भाखि; ते पण भागी तास चखाव्युं, परतक्ष जाणी साखि ॥ तु० १३ ॥ वीजी वीणा तंतमांहिं छे, सूक्ष्म देखो वाल, चोथीनो दंड जलमां भीनों, वेह रगो घणो काल ॥ तु० १४ ॥ इम अनेक दूपवी वीणा, लीधी कांइक

सार; हलवे वीण वजावे वामन, लोक लहे चमत्कार ॥ तु० १५ ॥ श्रुं
काने अमृत ए वरश्युं, अथवा मुक्यो इंद्र; पृथ्वी लोकने मुख देवाने, ए
तप महिमा वृंद ॥ तु० १६ ॥ लय आणंदे मुख अद्वैते, निद्रा पाम्या लो-
क; पूर्व संकेतित महावत गजने, मदिरा पाई बोक ॥ तु० १७ ॥ कान वां-
धीने हाथी मुक्यो, आन्व्यो सभा आसन्न; पण आन्व्यो नवी जाण्यो कोईए,
ज्रभो रह्यो चासन्न ॥ तु० १८ ॥ अंकुशना प्रहार पडे पण, नधि चाले
डम मात; घात देई देईने थाका, तव महावतना व्रात ॥ तु० १९ ॥ जयज-
य शब्द करे तव माहवत, लोके पण तव कीध; वीणा नाद रह्यो तव सुंद-
री, वरमाला गले दीध ॥ तु० २० ॥ नादसुंदरी इम विचारे, जीताणी हुं
आज; फूल वृष्टि देवी शिर करती, जयजय वामन राज ॥ तु० २१ ॥ दा
न दीए याचकने वांछित, लोक वखाणे दान; अहो कलाने अहो चतुराई,
वामन गुण निधान ॥ तु० २२ ॥ गुणवंतो एहवो ने रूपे, वामन छे ए दोष;
विधिने जरा जीर्णतानो ए, दोष तणो थयो पोष ॥ तु० २३ ॥ यतः ॥ श-
धिनि खलु कलंकः कंटकः पश्चनाले, मियशुवति वियोगो दुर्भगलं सुरूपे; ज-
लधि जलमपेय पंडिते निर्द्धनलं धनवति कृपणलं रत्नदोषी कृतांतः ॥ १ ॥
॥ पूर्वः ढाल ॥ अथवा वामन रूपे कोईक, दीसे दिव्य सरूप; वादलथी जिम
छायो दीसे, अद्भूत जिम दिन भूप ॥ तु० २४ ॥ वामनमां एहवा गुण न
धरे, विधि जिम अमृत सार; काचा कुंभ मांहीं जिम न धरे, जाण पुरुष
निरधार ॥ तु० २५ ॥ कन्यानी ए धिग् प्रतिज्ञा, धिग् विधि निंदित काम;
धिग् मुजने जिणे आणा दीधीं; धिग् ए कुमर निकाम ॥ तु० २६ ॥ त्रणे
कन्या रूप अनुपम, वाहली जीवन प्राण; दैवथकी वामन ए वरीओ, लोक
मांहे वूई हाण ॥ तु० २७ ॥ कांय थयुं ने कांय चित्तव्युं, ओलंये कुण दै-
व; दैव प्रमाणे आतम परिणति, चाले जेह सदैव ॥ तु० २८ ॥ ॥ यतः ॥
प्रारब्ध मन्यथा कार्य मिदं निर्व्यूढमन्यथा; तदिदं जातम संभाव्यं दैवं को-
लंघितुं क्षमः ॥ १ ॥ अन्नह चिंतियमाणं उदय पओगेण अन्नहा जायं; चिं-
तोदय विवरीयं तम्हानो चिंतए मुणिदा ॥ २ ॥ अवश्य भाष्येभ्यः नवग्रह

(२३०)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

ग्रहाः यथादिशाधावाति वेधसःस्पृहा तृणे न वासे नतया ऽनुगम्यते जनस्य
चित्तेन भृशा वशात्मता ॥ ३ ॥ यन्मनोरथ गतेर गोचरो यत् स्पृशंतिन गि-
रःकवेरापि स्वप्न दृत्तिरपियत्र दुर्लभा हेलयैव विदधाति तद्विधिः ॥ ४ ॥
॥ पूर्व ढाल ॥ इम चिंतानुर राजा पूछे, कला गुरुने एम; देश जाति कुल
एहनी भाखो, जाणो यथारथ जेम ॥ तु० २९ ॥ पंचम खंडे छठी ढाले,
श्री जयानंदने रास; पद्मविजय कहे सुणतां होवे, घर घर लील विलास
॥ तु० ३० ॥ सर्वगाथा १७५ ॥



दुहा.

मास माठेरो मुज कने, आव्याने थयो आज; पूछथु गुरु कहे में प्रथम,
कुण तुं आव्यो शे काज ॥ १ ॥ विषय नेपाल विजयपुरे, क्षत्री पुत्र हुं खां-
त, कला शीखवा कारणे, आव्यो लु एकांत ॥ २ ॥ अधिक स्वरूप न ए-
हनुं, जाणे कोई सुजाण; दिव्य अलंकरणादिके, दाने धनद प्रमाण ॥ ३ ॥
कला प्रयत्न घणुं करी, शीखवीओ साक्षात, अमने मूरखपणुं अति, एटला
दिन आख्यात ॥ ४ ॥ हवणां तो इंणे हुंशयी, कला देखावी कोय; जे दे-
खीने सुहु जना, चमत्कार चित्त होय ॥ ५ ॥ अलख सरूप ए ओलखो,
गुरु कहे एहनुं शूढ; चतुर होय ते चित्तवे, मानवी न लहे मूढ ॥ ६ ॥ वाणि
सुणी विकल्प करे, नरपति चित्त अनेक, वयरी परे ए वामणो, अमने थयो
अतिरेक ॥ ७ ॥

॥ ढाल सातमी ॥

॥ जिन वचने वैरागीओ हो धन्ना ॥ ए देवी ॥

राजकुमर हवे चित्तवे होभाई, सघला मली लही खेद; वामने आपण वि-
गोविआ होभाई, कीधो नक्रनो छेदरे सुणो मोरा भाई ॥८॥ वामणे ठगीआ वे
॥ए आंकणी ॥ मूर्खपणुं देखाविचं होभाई, आगलथी इंणे एम; समकाले कला
हाखवी होभाई, कन्या लीधी प्रण नेमेरे सु० ॥९॥ फोकट पाठनो श्रम करयो
होभाई, जो जाणता ए वात; तो आगलथी मारता होभाई, तो उपद्रव नविष्ठा-

तरे सु० ॥१०॥ हजीअ गयुं काई नथी होभाई, ए निराश्रय छे एक; कन्या
 लिए ते न खमी शकुंरे भाई, मारीए धरी मन टेकरे सु० ॥११॥ कुल शील कोई
 जाणे नहीं होभाई, कन्या लिए कुरूप; हासी पांमीए पंचमां होभाई, शुं करशे
 एह भूपरे सु० ॥१२॥ माया अपराधी एहने होभाई, मारंतां नवि दोश; मारता
 देखी मुकशे होभाई, वरमाला करी शोशरे सु० ॥ १३ ॥ करिय विचार
 आणा लही होभाई, सूरपाल एक राय; मुख्य कहे वामन प्रते होभाई, सां-
 भल तुं हितदायरे सु० ॥ १४ ॥ सहध्यायी छे अम तणो होभाई, तिणे क-
 हिए हित वात; नाटिक तो छे सोहिलुं होभाई, मर्कट मोर विख्यातरे सु०
 ॥ १५ ॥ कौकिल चांडालादिक घणा होभाई, गाये मनोहर गीत; वीण ताल
 बजावता होभाई, एंतो सर्व प्रतीतरें सु० ॥ १६ ॥ पण राय कन्या नवि वरे
 होभाई, तिम तुं पण नहीं योग्य; सुवर्ण घंटा नवि सोहेरे भाई, खर कंठे
 संयोगरे सु० ॥ १७ ॥ खीर भोजन नवि स्वानने होभाई, उंट गले मणिहार;
 तिम तुजने राज कन्यका होभाई, नवि सोहे किरताररे सु० ॥ १८ ॥ माला
 युक्त कारणे होभाई, वर तुज योग्य जे नार; नाटिकीआ परे कला करी
 होभाई, जीव तुं इण संसाररे सु० ॥ १९ ॥ अन्यथा तुज मरवुं थशे होभाई,
 जाणे तुं सवि तेह; तव क्रोधे वामन कहे होभाई, सांभलो हुं कहुं जेहरे सु०
 ॥ २० ॥ भाग्य कला नहीं तुममां होभाई, हजीअ न जाणो केम; कलावादे
 नकारा करथा होभाई, रणेजीवित लेवं तेमरे सु० ॥ २१ ॥ मुज नारी जेह
 निरखशे होभाई, तस जोशे जमराय; सूरपाल कहे वामणा होभाई, जो
 हुंश रण करणायरे सु० ॥ २२ ॥ तो ले शस्त्र तुं हाथमां होभाई, वामन बोले
 ताम; सुर असुरां पति जे होभाई, आघा आवो आमरे सु० ॥ २३ ॥ शस्त्र
 परिश्रम तुमे करयो होभाई, मुज जीतणने काज; पण चपेटो मुज हाथनो हो-
 भाई, नवि खमी शके सुर राजरे सु० ॥२४॥ तो तुम ससला उपरे होभाई,
 शस्त्र तणुं शुं काम, ऐरावणसुंढा परे होभाई, मुज कर शस्त्रने ठामरे सु०
 ॥ २५ ॥ विक्रम ते वक्तर भलुं होभाई, भाग्य सखाई जाण; रे तुमे मुज न-
 दि ओलख्यो होभाई, हजिअ लगीछो अजाणरे सु० ॥ २६ ॥ सातमी पां-

(२३२)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

चमा खंडमां होभाई, पञ्चविजये कहि ढाळ, श्रीजयानंदना रासमां होभाई,
थाशे मंगल मालरे सु० ॥ २७ ॥ सर्वगाथा २०३ ॥

दुहा.

सन्नद्ध थाओ तुमे सवे, शस्त्र लिओ संग्राम; कौतुक तुम पूरुं करुं, दे-
खो तुमे उद्दाम ॥ १ ॥

॥ ढाळ आठमी ॥

पारीरे जातिनु फूल सरगथी ॥ ए देत्री ॥

दुर्जय जाणी सहू सन्नद्ध थया, निज निज बल लेई साथे; मुंडित शिर
पांच आवी आगल, टोप आच्छादित माथेके ॥ २ ॥ आवो के अडिए के
साहमा सहू पहेला के द्वारे वाहला अमे लडशुं एह साथेरे; एह साथे एह
साथे अम वयरी देखो पराक्रम केहवुरे ॥ ए आंकणी ॥ क्रोधे ब-
लता पांच ते बोले, एहनेहाथे हणशुं, निज सेना लेइ आव्या विचमां,
अमे शरम नवि गणशुं के ॥ आ० ३ ॥ हांसी करतो वामन बोले, मुं-
डित शिर लज्जाणा; आव्या ते रुडुं करयुं हवे तुम, लाज छेदु जाओ उ-
जाणाके ॥ आ० ४ ॥ इंम सांभली क्रोधे चढ्या पांचे, वरसे वांणनी श्रेण;
व्योम पूरे वीजा पण वाणे, छांहि करी मानुं तेण के ॥ आ० ५ ॥ वामन
सिंह उठयो तव साहमो, पंच परमेष्टि संभारी; थंभ उपाडी ते मृग उपरे,
धाई चोट करे भारी केआ० ॥ ६ ॥ गिरिं श्रृंगपरे गजने तिहां पाडे, मा-
हवतने ते भमाडी; पारेवा परे गजने उछाले, केईक भूमि पछाडी के आ०
॥ ७ ॥ मूर्छावंतने दयालु न मारे, पापढ परे रथ भांजे; धनुष मोगर भाला
असिने गदा, चूरण करतो गाजे के आ० ॥ ८ ॥ क्षण गजने क्षण धरतीए
दीसे, सैन्य आगे क्षणमांहि, क्षणमां अंते रिपु बल हणतो, वीर्यवंत उत्सा-
हि के आ० ॥ ९ ॥ थंभ मुष्टि पद घात करीने, सादिनिषादिने मारे; पड-
तां उपडतां न लखाए, मार पडे संभारे के आ० ॥ १० ॥ मारवा उठघानें
हवे वामन, घाते मूर्छा आपे; कक्षा स्कंध पाद द्वय विचमां, ते पांचेने थापे

के आ० ॥ ११ ॥ उछाली पत्नीने ते सुपे, मानुं थापण कीधी; दासीओ पा-
से ते बंधावे, वली पतिए आण दीधी के आ० ॥ १२ ॥ शीतल उपचारे
जीवाढ्या, सैन्य गयुं सवि भाजी; सहुने प्राण पोताना वहाला, कोई न उ-
ठयो गाजी के आ० ॥ १३ ॥ श्रीपति राजानो सेनानी, सेना भागी जाणी,
राय आणार्थी शस्त्र भरीने, रथ लाव्यो तिहां ताणी के आ० ॥ १४ ॥ ते-
हने ओठभे वली उठ्या, निज निज सेना लेइ; क्रोधे चढीआ चंडपालादिक,
युद्ध करण आव्या केई के आ० ॥ १५ ॥ थंभ भमाडे निज अंग पाखल, शत्रु
शस्त्र न लागे: शत्रु सेना हणतो तिहां चाल्यो, पकडे सुभटने पागे के आ०
॥ १६ ॥ चक्रपरे भमाडी उछाले, दूर पडयो तस लेई, भूमि पछाडी मूर्छित
कीना, वली नर मोकले केई के. आ० ॥ १७ ॥ मूर्छित तेढावी चिकीत्सा
करे, वली कोई रथ शस्त्रे भरिओ; तिहां वेशी मारथीने भेरे, शत्रु
सैन्ये संचरिओ के आ० ॥ १८ ॥ चंडपालादिक वाण वरसता,
ते भट रथने रुंधे; वामन चोक फेर वरसे शर, मानुं सुभटनिज
नूधे के आ० ॥ १९ ॥ हयगय भट वीधे संग्रामे, रथ भागी धनु छेदे;
चंडपालनुं तुंडमुंड वेहु, मुंडे क्षुरभेपेदे के आ० ॥ २० ॥ वामन उपर
खडग लेइने, चंडपाल करे घात, वामन बंचावी ते खडगने, हुंटीने करे मु-
ष्टिघात के आ० ॥ २१ ॥ मूर्छा पमाडी तेहने वस्त्रे, वांध्यो जकडी जाम;
दृढरथ उठयो वामन साथे, वाण वरसे विहुं तामके आ० ॥ २२ ॥ क्षुर-
भे वामन तम मुंडे, लज्जाए नाठो तेह; इंणिपरे सात मुंड करी मुंक्या, ना-
ठा सहु गतनेह के आ० ॥ २३ ॥ बीजा पण कुवरोए विचारयुं, वामने सहूने
हणीआ; नहीं कोई ग्रास वधारे न कीरति, मरणमां किम जाड गणिआके
आ० ॥ २४ ॥ ईम जाणी जीवितना इच्छक, नाठा जीवित लेई; तास से-
नाने धीरय आपे, आसासना घणी देई के आ० ॥ २५ ॥ फूल वृष्टि करे
वामन उपर, व्यंतर देव रसाल; पन्न कहे ए पंचम खंडे, आठमी ए थई
दालके आ० ॥ २६ ॥ सर्व गाथा २२९

दुहा:

श्रीपति राजा सज हुए, एहवुं देखी एय; आवी प्रधान आखे इरुयुं, क-
हो जाशो तुमे केथ ॥१॥ इम उद्धतपणुं आचरी, आवरु जाशे आज; मुंडे म-
स्तक वामणो, किम करो तेहथुं काज ॥ २ ॥ ए वामनने आगले, सहु
भट तृणा समान; मरवानुं किम मन करो, समजण आणो सान ॥ ३ ॥ सैन्य
सहित समझावशे, वामन वारू रीत; शी कीरति थाशे कहो, जो न थई तुम
जीत ॥ ४ ॥ जीवता मुकशे जाणीने, ससरो वामन सस; मुख किम दाखशो
मानमां, मोटी राखो मस ॥ ५ ॥

ढाल ९ मी.

सांभळरे तुं सजनी म्हारी रजनी किहां रमी आन्व्यांजी ॥ ए देशी ॥

सांभळरे तुं राजन वयणां, मंत्रीश्वर इम भासेजी; प्रभु होय ते हितकारी
जाणे, सेवक सस प्रकासे ॥ ६ ॥ डर नवि धरिएजी ॥ पूर्व अपरसवि वात
चितवी करिएजी ॥ ए आंकणी ॥ शस्त्रविना एकलडे इणे, कुमर विडंब्या
सधलाजी; एहने आगल शक्र सरिखा, दीसे अतिशय नवला ड० ॥ ७ ॥
कलावंतने वलीओ एहवो, कन्या भाग्ये पाम्योजी, वर ए हर्पंतुं थानिक
पामी, खेद कहो किम जाम्यो ड० ॥ ८ ॥ एह पराक्रम एह कला वली, एह
दया ने दानजी; वामनमां गुणाविण नवि संभवे, सस कहुं राजान ड० ॥ ९ ॥
विद्यादिक शक्ते करी वामन, क्रीडा करे धरतीएजी; महा पुरुष
कोई ईच्छारूपी, ए अनुमान वरतीए ड० ॥ १० ॥ कुलदेवी पण
कुसुम वृष्टि करे, एह अरथ पण धारोजी; प्रार्थीओ कला परे
करशे, सहज रूप निरधारो ड० ॥ ११ ॥ प्रारथना करो तेहनी एहने,
वाणि सुणी हितकारीजी; हर्ष लही वाजित्र वजडावे, नरपति चित्त वि-
चारी ड० ॥ १२ ॥ वंदी विरुदावली चोलंते, गायन गीत ते गावेजी; मंत्री
प्रधान सहित हवे भूपति, वामन पासे आवे ड० ॥ १३ ॥ दान देतो तेहने
ते वामन, रथथी उतरी प्रणमेजी; स्वसुर आशीश दिए जमाईने, आर्लिगन
दिए क्षणमें ड० ॥ १४ ॥ कनकासन उपर वेसारी, सुख जय पूछे रायजी;
वामन कहे संग्राम कलामां, हुं नवि जितो प्राय ड० ॥ १५ ॥ पण मुज ह-

दये पंच परमेष्ठि, मंत्र वसेछे मोटोजी; सुरपण वश होए ग्रह पण न नडे,
विघन तणो थाय त्रोटो ड० ॥ १६ ॥ उपद्रव न होए दुष्ट भूपनों, लक्ष्मी
चाली आवेजी; सांभली परखदा जैन धरमने, स्तवता अतिशय भावे ड०
॥ १७ ॥ वीर वांध्या ते सघला मुक्या, मुंडमुंडित चंडपालजी; तेहनी हांसी
करतो कुंअर, हाश्य करे नरपाल ड० ॥ १८ ॥ चंडपाल हसतो तव बोले,
पंचगुं दुख नवि धरिएजी; औषधी जलथी ह्यगय भट सहु, वामनें साजा
करिए ड० ॥ १९ ॥ प्राए कृपालु सुभटने उपर, सापेक्ष मुक्या घातजी;
तिणे बहु जननो घात न हुओ, हवे भूपति कहे वात ड० ॥ २० ॥ जिम
गुण प्रगट करया तुम पोते, तिम प्रगटावो रूपजी; दाक्षिणथी औषधी पर-
भावे, कीधुं शुद्ध स्वरूप ड० ॥ २१ ॥ ते देखी सहु विस्मय पाम्या, आणंद
अंग न मायजी; जय जय शब्द कोलाहल हूओ, वाजित्र गीत गवाय ड०
॥ २२ ॥ इण अवसर कोई दूरथी आंन्यो, वंदी ओलखी भासेजी; भाग्ये
भमतां दीठा तुमने, क्षत्रवैश्रवण प्रकासे ड० ॥ २३ ॥ लक्ष्मी वरसी जग
तृपतो करयो, ते सूर्णी पूछे रायजी; क्षत्रवैश्रवण कहो कुण भाख्यो, अम-
मन कौतक थाय ड० ॥ २४ ॥ तव वंदी पवरथ राज्ञानी, पुत्री परणवा
आदेजी; कमलप्रभ भूपालनी पुत्री, परण्या लगे अविवादे ड० ॥ २५ ॥ चित्र-
कारि चरित्र कहुं सघलुं, तव सहु करे विचारजी; आपण नवि हारया पा-
मरथी, एतो मोटो कुमार ड० ॥ २६ ॥ सहु भेला मली कुमरने कहे, अपराध
कीध अन्नाणेजी; ते खमज्यो अपराध तुमारुं, कोई स्वरूप न जाणे ड० ॥ २७ ॥
कुंअर पण अपराध खमावे, प्रीति वधी मांहोमांहेजी; कन्या एह स्वरूप दे-
खीनें, हरष धरे उत्साहे ड० ॥ २८ ॥ भूपति निज चित्रशाला मांहि, देइ परि-
वारनें राखेजी; एक दिन पाणिग्रहणने हेते, नरपति एणिपरंभाखे ड० ॥ २९ ॥
पाणिग्रहण करो कन्यानो, कुअर कहे तव वाणीजी; माहरे नांही प्रयोजन
एहलुं, माहरे छे बहु राणी ड० ॥ ३० ॥ कला करण रण जय तो केवल, कौति-
कथी में कीधुंजी; अणजाणे कुले पुत्री देवी, ए नवि किहांए प्रसीधुं ड० ॥ ३१ ॥
कलावंत कोई राजकुवरने, कन्या आपो एहजी; एहनी पण महेनत थाए
सफली, तव भूपति कहे नेह ड० ॥ ३२ ॥ रुहुं वरयुं एम देवीए भाख्युं, प्रतिज्ञा पण

(२३६)

श्री जयानंद केवलीनो रास.

पूरीजी; बलात्कारथी इम मनावी, विघन सवे चकचूरी ह० ॥३३॥ शुभ ल-
गने परणावे ऋणे, महा महोत्सवथी रायजी; गजरथ घोडा पायक आपे, मुं-
दर मंदिर ठाय ह०॥३४॥घरवाखरो वलीदेश ते आपे,क्रीडा करे स्त्रीसंगेजी;
साते क्षेत्रे धन ते वावरे, देव गुरु पूजे रंग ह० ॥३५॥ आय प्रमाणे व्यय ते
करतो, एहना पुण्यथी वाधेजी; राज्य राजानुजन गुण गाए, नित नित
इम आराधे ह०॥३६॥ परदेशे पण जय श्रीपामे,पुण्यवंत जे प्राणीजी;आ-
दर करीने पुण्य करो भवि, जिनशासन इम जाणी ह०॥३७॥ नवमी ढाल ए
पंचमखंडे, पंचमखंड पण हूओजी; एक पिंडनी पुण्य प्रभावे, उपराजण तुमे
जूओ ह० ॥३८॥ श्री गुरु ऊत्तमविजय पसाये, पद्मविजय इम भाखेजी; श्री
जयानंदना रासमां जाणो, दिन दिन अधिक उल्लासे ह०॥३९॥ सर्व गाथा
२६८॥ इति श्रीमदुत्तमविजय ग. विनेय पं. पद्मविजय ग. विरचिते श्री श्री
जयानंद केवलि चरित्रे प्राकृत प्रबंधे नाटयमुंदरी, गीतमुंदरी. नादमुंदरी,
परिणयन नाम पंचम खंडःसमाप्तः॥ चतुष्क खंड मीलने गाथा २९८७ पंचम
खंडे २६८ सर्वगाथा ३२५५ पूर्व खंड चतुष्के उक्त श्लोक ४९ पंचम खंडे
उक्त श्लोक १० सर्व उक्त श्लोक ५९ सवइओ १ समस्या १ दुहो १

खंड छठो.

दुहो.

शांतिनाथ प्रभु सोलमा, दान अभयदातार; पदकज प्रणमुं पासना,
चिंता चूरणहार ॥१॥ पंच खंड पूरण करया, चढते रंगे चंग; हवे छठोकहुं हुं-
सथी, आणी मन उछरंग ॥२॥ क्रीडावनमां कडितां, धरम करंतां धीर; काल
केतोइक काढतो, व्यवहारे वडवीर ॥३॥

खंडछठो. ढालपेहली.

कडुआं फल छे क्रोधनां ॥ ए देशी ॥

एक दिन रमवा नीकल्यो, श्री जयानंद कुमार; रमवाने उद्यानमां, तिहां
देखे तिणीवार ४ चोरी व्यसन छे आकहं ॥ ए आंकणी ॥ खर उपर अव-
ले मुखे, शिर पटिआं पाढी; वेसाढी राख चोपढी, मुखे मेश लगाढी. चो.
५ आक्रोश त्राडना बहु करे, छोकरां धूल उडावे; कांकरा नांखे अतिघणा,
फूटुं वाजुं वजावे चो. ६ व्रण जर्जरित भूख्यो घणुं, नरक वानगी आवे; पा-
पनी मूरति ते वनी, मारवा लेई जावे चो, ७ बध्य मंडन देखीकरी, कोट-
वालने पूछे; कूणए केम विटवना, एहनेद्यो शुं छे चो. ८ तेह कहे आज रा-
तमां, व्यवहारी गेह; खातर देइ द्रव्य काढीओ, जन जाग्या तेह चो. ९ लो-
के कोलाहल करयो, अमे पोहता ताम; रायनी आण थकी अमे, मारवा जा-
उं आम चो. १० पापनां फळ एहवां कक्षां, चोरनी गति पण एह; तव कु-
मर मन चिंतवे, एह अनिखनुं गेह चो. ११ दाता नाम छे माहरुं, ए चोरी
करे एम; पीडा पामे अति घणी, वांक ते माहरो नेम चो. १२ इम विचारी
दया करे, मुंकावी तेह चोर; घर लावी न्हवरावीओ, तिम भोजन शुभ ठोर
चो. १३ क्षण रहीने तस पूछिउं, कुण तुं किम करे चोरी; कुमरने ओलखी
चोर ते, उठी हैयामां होरी चो. १४ नीचुं मुख करीने रहे, तव बोले कुमार;
अभय दीधुं तव बोलीओ, गदगद वयण प्रकार चो. १५ पापीनुं चरित
मुणावबुं, योग्य नहीं शुं भाखुं; रूपस्वरे करी ओलखी, कुमर कहे मुण आ-
खुं चो. १६ वांधव माहरो रुअडो, नामे सिंह कुमार; एहवी अवस्था किम

(२३८).

श्री जयानंद केवळीनो रास

लह्या, भाखो तेह विचार चो. १७ स्नेहे आलिंगन करी, बेदी पूछे वात; पालनुं राज्य किहां गयुं, किम व्रणनो व्रात चो. १८ कपट पोतानुं गोपवे, कहे कलपी वात; सुता तुमे देवी मंदिरे, हुं पोहरीओ रात चो. ॥१९॥ सिंह दीठो में आवतो, तेहने करवा त्रास; पूंठे दूर गयो वही, पाछो वलीओ उल्लास चो. ॥२०॥ भमतां मारग भूलीओ, थयो जब परभात; देवी देहरे तब आवीओ, मनमां धरी भ्रात चो. ॥२१॥ तुमने नवि दीठा तदा, जोया परवत पाल; जलधिमां रत्न गया परे, आशा त्रूटी भाल चो. ॥ २२ ॥ तुज वियोगेपालुं पालने इण समे महासेन; मुज धरतीने दावतो, आव्यो लेई सेन चो. ॥ २३ ॥ हुं पण साहमो नीकल्यो, युद्ध एहशुं कीधो; मुज लश्कर हारी गयुं, मुजने बांधी लीधोचो. ॥२४॥ जाजरो कीधो प्रहारथी, नाख्यो वंदिखाने; राज्य करे वे पालनुं, मन मद बहु आणे चो. ॥२५॥ चामडे मढीओ मुजने, गिरि टुंक चढावी; नाख्यो पलास पत्रे पड्यो, कर्म होय जे भावी चो. ॥ २६ ॥ भावी भावथी वरशीओ, मेघ अकाले ताम; चरम गंध तब उछल्यो, आवी शीआल ते ठाम चो० ॥ २७ ॥ चरम भरुयुं तिणे वायरो, आव्यो चेतना पामी; मूर्छा गई अभाग्यथी, दुख तणो विसरामी चो० ॥ २८ ॥ दुखीआने मरण ते दोहिलुं, भमतो पूरवर गाम; इहां आवी भिक्षा भमुं, व्रणे जर्जर आम चो० ॥२९॥ भूख्यां व्रण दिन वही गया, भिक्षा नवि लाधी; चोरी कीधी इणिपरे, भूखे देहडी दाधी चो० ॥ ३० ॥ यतः ॥ वृभूक्षितः किंनकरोतिपापं, क्षीणानरानिः कुरुणाभवंति; आख्याहिभद्रे प्रियदर्शनस्य, नगंगदत्तःपुनरेतिकूप १ पूर्वढाळः आगल तुमे जाणो सवे, जीवाड्यो बहु वार; ऊरणीओ न थाळं किमे, दासपणे पण धार चो० ॥ ३१ ॥ पक्वविजय पहेली कही, छहे खंडे ढाळ; श्री जयानंदना रासमां, आगल वात रसाल चो० ॥ ३२ ॥



दुहा.

वचन अगोचर वालहा, पूरवलुं मुज पाप; पापुं आपंदा पग पगे, अधम संगति लही आप १ यतः अधम संगति दुर्मति दुःस्थताः, प्रतिपदबंधबंध

पराभवाः; प्रियवियुक्त्यरिभीति दुरापदः, खलुफलानिहिदुष्कृतशास्त्रिनः १
दुहा ॥ कुमर सुणी किरपालुओ, कहे तुमेनकरो खेद; सहुने विपद संसारमां,
न लहे पण निरवेद २ रमणिक राज्यने रीद्धिए, ताहरुं जाण तहत्ति; ल-
क्ष्मी पण तेहज लहो, निज शुं भुंजे निराति ३ व्रण टाल्यां औषधी वदे,
आपे वस्त्र अलंकार; दातां कल्प पादप परे, गंभीर गुणगणधार ॥४॥ भाई
पणुं जनमां भण्युं, परगट राखे पास; सुंप्यां काम एहने सवे, आदर करी
उछास ॥५॥ लहिए धन लखखो गमे, न मले भाई निदान; निज देश चित्त-
क नारिने, अनुमत करे अचान ॥ ६ ॥

हाल वीजी.

तट जयमुनानोरे अति रलियामणोरे ॥ ए देशी ॥

कुमरे दीधुरे, धन विलसे सदारे, लोकमां मान्य थयो सिंहसार; संपदा
कुमरनी देखी चित्त वलेरे, निज आपद संभारे गमार ॥७॥ दुरजन ते स-
ज्जन न होए कदारे ॥ ए आंकणी ॥ देखी देखी दुबलो ते होएरे, जेम ज-
चांसो वरपा काल; देखी तेज कुमरनुं रविपरेरे, अस्त वांछैजिम घूक ते का-
ल दु० ॥ ८॥ मन चित्ते संपद मुज नवि मलीरे, तो हरुं एहनी कोय उपाय;
शत्रु वधतो उवेखुं नहींरे, मारुं तो ए सवि मुज थाय दु० ॥ ९ ॥ भूप सेवा-
थी काम सीझे सवेरे, इम चिंती हवे कुमरनी साथ; जईने रायनी सेवामां रै-
हेरे, अनुक्रमे नरपति कीधो हाथ दु० ॥ १० ॥ दुष्टनो आशय मालम नविप
डेरे, कचरामां जिम कंटक होय; मुखथी मीठो धीठो हृदयमार, तेहनी रीति
न जाणे कोय दु० ॥ ११ ॥ जाण कुमर प्रिया जाणी दुष्टतारे, कुमरने कहे
पण माने नांही; सज्जन ते सहुने सज्जन लहेरे, दुष्ट तेसहुने गणे दुष्ट मांहि
दु० ॥ १२॥ सूरय अजुआलुं देखे सदारे, घूक ते देखे निख अंधकार; जे जे-
हवो होय ते तेहवो होएरे, चोर तथा शाहुकार दु० ॥ १३ ॥ लोक विचारेरे
चोरने किम करेरे, एवढो कुमर आदरमान, एहने भाईरे एहवा नवि होएरे,
वली कीधूं वहु धननुं दान दु० ॥ १४ ॥ एक दिन पूछेरे कुमरने भूपतीरे,
एहने किम करो आदरमान; गुणथी अधिकारे बीजा छांडीनेरे, सींह सी-
आलने एह उपमान दु० ॥ १५ ॥ कुमर कहे भाई माटे आदर करुंरे, पण

नत्रि माने ते राय; एक दिन राय पूछे सिंहसारनेरे, कौतिकथी निरमाय दु०
 ॥ १६ ॥ ते पण अवसर पामी माया करीरे, बोले इणिपरे वाण, में उपगार
 करयो पूर्वे घणोरे, मानेछे तेह जाण दु० ॥ १७ ॥ वधती वात कहेवाए नहीं
 इहारे, सम दीधाछे ते माट; कुमरे निपेध्यो छे वली तुमनेरे, दुख थाए इ-
 णि वाट दु० ॥ १८ ॥ भूपति कौतिक आशंका भरयोरे, भूप कहे तोहि भा-
 ख; जो मुज मानतो होय कोई रीतथीरे, तो कांय छानुं म राख. दु० ॥ १९ ॥
 कुमर थकी तुम आणा मोटकीरे, स्वामि द्रोहनं पाप; में सांभालिउं छे तिणे
 भापिएरे, सांभलो कहुं ते आलाप दु० ॥ २० ॥ विजयपुरे जयनाम राजा
 तणोरे, सुत हुं तागी अथाग, ते कारण चोरी पण हुं करुंरे, तव नृप कहे ध-
 री राग दु० ॥ २१ ॥ अहो निज दोष कहेछे केहवोरे, सखवादी शिरदार;
 इणपरे राय विचारे निज मनेरे, हवे आगल कहे सिंहसार दु० ॥ २२ ॥
 मधुगीत नामे गायन रूअडोरे, उपनो कुल ते चंडाल, मधुर स्वरे करी राय-
 ने रीझवेरे, करे परसाद भूपाल दु० ॥ २३ ॥ सुरगीत नामे सुत थयो तेहनेरे,
 सोभागी सूखीर; वाल थकी पण सुखर अति घणोरे, मज्ञावंत सुधीर दु०
 ॥ २४ ॥ सौभाग्यादिक गुण आगर थयोरे, पंकजमां जिम गंध; नीच कुले
 पण तेहने तस पितारे, शीखवे ते रागबंध दु० ॥ २५ ॥ मुज आगल ए गाए
 सुखेरेरे, दान देउं सुविशाल; वीजी कला इच्छे पण को नहींरे, पाठवे जा-
 णी चंडाल दु० ॥ २६ ॥ देशांतर जावानुं मन करेरे, पण धन नहीं निज
 पास; मुज पासे माग्युं धन में तदारे, चितव्युं करे ए अभ्यास दु० ॥ २७ ॥
 शीखी कला मुजने देखाडशेरे. आप्युं मे धन कोडि; जई विशालपुरे वि-
 द्या भण्योरे, धन आपी मन कोड दु० ॥ २८ ॥ क्षत्रीपणुं निज लोकमां दा-
 खतोरे, दाखवी कलाने विज्ञान, कोइक इष्ट आराधी सुर लिपरे, औपधी
 जा जुल्यमान दु० ॥ २९ ॥ इष्टरूप करतो प्रथिवी भमेरे, रीझवे लोकना
 वृद; मन वांछित धन मेल्युं लोकथीरे, करी उपगार अमंद दु० ॥ ३० ॥
 कोइ उतकृष्ट कलाथी परणीओरे, राजकन्या ठाम ठाम; भाग्य कला गुण
 आगल कुण जुएरे, जातिने कुल अभिराम दु ॥ ३१ ॥ मुज संगतिथी शी-
 ख्यो दाननेरे, दाने दोष ढंकाय; फिरतो फिरतो इहां आन्यो पछेरे, तुम

थी छानुं न कांय ॥ दु. ३२ ॥ छठे खंडे बीजी ढालमारै, दुर्जन एहवा हाये;
पबविजय कहे तस विश्वासडोरे, मत करजो तुमे कोय ॥ दु. ३३ ॥ सर्व
गाथा ६६

दुहा.

विण ओळखे वारु परे, मुकाठ्यो इणे मुज; लाव्यो निज घर लक्षणें, ओ-
ळख्यो मुज ए गुह्य ॥१॥ देई धन दोलत तदा, सहुमां करयो सतकार; ए-
कांते मुज आखिउं, सुणरे तुं सिंहसार ॥ २ ॥ मुज कुल मत परकाशजे,
सम दीघा सो वार; वचने इंम विलखो थई. वांध्यो बहु प्रकार ॥ ३ ॥ रा-
खे पासे रीतिशुं, विण चित्ते विश्वास; करे बहु मान मन कातिए, आपे
नहीं अवकाश ॥४॥ तुम. आणावशथी तुरत, गोप्य कहुं गोस्वामि; गुणवंत
कुल गणिए नहीं, अमसन्न मत हो आम ॥५॥ सांमळी नृप विस्मय लह्यो,
मनमां क्रोध न माय; वांछित फल्यां विचारिने, सिंह उल्लास सवाय ॥६॥
सिंह विसरज्यो शुभ परे, क्रोधे नृप अकळाय; जैन भूपने पण जुओ, दोष
अण दुखदाय ॥ ७ ॥ यतः॥तस्मिन् दुर्बलकर्णेश्च, मन्विमृदय विघायिताः॥
स्वैरित्तं चोति जैनेपि, संति दोषा स्त्रयो नृपे ॥ १ ॥

ढाल ३ त्रीजी.

मारी सहीरे समाणी ॥ ए देशी ॥

नरपति चित्ते क्रोध भरायो; जूओ मुज कुल इणे विटलायोरे; धिग् धिग्
ए जमाई ॥ पापीए बहू नृप कुल विटलाव्यां, सहुने दुख इंणि परे आप्यां
रे ॥ धि०८॥ कूल नवि पूळ्युं राभस वृत्ते, कुमरीओ दीधी मन प्रीतेरे धि०
पंक्तिए वेशीने भोजन करिए, कहो किम इणि परे पिंड भरिएरे. ॥ धि०९॥
क्षत्रवैश्रवण ए नाम घरावी, करी धूर्त्त विद्या इंणे ठावीरे. धि०, पबगरथ
पबप्रभ छेतराआ, मारां पण वस्त्र वेतारिआरे. ॥ धि० १० ॥ राज्यांतरमां
वात विस्तरशे, तो मुज निंघा. करशेरे धि०; कुल मुज तजशे ने हांसी
करशे, ए किम मुज प्रवहण तरशेरे ॥ ११ धि० ॥ आजज मारीए

रयणिये एह, तो आबरु रहे रेहरे धि०; इम चिंतवी दोग घायक
 तेडे, विश्वासीने तेडीनेडे रे ॥ धि० १२ ॥ तुरगारूढ जे आजनी
 राते, राज मारगे थइ जातेरे धि०; विहु जण मिलीने मारजो तेह, कोई
 आगल कहेज्यो म एहरे ॥ धि० १३ ॥ अंगीकार करीं ते आदेश, रक्षा शु-
 नक परे ते देशरे धि०; सावधान थई वगर विचारे, रहेते ताकी ति चारेरे
 ॥ धि० १४ ॥ कोइ नर मुके श्रीजय पासे, ते जई इम प्रकाशेरे धि०; कां-
 इक कार्यनो करवा विचार, नृप तेडे इण वाररे ॥ धि० १५ ॥ सरलपणे सु-
 णी श्री जयानंद, धरता विनय अमदरे धि०; मुकी शब्दा धरी विश्वास.
 जब जावाने ऊछासरे ॥ धि० १६ ॥ इविपुण स्त्रीओ तव कुसरनी बोले, सरल
 नहीं तुम तोलेरे, पिल प्राण आधार॥ नीति शास्त्र जाण कहाओ, नवि
 विचार मन लओरे, ॥पि० १७॥ इयो अवसर आ आलोच केरो, पाछली
 रात अंधेरोरे पि०; तेडवानो नहीं अवसर स्वामी, तुमे गुण गणना धामीरे
 ॥पि० १८॥ नर नारिनी नसंशा करिए, सरलपणुं निख धरिएरे ॥पि०॥ फूले व-
 नस्पति जे अकाले, अरिष्ट याए सरवालेरे ॥पि० १९॥ दुष्ट कारण विण इं-
 णहीज वेला, तेडे न एम एकेलारे पि०; नृप चित्त जूदुं ने जूदी वाणी, किरि-
 आ भिन्न वखाणीरे ॥पि० २०॥ जूदुं फल वेश्यानी रीते, खबर पडे नहीं
 चित्तेरे पि०; ते कार्य कहो किणीपरे करिए, जेहमां संशय धरिएरे ॥ पि०
 २१॥ भूप विश्वास न करिए विशेषे, ऋण अवगुण जगत देखेरे, पि० सर्व का-
 र्य करता सिंहसार, मोकलो तस इण वाररे ॥पि० २२॥ इये कामे कहो आ-
 वश्ये एह, इण अवसर जाश्ये न जेहरे पि०; न्याय युक्त ए सांभळी वात, कुमर
 चित्त हरखातरे, ॥पि० २३॥ तेडी सिंहने भाखे एम, भूप तेडे तुम नेधरे, पि०
 पृछवा तेडयो मुजने राय, घात कुमारनो उपायरे ॥ पि० २४ ॥ भाखिष मन
 मान्युं तिहां जाई, सिंह चित्ते इम भाईरे पि०; तुरगारूढ थइ हवे चाल्यो,
 अर्द्ध मार्ग जई म्हालयोरे ॥पि० २५॥ दोग पासे दोग वाणथी मारयो, पडि-
 ओ मूर्छाए धारयोरे पि०; भाई द्रोहनुं फल एह पाय्यो, पर चित्तव्युं निज
 यायोरे ॥पि० २६॥ ते पुरुषे जइ रायने आख्युं, काम कर्तुं तुमे भाख्युंरे, पि० ॥

प्राण भूपने न होय विवेक, हर्ष लहो अतिरेकरे ॥पि०॥ २७ ॥ यतः॥ वि-
वेको दुर्लभः प्रायो, विशेषोमहता मिह; धनाढ्य नृप दैवेषु, समनागपि-
नेक्ष्यते ॥१॥ पूर्व ढालः कोलाहल सुणी कोटवाल आयो, वहार मोकले नर
सायोरे पि०; कोईक नरे कहीं कुमरने वात, सांभली मन खेदातरे ॥पि०॥ २८ ॥
नारिओ कहें स्वामि तमे दीहुं, नृपनुं कार्य अनीतुंसे पि०; मान्युं न होत
जो अमचुं वयण, शी गति होत अम सयणरे ॥पि०॥ २९ ॥ आजयी रहेज्यो हवे
सावधान, राज दुर्बल होय कानरे पि० खल संगतरे थइ रायने भूंडी, एह
वात नहीं कूडीरे पि० ॥ ३० ॥ सरस्वती स्त्री तिणे तुम चित खेले, नरने
दुरेमेखेरे पि०; कुमर केहे स्त्रीने इम वयणां, तुमे मुजछो जिम नयणारें
॥पि० ३१॥ नारिने इम आणंद पमाडी, वचन युक्ति कहीं जांडीरे पि०; पति-
व्रता जे भामिनी होय, भर्ता सम नहीं कौयरे पि० ॥ ३२ ॥ छठे खंडें त्री-
जीं ढाल, सुगतां मंगल मालरे पि०; पद्मविजय कहे आगळ देखी, दुर्जन सं-
ज्जन विशेषोरे. पि० ॥ ३३ ॥ सर्वगाथा ९८ ॥

दुहा.

जीवतो सिंह होए जदि, तो लावो ततकाळ; मोकले इम कहीं मानवी,
श्रीजयानंद संभाल ॥ १ ॥ लाव्या सास लेतो थको, औषधीं जळः तब
आण; संज कीओ छांटी शुभ परे, उत्तम नर इम जाण ॥ २ ॥ यतः ऊप-
कारिणिं वीतमत्सरेवा, सदयस्त्रयदितत्रकोऽतिरेकः ॥ अहिते सह सापराध लुब्धे
सदयं यस्वमनःसतांसधुर्यः १ मरण आवें क्षण क्षण मने, शुकावे ए मुज;
एहथी शी आपद अधिक, सिंह विचारे मुज ॥ ३ ॥ घाताए आपद धरी
अन्य स्थानक अण पाम; पुण्य रहित मुज ऊपरे, मानु-मुंकार्वी माम. ॥४॥
दुबळी वाडें देखीए, अथवा छिद्र अनेक; अथवा कामः इणे कर्युं; अंधारे अ-
विवेक. ॥५॥ एहज अर्थे इणे करया, बहु सत्कार बनाव; जाण्यो धूर्तमें अ-
जयी. जिणे करयो एह जमाव ॥ ६ ॥ ऊपकारने लहे अपक्रिया, तेह नोचे.
तिणी वारः सूर्य किरण भास्वर घणुं; तम लहे धूक तिचार ॥७॥

ढाळ. ४ थी चतुर्थ.

रहिओरे आवास दुवार ॥ ए देशी ॥

जीवाढी सिंहने सूता कुमार, निरभय थइने सिंह परे तदाजी; सूतो न
वीहे मृगथीरे सिंह, पण तस पत्नी शंक धरे सदाजी ॥८॥ सुभटोने कहे
तुमे थाओ सावधान, जालवो पोल प्राकार भली परेजी, रायने जईकहे को-
इक वात, सिंह मारयो कोइ वयरीए इणिपरेजी ॥९॥ राजारे, पांमे मनमां
खेद, चितेरे विपरीत कारय किम थयुंजी; चितव्युंकांयने नीपनुं कांय, दैव
वांके सहुं वांकु थइ गयुंजी ॥१०॥यतः॥ अन्नहचितियमाणं, ऊदयपओगेण-
अन्नहा जायं; चितोदयविवरीयं, तह्मा नो चितए मुणिंदा१ पूर्वं ढाळः मार-
ण योग्य न आव्यो एह, पालन योग्य ते हितुओ इंम मुओजी; गोप्य जे वात
ते थई परगट्ट, काम न सीधु माहरुं किम हूओजी ॥११॥ खाधुं अमंक्ष्य ने न
गयो ताव. व्रतनोरे भंग थयो ए चित दहेजी, गोत्रनो ध्वंश करयो वली
राज्य, वलीयारे वयरी आवीने ग्रहेजी ॥१२॥ हाथ वल्या न खवाणो पूंख,
एह द्रष्टांत ते माहरे नीपनोजी; मारवो प्रगटपणे करी जोर, एहधुरे नरप-
ति चिसमां ऊपन्युंजी ॥१३॥ सुभट सहस गमे सन्नद्ध बद्ध, मोकळे सूतो
मारो एहनेजी; सहस गमे मली आव्यारे तेह, कुमरनी पोले मद बहु जेह-
नेजी ॥१४॥ लोह मोगरथी भांजेरे पोल, तेटले पोल ऊघाढी कुमर भटेजी;
तेहधुरे करवा मांडयुं युद्ध, वीट्यारे तेहने वलने ऊनकटेजी ॥१५॥ कुमर भ-
टे बहु देखाडयो त्रास, नाठारे नृप भट्ट नृपना गेहमांजी; कुंजमां जिम पेसेरे
शियाळ शक्ति न रही लवलेश ते देहमांजी ॥१६॥ कुमर भटे अम नसव्या रे
स्वामि, रविकर जिणीपरे मोहटुं तम हणेजी; सांभळी क्रोधे चढीओरे राय,
भेरी वजडावे विहाणे मद घणेजी ॥१७॥ युद्ध करणने मलीयुरे सैन्य, जाग्योरे
कुमर कृस विहाणां तणांजी; करीनेरे रमवा सोगट पास, वेसेरे नारिने क-
ही वयणां घणांजी ॥१८॥ सैन्य सहित नृप आवतो जाणि, तूरनी कटुक ध्व-
नि मुणी कानमांजी; भयथीरे भ्रांत थई कहे वाणि, सांभलो स्वामी कहुं ते
सांनमांजी ॥१९॥ नृप भट तुम भटे भगव्यारे स्वामि, क्रोधेरे भूप भराणो

आवीओजी; तुमचो रे निग्रह करवा काज, सैन्य लेइने किम नवि भावीओ-
 जी ॥ २० ॥ क्रीडानो अवसर नहीं इणवार, ल्यो करवाल ते शत्रु कारणे-
 जी; अमनेरे रमवा मन नवि थाय, वीहकेरे मन नवि रहे अम धारणेजी ॥
 ॥ २१ ॥ बोलेरे लीलाए हसीने कुमार, शस्त्र विना बहु कुमरने जीतीआ-
 जी; बलिआरे बलश्युं आन्वाता तेह, माहरी भुजाए सह्रए विगूतीआजी
 ॥ २२ ॥ क्रीडा करो तुमे निरभय चित्त, क्रीडारे करवा वेठी वण मनेजी;
 स्त्रीना स्वभावथी शंकारे धारि, सैन्य सजावे दाखवी नयननेजी ॥ २३ ॥
 कुमरना मंदिर सनमुख ताम, जातारे देखे सचिवादिक सह्रुजी; काल आवे
 जब गोधाने ताम, जाएरे बांधरी घाढे ते बहुजी ॥ २४ ॥ आवीने प्रणमे
 भूपना पाय, वीनवे करजोडी इम रायनेजी; सैन्यश्युं चाल्या कुंण अरि द्वा-
 र, कोनेरे मारश्यो इणिपरे घाईनेजी ॥ २५ ॥ राएरे भाख्यो सचि वि-
 रतंत, सिंहे जे भाख्यो सघलो ते सुणीजी; भाखेरे सचिव ते खलनीरे वाणी,
 सांभळी अवगणो केम न तुमेगुणीजी ॥ २६ ॥ कारण विण खल शत्रु कहा-
 य, धरतोरे मत्सर परगुण देखीनेजी; कांटारे साहमो जाएरे ऊंट, फल फू-
 ले पूरी वाढी ऊवेखीनेजी ॥ ७२ ॥ यतः ॥ खलो मृगयते दोषान्, गुणपू-
 र्णोपि वस्तुनः; वने पुष्पफलाकीर्णे, करभःकंटकानिव १ पूर्वढाल पापीरे खल
 पण तेहथी अधिक, खलनी जे वात सुणे काने करीजी; खलनीरे पूंठ पूरे
 तेह जीव, मानुरे दुरगति जातां मन धरीजी ॥ २८ ॥ मोहटा ते विरुद्ध न
 सांभळे कान, आपे ऊपान के मुख भांजे तदाजी; कंटक सरिखा खलनेरे
 जाणि, आदर न दिए संत खलने सदाजी ॥ २९ ॥ यतः ॥ कंटकानां ख-
 लानांच, सहश्येव प्रतिक्रिया; ऊपानत् मुख भंगो वा; दूरतो वा विसर्जनं १
 ॥ पूर्वढालः ॥ सांभळे सज्जन खलनी न वात, जो कदि सांभळे पण चित न-
 वि धरेजी; कुंभनी परे नवि वासे कासार, जोज्योरे सह्रए भुजंग तणे गरे
 जी ॥ ३० ॥ छेहेरे खंडे चोथी ए ढाळ, भाखीरे पद्मविजय सोहामणीजी;
 श्री जयानंदना रासमां सार, सज्जन गूण अंगीकरो ए सुणीजी ॥ ३१ ॥
 सर्व गाथा ॥ १२९ ॥

ढाळ. ४ थी चतुर्थ.

रहिओरे आवास दुवार ॥ ए देशी ॥

जीवाढी सिंहने सूता कुमार, निरभय थइने सिंह परे तदाजी; सूतो न
धीहे मृगथीरे सिंह, पण तस पत्नी शंक घरे सदाजी ॥८॥ सुभटोने कहे
तुमे थाओ सावधान, जालवो पोल प्राकार मळी परेजी; रायने जईकहे को-
इक वात, सिंह मारयो कोइ वयरीए इणिपरेजी ॥९॥ राजारे पांमे मनमां
खेद, चितेरे विपरीत कारय किम थयुंजी; चितव्युंकांयने नीपनुं कांय, दैव
वांके सहुं वांकु थइ गयुंजी ॥१०॥यतः॥ अन्नर्हाचितियमाणं, ऊदयपओगेण-
अन्नहा जायं; चितोदयविवरीयं, तह्या नो चितए मुणिदा.१ पूर्बे ढाळः मार-
ण योग्य न आव्यो एह, पालन योग्य ते हितुओ इंम मुओजी, गोप्य जे वात
ते थई परगट्ट, काम न सीधु माहरुं किम हूओजी ॥११॥ खाधुं अमह्य ते न
गयो ताव. व्रतनोरे भंग थयो ए चित दहेजी; गोत्रनो ध्वंस करयो वली
राज्य, वलीयारे वयरी आवीने ग्रहेजी ॥१२॥ हाथ वल्या न खवाणो पूंस,
एह द्रष्टांत ते माहरे नीपनोजी; मारवो प्रगटपणे करी जोर, एहखुरे नरप-
ति चित्तमां ऊपन्युंजी ॥१३॥ सुभट सहस गमे सन्नद्ध वद्ध, मोकळे सूतो
मारो एहनेजी; सहस गमे मळी आव्यारे तेह, कुमरनी पोले मद बहु जेह-
नेजी ॥१४॥ लोह मोगरथी भांजेरे पोल, तेदले पोल ऊघाढी कुमर भटेजी;
तेहखुरे करवा मांडयुं युद्ध, चींटयारे तेहने वलने ऊनकटेजी ॥१५॥ कुमर भ-
टे बहु देखाडयो तास, नाठारे नृप भट नृपना गेहमांजी; कुंजमां जिम पेसेरे
शियाळ शक्ति न रही लवलेश ते देहमांजी ॥१६॥ कुमर भटे अम नसव्या रे
स्वामि, रविकर जिणीपरे मोहटुं तम हणेजी; सांमळी क्रोधे चढीओरे राय,
भेरी वजढावे विहाणे मद घणेजी ॥१७॥ युद्ध करणने मळीयुरे सैन्य, जाग्योरे
कुमर कृस विहाणां तणांजी; करीनेरे रमवा सोगट पास, बेसेरे नारिने क-
ही वयणां घणांजी ॥१८॥ सैन्य सहित नृप आवतो जाणि, तुरनी कटुक ध्व-
नि मुणी कानमांजी; भयथीरे भ्रांत थई कहे वाणि, सांमलोस्वामी कहुं ते
सांनमांजी ॥१९॥ नृप भट तुम भटे भगव्यारे स्वामि, क्रोधेरे भूप भराणो

आवीओभी; तुमचो रे निग्रह करवा काज, सैन्य लेइने किम नवि भावीओ-
 जी ॥ २० ॥ क्रीडानो अवसर नहीं इणवार, ल्यो करवाल ते शत्रु कारणे-
 जी; अमनेरे रमवा मन नवि थाय, वीहकेरे मन नवि रहे अम धारणेजी ॥
 ॥ २१ ॥ बोलेरे लीलाए हसनि कुमार, शस्त्र विना बहु कुमरने जीतीआ-
 जी; बलिआरे बलइयुं आग्याता तेह, माहरी भुजाए सहूए विगूतीआजी
 ॥ २२ ॥ क्रीडा करो तुमे निरमय चित्त, क्रीडारे करवा घेठी वण मनेजी;
 स्त्रीना स्वभावयी शंकारे धारि, सैन्य सजावे दाखवी नयननेजी ॥ २३ ॥
 कुमरना मंदिर सनमुख ताम, जातारे देखे सचिवादिक् सहूजी; काल आवे
 जब गोधाने ताम, जाएरे बाघरी वाढे ते बहुजी ॥ २४ ॥ आवीने प्रणमे
 भूपना पाय, वीनवे करजोडी इम रायनेजी; सैन्यइयुं चाल्या कुंण अरि द्वां-
 र, कोनेरे मारइयो इणिपरे धाईनेजी ॥ २५ ॥ राएरे भाख्यो सवि वि-
 रतंत्र, सिंहे जे भाख्यो सखलो ते सुणीजी; भाखेरे सचिव ते खलनीरे वाणी,
 सांभळी अवगणो केम न तुमे गुणीजी ॥ २६ ॥ कारण विण खल शत्रु कहा-
 य, धरतारे मत्सर परगुण देखीनेजी; कांटारे साहमो जाएरे ऊंट, फल फू-
 ले पूरी वाडी ऊवेखीनेजी ॥ ७२ ॥ यतः ॥ खलो मृगयते दोषान्, गुणपू-
 णींषि वस्तुनः; वने पुष्पफलाकीर्णे, करमःकंटकानिव १ पूर्वढाल पापीरे खल
 पण तेहयी अधिक, खलनी जे वात सुणे काने करीजी; खलनीरे पूठ पूरे
 तेह जीव, मानुरे दुरगति जातां मन धरीजी ॥ २८ ॥ मोहटा ते विरुद्ध न
 सांभले कान, आपे ऊपान के मुख भांजे तदाजी; कंटक सरिखा खलनेरे
 जाणि, आदर न दिए संत खलने सदाजी ॥ २९ ॥ यतः ॥ कंटकानां ख-
 लानांच, सहइयेव प्रतिक्रिया; ऊपानत् मुख भंगो वा; दूरतो वा विसर्जनं १
 ॥ पूर्वढालः ॥ सांभले सज्जन खलनी न वात, जो कदि सांभले पण चित न-
 वि धरेजी; कुंमनी परे नवि वासे कासार, जोज्योरे सहूए भुजंग तणे गरे
 जी ॥ ३० ॥ छेहेरे खंडे चोथी ए ढाळ, भाखीरे पद्मविजय सोहामणीजी;
 श्री जयानदना रासमां सार, सज्जन गूण अंगीकरो ए सुणीजी ॥ ३१ ॥
 सर्व गाथा ॥ १२९ ॥

दुहा.

तेजोमयी पूजित जने, पण मले लोह प्रसंग; अग्नि कूटाए आंफणी, ए खल संग एकंत ॥ १ ॥ खल संगे आपद स्वरी, पामे मोहदों प्राय; कांकरी घट छिद्रित करे जलने शोभा जाय ॥ २ ॥ तुंब ते जलमां जाय तले; मध्यम मृत्तिका संग; तिणे नवि सांभलबु तुमे, वयण जे खलर्तु व्यंग ॥ ३ ॥ असंभाव्य नवि आखीए, जोइए जुगताजुक्त; वारू कुल वध्य चोरनुं, संभालो वली सूक्त ॥ ४ ॥ यतः खलः सक्रियमाणोपि, ददाति कलहं सतां; दुग्ध धौतोपि किं याति, वायसः कलहंसतां १ गिरुओने गुणवंत ए, जामाता एह जाण; दुष्ट कुल तस दाखीयुं, पण किम थाय प्रमाण ॥ ५ ॥

॥ ढाल ५ मी. ॥

॥ हरि म्हारे यौवनीयानो लटको दहाडा च्यारजो ॥ ए देखी ॥

हरि म्हारे महापराक्रमी वासुदेव संम कोयजो, कुलतो गुण लक्षणने भाग्यथी जाणिओरे लो; हारे० एहने मस्तक थई कुमुदनी वृष्टिजो, कुलदेवीए घोष करी जे वत्ताणिओरे लो. हरि० ॥ ५ ॥ ए मवि विसरिऊं किम राजन तुमजो, अविवेके असमंजस करवा मांडिउरे लो; ॥ हारे० ॥ नरमां तुमे नृप तिम गुणमांदि विवेकजो, दोपमां तिम अविवेक ए डाहापण छांदिउरेलो; हारे० ॥ यदुक्तं ॥ सगुणमपगुणंवाकुर्वत्नकार्यजार्त, परिणतिरवघार्या यत्नतःपंडितेनःअतिरभसक्रतानां कर्मणामाविपत्ते, भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः १ तथाःसहसाविदधीत नक्रिया मविवेकःपरमापदांपदं, वृणतेहि विमृश्य कारिणं, गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः २ ॥ पूर्व ढालः ॥ हारे० लीलाए क्रीडा करतो वेठो तेंहजो, इणिपरे तुमेतो उद्यम मांड्योळे वृथारे लो, ॥ हां० ॥ लीला ए तुमवल भगवेजासमुभट्ट जो, भाग्य परीक्षा कीजे इणि रीते यथारे लो; ॥ हां० ८ ॥ तुमे सेनाश्यं दुर्जेय जाणो एहजो, यूथ सहित करिं सिंहने जीते किणीपरेरे लो; ॥ हां० ॥ कुमर ससैन्य संग्रामे जीसा एणजो, तिम सेनापतिने पण ए विलखो करेरे लो; ॥ हां० ९ ॥ एहदयाजो न करे तिणे काल जो,

जीवतो कोण रहे ए वात विचारीपरेलो; ॥ हां० ॥ राज्य घणी कहो तुमे
पण किणीपर होतजो, कुमर विटवणा थई ते सवि संभारिपरेलो ॥ हां०
१० ॥ विरुदावली वंदि बोल्या किणी रीतजो, कोटि अनेक सुभटइयुं पण
रथ जे हतारेलो; ॥ हां० ॥ जीखो वामनरूपे एकण पिंडजो, तेहशुं रण
करीने कोण जगमां जीततारेलो ॥ हां० ११ ॥ सैन्यने मारइये क्रोध चढयो
जव एहजो, निंदा पामइयो सकल भूपमांहि तुमेरेलो; ॥ हां० ॥ जीवहुं दोहिलुं तिणे
तुम अमने खेमजो, वांछोतो तजो एह अकारय कहुं अमेरेलो. ॥ हां० १२ ॥ तुम-
ने हणतां अमे जीवाइये केमजो सांभली सचिषनी वाणि वीहनो मनमां घ-
णुरेलो; ॥ हां० ॥ सिंहनी वात ते कूडी हृदयमां धारिजो, बोलरे तव नरपति
वयण सोहामणुरेलो ॥ हां० १३ ॥ तुमे प्रभु भगती युगतुं भाख्युं वयणजो, पण
ते पापीए माहरो स्नेह उतारिओरेलो; ॥ हां० ॥ मनहुं माहरुं न मले एहइयुं
कोयजो, वली तुमे जातां मुजने इणि परे वारिओरेलो ॥ हां० १४ ॥ जइने
पूछो सम्यग् कुळ भवदातजो, जिम मन निरमळ थाय विघन दूरे टलेरेलो;
॥ हां० ॥ सचिष कहे किम उत्तम भाखे नामजो, तो किम कुळ कहेइये व-
ली शूर घणो वलेरेलो ॥ हां० १५ ॥ तोपण तुम आणाए जाइयुं तत्थजो
जो कहेइये तो आवी तुजने भाखशुरेलो; ॥ हां० ॥ प्रणमी नृप गया कुमर-
नी पास प्रणामजो. करीने कहे तुम उत्तर अमृत चाखशुरेलो, ॥ हां० १६ ॥
तुमे शत्रुने शिक्षा देवा सूरजो, गुरु जनना भक्तानत वत्सलछो सदारेलो;
॥ हां० ॥ जंगम करुपवृक्ष सम तुमचो जोपजो, अरथिने देतां तुम नवि था-
को कदारेलो ॥ हां० १७ ॥ निज कुळ भाखो प्रार्थना न करो लोपजो, दुष्ट
पापी कोइए नृपने भरमावीओरेलो; ॥ हां० ॥ तुम वयणे करी सहुना संशय
जायजो, अमे तुम पृछुं जे भूप फरमावीओरेलो ॥ हां० १८ ॥ कुमर कहे
सुणो न करुं प्रार्थना भंगजो, मुज कुळ मुज कर भाखशे संग्रामे करीरेलो;
॥ हां० ॥ उत्तम नर ते फलथी दाखवे वंशजो, पण नवि भाखे कोइ काले
कंठे धरीरेलो ॥ हां० १९ ॥ वयरी केरो थाशे तिहां विनाइजो. तुम सरिखा
सज्जन ते वृद्धिपणुं लहेरेलो; ॥ हां० ॥ सज्ज थईने सैन्य सहित भूपालजो, आ-

वो तुमे जिम मुज भूजा मुज कुल कहेरेलो ॥ हां० २० ॥ सांभली प्रणमी
 भूपनी पासे आयजो, संभलायुं ते सुणीने नृप मन खेदीओरेलो; ॥ हां० ॥ आ-
 डंबर करी आब्यो केम जवायजो, युद्धे पण नवि सिद्धि इम मन वेदीओरे-
 लो ॥ हां० २१ ॥ थयो ऊभयथी भ्रष्ट कहो गति कोणजो, इम चिंतातुर
 देखी सचिव ते बोलीओरेलो; हां० इंद्र समाणो संग्रामे अति सूरजो, कुल
 किम प्राणे भाखे जग तृणतोलीओरेलो ॥ हां० २२ ॥ कुल पूछे इयुं गुणथी
 सर्व जणायजो, रत्नाकरथी ऊपन्यो मणी तेजे कहेरेलो; हां० जो तुम आणा
 होय तो मीठे वयणजो, दीर्घ रोष टालुं जिम प्रसन्नपणुं लहेरेलो ॥ हां०
 २३ ॥ लाबुं कुमरने स्वामी तुमचे पासजो, इण अवसर तिहां कुमर आणा ल-
 ही करीरेलो हां० आवी पुत्री त्रणे राय हजूरजो, प्रणमी पाद पिताना सं-
 भ्रम बहु धरीरेलो ॥ हां० २४ ॥ कुमरी कहे इवे तातने निपुण वचनजो,
 ते कहेवाए आगल सुणज्यो रंगथीरेलो; हां० छठे खंडे पांचमी ढाल रसा-
 लजो, पद्मविजय कही श्री गुरु ऊत्तम संगथीरेलो ॥ हां० २५ ॥ सर्वगाथा
 ॥ १५४ ॥



दुहा.

तातजी सैन्य तणो तुमे, अकस्मात आरंभ; रण करवाने रीझथी, आ-
 व्या एह अचंभ ॥ १ ॥ सींह वात सवि सामठी, मूल थकी मंडाण; कही ते
 सांभली कुमरीओ, बोली बुद्धिनी खाण ॥ २ ॥ सकल सौर्य संपन्न ए, धै-
 र्यादिक गुणधार; लक्षणे चक्रिए लख्यो, सवि सज्जन शिरदार ॥ ३ ॥ नी-
 चकुले जो नर इस्या, कोण कहो कुलवंत; मुर्खाइए मरवा तणी, कहो कुं-
 ण हुंश करंत ॥ ४ ॥ चिंतामणि सरिखो चतुर, परिघल पुण्ये पाभि; ऊपरां
 ठो करो आफणी, घेहलो दीसे निगाम ॥ ५ ॥ दुरजन एह दुरात्मा, सिंह ते
 जाणो श्रीआल; अमे तो पूरवे ओलख्यो, भली परे भ्रुपाल ॥ ६ ॥ वारवार
 अमे विनयथी, कहुं विचित्र प्रकार; पण सौजन्यपणा थकी, माने नहीं
 कुमार ॥ ७ ॥ कपट थकी इणे कुमरने, रीझवीओ नरराय; न सजे भोली

नाहए, जेम शशि कलंक न जाय ॥ ८ ॥ तुमे पण मान्यो तिणे तुमे, आपद लक्षा अपार, जिहां कपोत बेसे जदा, शाखा सूके तिवार ॥ ९ ॥ यतः॥ कपटी चित्त न दीजीये, पेट पेसी बुध लेत; पेळी थाग वनायके, पीछे गोथां देत ॥ १॥ काज विचारी कीजीये, जेम नोल वर दृष्टांत, युद्ध संगम ऋतु नेह नृप, भटतिय श्वान प्रधान, कटत जटत उग्रत ग्रहत, फिर पिठे पछतान ॥ २ ॥



हाळ ६ ढी.

हरणी जव चरे ललना ॥ ए देशी ॥

कर जोडी कुमरी कहे लालना, लालाहो तात वयण अवधार; ए वर वारुरे ललना, इच्छो जो निजपर कुशलने ला०, ल० तो रीझवो ए कुमार ॥ ए० ॥ १० ॥ अमे हित कहिए तुम तणो ला०, ल० कटु पण मानो वाणि ए०; रोग शमाववा कारणे ला०, ल० कटु औपध करे आणि ॥ ए० ॥ ११ ॥ राय कहे कुमरी सुणो ला०, ल० आडवर करयो एह ए०; मुकतां लाज आवे घणी ला०, ल० मान नडे बहु देह ॥ ए० ॥ १२ ॥ तात भगति तुम चित्त होए ला०, ल० तो पति कुल निरधार ए०; पुछीने मुजने कहो ला०, ल० तो थाए जय जयकार ॥ ए० ॥ १३ ॥ तात वचन मानी करी ला०, ल० विनय भगति धरी स्नेह ए०; पृछे कुल तव ते कहे ला०, ल० कहेशे सिंह ते एह ॥ ए० ॥ १४ ॥ नारी कहे सुणो स्वामिजी ला०, ल० इंगे करी सर्व ऊपाधि ए०; पापी नाम थुं उच्चरो ला०, ल० नामे होय महाव्याधि ॥ ए० ॥ १५ ॥ तातनी वात सवे कही ला० ल० सुणी कहे ताम कुमार ए०; थुं एटवो ए खल अछे ला०, ल० मेतो करयो सतकार ॥ ए० ॥ १६ ॥ ए किम एहवुं आचरे ला०, ल० सजवो दूरथी तेह ए०; इम चिंती कहे नारिने ला०, ल० सांभळो कहुं ते जेह ॥ ए० ॥ १७ ॥ औपधी ल्यो ए मुज थकी ला०, ल० पूतली शिर आरोपि ए०, जे मन माने ते पूछीए ला०, ल० ते नवि करशे लोप ॥ ए० ॥ १८ ॥ अतीत अनागत सहू कहे ला०, ल०

ते सांभळी अचरिज थाय ए०; औषधी लेई तातने ला०, ल० पासे आवी
 सुखसाय ॥ए०॥१९॥ सरव सभा जोतां थकां ला०, ल० शिर औष-
 धी-ठवी ताम ए०; पूछे पूतलीने हवे ला०, ल० कुमरनुं कुल नाम ठाम
 ॥ए०॥२०॥ मानुषणीनी परे कहे ला०, ल० विजयपुराधिप राय ए०;
 विजय राय सुत सुंदरु ला०, ल० श्री जयानंद कहाय ॥ए०॥२१॥ वर क्ष-
 त्रि कुल ऊपनो ला०, ल० गुण निधि महिमा निधान ए०; सांभळी हर-
 रूया सहु जना ला०, ल० चमक्यो सुणी राजन ॥ए०॥२२॥ मंगल वा-
 जां वाजिआं ला०, ल० जयजय भणे नरनारि ए०; मान मुकी नरपति
 हवे ला०, ल० आम खमावे कुमार ॥ए०॥२३॥ निज पुत्रीने खमावतो
 ला०, ल० निज अपराध भूपाल ए०; सहु निज निज थाविक गयां ला०,
 ल० एक दिन सभा विचाल ॥ए०॥२४॥ पूछे मंत्रिचे नरपति ला०, ल०
 कहो थुं ए इंद्रजाल ए०; पूतली बोली नवि सुणी ला०, ल० ए अच-
 रिज असराल ॥ए०॥२५॥ मंत्री कहे ए कुमरना ला०, ल० भाग्यथी
 औषधी पाम ए०; देव पेसे ते बळ थकी ला०, ल० पूतली बोले आम
 ॥ ए० ॥ २६ ॥ तो पण जो संशय होए ला०, ल० तो शतबुद्धि प्रधान
 ए०, बुद्धिचंद्र सुत तेहनो ला०, ल० द्विज बुद्धि असमान ॥ ए० ॥ २७ ॥
 ज्योतिष प्रमुख जाणे घणो ला०, ल० निपुणने तुम भक्तिवंत ए०; विजय-
 पुरे तस मोकली ला०, ल० निर्णय कीजे महंत ॥ ए०॥ २८ ॥ सांभळी नृ-
 प हरपित थयो ला०, ल० शीखवी मोकल्यो तास ए०; नवमे दिन फिरी
 आसुं ला०, ल० करिय प्रातिज्ञा खास ॥ए०॥२९॥ सात पुरुषश्युं चालीओ
 ला० ल० करमे वेशी वेगवंत ए०, सो योजन उपर रह्युं ला०, ल० विजय-
 पुर-पोहवंत ॥ए०॥३०॥ वेप निमित्तिआनो करी ला०, ल० पुस्तक
 राखी पास ए०; प्रतिहारे राय आणा थकी ला०, ल० पेसवा दीधो तास
 ॥ए०॥३१॥ छडी छडा खंडमां ला०, ल० पत्रविजय कही ढाल ए०; निमि-
 त्तिओ विस्मय लहो ला०, ल० देखी सभा विशाल ॥ए०॥३२॥ सर्व गाथा-

दुहा

सौधर्मा सरिखी सभा, स्फोटिक भीत अतिफार; रत्नधरा रलीआमणी,
मनगमती मनोहार. ॥ १ ॥ वेठा वांधव विहु तिहां, सेनानी सामंत; शेठ मं-
त्रीश्वर सामटा, मलीआ बहु माहंत. ॥२॥ सोहे मणि सिंहासणे, पायक सेवे-
पाय; इंद्र समा अक्नीपति, सुर जेम सर्व सखाय. ॥३॥ आयुद्धने अलंका-
रशुं, अंग रक्षक अभिरांम; ऊर्द्ध आयुद्धथी ऊद्यपी, करे रक्षा नृप काफ-
॥४॥ सौधर्मने इशान सम, चामरढलके चार; नाना देशथी नव नवा, प्रा-
भृत आवे अपार. ॥५॥ छत्र शिरे छाजे घणुं. राय तथा युवराय; जयने वि-
जयनुं जोडलुं, शशि सूरय समजाय. ॥६॥ आशिरवाद देई ईशयो, सर्वज्ञ
आपो सिद्धि; नव ग्रह सुख द्यो नव नवां, वली विशेषे वृद्धि. ॥७॥ यंतःस-

१ २ ३ ४
वैश्वः शिवमातानोतु सविता, चारोग्य भिंदुःश्रियां॥ भौमः शत्रुजयं बुधश्चविशदं
५ ६ ७ ८ ९
बोधं धियं गीःपतिः॥ सौभाग्यं भृगुजः शनिश्चविभुतां, राहुःप्रतापंश्रयं, केतुः
कीर्त्तिततीःसुखानिचगुरुस्तुभ्यं सदा भूपते १॥

हाल ७ मी.

॥ प्रथम जिनेसर पूजवा ॥ एदेशी ॥

भूमंज्ञाए आपतो ॥साजन म्हारा॥ वेसवा आसन तामहो; वेठो निज परि-
वारशुं ॥सा०॥ पूछे तव धरा स्वामि हो. ॥८॥ भले भले आया तुमे, अम
मन भाया तुमे; पंडित राया तुमे प्रीछिए ॥सा०; भांजो अम संदेह हो ॥ए
आंकणी॥ किहांना वासी किहांथी आवीया॥ सा०; जावुं किहां कडों तेहहो,
शुं शुं जाणो शास्त्री ॥सा०; अम मन पूछवुं एह हो भ०. ॥९॥ विम कहे
सुणो रजीआ॥सा०; वसिए सुरंगपुर ठाम हो; देश जोता आव्या इहां ॥सा०;
निरखवा तुमचुं गाम हो भ०.॥१०॥ नयन कृतारथ अम थयां ॥सा०; दीठो
तुम देदार हो, जाणुं अष्टांग निमित्त वले सा०; जण काल सुविचार हो.

भ०॥११॥ फल प्रकी तस आगले ॥मा०अतिगय करी बहु मान हो; वे त्रण
 प्रश्न पूछी करी सा०; पूछे ते तर विज्ञान हो भ०॥१२॥ देह मात्रथी भिन्नछं
 सा०; दोय अमे द्युत दोय हो; सिंहसार छे प्रथमने सा०; श्री जयानंद बीजो
 होय हो भ०॥१३॥ पहिलो अन्यायकारी घणो सा०; काठी मुक्यो अमे
 वास हो; दुर्गंध मळ अंगे उपज्यो सा०; किम नवि खांजिए तास हो भ०.
 ॥१४॥ विजो निमित्तिए भाखिओ सा०; राज्य योग्य गुणवंत हो; सहू जनने
 घणुं चालहो ॥सा०; जीवथी अधिक कहंत हो भ०. ॥१५॥ कल्पवृक्ष अंकूर
 लुपुं ॥सा० राखीए मत्त अपार हो; पण कुड कपट्यो भाइने सा०; लेह गयो
 सिंहसार हो भ०. ॥१६॥ ते पण सरळ हृदय थकी सा०, वगर कहे
 तेह साथ हो; चाल्यो खोळ करी घणी सा०, पण आव्यो नवि हाथ हो
 भ०. ॥१७॥ विशालपुरे तेह सांभल्या सा०, करना कला अभ्यास हो;
 छवेख्या अमे सहजथी ॥सा०, तिहांथी गथा कोई वास हो भ०. ॥१८॥ ख-
 वर न लाधी तेहनी ॥सा०, काम नहीं सिंहसार हो; श्रीजयानंद जडयो
 नहीं ॥सा०, जिम समुद्रे रत्नसार हो भ०. ॥१९॥ तिणे अमे दुखीआ व-
 हुअहुं ॥सा०, निमित्त प्रमुख जोई जाण हो; मिलन आशाए जीवीए ॥सा०,
 स्वास मात्र धरुं प्राण हो भ०॥२०॥ निमित्त शकुनने स्वप्नी ॥सा०, अंग-
 फुरण बली जेह हो; देव उपासनथी कहो ॥सा०, क्षेम प्रमुख होए तेह हो
 भ०. ॥२१॥ आन्यो नहीं घर ए बली ॥सा०, शुद्धि मात्र नवि लद्ध हो;
 आवे तो राज्य थापी अमे ॥सा०, तपोवन दृष्टि बद्ध हो भ०. ॥२२॥ सा-
 थे नीकलवा कारणे सा०, राज्य लीए नवि भाय हो; तप वय जाप अमा-
 रहु ॥सा०, तिणे अम मन खेदाय हो भ०. ॥२३॥ हय गय रथ गया वाहुडे
 सा०, द्रव्य कुटव परिवार हो; पण नरभव नवि वाहुडे ॥सा०, तिणे विन-
 ति अवधार हो भ०॥२४॥ जीवे छे के नहीं ते कहो ॥सा०, किहां छे ने मिलशे
 केम हो; मिलशे किवारे ते कहो ॥सा०, आणी अम पर प्रेम हो भ०॥२५॥
 इम कही पुत्र वियोगथी ॥सा०, रुदन करे नरराय हो; दग्ध पत्थर जल
 योगथी सा०, जिणी पर धूम वयाय हो भ०. ॥२६॥ चंद्रबुद्धि आडंबर क-

री सा०, मांडी लगन धरी ध्यान हो; कहे नृपने खेद कां करो, ॥सा० पुत्रवि-
योग चित्त आण हो भ० ॥२७॥ पुत्र सुखी छे तुम तणो ॥सा०, भाखुं लग-
न विनाण हो; चोथाना स्वामीना योगथी सा०, सुख पामे अप्रमाण हो
भ० ॥२८॥ दशम पतिनी हाछि छे ॥सा०; भोगवे राज्य महंत हो; वली ति-
म सप्तम पति देखे ॥सा०, तिम त्रण ग्रह देखंत हो भ० ॥२९॥ नरपति पु-
त्री त्रणनो सा०, ए योगे भरतार हो; सांभली नृप आणंदीओ सा०, पूछे व-
लीय विचार हो भ० ॥३०॥ कहो किहां छे तव निर्मित्तओ ॥सा०, मेपादिक
गणी राशि हो; होठ फरकावी बोलीओ सा०, लक्ष्मीपुर वसे वास हो
भ० ॥३१॥ पूतलने नृप वयण ते सा०, मलियो एकाकार हो; वरण सं-
स्थानने वय कहे सा०, सांभली हर्ष अपार हो भ० ॥३२॥ दोय भाई तव
वरसता ॥सा०, कनकमणि अलंकार हो; वस्त्र तथा फल फूलनी सा०, वृ-
ष्टि करी श्रीकार हो भ० ॥३३॥ छठे खंडे सातमी सा०, श्री जयानंदने
रास हो, पद्मविजये कही ढाल ए ॥सा०, सुणतां लीळ विलास हो भ०
॥३४॥ सर्व गाथा २२०.

दुहा.

राये विसंज्या रीतिथुं, चंद्र बुद्धि चाल्यो जाय; महीपतिनी ते मार्गमां
श्लाथा करे समवाय ॥१॥ अहो उदारता एहनी, अहो अम भाग्य अमान;
अद्भुत वचन कलाइशी, दाखवी जिणे लहुं दान. ॥२॥ लखमीपुरे लीला
थकी, श्रीपतिराय शकाश; नवमे दिन आवी नमे, पूछे नृप तस पास.
॥३॥ हर्षवंत होंसे करी, वारु कल्लो वृत्तांत; दान भिन्न भिन्न दाखवे, धनद
परे धीवंत. ॥४॥ बाप तिस्या घेठा होए, एह बात खरी अत्र; कुमर दान
मांही किश्युं, चित्रकारी जे चरित्र. ॥५॥ कहे हांसीथी केई जन, ए सघ-
ळो आरंभ; हेते चित्र बुद्धि हतो, एहमां नाहि अचंभ. ॥६॥



हाल, ८ आठमी

॥ साहिवजी श्री सिद्धाचल भेटिए हो लाल ए देशी ॥

॥साहिवजी॥ खेद आणंद विस्मय घणो होजी, नहु रममय थयुं चित्त॥साहि-
 वजी॥साहिवजी॥भूपति नत्रि बोली शक्रे होजी, इंगिसमे मुणो शुभ रीत.
 सा०॥७॥ सा० पुण्यवंत इम परखीए होजी ॥ए आंकणी॥ सा० श्रीजया-
 नंदने तेहवा होजी, पुरुष आव्या परधान सा०; सा० श्रीजयराए मोकल्या
 होजी, ऊभा गोपुर थान सा० ॥८॥सा० पु०॥ सा० इम पोलीए नृप वीन-
 व्यो होजी, नृप कहे मोकल वेग सा०; सा० वेत्री सहित ते आवीआ होजी,
 वस्त्र आभरणे सतेग सा०॥९॥सा० पु०॥ सा० भूप नमी उचितासने होजी,
 वेठा तत्र नरराय सा०; सा०क्षेम कुशल पूछे तदा होजी, प्रीति घणी परखाय
 सा० ॥१०॥सा० पु०॥ सा० ते नृपने इम वीनवे होजी, तुम भित्त नृप युव-
 राय सा०, सा० कुशली पुरजन थुंछे होजी, वरते छे सुख साय सा० ॥११.
 ॥सा० पु०॥सा० तेहुए इम कहेवरावियुं होजी, सांभलो स्नेह रसाल ॥सा०॥
 सा० श्री जयानंद अम जीवछे होजी, कल्पवृक्षनी डाल मा० ॥१२॥सा०
 पु०॥ सा० तुमे ऊन्नति एहनी करी होजी, निमित्तियाने वयण सा०;
 सा० जाण्युं अमे भली रीतिथुं होजी, तुमे अमचा खरा सयण सा० ॥१३
 ॥सा० पु०॥ सा० चंद्रसूरय लगे थिर करी होजी, अम कुलथुं तुम प्रीति
 सा०; सा० मोकलो अम पासे हवे होजी, तो मानुं दीध जीवीत सा०॥१४
 ॥सा० पु०॥ सा० अमे वियोगे तपाईआ होजी, शीतल करो तुमे भ्रात सा०;
 सा० नहीं उपगार विमारीए होजी, त्रीजा भ्रात अम ख्यात सा०॥१५॥
 सा० पु०॥ सा० अम सम काम कहेजो सदा होजी, सांभली कहे भूपाल
 सा०; सा० तुम वच अमृत आभनबुं होजी, पीता थाऊ तृपाल सा० १६
 ॥सा० पु०॥ सा० तुमे कछुं ते रुहुं थशे होजी, रयण अमूलक सार सा०;
 सा० भेटणुं छेवे नरपति होजी, जे तेणे कीधुं उदार सा० १७ ॥सा० पु०॥
 सा० तास उतारो करावियो होजी, मोकल्या कुंअर पास सा०; सा० प्र-

तिहारे जणाव्युं सवे होजी, कुमरने धरी उल्लास सा० १८ ॥सा०पु०॥ सा०
 प्रणमे ते नर जेटले होजी, कुमर सभामां ताम सा०; सा० उभा थई मलि-
 आ सहु होजी, भिन्न भिन्न ओलखी नाम सा० १९ ॥सा० पु०॥ सा० हर्ष
 तणां आंसु झरे होजी, आसने वेशीने वात सा०; सा० पित्रूपित्रुभ्राता भ-
 णी होजी, पूछे कुशल सुखशात सा० २० ॥सा० पु०॥ सा० साते सुख
 छे तेहने होजी, पण एक तुम वियोग सा०; सा० ते पीडे नृपने धणुं होजी, सं-
 भारे बहु लोग सा० २१ ॥सा०पु०॥सा० जाणजो पत्र थकी सहु होजी, इम
 कही आपे लेख सा०; सा० कुमर चढावी मस्तके होजी, वांचे हर्ष विशेष
 सा० २२ ॥सा० पु०॥ सा० स्वस्ति श्री नमी देवने होजी, जे सर्वज्ञ म-
 हेश सा०; सा० दोशे विजयपाटण थकी होजी, श्रीजय नाम नरेश सा०
 २३ ॥सा०पु०॥सा० श्रीविजयभाई सह लिख्यो होजी, लखमीपुरचर ठाम
 सा०; मा० मंदिर मार्लिए सोहतुं होजी, तिहां श्रीजयानंद नाम सा० २४ ॥सा०
 पु०॥सा० तेह कुमरने स्नेहयी होजी, हर्षे आलिगन देय सा०; सा० भाखुं क्षेम
 कुशल अछे होजी, तुम खेम कुशलनुं धयेय सा० २५ ॥सा० पु०॥ सा० समा-
 चार एक प्रीछजो होजी, विगर जणावे अम सा०; सा० सिंहमार मा-
 थे गया होजी, करवुं न घटे तुम सा० २६ ॥ सा०पु०॥ सा० खल संग करवो
 नवि घटे होजी, सज्जनने दुखदाय सा०; मा० राज्यनो जीवित तुंय छे
 होजी, खेद घणो अम थाय सा० २७ ॥ सा० पु० ॥ सा० संप
 दा तुं पाम्यो घणी होजी, अम संभारे न केम सा०; सा० जगतनो एह
 स्वभाव छे होजी, पण तुज न घटे एम सा० २८ ॥सा० पु०॥ सा० मोटा
 मोटाइ लही होजी, आधिक पुष्टि करे तात सा०; सा० अधिक उदय लही
 चंद्रमा होजी, समुद्र पुष्ट करे जात सा० २९ ॥सा० पु०॥ सा० कष्टे दिवस
 अमे काढीए होजी, तुज विरहो दुखदाय सा०; सा० राज्य धुरा नवि वही
 शकुं होजी, गलीओ बलद जिम ठाय सा० ३० ॥सा० पु०॥ सा० साह्य क-
 रो आवी हवे होजी, जो होय अम परेभक्ति सा०; सा० तो महा वृषभपरे तुमे
 होजी, देखाडो निज शक्ति सा० ३१ ॥सा० पु०॥ सा० वांची पत्रने आव-
 ज्यो होजी, पाणी पीज्यो अम देखि सा०, सा० ए लिख्युं सहस गुणुं जाण-

जो होजी, शं घणुं लिखीए विशेष सा० ३२ ॥ग० पु०॥ सा० छठे खंडे
आठमी होजी, पद्यविजये कही ढाल ग; सा० श्री जयानंदना राममां
होजी, सुणता मंगलमाल सा० ३३ ॥सा० पु०॥ मर्व गाथा २५३

दुःशा.

घांची पत्र विवेक शं, चिंतवे चित्त मझार; तातने दुख देवा तणुं, कारण
थयो करार. ॥१॥ वारू अचेतन वृक्ष ते पत्र पल्लव पथराय; पंथी रविक-
र तापिआ, सघळाने सुखदाय. ॥२॥ संपदा लही स्वपिताभणी, सुख-
करन थयो सज्ज. दुःख वियोगनुं दाखियुं, रझो न हुं निज रज्ज. ॥३॥ ज-
ई सुख करिए जोपशुं, इंणि परे करी आलोच, स्नान भोजन साथे क-
रे, वर पुरुपा शं विकोच. ॥४॥ वेत्रीए वात सवे वदी, नरपतिने निरधार;
राजा चिंते रागथी, किम हिक जाशे कुमार. ॥५॥ मुज नरे कही ते सह
मली, तेहे पितरीओ तात; रवेशे नहीं मुज राज्यनो, वृद्धिकारक विख्या-
त. ॥६॥

॥ ढाल ९ नवमी. ॥

सासू पूछेरे बहुवर वात माला किहां छे रे ॥ए देशी॥

राजा चिंते स्वजनके वयरी, वालहा म्हारा, कुण जाणे थशे केहवोरे; सो-
भागी प्रियदर्शन सुखकर, जगमां न जडे एहवोरे, ॥७॥ कही किम करिएरे,
जिम तिम करिने एह, समजावी धरिएरे ॥आंकणी॥ चिंतामणि मुज हाथे
चढीओ, वा०, में मूरखे ते हार्योरे; अज्ञाने असृत छांडीने, प्रतिकूल कयो न-
विचार्योरे क० ॥८॥ महा प्रभावी विश्वमां भूषण वा०, पुरुष रतन नवि जा-
ण्योरे; पूतली जेह अचेतन ते पण, स्ववती मन नवि आप्योरे क० ॥९॥ पुत्री
विधवा आपद न गणी, वा० राज्यविरोध अनेकरे; पुरुष चिंतामणि हाणि
में न गणी, सघळो गयो विवेकरे क०. ॥१०॥ इम चिंतवतां हृदय संघटथी
वा०, मूरछा घाम्यो रायरे; पडिओ पृथिवीए सिंहासनथी, मंत्री प्रमुख

अकुलायरे ॥क० ११॥ नील उपचारं ध्यां साजो, वा०, पृष्ठे सहुशुं एहरे;
 नरपति निज कुकर्म ते निंदे, परखदमां कहे तेहरे ॥क० १२॥ मुणो सहु क्रूर
 हुं कुकर्म करता, वा०, अवित्रेकी अज्ञानरे; छतनी मुज सरिखो नहीं
 जगमां, ए सम नहीं परधानरे ॥ क० १३ ॥ मुज अपराधीनी नहीं शुद्धि
 वा०: गरण विना कोई रीतिरे; खड्ग काडीने मरण करवा, वा०, मुके निज गले
 भीनेरे ॥क० १४॥ सचिबे मंडाची खड्ग ते लीधुं, वा०, शतवृद्धि तव वो-
 लेरे; शुं असमंजम राजन मांड्युं, कोई नहीं तुम तोलेरे ॥क० १५॥ न्यायी
 धर्म उन्नति तुमें करना, वा०, विश्वतणो आधाररे बोलाशे मरवा केम इछो,
 कर्म तणा सह प्रकाररे ॥क० १६॥ यतः कस्य भ्राम्पति नो बुद्धि; कर्मणा
 को न खंडितः॥ नामुंचत् आतरं हंतुं, चक्रं किं भरताधिपः ॥१॥ पूर्व ढाला
 शास्त्र जाण पण करमे मुंजे, वा०, निदा प्रक्षमा थायरे; पापनी शुद्धि मरणे
 न होये, तपथी कर्म सवि जायरे ॥क० १७॥ आत्मप्रदेशे कर्म रह्युं छे, वा०,
 मरण शरीरिं विनाशरे; पाप टालो प्रायश्चित आदरी, जाई गुरुने पासरे ॥
 क० १८॥ जीवतां ए सवि वात निपजाये, वा०, तेणे चिरजीवो स्वामीरे;
 एम कळुं पण नाना विकल्प, न करे भोजन पामीरे ॥क० १९॥ ते सांभ-
 लीने पुत्रीयो आवी, वा०, प्रणमी एणीपरे भासेरे; न घटे तात ए तुमने क-
 रवुं, दोष नहीं तुम पासरे ॥क० २०॥ ए कारय सवि खलसंगतिनुं, वा०,
 गिल्ल बहे गिरिमां पाणीरे, कठिन हतो पण खाढा पाढे, ए केम वात न
 जाणीरे ॥क० २१॥ नीचुं वदन करी कहे राजा, वा०, दूर रहीने बोलोरे; मुख
 न देखाढी शक्ये तुमने, केम मुजने तुमे जीलोरे ॥क० २२॥ में तुम विध-
 वापणुं उत्रेखी, वा०, काम कर्तुं मे भंडुरे; तुमने जमाइने मुख शुं देखाहुं, क-
 हो में कर्तुं शुं रुंदुरे ॥क० २३॥ कुमरी कहे श्यो खेद करो छो, वा०, तुमे
 धन खरची अमनेरे; कला भणावी निपण करी वणुं, ए शोभा सवि तमनरे
 ॥क० २४॥ अमची प्रतिज्ञानो जे सागर, वा०, विश्वोत्तम ए टालीरे; कोण
 पूरत ए वातनो मनमां, हरख करो हों संभाळीरे ॥क० २५॥ छोरु कछोरु

होये पण मावित्र, वा०, हीणां न होये क्यारेरे; ते विपरीत करंतां नृप कहे, संतोष्यो सुप्रकारेरे ॥क० २६॥ पण लाजुं हुं जमाइथी अधिको, वा०, सांभली गइ पति पासेरे; वात सुणावी मोकले पतिने, ते पण आवे उल्लासेरे ॥ क० २७॥ लज्जानम्र भूपतिने प्रणमी, वा०, कहे मुख एणीपरे वाणीरे; कन्या व्रणने राज्य दीधुं तुमे, सागर सम तुमे प्राणीरे; ॥ क० २७ ॥ एक खलित खलना प्रेर्याथी. वा०, विधिवशथी थयु एहवुरे; भ्रांतिथकी कही कोण न भूले, तो दुःख करवुं केहेवुरे ॥ क० २८ ॥ पश्चात्तापे कर्म सपे वली, वा०, जेम वाहुवली भरतरे; वात उद्यम ते पश्चात्तापे, कर्म विलय थया तरतरे ॥क० २९॥ म करो खेद ने काम करो निज, वा०, स्वस्थ तुमे जब थाओरे, प्रजा स्वस्थ थाये तव सघळी, एह विचार मत लाओरे, ॥क० ३०॥ एहवांचयण सुणी कहे भूपति, वा०, तुम अमृतसम वाणीरे, सांभली दुःखनो ताप गयो मुज, तुम सम को नहीं नाणीरे ॥क० ३१॥ भाग्यवंत तुं हुं अविवेकी, वा०, जगमां जोडी न लाधेरे, सलसंगति भूको तुमे कहुं छुं, ए अम हृदयमां वाधेरे ॥क० ३२॥ कुमरे मान्युं नृप प्रणमीने, वा०, निजघर गया कुमाररे छठे खंडे नवमी ढाले, पद्मविजय कहे जयकाररे ॥क० ३३॥ सर्वगाथा २८७

दुहा.

अशन करे अण इछतो, करे न राज्यनुं काम, पाप शुद्धि करवा प्रथम, धारीने रहयो धाम ॥१॥ सिंह मारवा सुमटने, आण करे अचनीश; चोर परे खर चाडीने, राखशो मां करी रीश ॥२॥ तेमज करे ते तुरतमां, जाण्युं कुमरे जाम, तव चिंते दुःख तातने, उपजशे बहु आम. ॥३॥ कही प्रधान मुखे कुमर, भूकावे महामाग; प्रेरणा करे प्रधान तव, लही अवसरनो लाग ॥४॥



॥ ढाल दशमी. ॥

॥ अम धर मांडव सीअलो ए ॥ ए देवी ॥

कुमर पूछे तव रायने ए, राय कहे सुणो वांत, साहेव सुणो सुखकरु ए; प्राण अमारा लेइ चलो ए, तुम विण ते न रहात ॥सा० ५॥ लह्या उद्वेग मुज पापथी रे, मानुं न रहे मुज पास. सा० कुमर कहे तव वीकथीरे, करवा भूप उल्लास ॥सा० ६॥ तुमथी अधिक न तात छे ए, रहेशुं सुख आवास, सा०; करिय प्रणाम घरे गयोरे, चितवे ज्ञान प्रकाश ॥सा० ७॥ जाशुं जो नृप उवेखीनेरे, तो करशे निजघांत, सा०; राज्यनो इच्छक पण.नथी ए, एम नजरे आयात ॥ सा० ८ ॥ जीवे मुज गुण वातथी ए, तेणे नवि मुकी जवाय, सा०; सिंह अर्थी छे राज्यजो ए, तेणे ए करे छे उपाय ॥ सा० ९ ॥ तात पदे पुत्रज रहे ए, एहमां काई न विचार, सा०; संतोपाश्ये खल वली ए, इम चित्तवी सुप्रकार ॥ सा० १० ॥ सिंहने कहे भाई सांभलो ए, तुमे जाओ निज धाम, सा०; राज्य पितानुं भोगवो ए, मारे नहीं राज्य काम ॥ सा०. ११ ॥ हुंतो रहेश्युं तिणे इंहा ए, इम करीं मोकले तास, सा०; युक्ति करी समझावीआ ए, तेह प्रधानने खास ॥सा०. १२॥ पत्र लिखे निज तातने ए, आपे प्रधानने एह, सा०; सत्कारी विसर्जिआ ए, सिंह संघाते तेह ॥ सा०. १३ विजयपत्तन पोहता वली ए, रायने करे परणाम. सा०; हेतु नवि आव्या तर्णुं ए, भाखे विस्तारे ताम ॥सा०. १४॥ श्रीपति आग्रह सवि कखो ए, कुमरनां वयण रसाल, सा०; सिंहसारने बोलावता ए, योग्य वयणे भूपाल ॥ सा०. १५ ॥ आपे प्रधान कागळ प्रतेरे, वांचतां. हर्ष न माय, सा०; स्वास्तश्री जिनवर नमी. ए, विजयपत्तन वर ठाय ॥ सा०. १६ ॥ पूज्य आराध्य काका प्रते ए, तिम श्री विजय निज तात सा०; लखमीपुरवरथी लिखे ए, श्री जयानंद तुम जात ॥ सा०. १७ ॥ प्रणमी साष्टांगे भक्तियो ए, अंजलि करी शिरठाय, सा० विधि ए विनय थकी नमी ए, विनती करे चित्तलाय ॥ सा०. १८ ॥ पूज्य प्रसादे कुशल अछे ए, शुभचिंतन अनुभाव, सा०; पूज्य प्रसाद पत्र दीर्जीए ए.

जिम उल्लसे मूज भाव ॥ सा०. १९ ॥ कार्यं मृणो समाचारं ए, तापित तात वियोग, सा०, अमृत सींचे जीविओए, जे तुम पत्र संयोग ॥ सा०. २० ॥ जीविश्यं हवे आगले ए, ते तुमचे सुपसाय, सा०; मुज वियोग न मही शक्रे ए, ते समजावी राय ॥ सा०. २१ ॥ थोडा दीन मांहि आवश्यं ए, प्रणमश्यं तातना पाय, सा०, ध्यान करु निश्च तातनुं ए, लीलामां दिन जाय ॥ सा० २२ ॥ सिंहसारने मोकल्यो ए, ते स्नानक उद्देश, सा०; शीखायण निश्च कावज्यो ए, शिर धरुं तुम आदेश ॥ सा०. २३ ॥ विज्ञप्तिने आव्या नहीं ए, हरष खेद धणो थाय, सा०, परिकरने दोय बांधवा ए, सुख दुख मिश्रित पाय ॥ सा०. २४ ॥ पूछयाथी तेह पुरुष कहे ए, श्री पद्मरथ भूपाल, सा०; पुत्री पाणिग्रहणथी ए, मांडी कहे सुरमाल ॥ सा०. २५ ॥ चरित्र कुमारनुं सांभली ए, दुखदायी सिंहसार सा०, परसदा तिमदोय राय, सा०, चित्र आणंदमयी धई रे, कुमर प्रशंम कराय ॥ सा०. २६ ॥ सिंहसार निंदे सहू ए, हवे नरपति देइ मान, सा०; तिमज्या सिंहसारनुं ए, सहू गया निज निज थान ॥ सा०. २७ ॥ दशमी छट्टा खंडमां ए, पद्मविजय कही ढाल, सा०; श्री जयानंदना रासमां ए, सुणतां मंगलमाल ॥ सा०. २८ ॥ सर्व गाथा ३१६.

दुहा.

एक दिनजयराजा इश्यं, चिंते चित्त मद्धानि, भाइने राज्य भावे नहीं, कहो नवि आव्यो कुमार. ॥१॥ अथवा निज करे अर्जवो, राज्य लखमी रण मांहि, आवे किम ते इहां किणे, आदर धरी उत्साही ॥२॥ परअर्जित नवि मांस पण, सिंह लीये ज्युं गीयाल, वय ते तप विण व्यति क्रमे, आ भव जाए आल. ॥३॥ एह राज्यनो ए धणी, निमित्तिए निरधार, भाख्यो छे ते भलीपरे, वितथ न थाय किवार ॥४॥ आखे पराक्रम एहनुं, एहज अरथ अचल, हुंशे मोकल्यो मिहने, नृप थावाने नवल्ल. ॥५॥ आपी आपद वहु इणो, मांहटी जे मरणांत; पापी दूरे पेखीओ, दुखदाई जे दुरंत. ॥ ६ ॥

हाल ११ मी.

गो बाछहत्रां चारनी, आठिरेनो अवतार, रुहुं गोकलियुं ॥ ए देशी.॥
 आपुं राज्य हुं एहने, भाइने मूंकु पास, एहज रुहुं छे, शिक्षा देशे एहने,
 मार्गे चलावशे तास ॥ ए०. ७ ॥ जो परजाने पीडशे, तो नवि सहेशे
 कुमार ए०; इम चित्तरीने थापीओ, राज्ये ते सिंहमार ॥ ए०. ८ ॥ भाइ-
 ने प्रार्थना करी, राख्या घरमां तेह ए०; सिंहे पण आग्रह करी, काको
 राख्या गेह ॥ ए०. ९ ॥ पुत्र मिलन आशाये रत्ता, हवे श्रीजय राजन
 ए०; महाजट गुरु पासे करे, तापस व्रत आदान ॥ ए०. १० नाम रतन-
 जट आपियुं, हवे श्रीपति जे राय ए०; राज्य चिंता कांय नवि करे, धर-
 मे काल गमाय ॥ ए०. ११ ॥ वनपालक हवे एकदा, कहे आवी राजा-
 न ए०; धर्मभस्मुरीवरुं, पाउधार्या उद्यान ॥ ए०. १२ ॥ पूर्वे वैरा-
 गी हता, वली सांभली एह वात ए०; दुध मांहि साकर परे, मनमां हर्ष न
 मात ॥ ए०. १३ ॥ दान आपी संतोपीओ, वेडो गजवर खंध ए०; कुमर सा-
 मंत मंत्री मुत्ता, छत्र चामर संबंध ॥ ए०. १४ ॥ अतेउरशुं आवीआ,
 पंचाभिगम प्रकार ए०; त्रण प्रदक्षिणा देईने, गुरुने करे नमस्कार ॥ ए०.
 १५ ॥ धर्मलाभ गुरुए दियो, वेसे थयोचित ठाय ए०; धर्मदेशना गुरु
 दिए, धर्म सदा सुखदाय ॥ ए०. १६ ॥ आपद नासे वेगली, शिव सुख क-
 रतल आय ए०; ब्राह्म अतर अरि मित्र जे, भवमां नवि ओलखाय ॥ ए०.
 १७ ॥ मोह अंतर शत्रुअछे, बाह्य जनकादिक होय ए०; तेह तज्यां सुख उ-
 पजे, तिणे तजीए सहू कोय ॥ ए०. १८ ॥ संवेगादिक मिल जे, अंतर गुरु
 ते बाह्य ए०; इह भव परभव सुख दिए, एहज जाणो ब्राह्म ॥ ए०. १९ ॥ इसा-
 दिक सुणी देशना, अवधिज्ञानी गुरु पास ए०; प्रतिवोध्या बहु भव्यने,
 पाम्या जिन धर्मवास ॥ ए०. २० ॥ केइ श्रावक केइ संयमी, केईक समकित-
 वंत ए०; केइ कंदादिक अभिग्रही, भद्रकने गुणवंत ॥ ए०. २१ ॥ भूप अति
 संवेगीओ, चित्तमां करे विचार ए०; बाह्य अरि मित्र न ओलख्या, अंतर वात

अपार ॥ए०. २२॥ बाह्य अंतर परिग्रह प्रते, तिणे छांडी जंजाल ए०; जैन दीक्षा अंगी करूं, अंतर शत्रुने टालि ॥ए०. २३॥ इमंचिती गुरुने कहें, लेउ दीक्षा तुम पास ए०; पूत्र अभावे कुमरने, थापे राज्य उल्लास ॥ए०. २४॥ दीक्षा लेवरावे तदा, उत्सव करी अपार ए०; अमार पढहो महीना उगे, संघ पूजा करी, सार ॥ए०. २५॥ अछाई महोत्सव करे, देइ दीनने दान ए०; सूरि वचन वैराग्यनां, सामलीयां जिणे कांन ॥ए०. २६॥ पांचसैं राजकुमर तदा, तिम राणी शत पांच ए०; निर्मम राज्य विपय तजी, मोह तणो परपंच ॥ए०. २७॥ स्नानादिक मंगल करी, वस्त्र आभरण अनेक ए०; चामर छत्र धरावतो, गज वेढो सुविवेक ॥ए०. २८॥ तूर अनेक वाजी जते, अढलक देता दान ए०; लोक प्रशंस करी जते, आव्या नृप उद्यान ॥ए०. २९॥ मंगलघवल गाइ जते, गजरथ भट बहु कोढ ए०; वंदि विरुद बोली जते, देई आशीश करजोढ ॥ए०. ३०॥ सर्वे लोक खमावीने, लोच करी गुरु पास ए०; कहे भवसायर तारिए, करुणा निधि आवास ॥ए०. ३१॥ आगम विधिथी दीक्षिआ, देइ तेहने उपदेश ए०; किरिया शिक्षा भलीपरे, शास्त्र भणे सुविशेष ॥ए०. ३२॥ भूपने घणुं स्तवता थका पोहता निज निज गेह ए०; श्री जयानंद गुणरागीया, मुनिपर धरता नेह ॥ ए०. हवे सिद्धांत भणता थका, करता उग्र विहार ए०; तप द्वादश भेदे करे, गीतारथ पदधार ॥ए०. ३४॥ योग्य जाणी सूरिपद दिष्ट, परिकर दीधो सर्वे ए०; भव्यजीव प्रतिबोधता, विचरे मही निर्गर्व ॥ए०. ३५॥ जिन शासन परभावता, लब्धितणो भंडार ए०; -केवलज्ञान लही करी, शिव वधूं वरिआ सार ॥ए०. ३६॥ श्री जयानंदना रासमां, छठे खंडे ढाल ए०; पश कहे अग्यारमी, सुणतां मंगलमाल ॥ए०. ३७॥ मर्वगाथा ३५२

दुहा.

श्री जयानंदनी नृप सवे, सेवा करे सुखदाय; विविध देशने वश करी, राज्य वधारे राय. ॥१॥ जिनमत प्रौढता जगतमां, पुण्यवंत पृथ्वीश; कर

टाले न्यायज करे, दान दिए निश दीश ॥२॥ प्रजा सुखी तव संपजे, सुर
त्तिम सुरनो स्वाभि; तृण समान गणे ते तदा, मद अहंकार ऊदाम. ॥३॥

हाल १२ मी.

॥सुगुण सुगुण-सोभार्गी जंबू द्वीपमां होजी ॥ए देशी॥

एकदिन एकदिन नृपने वीनवे होजी, आवीने वनपाल; मावित्र मावि-
त्र तुमचा उद्यानमां होजी, आव्यां छे इणेताल ॥ए० ४॥ साथे साथे परि-
कर थोडलो होजी, सांमली हर्ष न माय; दान दान दीए तस हर्षनुं होजी,
अंगे पुलकित थाय ॥ए० ५॥ चाल्यो चाल्यो नृप पालो थको होजी, हय
गय विण परिवार; उत्सुक उत्सुकनाए टक्या नहीं होजी, गया उद्यान
मझार ॥ए० ६॥ हर्ष हर्ष आंसुए पखालतो होजी, प्रणमे मावित्र पाय; दे-
ई देई आर्लिगन चुंवतां होजी, आशीश बहु दिए माय ॥ए० ७॥ आणंद
आणंद लहीने पूछता होजी, क्षेम प्रश्नादिक वात; राणी राणी त्रणे जा-
णी करी होजी, आवि करे प्रणिपात ॥ए० ८॥ बहुरो बहुरो देखी आणं-
दीआं होजी, आव्यो हवे परिवार, तातने तातने गज बेसारिआ होजी,
मात सिहांसन धार ॥ए० ९॥ पोते पोते छत्र नृपने धरे होजो, गौरव करी
बहुमान; लाव्या लाव्या नृप निज मंदिरे होजी, बेठा विष्टर थान ॥ए० १०॥
पाठ पाठ पीठे वेशी करी होजी, उत्संगे पद लाय; देखी देखी समा आति री-
झती होजी, सहने करे विदाय ॥ए० ११॥ पूजा पूजाने स्नान भोजन करे
होजी, साथे सह परिवार; अवसरे अवसरे पूछे तातने होजी, स्नेह भक्ति
अपार ॥ए० १२॥ ऋद्धि ऋद्धिने परिकर थोडले होजी, आवबुं किम अ-
कस्मात; आंसु आंसु मिश्र आंखे कहे होजी, सांमल वत्स तुं वात ॥ए०
१३॥ राज्य राज्य देई सिंहसारने होजी, आता तापस थाय; थातां थातां
तापस मुज चारिओ होजी, सिंहे विनय देखाय ॥ए० १४॥ भक्ति भक्ति दे-
खावे तेहवी होजी, वीतो केतोक काल, माया मायाविनुं मन नवि लह्युं हो-

जी, दुष्टनुं मन विकराल ॥ए० १५॥ एक दिन एक दिन आलोचन भिरे
 होजी, तेडयो मुजने एकांत; हुं पणं हुं पण विश्वासे गयो होजी, एकज
 धरी मन खांत ॥ए० १६॥ पूर्वे पूर्वे रचित सामग्रीए होजी, वांधी वंधने मुज;
 वंदि वंदिखांने मुज नांखीओ होजी, तिमहिल माता तुज ॥ए० १७॥ मा-
 हारा माहारा वावस्ता नाखीआ होजी, वांधी गुप्तज थान, केईक केईक ना-
 शीने गया होजी, पामी अवसर तान ॥ए० १८॥ माहहं माहहं घर लुट्युं इणे
 होजी, निज वश कीवलो देश; चोकी चोकी मांहिं हुं रहं होजी, विवर न
 लहुं लवलेश ॥ए० १२॥ परजा परजा बहु मुज रागिणी होजी, जाणी रा-
 ज्यनो नाश; तिणे तिणे ए काम कर्तुं वृथा होजी, मिथ्या मिथ्या निवास
 ॥ए० २०॥ सेवक सेवक सूरदत्त माहरो होंजी, बीजो वीरदत्त नाम; मारा
 मारा भक्तिवता घणा होजी, नाशी गया कोइ ठाम ॥ए० २१॥ सेवक सेवक
 पण मुज भित छे होजी, नामे नरपति धीर; तेहने तेहने घर ते विहुं रखा
 होजी, साहस वडगंधीर ॥ए० २२॥ दीधी दीधी सुरंग तिहांयकी होजी,
 यावत गुप्ति थान, काले काले सज्जन नर परखीए होजी, कीधी मुज तिणे
 ज्ञान ॥ए० २३॥ प्रिया प्रिया सहित मुज काढीओ होजी, लाव्या रात्रिए
 गेह, स्वामी स्वामीनी भक्ति इम जाणिए होजी, न गणे प्राणजो नेह ॥ए० २४॥
 पूर्वे पूर्वे सामग्री करो होजी, नाशी आव्या मुज संग; सर्वे सर्वे सल धरी
 करी होजी, धरतां चित्त उमंग ॥ ए०. २५ ॥ धीर धीर सूरवीरशुं चा-
 ल्या होजी, कोईक स्थानक पामि, आव्या आव्या संकेतित नर सहु हो-
 जी; यानादिकशुं ते ठामि ॥ ए०. २६ ॥ सज्जन सज्जन सघले माहारा
 होजी, आव्या अनुक्रमे एथ; स्वजन स्वजन केइक छे गुप्तिमां होजी, दुखी-
 आ छे हजी तेथ ॥ ए०. २७ ॥ तेहने तेहने मुकाववा योग्य तु होजी, सां-
 भली तेह कुमार; खेद खेद प्रमोद आश्चर्यथी होजी, चिंते चित्त मझार
 ॥ए०. २८॥ कीधो कीधो उपगार में केटलो होजी, पण दुरजन सिंहसार;
 प्राण प्राण बहुवार उगारिए होजी, खल नवि निज निरधार ॥ए०. २९॥
 ॥यतः॥ धूमः प्रयोधरपदं कथमप्यवाप्य, वर्षाबुधिः शमयति ज्वलनस्य तापं

दंवादवाप्य खल नीचजनःप्रतिष्ठां, प्रायःस्ववंधुजनमेव निरस्करोति १॥ पूर्व
 ढाल् ॥ खेद खेद करो शे मुज छतां होजी, करशुं सर्वनी सार; देशुं देशुं शिक्षा
 भली भांतशुं होजी, जे करता अपकार ॥ ए०. ३० ॥ करशुं करशुं
 प्रसाद ते उपरे होजी, जिणे तुम कर्यो उपगार; त्रणे त्रणे सुभट बोलावी-
 आ होजी, गुण स्तवे वारंवार ॥ ए०. ३१ ॥ स्वामि स्वामि भक्ता तुम स-
 खने होजी, वरणवीएकहो केम; तेहना तेहना कुटंबने तेडीने होजी, करे स-
 त्कार ते एम ॥ ए०. ३२ ॥ वस्त्र वस्त्र आभरणादिक घणां होजी, दिए प्रसेके तास;
 देश देश एकेक दिए त्रणने होजी, ते लखा हर्ष उल्लास ॥ ए०. ३३ ॥ ॥ यतः ॥
 सुवर्ण पुष्पां पृथिवी, मुच्चिन्वति नरा स्त्रयः ॥ शूरश्च कृतविद्यश्च, यश्च जानाति
 सेवितुं १ ॥ पूर्व ढाल् ॥ निजवश निजवश देश ते जइ करे होजी, सेवे दोय
 राजान, बीजा बीजा साथे आव्या तेहने होजी, करता ग्रासनं दान ॥ ए०.
 ३४ ॥ छठे छठे खंडे वारमी होजी, पत्ते भाखी ए ढाल्; सुणजो सुणजो श्री
 जयानंदना होजी, रासमां वात रसाल ॥ ए०. ३५ ॥ सर्व गाथा ३८८.

टुहा.

शीखामण सिंहसारने, श्री जयानंद सनूर, माणस निज मूकाववा, दूत
 मोकले दूर ॥ १ ॥ विजयपुरे जई वेगशुं, कहेजे इंगिपरे काम; राज्य
 भ्रंश भय राखीने, हाथे थयो हराम ॥ २ ॥ ते दीधुं दुख तातने, लोपी स-
 हुनी लाज; राज्य थाप्यो में रंगशुं, कीधुं अवळं काज ॥ ३ ॥ देइने आदा-
 न करुं, वारु नहीं ए वात; मूकजे स्वजन ते माहरा, आगळ सुणी अवदात
 ॥ ४ ॥ हरिनुं मांस जंबूक हरे; कहेवी वात कहाय; न मूके तो निग्रह करुं,
 एहमां नहीं अन्याय ॥ ५ ॥ कूतरो पय कुत्सित करे, नाडना पामे तेह; ले-
 ख लखी एम मोकले, आगळ कहुं वली एह ॥ ६ ॥

ढाल १३ तेरमी.

मन मोहन मोहन पावन देहडीजी ॥ ए देशी ॥

वली सुणजे सुणजे माहरा तातनुंजी, लुंटयुं वन लुंटयुं वन ते अणी वंध
हो; तिम स्वजन तिम स्वजनने सत्कारी दगुंजी, मोकलजे मोकलजे टालीबंध
हो, जगमांहि जगमांहि श्रीजयानंद जयोजी, ॥आंकणी॥ एम न करे एम न
करे तो युद्धने सज्ज थजेजी, दूत मुखथी दूत मुखथी जाणे सिंहासारहो; वांची
पत्र वांची पत्रने कंप्यो हृदयमांजी, भयभीत भयभीत थयो ते अपारहो ॥ज०८॥
श्रीविजय श्रीविजयरायनुं वन सवेजी, वली स्वजन वली स्वजनने दि एवहुमानहो;
वली भेटणुं वली भेटणुं श्रीजयानंदनेजी, लिखे लेखलिखे लेखमूक अभिमानहो
ज०९ देश नृपनो देश नृपनो पाछो आपीयोजी, दूतने कहे दूतने कहे नरमवचनहो;
दूत स्वजन दूत स्वजन पोहता सह नृप कनेजी, वात सघली वात सघली सुणे नृप
कन हो ॥ज०१०॥ देखी जाणी देखी जाणीने हरखते वेंहुजी, नृप आपे नृप आ-
पे स्वजनने देशहो, एक दिवसे एक दिवसे श्रीजयानंदनेजी, माय तायमाय ताय
पूछे सुविशेषहो ॥ज०११॥ विजयपुरथी विजयपुरथी गया ते दिन थकीजी, कहे
चरित्र कहे चरित्र जे निपनुं तुमहो, इच्छाविण इच्छाविण तात जाणा थकीजी,
कहे कुमरकहे कुमरचरित्रसुणो अमहो ॥ज०१२॥ सुणीमावित्र सुणीमावित्र आ-
णंदमय थयांजी, सुतभक्ते सुतभक्ते श्रीविजयरायहो; चित्तचमक्या चित्तचमक्या
वहु नृप सेवताजी, काढे सुखमां काढे सुखमां काल अमायहो ॥ज०१३॥ ससांग
ससांग राज्यने पालताजी, निज अर्जित, निज अर्जित, राज्यविशालहो; निज-
तातने निजतातने आग्रहवहु करीजी, राज्य आपे राज्य आपे सुतभूपालहो ॥ज०१४॥
नृपउत्तम नृपउत्तमने नीरीह थयोजी, पुत्र प्रेम पुत्र प्रेम दाक्षिण्ये तेहहो, करे
अंगी करे अंगीने श्री जयानंदनेजी, युवराज्ये युवराज्ये ठवे ससनेह हो ॥ज०
१५॥ कोई आणा कोई आणा न लोपे ते विहु तणीजी, समसिंहासने सम
सिंहासने बेसंतहो; वेष भूषण वेष भूषण न्याय तेजे करीजी, दाय सरिखा
दाय सरिखा महा पुण्यवंतहो ॥ज०१६॥ भीमकांत भीमकांत गुणे दाय सोह-
ताजी, चंद्रसूरय चंद्र सूरय के दाय इंदहो; पिता पुत्र पिता पुत्र स्नेही सुखमां
रहेजी, एक दिवस एक दिवस श्री श्रीजयानंदहो ॥ज०१७॥ देश साधवादेशसा-

ध्वानी इच्छा करीजी, राज्यचिंता राज्यचिंता पिता शिर थापि हो; शक्रविक्रम शक्रविक्रम राज्य चूडामणिजी, सहु नृपमां सहु नृपमां अतिपरतापहो ॥ ज० १८ ॥
 मध्यखंड मध्यखंड लीलाए साधीयोजी, चक्रपुरनो चक्रपुरनो नृप चक्रसेनहो;
 जयपुरनो जयपुरनो जयी शत्रुजय करेजी, अति बलीयो, अति बलीयो, जीताए केनहो ॥ ज० १९ ॥ जयंती जयंती नयरीनो धणीजी, जयंत जयंत शत्रु, करे अंत हो; पुरंदर पुरंदर पुरपति नर केशरीजी, भीमराजा भीमराजा भोगवती कंतहो ॥ ज० २० ॥ सुमंगल सुमंगल कौशलनो पतिजी, नंदीपुरनो नंदपिनोनेर-पति नंदहो; सूर्यपुरनो सूर्यपुरनो सूरमहीपतीजी, वलीप्रथवी वलीप्रथवी चंद्र कलाचंद्रहो ॥ ज० २१ ॥ कृपराजा कृपराजा प्रमुख सेवक कर्याजी, एम साधी एम साधी भूप अनेकहो; सैन्यसायर सैन्यसायर लेइने आवीआजी, मध्यखंड मध्य-खंड साधी सुविवेकहो ॥ ज० २२ ॥ तात प्रणमे तात प्रणमे निजपुर आवीनेजी, सेवाकरता सेवाकरता निर अहंकारहो; राजराजा राजराजानो विरुद बहेतो थकोजी, प्रसिद्धि प्रसिद्धि लहे सुविस्तारहो ॥ ज० २३ ॥ ससराने ससराने पामे-थी तेढावतोजी, निजपरणी निजपरणी पूरवली नारहो; लेखमांहि लेखमां-हिं निशानी प्रमुख लखीजी, ससरा पण ससरा पण सुणीअ तिवार हो ॥ ज० २४ ॥ प्रभुरीते प्रभुरीते सेववो एहनेजी, सज्जनाइए सज्जनाइए सेववो सारहो; एम चितवी एम चितवी सहु लेइ भेटणांजी, निजकुमरीनिजकुमरी लेई शरहां ॥ ज० २५ ॥ तथाहि मणिमंजरी मणिमंजरी लेई आवीओजी, श्रीविशा-ल श्रीविशाल पुरनो नाथ हो; अंतेऊर अंतेऊरशुं आवी नमेजी, दिए पुत्री दीये पुत्री हाथो हाथहो ॥ ज० २६ ॥ हेमपुर हेमपुर धणी सौभाग्यमंजरीजी, पञ्चरथनृप पञ्चरथनृप आवे वेगहो; निज विजय निज विजयसुंदरी लावीयोजी, अंतेऊर अंतेऊर लेइ सतेगहो ॥ ज० २७ ॥ कमलप्रभ कमलप्रभ लेइ निज कुंबरीजी, कमलसुंदरी कमलसुंदरी रति अनुहार हो, श्री जयपण श्रीजयपण आदर आपताजी, वास ग्राम वास ग्राम आपे तस सारहो ॥ ज० २८ ॥ रमणशुं र-मणीशुंरमतो नित्य प्रतेजी, राज्य सुंपी राज्य सुंपी तातने तामहो; श्रीजयप-ण श्रीजयपण भूपति रंगशुंजी, सुख भोगवे सुख भोगवे अति उदामहो ॥ ज०.

(२६८)

श्री जयानंद कंवळीनो रास.

२९ ॥ तस सोभा तस सोभा शिरिवळ देखिने जी, ससरादिक ससरादिक लहे चमत्कारहो, छठे खडे छठे खडे ढाळ तेरमीजी, कहे पद्म कहे पद्म सुण्यो जयकार हो ॥ ज०. ३० ॥ सर्व गाया ४१८.

दुहा.

श्री जयानंद सभा करी, तातशुं वेठा ताम; ससराप्रमुख मिली सत्रे, अचरिज लहे अभिराम ॥१.॥ एणे अवसर तिहां आवीयुं, दुर देशधी द-
क्ष, गायन पेटक गुणी वणुं, सुकंठ तेहमां सुलक्ष ॥ २. ॥ मधुर ध्वनि गाये
मोजमां, वली एक तेहने वाम; सर्वकला सावधान जे, गीतनां स्वरने श्रा-
म ॥३.॥ भरताशुं गावा भणी. तुरत मेलवे तान; राज सभामां रंगशुं,
आल्या अवसर जाण ॥४.॥

ढाल १४ चौदमी.

मोहनगारा हो राज, रूढा माहरा सांयल सुगुणा सूडा ॥ए देवी॥

सुगुण सौभागी हो राज, वारू मारुं गीत सुणो सुखकारू ॥ए आंकणी॥
पद्मरथ राजा तणीजी, पुत्रि दोय निधान, लघु आपी तिहां भिल्लने जी,
इतर दीधी राजानके ॥ सु०. ५॥ तिहांथी मांडीने कहेजी, गायन घरि गई
जाय; सुख दुख पूर्वनुं सांभर्युं जी, रुदन कर्युं तिणे तावके ॥ सु०. ६ ॥
सुकंठ कहे रोवे किशुं जी, रंग मांहि करे भंग; आ अवसर छे दाननो जी,
साजन भिल्लियो संग के ॥सु०. ७॥ ॥यतः॥ तुह गीय गुणेण रंजिआ, सुचि-
रं सुंदरि कामदाय्या,रुह रोइति दुत्थया खया,वसरे नो सुलद्धो खणो पूणो१
॥ पूर्व ढाळः ॥ रोवुं भूकी गायती जी, किम काहि गद गद वाण, गीतना
छलथी सर्वनेजी, चित्रकारी गाये गानके ॥ सु०. ८ ॥ ॥ तथाहि ॥ किहप-
उमपुर किह पऊमपहु,किह पिअडा भंगिणीभिल्ल गहु;जयसुंदरि गायणधरिहिं
गया, इहगायइषणकाज्जिदइवह्या १ ॥पूर्व ढाळः॥ निज भरतार अग्निधा सु-
णीजी, विस्मित पद्मरथ राय; चोंपथी जूए नृप जेटलेजी, निज सुता

ओलखे तायके ॥ सु०. ९ ॥ वत्स वत्स रे तुं किहां जी, किम आची इण ठाय; एम विलपती वलगी गले जी, आची एहनी मायके ॥ सु०. १० ॥ वेहुं परस्पर रोवतांजी, आच्यो तेहनो ताय; ते पण ओलखी रोवतांजी, प्रणमे तातना पायके ॥ सु० ११ ॥ करुणामयी ते सभा थइजी, जाणवा तल स्वरूप; भूपने पूछे एकिशुजी, तव भाखे इम भूपके ॥ सु० १२ ॥ वे कन्या मुज तेहनेजी, आपी समझ्या एक; पूरी अनुकूल पहेलीएजी, चित्तमां धरिय विवेकके ॥ सु० १३ ॥ वीजी प्रतिकूल परतीजी, रीस चढी मुज ताम; कारिमा भिल्ल भणी तदाजी, आपी हीणे ठामके ॥ सु० १४ ॥ तूठो जय सुंदरी भणीजी, नरकेशरी नृप जात; आपी हर्षे राखीओजी, केइक दिन वही जातके ॥ सु० १५ ॥ शीख दीधी में एकदाजी, लेई प्रिया गयो घेर; गातां हवणां ओलखीजी, जयसुंदरी इणिपरके ॥ सु० १६ ॥ स्वर अनुसारे जाणिएजी, पुत्री दुखमां लीन; आगळ हं जाणुं नहींजी, एहज कहशे अहीनके ॥ सु० १७ ॥ नृप आणाथी सा कहेजी, भर्त्तां शुं निज शहर; भोग क्रीडा मुजशुं करेजी; अति आशक्त निज घेरके ॥ सु० १८ ॥ वसंत ऋतुमां अन्यदाजी, कुसुमाकर उद्यान; दाय गाल ते नयरथीजी, रमवा गयां तिणे थानके ॥ सु० १९ ॥ क्रीडा घर तिहां सुंदरुजी, ढांकी कुसुमनीमाल; रंभास्तंभे सोहतुंजी, दीसे शय्या सुकुमालके ॥ सु० २० ॥ भोग सामग्री लेई सवेजी, दाय मासने काज; दूर सुभट चौकी रखाजी, दासीदंड चिहुं पाजके ॥ सु० २१ ॥ गीत नाटिक वारांगनाजी, करती अतीहिं रसाल; भोगाशक्तमां इणिपरेजी, काढे रीजमां कालके ॥ सु० २२ ॥ एणे अवसर हवे अन्यदाजी, सहसकूटनो स्वाम; सैन्य सहित तिहां आचीओजी, महासेन एणे नामके ॥ सु० २३ ॥ लुंठवा कोई क गामनेजी, पण तस हुवो जाण; खाली आच्यो ते फिरीजी, आप्या अमतिणे टाणके ॥ सु० २४ ॥ तुम जमाइ लडवा गयाजी, रात समे तव तेह; नाठो जमाई तुम तणोजी, लुटयुं केलिनुं गेहके ॥ सु० २५ ॥ मुज पवढी लेई गयोजी, कहे तुज करशुं नार; शील भंगना भय थकीजी, त्रण दिना कीधो न आहारके ॥ सु० २६ ॥ पछि पति कहे तुजनेजी, आपशुं तुज भरतार; धन

(२७०)

श्री जयानंद केवळीनों रास.

लेई तिणे कारणेजी, कर तुं सुखमां आहारके ॥सु० २७॥ जाणी समाधान
मे कर्योनी, आहार घरी विश्वास, हवे जे आगळ नीपजेत्री, ते सुणो कर्म
विलासके ॥सु० २८॥ छठे खंडे चौदमीजी, पञ्चविजये कही ढाळ; श्रीजया
नंदना रासमां सांभळोजी, आगळ वात रसालके ॥सु० २९॥ सर्वगाथा ४४६

दुहा,

पल्लिपतिनी जे प्रिया, शोक ए माहरं साल; परवतमांथी पाधरी, औ-
षधी लावी आल ॥१॥ भोजनमां भेली दिए, जलोदर वाध्युं जोर; वैद्य औ-
षध विणगद कहो, किम टले कर्म कठोर. ॥२॥ सुकंठ ऊपर समजणे, देवा
रीजे दान; गीत सुणी रंगे करी, शोकनी आणी सान. ॥३॥ पल्लिपति पोते
तदा, धारी एहवुं ध्यान; शांता करवा सुंपतो, विजयसुंदरी शुभ वान.
॥४॥ रुप लोभे रंगे ग्रही, सज करशुं एम सान; पाखंड पत्तन पामीओ, द्र-
व्य तणु करी दान. ॥५॥ वारु सुमति वैद्य छे, मलिम करी गदमूल; रेच
प्रमुख देइ रोगने, उपशम करे अनुकूल. ॥६॥ सुप्रतिने संतोषिओ, माननी
कीधी मुज; गीत शीखच्यां गेलशुं, गाऊ गीत एगुज्ज ॥७॥ भूपाविकने भ-
ली परे, रीजवी लेऊ रीद्धि; महाधनी मुजपति थयोसर्वकलापरसिद्ध. ॥८॥



॥ ढाळ पदरमी. ॥

संभव जिन अवधारिण ॥ ए देशी ॥

जाणी श्री जयानंदने, मिलीआ बहुला राय सोभागी; आव्या तव तुमे
जाणीआं, उलस्यो दुख सम वायसोभागी. ॥९॥ मद मत करजो मानवी ॥ ए
आंकणी ॥ चरित्र पोतानुं जणाववा, गायुं गीत नवीन सो०; आगळ वात
सवे लहो, शुं कहुं तुमे छो प्रवीण ॥ सो० म०. १०॥ ' विजयसुंदरी भिछने
दीधी शुं थयुं तास सो०; किहां छे खबर न तेहनी, बहु दुखनो आवास
॥ सो० म० ११ ॥ भिछ नहीं ते नृप कहे, एतो राजकुमार सो०, भाग्य प-

रीक्षा कारणे, तादृश रूपनो धार ॥ सो० म०. १२ ॥ मुज जीत्यो जग
 जीत तो, श्रीविजय नृप पूत सो०; राजेंद्र श्री जयानंदजी, जे राखे घर
 सूत ॥ सो० म०. १३ ॥ डावे पासे ए रहीं, भूपतिनुं बहु मान सो०; विज-
 यसुंदरी वेहनडी, ताहरी जो असमान ॥ सो० म०. १४ ॥ अंगुलि ए दे-
 खाइतो, मिलवा ज्ञाए जाम सो०; बलगी कंठ उठीने, विजयसुंदरी ताम
 ॥ सो० म०. १५ ॥ रोवे तव ते विहुं जणी, रूंथी रुदन तिवार सो०; वि-
 जयसुंदरी एम कहे, धन्य तुज शीयल आचार ॥ सो० म० १६ ॥ तेहिज
 वात साची कही, ते दिन सभा मझार सो०; देव गुरु धर्म तत्वनो, महिमा
 अगम अपार ॥ सो० म०. १७ ॥ में समझ्या पूरी तदा, तेह अतालिक जा-
 ण सो०; फल विहुंने तेहवां थयां कार्य कारण परमाण ॥ सो० म०. १८ ॥
 नास्तिकवादे हुं हणी, रुहुं मनाववा तात सो०; पूरी समझ्या तेहनुं, फल
 आपद आयात ॥ सो० म०. १९ ॥ भूप प्रसन्न अप्रसन्नथी, न होय सुख
 दुख कोय सो०; सुख दुख पुष्य ने पापथी, इहां द्रष्टांत अम होय ॥ सो०
 म. २० ॥ वात सुणी ते विहुं तणी, एम कहे श्री जयानंद सो०; परखदाने
 समजाववा, शुणतां धर्मजिणंद ॥ सो० म०. २१ ॥ विस्मय लोक लह्या
 घणो, हवे सुकंठ बोलाय सो०; इच्छित धन आपी करी, जयसुंदरी आ-
 दाय ॥ सो० म०. २२ ॥ आपी तेहना तातने, ते पण घरमां लाय सो०;
 शास्त्रविधे तस थुद्ध करी, घरमां राखे ताय ॥ सो० म०. २३ ॥ तेहना
 नगरथी तेडीओ, नरकुंजर जे राय सो०; ठवको देई बहु आपतो, जयसुं-
 दरी सुपसाय ॥ सो० म०. २४ ॥ ससरादिकथी लाजतो, लेई प्रिया निज
 पाणि सो०; वीरनेद्य निजपुरे गयो, हर्ष घणो मन आणि ॥ सो० म.
 २५ ॥ प्रीति बघारी सहु प्रते, करी आदर सत्कार सो०; विसर्ज्या निज
 पुरे गया, करता धर्म विचार ॥ सो० म०. २६ ॥ राज्य सौंपी निज तात-
 ने, कुमर प्रियाशुं केलि सो०; करता धर्म लोपे नही, चितहुं तेहमां भे-
 लि ॥ सो० म०. २७ ॥ वनपालक आवी कहे, फुल्यो भूप वसंत सो०;
 कोकिलडा ठौका करे, चंदन वास घमंत ॥ सो० म०. २८ ॥ चंपक चोखा

(२७२) श्री जयानंद केवलीनो रास.

फूलीया, तिम पुत्रागनी श्रेणि सो०; अलि झंकार करी रक्षा, करुं वीनती
तुम तेण ॥ सो० म० २९ ॥ भूप श्रीविजय ते सांभली, कहे निज पुत्र
ने एम सो०; वय वीत्युं क्रीडा तणुं, तिणे रमवा जाळ केम ॥ सो० म.
३० ॥ तिणे तुमे नीकलो क्रीडवा, तुम विण जन नहीं जाय सो०; तात आ-
णा शिर उपरे, धारी कुंअर राय ॥ सो० म०. ३१ ॥ अंतेउर परिवार
शुं, सामग्री सवि लेय सो०, नगर लोकशुं नीकल्या, देता दान अमेय
॥ सो० म०. ३२ ॥ छठे खंडे ए कही, पंचरमी वर ढाळ सो०; पन्न विज-
य कहे सांभलो, आगळ वात रसाल ॥ सो० म०. ३३ ॥ सर्व गाथा ४७९.

दुहा.

निज निज रीद्धि नीकल्या, पुरीजन बहु परिवार; वाजित्र बहु विध वाज
ते, नवरंग गति गाय नार. ॥१॥ नाटकीआ बहु नाचता, खेला खेले खां-
त खनूर प्रमुख स्वाय खाद्यने, तरुण रमे एकांत. ॥२॥ रंभा घर रंगे सूप,
प्रतिपादप पुष्प पाण, वसंत किण विध धरणबुं, जिहां बहु कामनुं जाण.
॥३॥ क्रीडासरे बहु क्रीडतां, नरनारी निर्वाण, सविं जळ श्रृंगी घणु,
गाये वसंतना गाण. ॥४॥ क्रीडा करी कांठे रक्षा, शोभावे सरपाल; सिंहा-
सवे सोहे अति, नरनारीशुं नृपाल. ॥५॥

ढाळ १६ मी.

॥ सारदबुद्धिदायी ॥ ए देशी ॥

इण अचसर आच्यो, भिल्ल एक करचाप, व्याघ्र चर्म ते पहेर्या, दीन करे
आलाप; श्वान रज्जुए वांध्यो, मोरपिंछ धर्या माये; वाणभाया विहु दिश,
केइ भिल्ल तस साथे ॥६॥ ॥त्रुठका॥ तेहमांथी एक आवी मणमे, नरपति पूछे
ताम, कोण तुमे तव भिल्ल कहे सूनो, माहरी घात ते आम; चंडासिंह पछि
पतिराज्ये, जम दुर्ग पर्वत स्वामी; सिंहवाघ्र नामे सुत तेहने, तात ते पर-
भव गामी. ॥७॥ ॥ढाळा॥ विहुं भाइए लीधुं, वहेंची राज्य उदार, सिंह लिष्ट

तव वलथी, राज्य तथा वरनार; ते दुखथी भमतो, वनमां मृगे जीवंतो; तुम पासे आव्यो, ते हुं अरज करंतो ॥८ त्रू०॥ ते भाइ मुज क्रीडा करतो, सिंह आव्यो इण वनमां; मुज पत्नी शु रमतो वलीओ, हुं पण वलुं घणुं तनमां, दुर्वलनुं वल राजा जाणी, आव्यो लुं तुम पासे; तुम सैन्यनो कोलाहल सुणीने, रखे ते इहांथी गासे ॥ ९ ॥ ॥ उक्तंच ॥ दुर्वलस्य वलं राजा, बालस्य रुदनं वल; वलं मूर्खस्य मौनत्वं, तस्कररवानृतं वलं ॥ १ ॥ दुर्वलानाम नाथानां बाल वृद्ध तपस्विनां; अनार्य परिभूतानां, सर्वेषां पार्थिवो गतिः ॥ २ ॥ तिणे कारण चालो, एकाकी तुमे राय; जो शक्ति होवे, तो विलंब बहु थाय; ते दुष्टने मारी, माहरी भिया मूकावो; सज्जन उपगारी, माहरुं राज्य अपावो ॥ १० त्रू०॥ सजनपर आपद देखिने, अधिकुं सौजन्य धारे; ग्रीष्मे तरु नव पल्लव होवे, आतप सहूनो धारे; ते सांभलीने राजा कोप्यो, मुज धरतीमां अन्याय; किम करे एहवुं माहरा राज्यने, मोहटुं कलंक ते थाय ॥ ११ ॥ ढाळ॥ देखाढ तुं मुजने, एहनो निग्रह कीजे; क्षण मात्र न सहीए, इणिपरे राय वदीजे, छांना तीकलीआ, भिल्लशुं लेइ समशोर; मोहटा जे बोले, तेहमां न पडे फेर ॥ १२ त्रू०॥ वन निकुंजेन मुख जइ बोले, भिल्लरायने एम; आ वनमां छे माहरो भाई, तिणे हुं पेसुं कोम वीहीक लागे तिणे इहांहिज रहेसुं, इम सुणी पेसे राय; वनमां सघले खोल्यो पण ते नलहो किणही ठाय ॥ १३ ढाळ॥ नृप पाळो आव्यो, भिल्ल तिहां नवि देखे; नृप इम विचारे, इंद्रजाल ए लेखे; पुरभणी जव यावे, गगनथी एक विमान; आव्युं तेहमाथी, नीकल्यो खेचर प्रधान ॥ १४ त्रू०॥ आवी भूपने प्रणमी बोले, ज्ञाने करो विचार; ए सघली माया छे माहरी, हुं लाव्यो इंगे ठार; तेहनुं कारण सांभल नरवर, वैताढये नगर पंचास; दक्षिण दिशि तेहमां रथ नुपुर, चक्रवाल ते खास ॥ १५ ढाळ॥ तिहां पवन वेग हुं, बहु विद्याधर स्वामी; दक्षिण दिश खग सहु, माहरी आण नाकामी; वज्रवेग-माहरे सुत, बहु विद्या जिणे साधी; कर्तु पाणि ग्रहण, कीरति जगमां वाधी ॥ त्रू० १६ ॥ हेमगिरिश्रुंगे हेमपुर थाप्यु, तिहां क्रीडे सुविशाल; छहे खंडे पद्मविजण कही, रंगे सोळमी ढाळ; श्री जयानंदना रासमां रुढी. सू-

(२७४)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

णतां मंगल माल; पुण्यना बलथी आगल वातो, सुंदर घणुं सूरसाल १७
सर्वगाथा ४९६

दुहा-

बलिओ विद्या बल थकी, परिहृत बहु परिवार, वसे जालंधर पुरवहुं,
सुवर्ण मणिगृहसार ॥१॥ सार सूरि तस स्वामिनी, कामाक्षा श्रीकार; यो-
गिनी वृंद पूजे जीका, परिछद रूप अपार ॥२॥ नगर मध्ये भुवने रही, तेह
भुवन पुरताम, पीठ सुवर्ण मणिमय प्रवर, योगिनी पीठ जग नाम ॥३॥ आ-
राधक तिहां आविने, साधे योगिनी सहित; पीठने चिहुं दिश परिसरे, वसे
योगिणी बडविच ॥४॥ चोसठ ऋद्धिवंती चतुर, परगट बहु परिवार; नाम
ए तेहनां निरखीए, सुणज्यो तस विचार ॥५॥

हाल १७ मी.

हारे हारे साहिवारे गौकुल गामने गांदरेरे उभला नंदकिशोरेलाल ॥एदेशी॥


हारे हारे साहिवारे, वाराही १ ने बली वामनीरे २, गारुडी ३ इद्राणी
४ नामरे लाऊ; आग्नेयी ५ व्यामा ६ बलीरे, नैऋती ७ सातमे ठामरे लाल
॥६॥ योगिणी जगमां जागतीरे लाल ॥ ए आंकणी ॥ हारे० वारुणी ८
वायव्या ९ कहीरे, सौम्या १० ईशानी ११ जाणरे लाल; ब्राह्मणी १२
वैष्णवी १३ तेरमीरे, माहेश्वरी १४ मन आणरे लाल ॥यो० ७ हां०॥
चैनायकी १५ ने शिवा १६ सुणीरे, शिवदूती १७ शिरदाररे लाल; चामुं-
डी १८ जया १९ जाणिपरे, विजया २० अजिता २१ धाररे लाल ॥यो०
८ हां०॥ अपराजिता २२ हरसिद्धि २३ नेरे, कालिका २४ चंद्रा
२५ विचाररे लाल; सुचंडा २६ छवीसमीरे, करे उपगार अपकाररे लाल
॥ यो० ९ हां० ॥ कनकदंता २७ सुनता २८ उमारे २९, घंटा ३० सुघंटा
३१ साररे लाल, मांस भिया ३२ आशापुरीरे ३३ लोहिता ३४ अंवा ३५
उदाररे लाल ॥ यो० १० हां० ॥ अश्विभक्षी ३३ नारायणीरे ३७, नारं-
सिंही ३८ सुप्रसिद्धरे लाल, कौपारी ३९ वानरती ४० सुरीरे, अगा ४१
धंगा ४२ रीद्ध इद्धरे लाल ॥ यो० ११ हां० ॥ दीर्घदंष्ट्रा ४३ सुदंष्ट्रा ४४

भलीरे, प्रभा ४५ सुप्रभा ४६ वरदायरे लाल; लंबा ४७ लंबोष्ठी ४८ भद्रा ४९ वलीरे, सुमद्रा ५० वरकायरे लाल ॥यो० १२ हां०॥ काली ५१ रोद्री ५२ रौद्रमुखी ५३ रे, कराली ५४ वली तेम रे लाल; विकराला ५५ साक्षी ५६ भलीरे, विकटाक्षी ५७ धरे प्रेमरे लाल ॥ यो० १३ हां० ॥ तारा ५८ सुतारा ५९ रजनी करीरे ६०, रंजना ६१ श्वेता ६२ तुजाणरे लाल, भद्र-काली ६३ ने क्षमा करीर ६४, ए चौमठ मंडाणरे लाल ॥ यो० १४ हां० ॥ काम रूपी ए पूजे जिकेरें, ते जगमां पूजाय रे लाल; विविध प्रकार वरदा-यिनीरे, दुख दारिद्र पलाय रे लाल ॥ यो० १५ हां० ॥ अणिमा लघिमा ऐश्वर्यतारे, वासिंता गरिमा आदि रे लाल; शक्ति विविध छे तेहनीरे; नवि पोहचे कोई वादि रे लाल ॥यो० १६ हां०॥ पर्वत बनने समुद्रमारे, द्रह न दीने कामाररे लाल, द्वीप प्रमुखमां ए रमेरे, दिव्य शक्ति सा धाररे ॥यो० १७ हां०॥ कोपी नर लोकमां करेरे, मरकी प्रमुख उपसर्गरे लाल; तूठी दिए बहु संपदाररे, पुत्र कलत्रना वर्गरे लाल ॥यो० १८ हां०॥ रांकेने वीहरावे घणुंरे, मोहटाने दिए मोदरे लाल; वेप क्रिया बहु जातिनीरे, करती विविध वि-नोदरे लाल ॥ यो० १९ हां० ॥ हेमश्रृंगगिरि क्रीडा तणुंरे, योगिणीनुं छे ठामरे लाल, मुज पुत्रे अणजाणतारे, तिहां धारस्युं वरगामरे लाल ॥ यो० २० हां॥ योगिणीओ कोपी तदाररे, मरकी अतिशय कीधरे लाल; लोक ना-डा ऊपद्रव्य थकीरे, लेइ निज निजनी ऋद्धिरे लाल ॥ यो० २१ हां॥ यो-गिणी वश करवा भणीरे, श्रीपर्वतमां जायरे लाल; वज्रवेग विद्याधररे, तिहां ज्वालामालिनी ठायरे लाल ॥यो० २२ हां०॥ तेहनीं द्रष्टि आगल रहीरे, करे तिहां जापने ध्यानरे लाल; लाख वीलां होमें तिहांरे, करे मन इच्छित दानरे लाल ॥यो० २३ हां०॥ एह रीति देवी तणीरे. वज्रवेग पण तामरे लाल; सामग्री सवि मेलिनेरे, वेठो जापने ठामरे लाल ॥यो० २४ हां०॥ योगिणी जाणे ते सवेरे, सातमे दिन तिहां आयरे लाल; करे प्रति-कूल उपसर्गनेरे, पण न खोभाणो जायरे लाल ॥यो० २५ हां०॥ छहे खंडे ए कहीरे, सत्तरमी वर ढालरे लाल; पत्रविजय कहे सांभळोरे, आगल.

वात रसालरे लाल ॥यो० २६ हां०॥

दुहा.

जालिम तुमें योगिणी कहे, रूप अनोपम धारि; तूठीछुं तुम उपरे, सा-
हसिकमां शिरदार ॥ १ ॥ भर्ता तुज करी भोगवुं, भोग भला मनभाव; रूप
लखमी सफली करुं, परगट अवसर पाव ॥ २ ॥ सेवा करशुं साचली,
दुर्लभ दैवत भोग; नर रूपे भोगव नवल, शुभ पामी संयोग ॥ ३ ॥ कले-
श फोगट कहो कुण करे, ध्यान तपादिक धार; मोदक पामी मानवी, बाल
न रांधे किवार ॥ ४ ॥ आलिंगन दे उठीने, रागिणी अमे रसाल; खारां
जल पीधां खरां, भला अमृत तु भाल ॥ ५ ॥ एम कही नाटिक आदर्शुं,
गाए मोहन गीत, नेउर कंकण रणझणो, चमके जिणथी चित्त ॥ ६ ॥ काम
उद्दीपन कारमुं; सांभळी लागो स्वाद; कंदर्पने वश थइ करी, नवि बोले
ज्यां नाद ॥ ७ ॥ हमती वांधे हुंशथी, तिगडित्त करीने नार; तिज पत्तनमां
नाखीओ, श्रीडा करे किवार ॥ ८ ॥ सर्वगाथा ५३०



॥ ढाल अढारमी. ॥

तुं कुलमांहि ऊपनी, ऊयजीने ते खोयुं हो; परियाग-

तनुं पाणी होराज ॥ ए देशी ॥

मैं ते जाणी वातडी, विविध प्रकारे पूजा हो; स्तवना पण बहु कीधी
होराज, पुत्र मूकावण कारणे: संतोषी घणुं तेने हो, पण नवि जाए लीधी
होराज ॥९॥ हवे वैताढयनो अधिपती, ऊत्तर श्रेणिमां सार हो; गगन व-
छमपुर राजे होराज, चक्रायुध तिहां राजिओ, सर्व विद्याधर स्वागी हो,
श्वक्री नाम ते छाजे होराज ॥१०॥ ज्योतिपीमां सूरयपरे. कल्पवृक्ष जिम
तरुमां हो; हरि जिम शृगमां घळीओ होराज, मेरू जिम परवत मांदि; तिम
एसम अथ अधिको हो, बल विद्याए नकलीओ होराज ॥११॥ विद्याधर-
मां को नहीं, भूचरनी श्री वात हो; ऊभय श्रेणि तस सेवे होराज, मुजरो

करी में विनव्यो; मुज सुतने मूकावो हो; तव मुज उत्तर देवे होराज ॥१२॥
 मूकावीश तुज पुत्रने, योगिणीनो शो भार हो; एणिपरे मुजने भाख्यो हो-
 राज, एम बहुवार में प्रेरीया; एहनो एहज मुजने हो, उत्तर फरी फरी
 दाख्यो होराज ॥१३॥ विपयादिक परमादधी, मोहाटाने शुं कहिए हो; श-
 क्तिनो संभव आवे होराज, पण मुज सरिखा मानवी; शक्ति अशक्ति न
 जाणे हो, कार्ये सहु चित्त भावे होराज ॥१४॥ वज्रसुंदरी माहरे, सुरसुं-
 दरिने सरिखी हो; सुर जुए अनिमेष नयणे होराज, पुत्रनी अनुजा तेह छे;
 सर्व गुणे करी सरिखी हो, शुं कहु झांभूं वयणे होराज ॥१५॥ जैन धरम
 रुचि तेहने, सर्वकलामा कुशला हो; नाटयकला सुविशेषे होराज, नंदन वन-
 नी धरतीए; बहु तरु मांहे कल्प हो, वृक्षनी श्रेणिने लेखे होराज ॥१६॥
 चक्रायुध ते सांभळी, दूत मुखे मुज याचे हो; तव में चित्त विचार्यु होराज,
 बहु पत्नी होय जेहने; त्रिगुणाधिक जस वर्ष हो, तेहने देवी न धार्यु होराज,
 ॥१७॥ यदुक्तां वपुः शीलं कुलं चित्तं; वयो विद्या सनाथता; एतानि यस्य
 विद्यंते, तस्य देया निजा सुता ॥१॥ मुखं निर्द्धन दूरस्थ, बहु भार्या शिवार्थिनां
 त्रिगुणाधिक वर्षाणां, चापि देया न कन्यका ॥२॥ पूर्वढाळ ॥ जेम तेम ना न
 कही शकुं, पृथ्वीनो पति बलियो हो; दूतने उत्तर वाल्यो होराज,
 योगिणीए मुज पुत्रने; राख्यो छे ते दुःख हो; मुज हृदयमां माल्यो होराज
 ॥१८॥ सांभरे नहीं विवाहनी, वात ते मुजने स्वामी हो; सुत मूकावो माह-
 रो होराज, सर्व पछे सारुं थशे; दूते पण जई भाख्युं हो, दीघो छे इंग
 लाहरो होराज ॥१९॥ माहरी सभामां एकदा, निमित्तिओ एक आव्यो
 हो; भाव्यो चित्तमां काजे होराज, फल पुष्पादिक ढोईआं; देई सत्कारने
 पूछ्युं हो, कारय दोय मुज राज्ये होराज ॥२०॥ मुज सुत कौण मूकावशे,
 कौण मुज पुत्री वरशे हो; कहो ते चित्तमां धारी, होराज, निमित्तिओ कहे
 ए विहु, एकज प्राणी करशे हो, मे कर्हुं ताम विचारी होराज ॥२१॥ ओ-
 लखशुं कहो किणीपरे, निमित्तिओ कहे सुणज्यो हो; बांधी पन्नरथ भूप हो-
 राज, जेह पमाडशे धर्मने; बली श्रीपति नृप जीते हो, निजकला दाखी

अनूप होराज ॥२२॥ कन्या ऋण तन परणजे, ते तुज सुत मृंकावी हो; तुज पुत्री पण वरजे होराज, सांभली बहु आणंदीओ; ए जाण्युं एह काम हो, एवढां मोहटां करजे होराज ॥२३॥ फल अलंकारे तोपिओ, में हवं कीधी तेहनी हो, शुद्धि ते सधळे जाणी होराज. ज्ञानी वचनेन लक्षणं; तुजने ओल-खी भिल्लहो, मिश करी लाव्यो ताणी होराज ॥२४॥ मात पिताजो तुज जाणे, तो जावा नवि आपे हो; लाव्यो तिणे एकाकी हंराज, पुत्र मृंकावो माहरो; अवनिमां उपकारी हो, मुक्ति सर्व ते चाक्री होराज ॥२५॥ नदी जळ वहे पण नवि पीए, वृक्ष फळे नवि खावे हो; भोगवे रयण न खाणि होराज, पर उपकारने कारणे; संतना जनम ते कीधा हो, एहवी ग्रंथे चाणि होराज ॥२६॥ बलेश पोतानो नवि गणे, पर उपकारने माटे हो; मज्जन तरु वरसरिखा होराज; छाया फल दिए पर भणी; स्वमे तडकाने शीत हो, बली स्वमे अतिशय चरपा होराज ॥२७॥ हुं दुखीआमां गिरोमणी, समरथ परदुख हणवाहो; तुं मल्यो विहूनो योग होराज, हवे निज उचित करो तुमे; सांभळी चिंते राजाहो, पर उपगारी लोग होराज ॥२८॥ शुरने जिम संग्रामनो, नैयायिकने सामोहो; वाढी आवे जेम होराज, दानशाळ्य मिली क्षुधितने; रोगीने मल्यां वैद्यहो, दुर्गतने निधि प्रेमहो राज ॥ २९ ॥ अवसर पर उपकारनो, मोटा पुरुषने आवेहो; ओत्सव सरिखो जाणेहो राज, एक दिशिपर उपकारने; बीजी दिशि सह पुण्यहो, तोळे सुर कोई टाणेहो राज, ॥ ३० ॥ पर उपकार वधे घणो, संविभाग नवि कीजेहो; पुण्य उपाजन वेळाहो राज, शोभा मात्रछे शुरने; सेनानो परिवारहो, काम करे एकेला होराज ॥ ३१ ॥ इम विचारीने कहे, पर उपकारने काजहो, हुं समरचहुं एकहो राज, एम कही खेट विमानमां; वेशी चाल्यो साधेहो, मोहटो घरीय विवेक होराज ॥ ३२ ॥ लेख सहित कोइ खेटने, पवन वेग ते मूकेहो; नृपना तातनी पासेहो राज, धीरय देवा कारणे; श्रीनिगे पौहता तेहहो, आगळ मंगळ थाजे होराज ॥ ३३ ॥ छडे संडे अहारपी, श्री जयानंदने रासीहो; पद्मविजये कही ढाल होराज, सुणतां ज्ञाता उपजे; पु-

ण्यवैतवी वातहो, दिन दिन रंग रसाल होराज ॥ ३४ ॥ सर्व गाथा. ५५६
दुहा.

पवनवेग कहे नृप प्रते, विद्यावारु एक; मुज पासेछे मोटकी, साधो ते
सुविवेक ॥ १ ॥ साधवा हुं समरथ नहीं, ब्वाला मालिनी जोर; वश था-
शे विद्या थकी, नमशे करी निहोर ॥ २ ॥ योगिणी पण वश जेहने, सा-
हसथी ते सधाय; तिणे ए ल्यो तुम तुरतमां, साधन विधि समुदाय ॥ ३ ॥
भूप लेइने इम भणे, वील्यादिक बहु वार; कोण होमशे मुजने कहो, पापी
पाप अपार ॥ ४ ॥ सत्ते विद्या सिजशे, सत्त धरी सहु सार; इम कही वि-
धि आराधवा, ततक्षण थया तैयार ॥ ५ ॥

ढाल ओगणीसमी.

पत्नी संयुत पोसह लीधो ॥ ए देशी ॥

स्नानादि करी ऊपवास कीधो, देवीनी पूजा करीजी; साधर्मिणी बुद्धे
विविध प्रकारे भक्ति घणी चित्तमां धरीजी ॥ ६ ॥ क्षेत्राधिष्ठायक प्रमुख-
नां काउसग, करीने मुख पूरवदिशेजी; आत्मरक्षा करी परमेष्ठिपदथी,
देवी मंदिरे ऊपविशेजी ॥ ७ ॥ ढाभने आसन पद्मासन करी, विद्या जाप
हवे करेजी, मन थिर राखी ध्यान धरीने, मुद्रा प्रमुख विधि धरेजी ॥ ८ ॥
बीजे दिन हवे योगिणी जाणी, आवे तिहां शंका करेजी; जो ए विद्या
सिद्ध ते थाशे, तो अमे वश थाशुं खरीजी ॥ ९ ॥ प्रतिकूल उपसर्ग कर-
वा मांडे, खोभना करवा कारणेजी; साप सैकडो मोटी काया, फूत्कारात-
स धारणेजी ॥ १० ॥ वींटाइ वींटाइ करडे नृपने, दाढ्यो भांगे निर्विष
होयजी; भांगे हाडने मणि पण त्रुटे, ओसरे तिहां न फरी जूपजी ॥ ११ ॥
जैननी रक्षाने परभावे, पराभव करी शकीआ नहींजी; पंच परमेष्ठि मंत्र ते
मोहटो, एहवो महिमा जग नहीं कहींजी ॥ १२ ॥ गर्जारव करता गज मूके,
वींधे दंतूसले करीजी; शंढाने बळी चरणे मर्दे, पण न चल्या द्रढता धरी

जी ॥ १३ ॥ घोर शब्द करता बाघ मुक्के, तीखी दाढे विदारताजी;
 नखथी घात करी करी थाका, पण रोम पण न संचारनाजी ॥ १४ ॥
 ज्वलती अग्नि विकृते योगिणी, तट त्रटकार घणा करेजी; धूआढाथी
 अंधित दिशिगण, ज्वाला चिहुं दिशि संचरेजी ॥ १५ ॥ महा तापे पण
 ध्याने न चलीओ, अचल परे नर राजीओजी; रौद्र रूप करी आवे ते हवे,
 नादथी पर्वत गाजीओजी ॥ १६ ॥ ज्वलती आंखयो भयंकर दाखे, वदने
 अग्नि ते वरसतीजी; पर्वत दरी सम वदन देखाढे, सत्ववंत सत्वकर स-
 तीजी ॥ १७ ॥ डम डम वाजे डमरुक वाजुं, पडछंदा उठे घणाजी; अटाट्ट
 हासथी फेत्कार मुक्के, बंध छुटे गगन तणाजी ॥ १८ ॥ हाथमां भाला ख-
 झने तोमर, मोगर कंपावे घणुंजी; पदघाते करी धरती कंपावे, वयण बोले
 मुखे ते भणुंजी ॥ १९ ॥ अम पूज्या विणुं विद्या साधे, रे मूढ उठ तुं जा प-
 रोजी; नहींतो मारशु तुजने केहती, दाखवे भय तस आकरोजी ॥ २० ॥
 मारवा दोढे करे प्रहार, लागे तस अंगे नहींजी; ध्यान एकाग्रे जैननी रक्षा,
 सत्व धरे चित्त गहगहीजी ॥ २१ ॥ तेह पुरुषथी देवे न चाले, कोण मातर
 ते योगिणीजी ॥ २२ ॥ त्रण दिवस इम उपसर्गे काढया, रोम मात्र पण न-
 वि चलयोजी; खेद लहीने चितवे चित्तमां, एतो मेरुसम अटकलयोजी ॥ २३ ॥
 दिव्यांगनानां रूप करीने, सर्ग अलंकारे सोहतीजी; चंदा वयणी कमल
 पांखडी, आंखडीथी मन मोहतीजी ॥ २४ ॥ कंचन वरणी रूप यौवन वय,
 सुभगआकार सवि अंगनाजी, कंचु कंठी पीनस्तनी वली, पेहर्या वस्त्र नानां
 रंगनांजी ॥ २५ ॥ हंसगति जस कोकिल स्वरथी, गीत गाए एम उचरेजी;
 जय जय स्वामी अहो तुज धीरज, सत्व सौर्य गुण सहु शिरेजी ॥ २६ ॥ अम-
 अपराधने लमजो स्वामी, उपसर्ग कारणे अमे कर्षोजी, हे तुं सांभल नर
 अमे खोलुं, रूप यौवनथी अलंकार्योजी ॥ २७ ॥ सत्ववंत तुं उपसर्गे न चलयो,
 स्वामी करी क्रीडा करुंजी, अम नारी पणे अंगीकर तुं, तुज आणा अमे शि-
 र धरुंजी ॥ २८ ॥ नरने दुर्लभ भोग ते सुरना, स्वेच्छाए तुमे भोगवोजी;
 ताहरे वज्ञ अमे सघळी जाणे, जन्म लगे ते जोगवोजी ॥ २९ ॥ धन धन

श्रीजयानंद भूपतिने, इणें वचने पण थिर रत्नाजी; प्रतिकूल अनुकूल वि-
विध प्रकारे, कीधा उपसर्ग सहू सत्ताजी ॥ ३० ॥ छठे खंडे ओगणीसमीए,
ढाल पद्मविजये कहीजी; योगिणीओ बळी शुं शुं बोले, ते सांभळो आगल
सहीजी ॥ ३१ ॥ सर्वगाथा ॥ ५८७. ॥

दुहा.

लेश विद्या साधन करे, शाने अमे छें सिद्ध; सहू विद्या अमथी सधे,
नीपजे बळी नवनिध ॥१॥ आपुं बहु विद्या अमे, पाठ सिद्ध सगभाव; जे-
हथी वश करी जगतने, जुगते थाशे जमाव ॥२॥ मनवांच्छित मनोहारिणी,
नारी परणो अनेक; आकरषुं जगने अमे, छयल जे होए छेक. ॥३॥ दूर
ते पासे दाखवुं, अम भोगनो अनुभाव; जरा न आवे तस जरा, बल क्षयनो
न बनाव. ॥४॥ हानि न इंद्रियनी होए, आमय नावे अंग; काय सेवे कंद-
र्प वधे, रूडो करिए रंग. ॥५॥ सुख भोगव अम साथ तुं, शक्रने दुर्लभ
सोय; बहु रूपे युगपत् बहु, हुंशे रमवुं होय ॥६॥ विविध वचन एहवां
सुणी, जगतने मोहे जेह; भरिए जल भूत कुंभमां, तिम नृप नळव्यो तेह.
॥७॥

—:—

ढाल २० मी.

वेण म वाइशरे विठल वारुं तुजने ॥ ए देशी ॥

हृदय ने स्तन आगल केइ भीडे, केइक चुंबन करती; केइक आलि-
गन बळी करती, नयणे तेह धरंती. ॥८॥ अमे भले दीठारे, मनमोहन प्रभु
तुमने ॥ ए आंकणी ॥ वीणा वंशने पडह वजावे, नाटिक करे अंग वाली;
गीत गाए एम मोहन केरां, फूदडी दिए दिए ताली ॥ अ० ९॥ ॥अथगी-
तं॥ आबी चोसठ जोगिणी, नित विलसुं नव नव भोगिणी; अमे काम ड्व-
र रोगिणी, रति न लहुं तुम वियोगिणी. ॥१॥ एम गाए रंगे कामिणी,
सव चौवन नखे योगिणी; अमे रंभा गोरीअ अंगिणी, सोभागी नरशुं रं-

मिणी. ॥२॥ तुम रूप सौभाग्ये राचनी, इहां आवी हर्षे नाचती; तुं प्रियें
 तम पामी मलपती, नावे मुकुं कडमवि जीवती. ॥३॥ वर चंपक सोवन
 गोरडी. गुण गाती भांभर भोलडी; पयसेव करे शुं तोरडी, अमे छुं सोहग
 ओरडी. ॥४॥ अम अंग सुगंधे महमदे, दिशि पसरे परिमल जे वहे; नव
 पडमणी मालती केवडी, हिमवालुंअ मृगमद वेवडी. ॥५॥ अम पाए
 नेडर रण जणे, करे कंचन कंकण रणरणे; उरे मोतीहार सुलहलहे,
 तुम देखी हैयडां गहगहे. ॥६॥ अम काने कुंडल झलहले, तनुं मनमथकं-
 डु खलभले; अम माथे झलके राखडी, गलें झवकति माणिक पदकडी.
 ॥७॥ अति सोहति निलवट तिलकडी, मणि मेहले मोहे कडितडी; भुजे
 अंगदज्युं अली मणि जडी, अम सांभल पियुडा वातडी. ॥८॥ अम अंगु-
 ली दीपे मुद्रडी, तुम विरहे नावे निद्रडी; मणि सोवन खलकति चूडली,
 मिय पामीय पुण्ये रूडली ॥९॥ उतकंठित आवी वडेलडी, घण लाड ते
 प्रेम गहेलडी; रंगे नाचुं लोडत वांहडी, तुम करशुं हाथे छांहडी. ॥१०॥ अ-
 मे कंत तुमारी दासडी, शिर वहेशुं तुमची खासडी; तुम लोपुं आण न ली-
 डडी, उर धरशुं तोरो शीखडी. ॥११॥ अम साहमुं जोयने सामिआ, तें
 अलवे अमे सवि पामिआ. अमे देव देवीनी सामिणी; तुज आवीशे वर
 कामिणी. ॥१२॥ उठ उठो कंता करी कृपा, अम परण तुं मेहेली हवे
 त्रपा; अमे तेवड तेवडी बहिनडी, सवि एकमनी सावे नानडी. ॥१३॥ अमे
 काल विलंबण नावे सहु, तुम आगल परमत्य हवे कहुं; अम जीवितने
 धर हाथडी, कर तेहिने आपण साथडी. ॥१४॥ सुरसुदरी चंग सोभागि-
 णी, कंत कां उवेखे सुरागिणी; अमे जीवुं शरणे तुम तणे, हवे पडिवज
 जोइणि एमभणे ॥१५॥ इतिगीतं ॥पूर्वढालः ॥ सुस्वर जन कुतुहलने काजे,
 नृपनुं जे वडशील; द्रढता कहेवा गांत ए भाख्युं, जिनधर्म प्रियनी लील ॥
 अ० ३॥ सभा जोइने कहेवुं सघले, जिम तिम कहेवुं नांही; रागं वसंतादि-
 कवर ढाले, गावा सुस्वरे आंही ॥ अ० ४ ॥ अंग हारादिक विश्वने मोहन, मृत म्नाजा;
 दर्प जगावे; एहवां त्रण दिवस लगे गाइ, तन मय तान लगावे ॥ ३ ॥ धन धन

गाई-गाईने थाकी सघली, नाची नाची खेदाणी; वजने टंक न लागे तिम
नृप, रोम न चलियुं जाणी ॥अ० ६॥ सातमे दिन हवे तूठी देवी, महा ज्वा-
ला अभिधाने; शिर ऊपर करे सूरय उदये, पुष्प वृष्टि बहु माने, मेंतो भले
दीठोरे ॥७॥ करती दस दिशमां भजवालुं, रूप प्रगट देखावे; सिद्ध विद्या
शुं भव ते आवी, योगिणी नाठी जावे॥मे०८॥ महा-ज्वाला मधुरे स्वर-बोले,
हुं तूठी तुजराय; शील ध्यान-थिरता तुज देखी, पण मुण तु थिर थाय
॥मे० ९॥ हेवत्स वर देई नवि शकीए, विधि किधा विपुं तुजने; जो वर इच्छे
तो विधि कर तुं. नृप कहे विधि कसो मुजने ॥मे० १०॥ एक-जीवनुं मांसजो
आपे, तो मुज उपजे प्रीत; राय कहे हुं जैन छुं जाचो, सहू जीव मारा
मिस्त ॥मे० ११॥ विण अपराधी जीव न मारुं, जो तुज जोइए मांस तो मुज
तनुं छंदीने आपुं, शाने करे विस्वास ॥मे० १२॥ देवी कहे तो एमज करतुं,
तव नृप लिए करवाल; छेदे ऊरू तव खड्ग उलाली, लिए देवी उजमाल
॥मे० १३॥ देवी कहे हुं पण छुं जैनी, मांसनो खप नहीं माहरे; दया सखने
जैन धरम तुज, परख्यो में धरी प्यारे ॥मे० १४॥ जगत-वीर सार्धमिक मा-
हरो, पाठ सिद्धि देऊ विद्या; योगिणी प्रमुख आकर्षणी लेतुं, तव नृप प्रणमे
अनिद्या ॥मे० १५॥ पुजा-देई विधि पूर्वक विद्या, लिए हर्षे भूपाल; दैवता
प्रमुख त्रिविध हरे उपद्रव, बाजुबंध तिणे ताल ॥मे० १६॥ सूर्यहास वली
खड्गाने आपे, चक्र दिए वरधार; वैरी चक्रनिकंदन-करवा, शस्त्र शिरो-
मणि सार-॥मे० १७॥ शक्ति शस्त्र आपीने देवी अद्रख्यमान ते थाय; दि-
व्य मूर्ति हवे पुजे राजा, स्तवना करे सुखदाय ॥मे० १८॥ ज्वाला मालिनी
विद्या बोले, लक्षादिक जप होम; करतां पण कोइकने सीधूं, वहुने थाळं
जिम व्योम ॥मे० १९॥ ताहरे अल्प प्रयासे सीधी, द्रढधर्मा तुज जाणी, आ-
कष्यां मुर आवशे ताहरे, विद्या रिझसे शाणी ॥मे० २०॥ एम कही राय-
ना दीलमां पेठी, इच्छित आपें समरी; विश्वमां अर्थ ते आपे तूठी, वलवंती-
ए अमरी ॥मे० २१॥ हवे देवीनी मूर्ति पूजी, वली जे देव होय पासे; बलि
सतोषी निसरे, देवगृहथी उल्लासे ॥ मे०. २२ ॥ छठे खंडे, वीसमी.
तव यौव

माखि, पद्म विजय कहे ढाल; सुंदर ए तुमे श्रोता सुणजो, आगळ वा-
त रसाल ॥ में २३ ॥ सर्व गाथा ४५ सर्व गाथा ६३२

दुहा.

विद्याधर परिवार शुं, प्रणमें आवी पाय; सिद्ध विद्या थइ सुख थकी,
प्रश्न भूप पूछाय. ॥१॥ भूप यथारथथी भणे, चमत्कार लक्षा चित्त;
स्तवना नृपनी रुहु करे, प्रगट धरता प्रीत ॥२॥ पूजी जिन प्रणमी गुरु,
सागर सम गभरि; आहार करे दीन आठमें, विद्याधरशुं वीर. ॥३॥ अ-
पर विद्या आपे वली, शुभ मुहूर्त शुभ वाग्; आकाश गामिनी आदि दे,
सिद्ध विद्या श्रीकार ॥४॥ मासे सिद्धे मेहेनते, ते साधे ततकाल; शील त-
था वली रत्नने परभावे नरपाल. ॥५॥ धरणी धव जालंधरे, पवन वेग शुं
पत्त, पीठे रही विद्या प्रगट, संभारे धरी सत्त ॥६॥ तस अनुभावे ते तुरत,
आकर्षणी आय; जगतपति कहे जोगिणी, सांभलो रे सुखदाय. ॥७॥
पवन वेगना पुत्रने, मुको हृदये मानि; नहीं तो हुं मुकु नहीं, सुणजो सा-
ची वाणि. ॥८॥ अंगदना अनुभावथी, उपद्रव न कर्यो अंश; मूकं कहे मू-
को तुमे, स्वामी तुमे शुभ वंश. ॥९॥



॥ ढाल २१ मी. ॥

धरारा ढोला ॥ देखी. ॥

१

'मूके श्री जयानंदजी रे, जोगिणी गइ निज ठाम, गनना रंगी; बेडी भा-
गी तेहनीरे, लावी नृप पुर ताम. ॥१०॥ सुखना संगी, आवो आवोरे स-
जन सुख संगी, कीजे वात एकांते सुरंगी; गुणी संगे वाधे प्रीति मन०
॥ ए आंकणी ॥ भूपतिने वली तातने रे, चरणे लागो तेह म०; पवन वेग
निज पुत्रने रे, आळिंगे घणे नेह ॥ सु० आ०. ११ ॥ पुत्र आगळ सघलो
कहे रे, निज उद्यम अवदात म०; भूपने लाव्यो इणिपरे, ते सघली कही
वात ॥ सु० आ०. १२ ॥ कोइ न मूकावी शक्यो रे, योगिणी घरथी तुज

म० राज राजाए मुकाबीओरे, महेर करी बहु मुज ॥सु० आ० १३ ॥
 प्राण दीया वत्म तुजने रे, वज्रवेग सुणी एम०म०; स्तगना करे नर राय-
 नी रे, वज्रवेग घरी प्रेम ॥ सु० आ० १४ ॥ जाए गगने जेटले रे, यो-
 गिणी बोले ताम म०; भाग्ये अमे तुम पामीआ रे, आवो अमचे धाम
 ॥ सु० आ० १५ ॥ प्राहुणा गति करुं तुम तणीरे, भुपति करे विचार
 म०; प्रार्थना भंग न कीजीए रे, इंम करी कहे हाकार ॥ सु० आ० १६ ॥ यो-
 गिणी निज हाथे करी रे, स्नानादिक प्रतिप्रति म०; अमृत सम आहारे
 करी रे, करती अतिशय भक्ति ॥ सु० आ० १७ ॥ गीत नाटिके संतोपी-
 आ रे, हवे रहेवाने रात म०; धाराही भुवने भूपती रे, राख्या जगत वि-
 ख्यात ॥ सु० आ० १८ ॥ विद्याधर ब्राह्मी घरे रे, राते राख्या दीय
 म०; शय्या सुगंधी मृदु घणी रे, तिहां सुआर्या सोय ॥ सु० आ० १९ ॥
 कामाक्षा स्वाभिनी कने रे, जोगिण जइ कहं तेइ म०; निज पराभव आ-
 कर्षवुं रे, हठथी लीथो जेह ॥ सु० आ० २० ॥ कामाक्षा कहे क्रोधथी रे,
 शील भ्रष्ट करुं तास म०; तुमने सुपुं वांधिने रे, इच्छिन करो करी दास
 ॥ सु० आ० २१ ॥ हरिहर ब्रह्मादिक सत्रे रे, देखी माहरुं रूप म०; मुं-
 झाई रहे मन थकी रे, कुण मातर नर भूप ॥ सु० आ० २२ ॥ इंम आ-
 सासना देइने रे, आवी जिहां छे भूप म०; विश्व मोहन प्रगट करे रे, का-
 माक्षा निज रूप ॥ सु० आ० २३ ॥ काम जगावे योगिणी परे रे, एहथी
 चेष्टा करंत म०; च्यार पहेर भोग प्रार्थना रे, करी पण नवि खोभंत ॥ सु०
 आ० २४ ॥ शील अमृत जिणे स्वादीऊ रे, ते किम छांडयुं स्नाय म०; जै-
 न जीवित तजे आपणुं रे, परस्त्री पण न लेपाय ॥ सु० आ० २५ ॥ था-
 की प्रात समय हवं रे, शीलथी अचरिज थाय म०; स्तवना करती आपी-
 ओ रे, लोह मोघर वज्रकाय ॥ सु० आ० २६ ॥ अक्षय बाण भाथा
 विहू रे, वज्रपृष्ठ धनुदाय म०; आग्नेय नाग पाशादिका रे, दिव्य शस्त्र
 समुदाय ॥ सु० आ० २७ ॥ आप्यां अनेक शस्त्र भूपने रे, छट्टे खंडे ढाल म०;
 एकवीशमी पत्र कही रे, शीलथी मंगल माल ॥ सु० २८ आ० ॥ सर्वगा-
 या ६६०.

दुहा.

कुष्ठ ज्वर कंडू हरे, वन्दि दाह व्रण जाय; शीत आ तप जळ छेद सवि,
संहरे उपजे साय. ॥१॥ सर्वांगे मुख दे फरस, अविनाशी उद्योत; नहीं म-
लिन भंगुर नहीं, जेहनी जागती ज्योत. ॥२॥ एहवां वख ते आपती, वारु
करी वखाण, आपे बहु अलंकारने, पुण्य तणे परिमाण. ॥३॥

ढाल २२ मी.

हमचढीनी ॥ देशी ॥

मरगी वारवा मुगट ते आपे, कुंडल ज्वरने टाले; कुष्ठादिक व्याधि
हरे तेहवां, कंठ आमूषण आले रे. ॥४॥ हमचढी. क्षेर हरण मुद्रा ते आपे,
वली केयूर उदार; शाकिणी ढाकिण व्यंतर प्रमुखना, दोपने टालण हा-
र रे ॥ ह० ५ ॥ घातना व्रण पूराए सहजे, कटक जडाव ते. आपे; सर्व वश
थाए वली एहनो, हार गलामां थापे रे ॥ ह० ६ ॥ जे वांका होय ते थाय
सरलां, आपे कटि कंदोरो, एम सप्रभाव अलंकृत देतां, वाध्यो पुन्यनो जो-
रो रे ॥ ह० ७ ॥ देवता तूटा शं नवि आपे, वली रायतुं शील; तास प्र-
भाव थकी होय सघले, जय जयकार सलील रे ॥ ह० ८ ॥ अर्घ्य पूजा दी-
धी जब राये, तब ते अद्रश थाय; जई जोगिणीने कामाक्षा कहे, हैयडे हर्ष
न माय रे ॥ ह० ९ ॥ शील चलाववा हेते एहनो, बहु उद्यम में कीधो; प्र-
ण न चलावीं शकी हुं एहने, एह किम जाये लीधो रे ॥ ह० १० ॥ वायु
थकी जिम मेरु न चले, तिम एधमें धीर, आराधी सत्कार करो तुमे, ए-
ह महावड वीर रे ॥ ह० ११ ॥ उत्तम क्षेत्र एहने जाणी, वात्रो बीज ए
ठाम; फलवंतुं ए व्होळुं थासो, आवशे आगल काम रे ॥ ह० १२ ॥ ता-
स वचन परमाण कर्तुं तव, तेह गई गुण काम; कामाक्षा निज थानिक
पोहती, शुद्ध वासना धाम रे ॥ ह० १३ ॥ तेह पीठ उपर क्षण बेठा, दो-
य विद्याधर राय; योगिणीओ मुख आगल आवे, चमत्कार चित लाय रे
॥ ह० १४ ॥ सघली भेली मली खमावे, आपे ते अलंकार; दिव्य वस्त्र


तिम भिन्न भिन्न सहु, आपे अति धरी प्यार रे ॥ ह० १६ ॥ ते सघळुं
 अंतेउर काजे, दिव्य शस्त्रादिए ताम, अद्रश प्रमुख शक्ति बहु आपे,
 करती सहुगुण ग्राम रे ॥ह० १६॥ पूजा स्तवना करी संतोषी, वज्रवेगे सु-
 र नारी; तेहवे मळर रहित थई वली, रायनुं दाक्षिण्य धारी रे ॥ ह०.
 १७ ॥ हिमकूट गिरि उपरे आपे, नृप वयणे तस ठाम; अर्घ्य दिष्ट तव
 अद्रश थाए, जाए निज निज धाम रे ॥ ह०. १८ ॥ सरसां गीत ए भूप
 चरित्रनां, बांधे रासा बंध; गिरि वन प्रमुखे क्रीडा करती, योगिनी गाय
 प्रबंध रे ॥ ह० १९ ॥ खेचरी योगिणी पास शीखे, एह चरित्र रसाल;
 खेचरी पास मनुष्यणी शीखे, चिच धरी प्रेम विशाल रे ॥ ह० २० ॥ प्र-
 सिद्ध थयुं ए चारत्र भूवनमां, हवे ते त्रिहु जण आवे; हेमकूट नग उपर हे-
 मपुर, पूरव रीते वसावे रे ॥ह० २१॥ शील गुणे एम विद्या ओषधी, पा-
 म्या वली सत्कार; आपद सघळी दुर पळणी, हूआ जय जयकार रे
 ॥ ह० २२ ॥ एम जाणीने शील धरो तुमे, एह परभव सुखकारी; शीले
 विघन टले वली संपद, आवे अति उपगारी रे, ॥ ह० २३ ॥ छठे खंडे
 बांवीसमी ए, भाखी रुडी ढाल; श्री जयानंदना रासमां सुणतां, हावे मं-
 गळ माल रे ॥ ह० २४ ॥ सत्यविजय पन्यास संवेगी, कपूरविजय तस
 शरीष्य; तास शीष्य श्री खिमांविजय वर, चढती जास जगीस रे॥ह० २५॥
 तास शीष्य पंडित जिर्नाविजयो, सौभागी शिरदार; पंडित उत्तमविजय
 सोभागी, समता गुण भंडाररे ॥ ह० २६ ॥ तेहना चरण कमले अलि सर-
 खो, पद्म विजय ए भाख्यो; छट्टो खंड ए पूरण कीधो, गुणजने चितमां
 राख्यो रे॥ह० २७॥सर्वगाथा ६८७ इति श्रीमदुत्तमविजयागण विनेयपंडित
 पद्मविजय गणि विरचिते श्रीश्री जयानंद राजधिकेवलचरित्रे प्राकृत प्रबंधे
 श्रीश्री जयानंद राज्य प्राप्ति विद्या सिद्धि योगिणी देवी प्रसाद योगिनी
 वशीकार दिव्यास्त्रादि समृद्धि प्राप्ति निदाव शीलीवदात वर्णनो नाम
 षष्ठःखंडः समाप्त॥पंचानां खंडानां मीलने गाथा ३२५५ षष्ठखंडे गाथा ६८७
 सर्वगाथा ३२४२ पंचखंड मीलने श्लोक उक्त ५९ षष्ठखंडे उक्त श्लोक १९
 सर्व उक्त श्लोक ७८ सर्वइओ १ समस्या १ दुहो १.

अथ. खंड ७ मो.



दुहा.

चक्री धर्म चक्री नमं, शोलशमा जिनशांति; शांति गर्भाशयधी करी,
अवनीमां एकांत ॥१॥ खंड छहो कर्यो खांतिथी, वारु त्रिविध विचार; सा-
तमो खंड सोहामणो, पभणुं पुण्य प्रकार ॥२॥ पर उपकार प्रगट करी,
माने कृतारथ मन्त्र; निजपुर जावा नृप हवे, कहे खेचरने कंन ॥३॥ खंड वि-
चारे ए खरो, कन्या नहीं करे पाणि; करी उपकार कृतार्थथी, प्रत्युपकार
पिछाण ॥४॥ यतः॥ इयमत्र सतामलौकिकी, महती कापि कठोर चित्तता;
उपकृत भवंति दूरतः, परतःप्रत्युपकार भीरवः ॥१॥ दुहाः कोई उपायां-
तर करी, लेई जाऊं निज ल्हार; कोई रीते कन्या देऊ, भाग्ये ए भरतार॥५॥
विद्याधर कहे वयणथी, सिद्धायतने स्वाम; जिन वंदनने योग्य छो, वैताढये
धर ठाम ॥६॥ पर उपकारी पायीआ, एहज अवसर आज; ते सांभली जा-
वा तिहां, रीझ करे महाराज ॥७॥



ढाल १ ली.

॥ वीर वखाणी राणी चेलणांजी ए देशी ॥

एणसमे एक विद्याधरुजी, आवीने करे परणाम; श्री जयानंदजी पूछ-
ताजी, कुंण तुमे श्रुं नुम नाम ॥८॥ श्री जयानंदजी जग जयोजी ए आंकणी
कारणे शे इहां आवीआजी, उत्तर तेह दिए जाम; पवनवेग ओलखी तेहने-
जी, बोलीओ इणपरे ताम ॥श्री० ९॥ रे भाइ चंद्रगति बहु दिनेजी, दे-
खीओ तुं खगराय; शोक शकु थकी पीढिओजी, आज तुं केम देखाय॥श्री०
१०॥ दुख होय तो कहो नृप प्रसेजी, सवि दुख भंजक एह; प्रार्थना सहुनी
पूरी करेजी, तव नृपने कहे तेह ॥श्री० ११॥ दक्षिण श्रेणि वैताढयमांजी,

हूं चंद्रपुरी तणो स्वाम; चंद्रगति चंद्रमाला प्रियाजी, रूप तणी तेह घाम
 ॥ श्री० १२॥ मद गल्यो तेहना रूपथीजी, गौरी ऋणनयन भरतार; लखमी
 जनार्दनने वरीजी, एहवी अद्भूत नार ॥ श्री० १३॥ तेहथुं विषयसुख
 भोगबुंजी. पुत्री हुंइ मुज एक; नामथी ते चंद्रछुंदरीजी, बहु कलावंत विवेक
 ॥ श्री० १४ ॥ यौवन आवी ते अनुक्रमे जी, नवि लह्यो वर अनुरूप; तस
 गुणे इंद्र संरिखो नहींजी, भूचर खेचर नहीं भूप ॥ श्री० १५ ॥ मानसरो-
 वरे अन्यदा जी, हुं गयो क्रीडवा हेत, नारिथुं नीरं क्रीडा करी जी, तन्
 मय चित्त तिहां देत ॥ श्री० १६ ॥ एक विमान थकी नीकलीजी, सुरे
 तिहां कीधलुं स्नान; रूपवंती देखी मुज प्रियाजी, हरि गयो तेह अस्मान
 ॥ श्री० १७ ॥ तेह विमान वेसारिनेजी, वार्त्तिका जेम सींचाण; क्रोधथी
 पूंटे हुं दोढीओजी, कर मांहि लेंई कृपाण ॥ श्री० १८ ॥ हुं कडो आवी
 ओ जाणीनेजी, मूठिए शिरमांहि घाय; सुरवरेदीधलो तेहथी जी, पी-
 ढाथी मूरछा थाय ॥ श्री० १९ ॥ हुं पडयो पन्ननी जालमांजी, सरोवरमां
 कोइ ठाय; जलकमल शीत वाये करीजी, मूरछा माहरी जाय ॥ श्री०
 २०॥ आंख उघाडीं जोरुं तदा जी, आगळ कों न देखाय; तेह वियोग पी-
 ढा थकी जी, मुज बहु चित्त खेदाय ॥ श्री० २१ ॥ आवीओ विलपतो
 निज धरे जी, चेतना गत परे ताम; मंत्री प्रमुखे मुज पूछियुं जी, तव कह्यो
 व्यतिकरं वाम ॥ श्री० २२ ॥ देई आंश्वासना मुजनेजी, सरोवर सिंधुव-
 ने द्वीप; नग प्रमुख थानिके मोकलेजी, शुद्धिने सुभट ते खीप्प ॥ श्री०
 २३ ॥ तेह विलखा थई आवीआजी; तेणे कहुं नवि लही शुद्धि; वली मू-
 छा लही सज थयोजी, उपदिशे मंत्री निज बुद्धि ॥ श्री० २४ ॥ स्वाम
 चक्रायुध राजीओजी, विद्या बलथी लही तास; जो प्रिया मूकावे एकदा-
 जी, वीनवीए तस पास ॥ श्री० २५ ॥ एम आशाये तिहां जईजी, वी-
 नच्यो करी मनोहार; समरथ पण कांय नवि कर्तुंजी, काम चित्त धरिय
 लंगारं ॥ श्री० २६ ॥ पुरुपलुं भाग्य फले सदा जी, सेवा न फले कोई का-
 ल; निजपुर वनमां विखलो थईजी, आवीओ हुं तिणे ताल ॥ श्री० २७॥ यतः॥
 तोषं नयद्रंमपि चक्रधरं भजस्व । मंत्रान् प्रमाधय वशकिरु चेटकादीन् ॥

(२९०)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

दुर्गाण्यदस्व विकटान् स्तर वारिराशीन् भाग्यं विना नहि तथापि समी-
हिताग्निः १ ॥ पूर्व ढाळः ॥ चारण्य मुनिवर तिहां मल्याजी, ज्ञानि गुरु
ना नम्या पाय; परिच्छदशुं तस परिसरेजी, वेढो हुं चित्त लगाय ॥श्री०
२८॥ मुनिवरे देशना तत्र करीजी, पुन्यथी देव जिनराय, गुरु मले शुद्धचा-
रित्रिया जी, धर्म तस भापित थाय ॥श्री०२९॥ मन अनुजाइ ललना मले
जी; परिच्छदने घणो स्नेह, पुत्र विनीत पुण्ये मलेजी, हवे सुणो पापथी
जेह ॥ श्री० ३० ॥ नीच कुले जन्म दरिद्रताजी, वचन निष्ठुर घणा रो-
भ; वध पराभव अपयश घणो जी, दुष्ट कुटुंब संयोग ॥ श्री० ३१ ॥ पाप
छांढि तिणे कारणेजी, धर्म करीण नित मेव; इष्ट पाये ने अनिष्टलेजी,
जस मन श्रीजिनदेव ॥ श्री० ३२ ॥ सातमे खंडे पहेली कही जी, पद्य
विजये वर ढाळ; श्री जयानंदना रासमांजी, धर्मथी मंगल माल ॥श्री०३३॥

दुहा.

सांभली मुनि वयणां सखर, कहे नृप किम करुं धर्म; पत्नीवियोग
पीडे घणुं, करुं वंध बहु कर्म. ॥ १ ॥ प्रसन्न थई भाखो प्रभु, कामिनी
अपहरी केण, कारण शुं ने छे किहां, जन्म के नहीं जेण ॥ २ ॥ योग्य
पुत्री भरता जिको, भाखो मुज भगवंत; वली लुम देखी मुद वधे, ते कहो
सहु विरतंत. ॥ ३ ॥ महाभाग्य कहे मुनिवरु, पुरव भव परबंध; जाणुं
ज्ञाने जगतने, सांभलो एह संबंध. ॥ ४ ॥ संदेह जात्रो सामठो, इणहीज
भरते आम, शेट पूर्णभद्र सिद्धपुरे, धर्मवंत धन धाम. ॥ ५ ॥

— ० —

ढाळ २ जी.

बेडले मार घणो छे राज वातो केम करो छो ॥ ए देशी ॥

दोय पुत्र तेहने थया छुंदर, कोशल देशल नाम; चालथकी समकिती
व्रतवंता, जैन धरमशुं काम ॥६॥ भविजन भाव धरीने एह, सांभलो च-
रित रसाळ; सांभली कर्म न करशो कोय, जेहथी भव, जंजाल ॥ए आं;
कर्णी ॥ गुणदत्त शेट वने निण पुरयां, जैनधर्मी गुणवंत; गुणमाला ना-

रीगुण सुंदरी, पुत्री बहु रूपवंत ॥ भ० ७ ॥ देव गुरुनी भक्ति करे घणं
 वालथी धर्म राती; देवराज नृपनो एक सागर, मंत्री मिथ्यामति माती
 ॥ भ० ८ ॥ चैत्यकी नीकलतां दीठी, गुणसुंदरीने तिणे; जाची पण न-
 वि आपी ताते, मिथ्याली छे जिणे ॥ भ० ९ ॥ कौशलने परणावी ताते,
 कन्या गुणवती नामे; विधि पूर्वक पुर्णभद्र आराधी, पोहसा सुरवर धामे
 ॥ भ० १० ॥ केइक दिवस पछे हवे जाचे, गुणदत्त शैथनी कन्या; कौशल
 देशल काजे रुडी, सार्धमिणी वरधन्या ॥ भ० ११ ॥ तिणे पण परणात्री
 भली भति, सागर ते हवे जाणी; देशलने ते जिम जिम देखे, दुख लहे
 मत्सर आणी ॥ भ० १२ ॥ नामे शैठ तिहां वैश्रमण, तेहने पुत्र छे च्यार;
 धनधनपतिने २ धवल छे ३ त्रीजो, सुजस ४ चोथोगुणधार ॥ भ० १३ ॥ परणाच्या
 च्यारेने ताते, सुप्यो मवि व्यापार; शैठ करे निज आतम साधन, पामवा
 भवोदधिपार ॥ भ० १४ ॥ काल गयो बहु इणिपरे करतां, अंते धर्मना
 जाण; मरण उचित करणी करवाने, स्वजन तेडे तिणे टाण ॥ भ० १५ ॥
 सातलाख द्रव्य साते श्लेत्ते, आपे शैठ ते हरखे; च्यार पुत्र बोलावी भाखे,
 रहेज्यो प्रीते सरिखे ॥ भ० १६ ॥ प्रीते सहु निर्वाह थशे तुम, बाहिर वात
 न पडशे; भेलां रहेतां कोइक काले, कांदि कोई आथडशे ॥ भ० १७ ॥ त्या-
 रे जूदा रहेवुं पडशे, तव घरने चिहुं खूणे; कलस एकेको दाटयो छे में,
 इशानादिक खूणे ॥ भ० १८ ॥ ते लेज्यो अनुकरमे वहेची, पण संक्लेश-
 न करज्यो; जो संक्लेश करो तो सहुए, शीखामण भली धरज्यो ॥ भ०
 १९ ॥ इम शीखामण सहुने आपी, विधिए धर्म आराधी, द्रढता धरिने
 शैठे सुरगति, सहेजे सुखमां सार्धी ॥ भ० २० ॥ च्यारे पुत्रे प्रीते काढयो,
 तात वयणे चिरकाल; नारिना प्रेर्या जूदा थावा, कलश लिये संभालि ॥ भ०
 २१ ॥ निज निज नामांकित ते लेवे, पहेले मृत्तिका खंड, बीजामां हाड ती-
 जामां कागल, हवे चौथामां प्रचंड ॥ भ० २२ ॥ कंचनमणि भरियां ते दे-
 खी, त्रणे कीथ विचार; तात धर्मी पण जूओ छेतरीआ, विश्वासे तिणीवार
 ॥ भ० २३ ॥ लघुने सधली लखमी आपी, वंचना न होय प्रमाण; लखमी
 झूटी वहेची लीजे, च्यारे भाग समान ॥ भ० २४ ॥ वहेचवा लघु पासे

त्रण मागे, पण ते लघु नवि आले; साखीआ स्वजनने साख पूगवी, क्लेश
करे तत्काल ॥ भ० २५ ॥ स्वजन जोईने चित्त विचारे, ए शं कहिए भाई
साखीआ पण अणट्टाही, चात ते करिए द्रां ॥ भ० २६ ॥ झगडो नवि
भाग्यो ए कोवथी, स्वजनशुं गया राजद्वार; सखलो व्यतिकर तिहां सं-
भलाव्यो, सांभली करे विचार ॥ भ० २७ एके ऊणा पांचसैं मंत्री, करवा
वेठा न्याय; पण कोई नहीं समर्थ चूगववा, तत्र चिंतवे ते राय ॥ भ० २८ ॥
सागर प्रमुख ते सधला थाक्या, पुरमां पडह वजावे; जे काई ए विवादने
भांजे. तस मंत्री शिर ठावे ॥ भ० २९ ॥ सातमे खंडे पद्य विजय कही, वी-
जी ढाळ रसाल; श्री जयानंदना रासमां रूढी, सुणतां मंगळ माल ॥ भ०
३० ॥ सर्वगाथा ६३.

दुहा.

कौशल सांभली कानमां, पडह छवे निज पाणि, नृप आगळ नमिने क-
हे, सांभलो राय सुजाण. ॥ १ ॥

ढाळ त्रीजी.

आछो रंग लज्यारे माणिगर महाराजा ॥ ए देशो ॥

मुणो नरराजारे वाद हुं टालशुं, झगडो वांकोळे अति एह; कोयने ख-
वर पडेतो टालज्यो, हुं टालु निःसंदेह ॥ २ ॥ आछो न्याय करज्योरे, शे-
ठ तुमे सोभागी ॥ ए आंकणीः ॥ इम कहे राजारे तेहने वयणहुं, तवविणे
तेहया ते भाईच्यार; पुळे तात तुमारो जीवतां, शोशो करता व्यापार ॥ आ०
३ ॥ खेतीवाडी-हुं करतो तदा, पहेलो घोले ए रीत; शेट कहे अन्न केटलुं
तुम थनुं, ते कहे घरी प्रीत ॥ आ० ४ ॥ लाख मूडा अन्न आवतुं माहरे,
पंनर लाख ते मूल; वीजो कहे हुं आपण माहरे, पशु व्यापार अजुकूल;
॥ आ० ५ ॥ वेचु तुगादिक दस सहस्रनां, लाभ पंनर लाख थाय; त्रीजो
कहे हुं व्याज बटंतरे, आपुं मंडळिकराय ॥ आ० ६ ॥ पंनर लाखनो लाभ
तेहयां होए, चौथो कहे मुज कोश, सुंप्यो हतो तस मुळ जो कीजीए, पंन-

र लाखनो जोस ॥ आ० ७ ॥ कौशल कहे नृपने मुणो स्वामीजी, जेजे का मनो दक्ष; तेते काम सुंप्युं ए च्यारने, सहुने पंनर लक्ष ॥ आ० ८ ॥ माटी कलशयी खेतर जाणीए, हाडकलशे पशुवृंद; कागलयी नामे लेखे करी, धन पामे मुख कंद ॥ आ० ९ ॥ परगट दीधी लखमी चोथा प्रते, कोश तणो अधिकार; एहने हतो तिणे ताते जापीयो, नवि आवडे को व्यापार. ॥ आ० १० ॥ सरिखे भागे सरिखे आपियुं, मुर्ख करेरे विवाद; च्यारे भाइ सांभली हरखित थया, सहु गया मुंकी विवाद ॥ आ० ११ ॥ कौशलनी बुद्धिने वरणवे, चारे धरता ते प्रीत; तात उपाए बहु आदर उपज्यो, तात जाणे बहु नीति- ॥ आ० १२ ॥ चमत्कार पाम्यो तसबुद्धिधी, रायक हे सुणो शेठ; ल्यो मंत्री मुद्रा तुमे हरखथुं, मंत्री सहु तप हेठ ॥ आ० १३ ॥ कौशल कहे मुद्रा लेडं नहीं, हुं श्रावक व्रतधार; राजनियोगादिक मे पचखी आं, ए खर करम विचार ॥ आ० १४ ॥ मंत्री मुद्रा विण नर राजिओ, मुख्यपणे करे तास; सर्व कार्यमां पळे एहने, धरनो व्यय दिए खास ॥ आ० १५ ॥ बीजा मंत्री बहु ईर्षा करे, सागर वली शुंविशेष; एक द्रव्यना सहु अभिलाषीआ, तिहां ईर्षा नेरे द्वेष ॥ आ० १६ ॥ एक दिन मंत्री कहे नररायने, रिपुमर्दन जे राय; दुर्दम वलीओ आण माने नहीं, देवगिरि तस ठाय- ॥ आ० १७ ॥ कौशल मोकलीए तिणे कारणे, संधि करे बुद्धिवंत; ग्रास खाए ते बलवंतो होए, परिक्षा पण होएतंत ॥ आ० १८ ॥ तेहने-योग्य ते भेटणुं आपीए, सागरने कहे ताम; एह दिशे अपूर्व ते मोकलो, एटलुं करो अमकाम- ॥ आ०-१९ ॥ जात्य अश्व वस्त्रादिक मोकलो, सांभली सहु हरखंत; ईर्षाए तल वधने ईच्छता, करंडीओ एक अर्पण ॥ आ० २० ॥ कनककुंभ तेहमां धूल भर्यो, मुद्रा दइने तास; अप्यो तिणे पण सरलयी ते ग्रहो, तेहनो धरी विश्वास ॥ आ० २१ ॥ कौशल लेइनेरे नृप आणा थकी, देवगिरि पोहतो तिहां भूप, प्रणमी आगल भेटणुं मृकतो, नृप जाणे ए अनृप ॥ आ० २२ ॥ सुख प्रश्नादिक रे पळे भूपति, कौशल कहे मुणो स्वाम, संधिमेल करण मुज मोकल्यो, देवराए मुज आम ॥ आ० २३ ॥ मि त्राइए करीरे प्रीति धरी वणी, भेटणुं मोकल्युं एह; तव करंडवा उघाही

जोईओ, चित्तमां धरी अति नेह ॥ आ० २४ ॥ सातमेखंडेरे ढाल त्रीजी
कई, श्री जयानंदने रास; पब विजय कहे सांभलतां थकां, पामे लील वी-
लास ॥ आ०२५ ॥ सर्वगथा ८८

दुहा.

धूल भयो पृथिवधरे, दीठो कुंभ देदार; कोप्यो नृप कौशलं प्रति, वयण
कहे ते तेणी धार. १ तुज स्वामी उन्मत्त थयो, मरवानुं करे मन्त्र; भेटणे धूल
भरी करी, प्राभृत जूओ प्रछन्न. २ क्रोध राक्षसने बलि करुं, तुज परिवार
समेत, वध्य नहीं नृप मंत्रवी; शुं करुं ए सकेत ॥ ३ ॥ तुज स्वामीने जइ
तुरत, संभलावे धरी सान; आवुंछुं उतावळो, तेणे युद्धनुं करे तान. ॥ ४ ॥
चित्तमां कौशल चित्तवे, नीति में लंधी न्याय; इर्पाए कर्युं इणपरे, एह
मारण उपाय ॥ ५ ॥



ढाल ४ थी.

॥जात्रा नवाणुं कोरए विमलगिरि जात्रा नवाणुं करिए ॥ए देशी॥

भाग्य समाहं भारी, भूपतिजी, भाग्य. हसतो हसतो कौशल बोले; इण व-
यणे त्रिधारी भू०, च्यार बुद्धि निधि चतुर विचक्षण, बुद्धि उपनी अति-
सारी ॥ भू० ६ ॥ राय कहे तुं इंम किम बोले, हृदये द्रढता धारी भू०; क-
नक कुंभमां रजकुण भरशे, चित्तमां जूओ विचारी ॥ भू० ७ ॥ नृप कहे
कहो तुमे तेहनुं कारण, कौशल कहे अवधारी भू०; तुम प्रसादं होय तो हुं
भाखुं, नृप कहे करो सहु डारी ॥ भू० ८ ॥ मंत्री कहे सिद्धपुरमां जाणो,
उपद्रव थई बहु मारी भू०; अंधलरेल्या देवी आराधी, नरपति थई उप-
गारी ॥ भू० ९ ॥ बहु चौटानी धूल भेली करी, देवीए तिहां अवतारी भू०;
तुष्टमान थई इणपरे भावि, करज्यो तिलक मुखकारी ॥ भू० १० ॥ मरगी
ऊपद्रव सघलो टलशे, तुमने कहुं हित आणी, भूपतिजी तुमने कहुं हित आ-
णी ॥आंकणी॥ व्यंतर शाकिनी प्रमुख ऊपद्रव, विविधनी होशे हांणि
॥ भू० ११ ॥ राए पूजा करी रज लीधी, शिर धरी तेहनी आंण भू०; न-

गरलोक वली अंतेऊरने, तिलक करावे जाण ॥ भू० १२ ॥ सहना ऊपद्रव
 पुरमां टलिआ, हवे तुम प्राभृतदाण भू०; करवाने तुम पासे मोकल्यो, रज
 भरी कुंभ प्रमाण ॥ भू० १३ ॥ मृगमदथी पण ए वहू मूली, श्यां करु
 अतिहि वखाण भू०; वात सांभलीने लाज्यो राजा, प्रीति धरे अभ्रमाण
 ॥ भू० १४ ॥ कोई आगल तुये वात न करजो, नरपति कहे इम वाण भू०;
 राभस ट्वाचये में इम भाख्युं, अविचारे एणे ठाण ॥ भू० १५ ॥ तेहनूं ति-
 लक करे निज भाले, बहुगुण तेहनो जाणी ॥ भू०; आंकणी ॥ चिपटी
 चिपटी दिए परिवारने, वली जे अंतेऊर राणी ॥ भू० १६ ॥ तुष्टमान
 थइ कौशलने कहे, अहो अहो तुं भलो प्राणी भू०; तुज स्वामीने जइ तुं
 कहेजे, आपणी प्रीति मचाणी ॥ भू० १७ ॥ जावजीव अखंडित जाणे, न-
 ही जाए ते खंडाणी भू०; अम सरिखु जे काम होय ते, कहेवरावजो निज
 जाणि ॥ भू० १८ ॥ पूछे नृप तुज रायनी आण, शक्ति ते कहेवी पिछाणी
 भू०; कौशल कहे थुं कहिए तेहनूं, पथुए पण सुप्रमाणी ॥ भू० १९ ॥ मु-
 ज नृपनी आणा जो दजि, गज पण माने वाणी भू०; इणे अवसर तिहां ग-
 जवर छूटो, कलकल वाणी संभलाणी ॥ भू० २० ॥ सेवकने नृप पूछे सुंए,
 सेवक कहे सुणो राय; भूपतिजी सेवक कहे सुणो राय भू०; गज छूटो ऐ-
 रावण सरिखो, ऊपद्रव बहुत कराय ॥ भू० २१ ॥ नरपति कहे कौशलने
 इणिपरे, ससतो तुजवच थाय भू०; गजने थंभावे देइ आणा, कार्ये कार-
 ण जणाय ॥ भू० २२ ॥ कौशल गयो गजवरने पासे, लेइ परिच्छद समुदाय
 भू०; परगट आण दिए निज नृपनी, हृदयमां मंत्र सोहाय ॥ भू० २३ ॥
 तास प्रभावथी तेह मंतंगज, मंत्र वले थंभाय भू०; चमत्कार पाम्यो ते रा-
 जा, मंत्री प्रते बोलाय ॥ भू० २४ ॥ तुज धूल सरिखी दिव्य वस्तु नहीं,
 माहरा घरमां काय भू०; तेहज हाथी भेटणे आप्यो, बहु सतकार कराय.
 ॥ भू० २५ ॥ एहवी वेला अमने संभारजो, थुं कहीए वारंवार, मंत्रीसर थुं
 कहीए वारंवार ॥ आंकणी ॥ परिच्छद सहित पहेरामणी करतो, वख्त तथा
 अलंकार ॥ म० २६ ॥ अनुक्रमे सिद्धपुर परिसर पोहता, तिहां कीधा उ-
 तार मं०; पूर्व मंत्रीश्वर सांभली वीहना, आप करणी संभारि ॥ मं० २७ ॥

साहमा आवीने ते स्वमावे, वहु पथाताप धार मं०; गजवर आगल करीने चाल्या, नृपने करे नमस्कार ॥ मं० २८ ॥ भूप पूछे सुख शाता तेहने, मंत्री करे उचार मं०; तुम परतापे सुख शाताछे, कळो सघळो अधिकार ॥ मं० २९ ॥ धूल वृत्तांत ते गोपवी राख्यो, सज्जनता अनुसार मं०; वळीआराय शुं मेल सुण्यो वळी, गजवर भेट विचार ॥ मं० ३० ॥ असंभाव्य ए वान सुणिने, नृपने हर्ष अपार मं०; सातमे खंडे चौथी ढाळ, पद्म विजयं जयकार ॥ मं० ३१ ॥ सर्वगाथा १२०.

दुहा.

तुष्टमान तेह उपरे, देशलभादने देश; आपे वहु आग्रह करी, लेवे नहीं ते लेश ॥१॥ पांचभुं व्रत पचख्युं अछे, ते किम भागे तेह; सत्कार्यो स्तवना करी, गयो आपणे गेह ॥२॥ मंत्रीमां मोहटो थयो, सस्यादिक वळी स्नेह, पोहाचाढे नृप पाधरुं, मोद थकी जिम मेह ॥३॥ धूल वात धरणी धवे, सांभली कोइक पास; पाप छांनुं परगट होए, विरुप लसण जिम वास ॥४॥ यतः॥वीज चंद मुंडित छुरे, अब्रल लमणनी वास, छांनु पाप जाते दिने, किम हीक होय प्रकाश १.

ढाळ ५ मी.

सोना केरुं वेडलुं मारुजी, वाव खोदाव रुपला उढाणी हेठ; वावडली पातालनी, पाणिडां भररे तळाव ॥ ए देशी ॥

नरपति चितवे इणिपरे, भेटणुं लेई गयो धूल; पण कोई बुद्धिं प्रभाव, कार्य करी आवीओ, नृपने कर्यो अनुकूल ॥५॥ सर्व भंडार जो दीजीए, पण न वळे उपगार; देशादिक देऊं तेह; न लेवे कोईपरे, इणिपरे मनमारे धार ॥६॥ राय प्रसाद वहु धरे, सागर दंडयोरे सोय; इणहीज मोकली धूल, ए अपराधी घणो, ए सम पापी न कोय ॥७॥ सागर चितमां चितवे, देश ले माहरी वात; राय आगल कही तेण, धरे द्वेष आकरो, देशल शुं धरे

घात ॥८॥ नारिनो द्वेषे छे धुर थकी, वली तस अधिकोरे थाय; पोते करी अपराध, ढाले शिर पारके, अधम ते अवगुणगाय ॥९॥ प्रीतिदान नृप मो-
कले, एक दिन कौशल गेह; घृतना दस सहस्र कुंभ, मुडा तिम शालीना,
आणी अतिशय स्नेह ॥१०॥ व्रतथी वमणा आवीआ, वीहकण व्रतनेरे भं-
ग, देशलने कहे एम, सहस्र पांच मोकलो; पाछा व्रतनेरे रंग ॥११॥ अथ-
वा धरममां वावरो, पण नवि राखोरे एह; व्रत आपणनुं भंग थाए तिम
मत करो, चूकज्यो मत तुमे रेह ॥१२॥ एम कही कौशल गया, देशल चिं-
तवे ताम; राजकुले गयुं जेहते, पाछुं नहीं फरे, केम मोकलिए ते आम
॥१३॥ एम चितवीने अधिक जे, आपे निज परिवार; थापण हेते तेह, वि-
श्वास भाई प्रसे, उपजावे धरी प्यार ॥१४॥ एम बहुवार कर्यो एणे, व्रत
मांहि अतिचार; आयु पूरुं करी देशल, व्यंतर ते थयो, ऋद्धि अल्पने अ-
सार ॥१५॥ तिहांथी दलिद्र ब्राह्मण थयो, वली थयो दरिद्रीने घेर; वणिक
कुले धन काज, उपाय करे अति, क्लेश करे बहु पेर ॥१६॥ पण नवि पमि
पायको; व्रत खंडन फळ जोय; कौशल निरतिचारे, श्रावक धर्म पालतो,
महा वैरागी होय ॥१७॥ धर्मगुप्त गुरूने कने, आदरे ते व्रत भार; त्रि-
करण योगे आराधी, सातमे कल्पे थया, ऋद्धि तणो नहीं पार ॥१८॥ स-
त्तर सागर आउखे, तेह थयो सुरराय; व्रत आराधन ए फळ, जाणी
आराधज्यो, जेम लहो सुखसाय ॥ १९ ॥ अवधिज्ञानथी देवता, भाईतणु
दुख जाणि; ऋद्धि देखाडी आप, संविज्ञ दीक्षा ग्रहे, जाणी भव दुख खा-
णि ॥२०॥ तप कीधो अति आकरो, सातमे देवलोके देव; भाईए कर्यो
उपगार, धर्मना रागथी, सुख भोगवे निस मेव ॥२१॥ पूरव भव अभ्यास-
थी, इण भव पण बहु रनेह; जिन पूजा वली, तीर्थ जात्रा बहु करे, पु-
ण्य संचय करे तेह ॥२२॥ सुखमां चवी तेह देवता, कौशलनी मुणो वात;
वैताढये मणिमंदिर पुरनो राजीओ विद्याधर कहे वात ॥२३॥ मणिधर
नामे ते थयो, मणिमाला तसनारि; मणिशेखर तस पुत्र, यौवन आव्यो
यदा, विद्या कळानो भंडार ॥२४॥ कन्या वत्रीस परणावीओ, नव नव
खेलेरे खेल; देशल देव चवी थयो, चंद्रगति पणे, तुं ते करतोजी केल ॥

२५ ॥ पूरवभव जे भाषिनि, गुणसुंदरी जे नार; तुज वियोगे तेह लिए,
वरत तप तपी, बहु वरपां लगे सार ॥२६॥ चौथे स्वर्गे सुर थयो, तिहांथी
चवीओरे तेह; शोठनो पुत्र थयो चंदमुख नामे खरो, रुप कला गुण गेह
॥२७॥ धर्मधीरगुरुने कने, भोगवी भोग उदार; दीक्षा लेई सिद्धांत भ-
ण्यो, बहु तप तपी, देव थयो श्रीकार ॥२८॥ पांचमे देव लोके सुखी, ति-
हांथी चवी तुज नारि; चंद्रमाला अभिधानथी, स्नेह पूरव तणो, इहां तुमने
निरधार ॥२९॥ सातमे खडे पांचमी, पद्म विजय कही ढाल; श्री जयानंद-
ना रासमां, भविजन सांभलो आगल वात रसाल ॥३०॥ सर्वगाथा १५०

दुहा.

सागर जे पूर्वे सचिव, मिथ्या दृष्टि महंत; आरंभ परिग्रह अति करीं
प्रथम नरक पहोचंत ॥१॥ नरक मांदिथी नीकली, सारंग प्रमुख असंख्य;
भव कीधा बहु भांतिना, थुं कहुं तेहनी संख्य ॥२॥ दुखियो ब्राह्मण दरि-
द्रता, परिव्राजकपणुं पायि; हवे सुणो तिहांथी जेहवुं, कहीए तेहनुं काम ॥३॥



ढाल ६ टी.

॥ सुणमेरी सजनी रजनी न जावे रे ॥ ए देशी ॥

लवण समुद्रने वैताडय पासेरे, वनराजी घणुं सोहे विंकासेरे; वज्रकूट
पर्वत छे तत्यरे, बहु देवता क्रीडा करे जंत्यरे ॥४॥ व्रण योजन पोहेलो
नें लंवाणरे, उंचानुं पण एहिज माणरे; तेहने गर्भे भुवन छे एकरे, भांड
लंचु पोहेलु सुविकरे ॥५॥ लांबु पण एक गाड जाणोरे, मणिमय कां-
ति लखोत पिछाणोरे; सरोवर वनवापी तिहां सोहेरे, इंद्रिय सुखकारी मन
मोहेरे ॥६॥ पृथ्वीने पर्वत अर्धे विराजेरे, नरने अगम्य ते धार्मिक छा-
जेरे; च्यार देवीशुं वज्रमुख नामेरे, क्रीडा करे ते सुर तिणे ठामेरे ॥ ७ ॥
तिहां उपजे तस नाम ते एहरे, हवे मंत्री जीव ब्राह्मण जेहरे; परिव्राजक
मरी वज्रमुख थायरे, तुज नारीने ते हरी जायरे; ॥८॥ पूर्व अभ्यासथी ध-

णिजीरे; तुजमां बल होय तो देखाडजे, रेरे अधम अन्नाणीजीरे ॥सां० २४॥
 ताहरा इष्टने तुं भंभारजे, नही तो आप तुं नारिजीरे; आक्रद करतोरे सुर ई-
 णिपरे कहे, तुं माहरो आघारोजीरे ॥ सां० २५ ॥ जगतमल्ल हवे मुजने भू-
 कतुं, ताहरो हुं छुं दासजीरे; तेह कृपालुरे कृपापात्रने, नरपति मके ता-
 सजीरे ॥ सां० २६ ॥ जय जय शब्द करे तिहां देवता, कुसुम वृष्टि तिहां
 कीधीजीरे; देवता जइने लाव्यो नारिने, नृपने भेटणे वीधीजीरे ॥ सां०
 २७ ॥ आठमी ढाल ए सातमा खंडमां, श्री जयानंदने रासजीरे; पञ्च वि-
 जय कहे सांभलतां थकां, होवे लील विलासजीरे ॥ सां० २८ ॥ सर्वगा-
 था २३५

दुहा.

निज अपराध निर्जर हवे, खमावे ते बहु खांत; पवनवेग मुल्ल पाभी-
 आ, अतिशय हर्ष एकांत ॥ १ ॥ सहु परिवारशुं सुर हवे, प्रणये नरपति
 पाय, करजोडीने सुर कहे, तुं समरथ तुं ताय ॥ २ ॥ तुंही पराक्रमी तुं नयी,
 दाक्षिण्यवंत दयालु; सुर असुरांतुंज सारिखो, मनुज मांदि न मयाल ॥३॥
 कोइ न जीखो मुज कदा, तुरत जीखो तुं मुज, भूक्यो कृपा करी मुजने,
 तिणे शुं देउ तुज ॥ ४ ॥

ढाल नवमी.

॥ गरवो केणेने कोराव्यो के नंदजीना लालरे ॥ए देशी ॥

तुजने आपी कृतार्थ धाडं के गुण गण धामरे, एहवुं जगमां कांय न
 पाडं के तुजवर नामरे; बोले तव नरपति वांणि के गु०, माहरे नहीं कांय
 प्रमाण के ॥ तु० ५ ॥ मिथ्यामत महा दुखकार के गु०, ते छांडो नरक-
 नुं द्वारके तु०; मुनि भाषित जाण्युं जेहके गु०, चंद्रगतिए कछुं तस तेहके
 ॥ तु० ६ ॥ पूरवभव हितने काजे के गु०, सांभलीओ ते सुर राजे के तु०
 महा कष्टमयी संभारे के गु०, आरंभ परिग्रह प्रकारे के ॥तु० ७ ॥ दुख छे-
 दवा धर्मने पूछे के गु०, कहो सुखकारी धर्म शुं छे के तु० त्रण तव स्वरूप

सुगावे के गु०; तेहने मिथ्यात्व वमावे के ॥ तु० ८ ॥ नृप वयणधी सम-
 कित पाम्यो के गु०, नृपने तत्र शिरथी नाम्यो के तु०; देव गुरु पूजा करे
 अंगी के गु०, गुणवंत थयो नृप संगी के ॥ तु० ९ ॥ तुं बोधनो दाता मु-
 ज के गु०, श्रुं आपुं हुं हवे तुज के तु०; तुज देवा योग्य न दान के गु०, तें
 शिव सुख दीधुं प्रधान के ॥ तु० १० ॥ पण आपुं शक्ति प्रमाण के गु०, चिं-
 तामणि दिए तिणे ठाम के तु०, एहनुं स्वरूप सुणो स्वामि के गु०, एह रयण
 संभारे नाम के ॥ तु ११ ॥ जेवां रूप इच्छे मनमां के गु०, निज परनां नी
 पजे क्षणमां के तु०; ते पण नीपजे बहु रूपके गु०, बली विद्या कामित रू-
 प के ॥ तु १२ ॥ साधन सहित आपे तेह के गु०, नृपे दोय ग्रहां ते जेह के
 तु०; विधिपूर्वक लेई राय के गु०, सुररायनी स्तवना कराय के ॥ तु०
 १३ ॥ नृप कहे धन्य तुं सुरराय के गु०, बोध पाम्यो ने परस्त्री सजाय
 के तु०, चंद्रगतिने मैत्री कराई के गु०, सघळो अपराध खमाई के ॥
 तु० १४ ॥ अद्रश्य थयो ते सुरताम के गु०, चंद्रगतिने सुंपी वाम के तु०,
 हरस्त्री कहे एणिपरे बाणि के गु०, मुज कन्यानो ग्रहो पाणि के ॥ तु० १५ ॥
 श्री जयानंद कुंअर रायके गु०, सहु विसरजे निज ठायके तु०; चंद्रगतिने
 पवनवेग तामके गु०, कानमां कहे सांभलो आम के ॥ तु० १६ ॥ मुज क-
 न्या पाणिग्रह थाय के गु०, तुज पुत्री लेई ते ठायके तु०; आवजो तव चं-
 द्रगति भूपके गु०, नृपने नमी तस अनुरूपके ॥ तु० १७ ॥ निज धाम गयो
 प्रिया लेई के गु०, ते सांभली स्वजन मलेई के तु०; ओत्सव करे नव नव
 रंगे के गु०, हवे श्रीजयतातने संगे के ॥ तु० १८ ॥ योगणी दीधा अलं-
 कार के गु०, बली विनती पत्र उदार के तु०; खेचर साथे ते मूके के गु०,
 विश्वास हेते नवि चूके के ॥ तु० १९ ॥ हवे पवनवेगादिक संगे के गु०,
 बैताढ्ये आव्या मन रंगे के तु०; तिहां शाश्वत चैखने वादि के गु, रोमांचि-
 त थई आणंदे के ॥ तु० २० ॥ गौरव करी प्रार्थना करतो के गु०, निज
 नयर लावे मन हरतो के तु०; पवनवेग दक्षिण श्रेणे के गु०, चंद्रगति बो-
 लाव्यो तेणे के ॥ तु० २१ ॥ सुता चंद्र सुंदरी तास के गु०, निज वज्रसुं-


दरी खास के तु० शुभ मूहूर्ने दौय परणावे के गु० बहु आग्रहथी सुख पावे के ॥ तु० २२ ॥ चक्रायुध भये संखेवे के गु०, बहु गज अम्बादिक देवे के के तु०; शत्रुमर्दिनी विद्या एक के गु०, छे पवनवेग घर छेकके ॥ तु० २३ ॥ यण दुस्रथी मथाये तेह के गु०, नवि साधी शके तिणे एह के तु०; शील सत्ने भाग्य विशाल के गु०, ऊत्कृष्ट एहनुं भाल के ॥ तु० २४ ॥ नृप-ने विधि सहित ते आपे के, गु०, चली मणिघरमां नृप थापे के तु०; दौय चारिथुं भोग विज्ञास के गु०, तिहां रहेतां सुख आवास के ॥ तु० २५ ॥ चक्रायुद्धथुं युद्ध थाय के गु०, सैन्यथुं तिहां आवजो भायके के तु० एम कही चंद्रगत्तिने वात के गु०, पवने भोकल्यो सुख शानके ॥ तु० २६ ॥ जैनधर्म प्रभावे रायके गु०, दौय नारिथुं सुखमां ठायके तु०; कोशल दे-शल दौय भायके गु०, पंचमव्रत केरे पसाय के ॥ तु० २७ ॥ आराधी विराधी फळ पाया के गु०, तेम श्री जयानंदजी रायके तु०; चोया व्रतथी अरि-जीपे के गु०, तिम पालो जिम पुन्य दिपे के ॥ तु० २८ ॥ सातमे खंडे ए भाखी के गु०, सखवचनथी शास्त्र छे साखी के तु०; कीर्ति जस कप्रस-मान के गु०, श्री जयानंदरास प्रधान के ॥ तु० २९ ॥ ए नवमी ढाल र-साल के गु०, ए सातमो खंड विशाल के तु०; श्री खिमाविजय गुरु नाम के गु०, शिष्य जिनविजय गुण धाम के ॥ तु० ३० ॥ तस उत्तमविजय सु-शिष्य के गु०, कहे एव विजय सुजगीसके तु०; सुणतां होय मंगल मालके गु०, बली घर घर लछी विशाला के ॥ तु० ३१ ॥ सर्वगाथा २६५

इति श्रीमदुत्तमविजयग०विनेय ५० पत्रविजय ग० विरचिते श्रीश्री जयानंद केवलिचारित्रे प्राकृत प्रबंधे पंचमव्रत निरतिचार सातिचार पालन विषये कोशल देशल निदर्शन गर्भ वज्रकूट गिरिचूर्णन वज्रमुख सुर वि-जयत चिंतामणि महाविद्या प्रदान वज्रमुंदरी चंद्रमुंदरी पाणिग्रहण वर्णनो नाम सप्तम खंडः समाप्तः षट्खंड गाथा ३९६९ सप्तमखंडे गाथा २६६ सर्वगाथा ४२३५ षट्खंडे उक्तश्लोक ७८ सप्तमखंडे उक्तश्लोक २ सर्व उक्तश्लोक ८० सवैश्वो एक १ तमस्या दुहाः २ श्री

खंड ८ मो.

दुहा.

अभिनव सूरय उगीओ, शांतिनाथ भगवान; ऋण जगतना दुख तें, टाळे तमोवितान ॥१॥ प्रणमी पदकज तेहना, आखुं आठमो खंड; सांभलतां जे उंघमे, तेहने दंड प्रचंड ॥२॥ उंघे ने उघुं नही, कहे तस दोहोहुं पाप; उंघ मांहीं जूहुं भल्युं, ए मोहोठो संताप ॥३॥ जेह जगाडे तेहथुं, उलटो आणे क्रोध; दोंप परंपर इणपरे, बाधे जाए बोध ॥४॥ उंघणनुं श्रुत उंघशे, नवि उंघो ते काम; उंघण मृतकनी वानगी, तेहथी अधिको आम ॥५॥ घूंणे भूआ नीपरे, व्यंत्तर पेठो जेम; जागंता हांसी करे, तिणे कहो उंघीए-केम ॥६॥ तिम विकथा वर्जो वली, विकथा न करो जेण, विकथा ते वितथा करे, नवि सुणवा दिए तेण ॥७॥ तेहथी उंघ्यो रुयडो, जे नवि सांभले आप; स्वपर न सांभलवा दिए, तिणे ए मोहुं पाप ॥८॥ निद्रा विकथा परिहरी, सांभलो चतुरमुजाण; खंड खंड चडतुं अछे, श्रीभय पुण्य प्रमाण ॥९॥



ढाल १ ली.

॥ प्रथम गोवाला तणे भवेजी ॥ ए देशी ॥

एक दिन उपवनमां गयाजी, श्री जयानंद कुमार; आठ विद्याधर नरपतिजी, आची करे नमस्कार ॥१०॥ भविकजन जूओ जूओ पुण्य विशेष, दिन दिन चढतुं अशेष भ० ॥ ए आंकणी ॥ बेसारे सिंहासनेजी, पवनवेग नरराय; सुख प्रश्नादिक पूछताजी, मनमां आणंद थाय ॥ भ० ११ ॥ श्री जयानंदने आगलेजी, ते आठेनुं स्वरूप; पवनवेग नृप वर्णवेजी, सांभलज्यो तुमे भूप ॥ भ० १२ ॥ दक्षिण श्रेणि वैताढ्यमांजी, जाणो सघलारे एह; (१) भोगरति ए राजीओजी, भोगपुरी धणी जेह ॥ भ० १३ ॥ वज्रपुरीनो राजीओजी (२) चंद्रवाहु नरराय; रत्नपुरीनो ए पतिजी, महावाहु (३) सुखदाय ॥ भ० १४ ॥ (४) चंद्रवेग चोथो लहोजी, एइनुं पुरमाण धाम;

नगर वीरपुरनो धणीजी, (५) रविप्रभ जेहनुं नाम ॥ भ० १५ ॥ (६)र-
 त्तनचूड नृप पुरतणुंजी, रत्नालय अभिधान; कनककूट पुर सातमुंजी, (७)
 तद्धितवेग राजान ॥ भ० १६ ॥ नगरगिरि चूड आठमोजी, (८) श्री चंद्राभ-
 भूपाल; चार चार पुत्री हवीजी, सवि वत्रीस रसाल ॥ भ० १७ ॥ माता
 सहुनी झूझुंजी, सरिखी वयनीरे प्राय; सरिखी रूप कला गुणेजी, रूपे र-
 भा हराय ॥ भ० १८ ॥ साथे ते भेली भणीजी, मांहो मांहिरे प्रेम; करे प्र-
 तिज्ञा सहु मलीजी, एक पति करणनो नेम ॥ भ० १९ ॥ रूप अनुत्तर जा-
 णनेजी, ते कन्या वतरीस; तेहना तातने मोकलेजी, दूत चक्रायुध ईश ॥
 भ० २० ॥ पुत्र अमाराने दीओजी, तुम कन्या अनुरूप; उत्तर आप्यो तेह-
 नेजी, सरवमली एक रूप ॥ भ० २१ ॥ मेल लहेणा देवा तणोजी, जोवरावी
 नेरे स्वामि, आवी उत्तर वालशुंजी, तुम चरणे शिरनामि ॥ भ० २२ ॥
 भोगरति नगरे थयाजी, भेला आठेरे भित्त; कहो शुं करबुं आपणेजी, था-
 ओ एकज चित्त ॥ भ० २३ ॥ भिन्न भर्त्ता ईच्छे नहींजी, कुमरीओ मनमां
 ह; एक कुमरने जो दीजीएजी, मनमां धरी उत्साह ॥ भ० २४ ॥ वीजी
 स्त्री इर्पा करेजी, तिणे नवि सुद्धेरे कांय; जो नवि दीजे सर्वथाजी, तो ए
 क्रोधे भराय ॥ भ० २४ ॥ राज्य जीवित सहु अपहरेजी, रूठो ए महाराय;
 संकटमां आवी पड्याजी, उत्तर कहो शो कराय ॥ भ० २६ ॥ ईणे अवसर
 निहां आवीओजी, एक निमित्तिओरे जाण; करी बहु मानने पृच्छियुंजी,
 विषम कार्य गति ठाण ॥ भ० २७ ॥ निमित्त जोई निमित्तियोजी, बोल्हो
 एणिपरे वाण, चक्रायुधनो भय तुमोजी, मम करो निमित्त प्रमाण ॥ भ०
 २८ ॥ राज्य अल्पदिन एहेनुंजी, तव पूछे फरी तेह; मरण के शत्रु एहेनो-
 जो, राज्य जशे कहो केह ॥ भ० २९ ॥ ज्ञानी कहे ए पामशेजी, महा परा-
 भव दुख खाण; वात असंभव सांभलीजी, पूछे फरी तिण ठाण ॥ भ० ३० ॥
 कोण शत्रु एहनां थशेजी, ज्ञानी बोलेरे ताम; वज्रवेग मूकावशेजी, जे यो-
 गणीने धाम ॥ भ० ३१ ॥ वज्रकूट नग चूरिनेजी, चंद्रगतिनीरे नार, देव वज्र-
 मुख जीतीनेजी, मूकावशे निरधार ॥ भ० ३२ ॥ तेहने कन्या आपजोजी,

योग्य भणी तरे सर्वः राजाधिराज ते धायशेजी, मोटों नृपगत गर्व ॥भ०
सांभली हरखी आपियुंजी, दान विसज्योरे ताम, चंद्रगति देखी अमोजी,
कथों निरधार ते खास ॥भ० ३४॥ निजस्वार्थ हेते अमोजी, आव्या तुम-
चीरे पास; ए कन्या परणी तुमोजी, सफल करो अम आज्ञा ॥भ० ३५॥ पहे
ली आठमा खंडमांजी, पद्मविजय कही ढाल; पुण्यवंत प्राणी लहेजी, सघ-
ल मंगळमाल ॥ भ० ३६ ॥

दुहा.

आवो अम पुर साहिवा, म म करो प्रार्थना भंग; चक्रायुध भये परणीए,
एकांते मनरंग ॥१॥ श्री जयानंद कहे तदा, चक्रायुध भय धारि; परणवुं
जे छांना रही, स्वाद किशो अवधारि ॥२॥ पढखो भय टलवा लगे, इम
कही कर्था विदाय; पवनवेग कहे कांनमां, सांभलोरे तुमे भाय ॥३॥ चक्रा-
युध संगर समे, सैन्य सामग्री समेत, वहेला लेईने आवजो, ए तुमे अम सं-
केत ॥४॥ सहृए ते अंगी करी, पोहता निज निज धाम; हवे वैताढ्यनी उ-
परं, सिद्धकूट अभिराम ॥५॥ पवनवेग अनुमति तिहां, आव्या श्री जयानंद;
सुरखेचर दीधी तदा, विद्या जे आणंद ॥६॥ सिद्ध प्रतिमाने आगले, सा-
धवा मांडे तेह; विधिथी अल्प काले करी, सिद्ध थई गुणगेह ॥७॥



ढाल २ जी.

॥ साहिवा पंचमी मंगळवार प्रभाते चालवुरेलोल ॥ ए देशी ॥

साहिवा विद्याधर वहु साथके, परिवृत आंवीओरेलो, सा० पवनवेग पुरे स्ने-
चरी, वृंदे वधावीओरेलो; सा० सुखथी महोलमां अथवा, सभामां क्रीडा करे-
रेलो, सा० प्रिया सहित मनमोजमां, जिम ईच्छा धरेरेलो ॥ ॥ सा० प-
वनवेग दिन वीजे, बेठो सभा करीरेलो, सा० चक्रायुधनो दूत, आव्यो ति-
णी पुरीरेलो; सा० आव्यो सभा मझार, पवनवेग ऊठीओरेलो, सा० कन-
कासन देइ हरखे, तास बेसाढीओरेलो ॥ ९ ॥ सा० सुख प्रश्नादिक वान,
पूछे चक्री तणीरेलो, सा० आगम कारण पूछे, वीजुं सवि अवगणीरेलो;

सा० ते कहे सुणो चक्री, तुम आणा करेरेलो, सा० वज्रसुंदरी तुम कन्या
 मुज स्वयंवररेलो ॥ १० ॥ सा० मोकल्यो सांमली एम, के मनमां खल भ-
 ल्येरेलो, सा० तोपण धीरय धारि, पवन कहे सांभल्लेरेलो; सा० जो तुम
 मनमां एम, तो केम विलंब कर्येरेलो, सा० श्रीजये पुत्र भूकावी के, मुजने
 उपगय्येरेलो ॥ ११ ॥ सा० मुज प्रतिज्ञा एहके, तेहने देऊं कनीरेलो, सा०
 दीधी कन्या तास, के परण्यो ते धणीरेलो; सा० पुत्र भूकावो मुज, के एम बहु
 बहु कळुरेरेलो, सा० पण मुज वचन स्वाभिण, मनमां नवि लखुरेरेलो ॥ १२ ॥
 सा० दूत कहेजो परणी के, पण मोकलो तुमेरेलो, सा० तो तुम तूसर्शे स्वाभि
 के, वली कहेथुं अपेरेलो; सा० पवनवेग कहे ताम, के इमकिम बोलियेरेलो,
 सा० घटती वातनुं वयण, के मुखथी खोलियेरेलो ॥ १३ ॥ सा० यतःसकृत्
 जल्पन्ति राजनः, सकृत् जल्पन्ति पंडिताः सकृत् कन्या प्रदीर्यते, त्रीण्येतानि
 सकृत् सकृत् ॥१॥ पर्वदाळ्ळ ॥ सा० कन्यानु मागु होय, के बहुनुं नहीं कदा-
 रेलो, सा० दूत कहे ए वलियो के तुम रुसरो यदारेलो; सा० ससरा जमा-
 ईनी भाखो, के गति तुम शी यशेरेलो, सा० पवन कहे जे थानार के थावो भावि
 वशेरेलो ॥ १४ ॥ सा० प्राण जते पण एह, के नवि थाए किमेरेलो; सा०
 मीठे वचने एह, के समजावजो तुमरेलो, सा० उक्ति युक्तिथी कहेजो, के जि-
 म रुसे नहीरेलो, सा० तुमेछो चतुर मुजाण, के गति एहवी अही रेलो; ॥१५॥
 सा० दूत गयो हवे ताम, के चक्रीनी कनेरेलो, सा० पवन ते मंत्रीने पूछे, के
 वली चितवी मनेरेलो; सा० नाम पटुवाक सार, के कोविद दीपतारेलो, सा०
 मंत्री भूके बहु साथ, के वादने जीपतारेलो ॥१६॥ सा० दूते चक्रीने वात, के
 संभळावी यदारेलो, सा० क्रोध थकी घम धमियो, के चक्रायुध तदारेलो;
 सा० पटुवाक फहोतो ताम, के प्रणमीने कहेरेलो, सा० इंद्रथी अधिक धीर्य,
 के तुज बाहु लहे रेलो ॥ १७ ॥ सा० कुलवंतामां धोरी, के जयवंता रहारेलो,
 सा० तुमथी अनीति अन्याय, के सहू दूरे रहारेलो; सा० खेचर नर सुर अ-
 सुर, के युगममली सदारेलो, सा० कनकाचले तुज गाय, के कीर्ति संपदारेलो-
 ॥ १८ ॥ सा० चंद्र जुब्बल तुज कीर्ति, के जगमां विस्तररेलो, सा० नादि

कारण ते मलिन, के किम करे तुं फरीरेलो; सा० अद्रभूत रूप लावण्य, के कोडि गमे कनीरेलो, सा० घर घर दीसे तेह, के रूपे रंभा वचीरेलो ॥ १९ ॥ सा० इच्छाए परणी तेह, के भोगवो सुख घणुरेलो, सा० परस्त्रीथी जाये कीर्त्ति के, आवे लघुपणुरेलो ॥ २० ॥ सा० देव गुरु तिम धर्म के, जाणो भूगतीरेलो, सा० शुद्ध वंश उतपन्न, के अनीति न होय रतीरेलो; सा० कुल-ने कलंक कारी, परदारा परिहरो रेलो, सा० तस ईच्छा तुम थाय. के लाज न किम करीरेलो ॥ २१ ॥ सा० धिग् धिग् मदनने होय, के तुम सरिखा नरो-रेलो, सा० ज्ञान धर्म धृति कीर्त्ति, के जाणवा तत्पररेलो; सा० तेह कुपथे जाय, के तिणे किरपा करीरेलो, सा० भक्त वत्सल तुमे तेण, के प्रसन्नता मन धरीरेलो ॥ २२ ॥ सा० शेवकनो अपराध, के एक खमीए प्रभुरेलो, सा० इसादिक उपदेश के सांभली भूविभू रेलो; सा० कांयक शरंत कोपाग्नि, के खेचर पाति थयोरेलो, सा० पाछो उत्तरतास, के एणिपरे वालीआंरेलो ॥ २३ ॥ सा० आठमे खंडे ढाल, ए बीनी सोहामणीरेलो, सा० श्री जयानंदने रासे, के पञ्च विजय धणीरेलो; सा० जैन मारगना जाण, के आगम सांभलेरे-लो, सा० काममदे नवि देखे के अनरथ आगलेरेलो ॥ २४ ॥ स-र्वगाथा ६०


दुहा.

मध्यवये हुं आवीओ, कामथी न करुं काम; पण लोपी मुज आणने, नवि सहि शकीए नाम ॥ १ ॥ अगनि विना वलवुं कळुं, शस्त्र विना वध एह; आणाभंग नरेद्रनी, तुमे सत्री जाणो तेह ॥ २ ॥ पवनवेग तिणे का-रणे, राज जीवित खप होय; ईच्छे जमाइ जीवतो, तो कहुं ते करे सोय ॥ ३ ॥ दाशी चक्रायुध तणी, एहवा वर्णनी श्रेण; निज पुत्री कंकणे लिखे, मुज शांति होय तेण ॥ ४ ॥ चक्रायुध दाशीपाति, मौलिए लिखुं एणी री-ति; ते आपु हुं एहना, जामाताने प्रीति ॥ ५ ॥ ते पहेरे शिरउपरे, वली मु-ज पुत्री जेह; चक्रसुंदरी नामथी, छे कलावंती तेह ॥ ६ ॥ वज्रसुंदरी

(३१२)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

आवीनि, मुज दंत कंकण पहेरी, नाटिक शीखवे मुजमुता, चित राखी ब-
हु पेर ॥ ७ ॥



ढाल ३ जी.

॥ श्री ऋषभानन गुण निलो ॥ ए देशी ॥

वात सुणी चक्री तणी, ते पंडितने परधानेरे विनीत; हाकारो भणी उ-
ठीआ, आव्या ते निजपुर थानरे ॥ वि० ८ ॥ पृथवी पुरप रयणे भरी
॥ ए आंकणी ॥ संभलावी वात ते पवनने, तिम श्रीजयानंदने तेहरे वि०;
विस्तारे संभलावता, चक्रायुध वोल्या जेहरे ॥ वि० ९ पृ० ॥ हवे पवनवेग
मली सह, श्रीश्रीजयानंद एकांतरे वि०; वात विचार करतां कहे, श्रीज-
य मत मन करो भ्रांतरे ॥ वि० १० पृ० ॥ जे चक्रायुधे तुमने कष्ट, ते क-
रिये अंगीकाररे वि०; वज्रसुंदरी राखी गोपवी, थोडो काल गेह मझाररे
॥ वि० ११ पृ० ॥ वज्रसुंदरीनुं करी रुप हुं, केटली लेई साथे नारीरे वि०;
चक्रायुध पासे जई करी; भणावांश तस कनी साररे ॥ वि० ११ पृ० ॥ स-
घळुं करशुं रुहुं अमे, जिम उचित हशे तिम तेहरे वि०; हुं कार्य करीश सवि
एकलो, काई फिकर म करशो एहरे ॥ वि० १३ पृ० ॥ इम कही सह निज
घरे गया, तव चक्रीना पुरुष परधानरे वि०; आव्या तस पवनवेग करे,
प्रतिपत्ति तथा बहु मानरे ॥ वि० १४ पृ० ॥ ते कहे चक्री ईणिपरे कहे,
में कहेवराव्युं छे जेहरे वि०; वज्रसुंदरी मूको शीखाववा, वली वीजुं
कष्टुं जेह तेहरे ॥ वि० १५ पृ० ॥ जो न करे तो हुं आवीओ, युद्ध करवा थाने
तैयाररे वि०, राज्य मुकीने जाज्यो तुमे, जीजी गतिनो नहीं ठाररे ॥ वि०
१६ पृ० ॥ कहे पवनवेग शु बोलीआ, कोण नवि माने प्रभु आणरे वि०;
करी सामग्रीने मोकळुं, आजनो दिन पडखो जाणरे ॥ वि० १७ पृ० ॥
उतारो आप्यो इम कही, अशनादिक युक्ति अपाररे वि०; संतोष्या भली
भातशु, अवसर थयो रातनो साररे ॥ वि० १८ पृ० ॥ तव श्रजिय पांच-
सैं पुरुपने, परिक्षा करी जेह जुवानरे वि० शस्त्रशास्त्रमां कुशलने, काढ्या

ते करी विज्ञानरे ॥ वि० प्र० १९ ॥ वीरांगद महा बाहुजे, सुधोष प्रमुख
 विदित्तरे वि०; स्त्रीनां रूप करे तदा, थया आपसमान विचित्तरे ॥ वि० प्र०
 २० ॥ वस्त्र आभूषण सारिखां, विद्याए ते करे रूपरे वि०; वज्रसुंदरी जंहवुं, आ-
 प रूप करे नर भूपरे ॥ वि० प्र० २१ ॥ चिंतामणि रत्न प्रभावथी, रूढां वस्त्र तथा
 अलंकाररे वि०; दुर्लभ नहीं वज्रसुंदरी, गोपवी वळी गह मङ्गाररे ॥ वि० प्र०
 २२ ॥ पवनवेग प्रातःसमे, ते परधाननी साखरे वि०; कारिमी पुत्रीने कहे,
 सांभलो तुमे माहरी भाखरे ॥ वि० प्र० २३ ॥ नाटिक कला शिस्ताविने, करजो
 स्वामि सतोपरे वि०; साकहे तात आणा करुं, एमां नहीं कांय मोपरे ॥ वि०
 प्र० २४ ॥ शस्त्र गुप्त राखी करी, वेठां सहूए विमानरे वि०; नाट्य सा-
 मग्री प्रगट पणे, पाहता चक्रीने थानरे ॥ वि० प्र० २५ ॥ मूकी उद्यानमां
 ते नरा, जइ कहे चक्रीने वातरे वि०; दासीओ तेडवा मोकले, हियडे हरख
 न मातरे ॥ वि० प्र० २६ ॥ पर्वतमां कोई थानिके, मूके गोपवी ते शस्त्ररे
 वि०; कारिमी स्त्रीओ मूकी करी, पहेरी अलंकृति वस्त्ररे ॥ वि० प्र० २७ ॥
 राय हजूर ते आवीआं, ते वदन अधो मुख राखिरे वि०; वज्रसुंदरी उभी रही,
 लाजथी घुंघट दाखिरे ॥ वि० प्र० २८ ॥ बहु नारी घडी घडीने थयो, घा-
 ता विज्ञाननी सीमरे वि०; नीपजावी छे पछे एहने, जगमां नहीं एहहुं नीमरे ॥
 वि० प्र० २९ ॥ नरपति इणिपरे चित्त चितवी, अहो एह रूप प्रमाणरे वि०;
 खाण कलानी एहशे, करे नृत्न करवानी आणगे ॥ वि० प्र० ३० ॥ त्रीजी
 आठमा खंडमां, पद्मविजय कही ढाळरे वि०; श्रीश्रीजयानंदना रासमां, वात
 सुणजो हवे सुरसालरे ॥ वि० ३१ प्र० ॥ सर्वगाथा ९१

दुहा.

नृप आणार्थी ते हवे, गीत वात मनोहार; सर्व स्त्रीए करी परिवरी, ना-
 टिक करे उदार ॥१॥ देखी नृप मुख चमकीआ, वस्त्र अने अलंकार; दे-
 खी देखी रीझतो, देवा दान अपार ॥२॥ ग्रास दास्यादिक बहु दिए, देई
 आदरमान; रहेवा आवास आपतो, जाणे स्वर्ग विमान ॥३॥ सुंपी पुत्ती शी-
 खवा, चक्रसुंदरी जेह; निज परिवारे परिवरी, रहे आवासे तेह ॥४॥ वज्र

सुंदरी शीखवे, नाटिक कला अभ्यास; निज सम चक्रसुंदरी प्रते, निस निस राखी पास ॥५॥ ब्रजाए सरसती समी, सोभागिण सुविनीत; सरल भाषिणी गुणवती, शीखे धरती प्रीत ॥६॥ योगिणीवद्ध ते गावती, श्री जयकुमर चरित्र; माया नारी सहमली, स्वर पद वर्ण विचित्र ॥७॥ चरित्र विचित्र सुणी करी, कन्या कुमरशुं राग; धरती पूछे हे सली, कोण श्रीजय महा भाग ॥८॥

ढाल ४ थी.

॥ नानो के नानो नाहलोरे, नानो चांपानो छोड ॥ ए देशी ॥

जे तुमे गावो गीतमेरे, श्री जयानंद कुमार लागी मोहनीरे; चक्री के चक्री समो वडेरे, जग नहीं एहवो उदार ॥ ला० ९ ॥ ते मुज्र भाखो कुणछेरे, तव ते वोले वार ला०; योगिनीगण गाती थकीरे, पर्वत केलि मझार ॥ ला० १० ॥ ते अमे सांभली शीखीआरे, पण नवि ओलखुं तास ला०; पण वज्र सुंदरी वर समोरे, उत्तम गुण आवास ॥ ला० ११ ॥ ज्ञानीए उत्कृष्टो कछोरे, इणहीज भरत मझार ला०; संभवीए एम सांभलीरे, देखी कलादिक वार ॥ ला० १२ ॥ वज्रसुंदरी शुं रीझतीरे, इच्छे रहेवुं तसपास ला०; भाग्य होय जो माहुरे. तो एहवो धवखास ॥ ला० १३ ॥ वज्रसुंदरी भेली रहुरे, पण हवे परणयो तेह ला०, तात धरे द्वेश तेहथुरे, केम आपे मुज्र एह ॥ ला० १४ ॥ तेणे हुं अभागणी मावडीरे, एम मन धरती शोक ला०; आमण दुमणी ते रहेरे, रवि विरहे जिम कोक ॥ ला० १५ ॥ तव ते देखी पृच्छतीरे, कारमी नारीओ एम ला०, रेवत्स तुं रंभा समीरे, इच्छे पुरंदर प्रेम ॥ ला० १६ ॥ सा कहे सांभलो वहेनडीरे, चंद्र ग्रहेवा निज पाण ला०; दांभी थाए जेप तेणीपररे, शु असाध्य वखाण ॥ ला० १७ ॥ नारीओ कहे तुं सांभलेरे, वज्रसुंदरी एह ला०; एहने असाध्य कांड नधीरे, इच्छे ते करे जेह ॥ ला० १८ ॥ दीठी कला ते जेहवीरे, जगतने जीतणहार ला०; नेदनुं पगक्रम जाणजेरे, फेर पडे न लगार ॥ ला० १९ ॥ पण मन

थिर नवि संभवेरे, ताहरुं अम मनमाहि ला०; नारीनुं चित्त चपल होएरे
 कपि परे थिर नही क्याहि ॥ ला० २० ॥ चपल चित्त अर्थे करेरे, कोण
 विपम ए काम ला०; सा कहे स्तनसंगति परेरे, माहरु मन द्रढ ठाम ॥ ला०
 २१ ॥ जेम दारिद्री धन रोगीओरे अमृत रोगी मान ला०; तरङ्ग्याने अमृत
 परेरे, तिम माहरे बहु मान ॥ ला० २२ ॥ नारीओ कहे जो एम छेरे, तो
 तुं था तैआर ला०, ते पण आवी उतावलीरे, लेई निज धन मुख ल्हार
 ॥ ला० २३ ॥ नारीओ सहू संभलावतीरे, श्री जयानंदने वात ला०; तत-
 क्षण रचीया विमानमारि, वेसारी ते ख्यात ॥ ला० २४ ॥ चाल्यो गगन-
 मां तेहवेरे, महोल उपर रही एम ला०; उद्घोषणा करे आकरीरे, मुण-
 ज्यो आणी प्रेम ॥ ला० २५ ॥ रे चक्रीरे खेचरारे, वीर तणुं तुज मान ला०;
 लेई जाउं चक्रमुंदरी, संभलावी तुम कान ॥ ला० २६ ॥ बलवंता जो छो
 तुमेरे, तो श्री जयानंदराय ला०; पासेथी मुकावज्योरे छलं न करुं इणे ठाय
 ॥ ला० २७ ॥ इम कही नगर उद्यानमारि, आवी गुप्त हथिआर ला०;
 मंगावे बहु जातिनारि, श्रीजयानंद कुमार ॥ ला० २८ ॥ आठमे खंडे चौथी
 कहीरे, पद्य विजये वर ढाल ला०; श्री जयानंदना रासमारि, पुण्ये मंगलमाल
 ॥ ला० २९ ॥ सर्वगाथा ११९

दुहा.

ते सांभली विस्मय लह्यो, चित्तवे खेचरराय; अहो पराक्रम नारिनुं, अहो
 अनीति कराय ॥१॥ वहु सुभटने मोकले, कन्या वालवा काम; माया स्त्री
 थुं जूजिआ, धरता अतिशय माम ॥२॥ हार्या ते नाठा थका, आव्या चक्री
 पाय; स्त्रीए हरव्या लाजथी, मुखथि नवि बोलाय ॥३॥ पण रुधिरि खर-
 ढ्या थका, देखी क्रोध भराय; महाबल मोकले विस्मये, पायकना समु-
 दाय ॥४॥ केई चिमान मांहिं रह्या, केई वेठा गजराज, तुरग चढ्या केई
 तेजथुं, लेई निज निज साज ॥५॥ युद्ध करंता तेह थुं, नाठा सुभट जे ना-
 र; राखो अम कहेता थका, जिहां छे श्रीजयकुमार ॥६॥

हाळ ५ भी.

॥ जाओ जाओरे रुठडानाय तुमशुं नहीं बोलुं ॥ ए देवी ॥

श्रीजयानंदजी उठीया, कांय युद्ध करणने काजरे; स्त्री रूपे आवी भडथो,
कांय बलवंतो महाराज. गुण गणवंतोरे, भारो भारो करे हुंकार गु०; लेई
लेईरे कर वधिआर गु०, सूरवीर धई गिरदार गु० ॥ ए आंकणी ॥ गदा
लेईने चूरतो, कांय पापडपरे विमानरे; महावतशुं गज पाडतो, कांय पर्व-
त शिला रुदान ॥ गु० ८ ॥ गरुडपरे हय लेईने. कांय गगने भमाडे तेहरे;
चंचा पुरुष तणीपरे. कांय पाडे सुमटने जेह ॥ गु० ९॥ केलुं वन जिम हा-
थीओ, कांय हिम जिम कमल नीखंडेरे; स्त्री रूपे कुमरे तदा, कांय त्रास-
व्या तेज प्रचंड ॥ गु० १० ॥ मूकी मान नाशी गया, कांय भिन्न भिन्न
सहु जायरे; रुधिर झरंता लाजता, कांय आव्या जिहां नरराय ॥ गु० ११ ॥
स्त्रीए हरव्या ते लाजथी, कांय मुख न देखाडे आयरे; तेह स्वरूप चरथी
सुणी, कांय नरपति खेद भराय ॥ गु० १२ ॥ खेद लाज विस्मय घणो,
कांय क्रोधथी न्याकुल धायरे; पुत्री पाळी वालवा, कांय उठे पोते राय
॥ गु० १३ ॥ स्त्री उपर ए नासतां, कांय लाजे छे मुज वाणरे; मोटो अप-
जश चितवी, कांय वेठा तिण हीज ठाण ॥ गु० १४ ॥ पवनवेग खेचरपति
कांय भोग रसादिक आठरे; चोलाव्या ते आवीआ, कांय वहु बलनो करी
ठठ ॥ गु० १५ ॥ चंद्रगति बली आवीओ, कांय लेई वहु परिवाररे; मि-
त्रादिक संबंधथी, कांय नृप विद्याधर वार ॥ गु० १६ ॥ दक्षिण श्रेणिना
राजवी, कांय पवनवेगशुं मेलरे; तस दोलाव्या आवीआ, कांय तनमन
तेहयां भेलि ॥ गु० १७ ॥ प्राये दक्षिण श्रेणिना, कांय पवनवेग सहु लेयरे;
सैन्य घणुं भेलुं करी, कांय आव्या पूर्व सकेय ॥ गु० १८ ॥ चक्रायुध पण स्त्री-
भिओ, कांय देखी तेह वनावरे, त्राण रहित जिम भय लहे. कांइ जेम शानि म
कर स्थित दाव ॥ गु० १९ ॥ काहला त्रट त्रट वाजती, कांय भीषण उठे
नादरे; शस्त्र लेई भड धावता, करे वुंवारव सविसाद ॥ गु० २० ॥ कायर
सुमट ते नासता, कांय भय कोलाहळ जासरे; केडे वालक लेई रोवती, कांय

तरलाक्षी लही त्रास ॥ गु० २१ ॥ आलान मूल उमेलिने, कांय नाठा ति-
हां गजराजरे; अश्वस्वार नाखि दिए, कांइ अश्व ते न खमे ताज ॥ गु० २२ ॥
भीषण भांकारव करी, कांइ गायो त्रोडी राशरे; वृषभने महीपी तिम भमे,
कांय भय विन्हल लही त्रास ॥ गु० २३ ॥ पाणिहारी अंगे कंपती, कांय
फोडे घट समुदायरे; आभूषण खसीने पडे, कांइ नारि न जाण्या जाय
॥ गु० २४ ॥ नासंता ढोर ते पडतां, कांइ नरनारीने पंथरे; हाल कल्लोल
नगरी थई, कांइ स्थिर नहीं कांइ अथ ॥ गु० २५ ॥ त्रूटया हार मोती तणा,
कांइ पुंज तेमांनुं एहरे; कुंअर आववा कारणे, कांइ स्वस्तिक पूरवा जेह ॥
गु० २६ ॥ केइ कहे जूओ नारिथी, कांय नगर खोभाणुं एमरे; कोई कहे ए
भट अछे, कांय नारि करे एम केम ॥ गु० २७ ॥ इंद्र तथा लोकपाल ए,
कांइ शत्रुपक्षे आयरे; नवि जीताए कोई कहे, कांइ चक्रायुधे जीताय ॥ गु०
२८ ॥ मत वीहो केईक कहे, कांइ एहनो कहो शो भाररे, आपणा स्वामी
आगळे, कांइ सहुए तृण अनुहार ॥ गु० २९ ॥ आठमे खंडे पांचमी, कांइ
पद्मविजये कही ढालरे; पुण्य पसाये जीवने, कांइ होवे मंगळमाल ॥ गु०
३० ॥ सर्वगाथा १५०

दुहा.

परचक्रागम सांभली, देखी पुरनो क्षोभ; कहे कोण मरवा आवीआ, पा-
डवा घरनो मोभ ॥१॥ चर धावी कहे चक्रीने, पवनवेगादिक नाम; चक्री
कहे रंडा अहो, नगर खोभावे आम ॥२॥ मीमालंधी माहरी, हाश्य थयुं
जन मांहिं; अथवा मुज ओत्सव थयो, जिणे आव्यो ए आंहिं ॥३॥ कंडू
जशे मुज करतणी, मुज प्रतापे वर आग; वयरी इंधण पामीने, अथवा दी-
पवा लाग ॥४॥ अथवा स्त्री आगळ करी, सुभट झुझशे जेह; मूज रण कौतुक
पूरवा, किंम समर्थ छे तेह ॥५॥ आप शक्ति अणजाणतो, आव्यो मुज
पुर पास; शिक्षा देई लेउ पुत्रीने, एहने करूं निराश ॥६॥ इम चिंती चक्री
हवे, वजडावे रणभेरि; सुभट सवे तव सज थया, सांभली नादने सेर ॥७॥

ढाल ६ टी.


॥ लाल पीआरीनो साहिवोरे ॥ ए देशी ॥

स्वामी मोरारे गज उपर चढे जेटलेरे, पूर्वाचल जेम सूसाल; मस्तक मुगट पढी गयोरे, तेटले गयुं म्दोनुं नूरलाल ॥८॥ पुण्य प्रमाणे सहू नीपजेरे ॥ए आंकणी॥ स्वा० लघुघडी नीति साथे करेरे, भयनीपरे गजराज्ज लाल, छींक थई सन्मुख तदारे, वारे शकुन ते काज लाल ॥पु० ९ ॥स्वा०॥ वल्ले पग रख लिओ तदारे, चामर धारिणी नारि लाल; चामर तस करथी पढयुंरे, सूचवे अतिअ असार लाल ॥ पु० १० ॥स्वा०॥ कारण विण चलिओ तदारे, छत्र तणो जेह दंड लाल; सचिव ते देखीने नृप प्रखेरे, वीनवे तेज प्रचंड लाल ॥ पु० ११ ॥स्वा०॥ ए अपशकुन ते इम कहेरे, रण यात्रा नवि थाय लाल, सांभलो वीनती अम तणीरे, वेसो आसन ठाय लाल ॥ पु० १२ ॥स्वा०॥ वेठा खेचर पति तदारे, हित कूण माने न सयण लाल; बोले सचिव स्वामी सुणोरे, हितकारी अम वयण लाल ॥पु० १३ ॥स्वा०॥ शत्रु सैन्य भांज्यां तुमेरे, लीलाए सूखीर लाल; नवि भाज्युं सैन्य तुम तणुरे, बलवंत तुम धीर लाल ॥ पु० १४ ॥स्वा०॥ नारी एह न संभवेरे, परि कर पण नहीं नार लाल, पवनवेगादिक राजिआरे, खीने आवे न रहार लाल ॥ पु० १५ ॥स्वा०॥ भोग रखादिक भूपतिरे, विद्याधर तणा वार लाल; महा भड मानी आवे नहीरे, नारी पूठे अवधार लाल ॥पु० १६ ॥स्वा०॥ वज्रसुदरी वर एहछेरे, देवांगना गुण गाय लाल; तुम वचने पराभव लहीरे, आव्यो श्रीजयराय लाल ॥ पु० १७ ॥स्वा०॥ अपजश आपवा तुमनेरे, नारीनां करी रूप लाल, नारीए जीत्यो ए चक्रिनेरे, एहवुं मनधरी भूप लाल ॥ पु० १८ ॥स्वा०॥ कंकण मौलि अक्षर कदारे, समर्थ क्षत्री जे होय लाल; एह पराभव आकरेरे, वीर खमे नहीं कोय लाल ॥ पु० १९ ॥स्वा०॥ सांभलीए जन गीतयारे, एहना तो अचदात लाल; श्रीविशाल नृप रीझज्योरे, बुद्धि पराक्रम वाते लाल ॥ पु० २० ॥स्वा०॥ गिरिमालिनी प्रमुखासूरीरे, वश कीधी प्रतिबोधी लाल, गिरिचूड सुर कोल रूपधीरे, जीत्यो ए लक्षयोधी लाल ॥ पु० २१ ॥स्वा० ॥ जीत्यो एणे क्षेत्र पालनेरे, मलयमाल ते

गीतारथ उपगारीजी; छेतालीशमे धर्मघोषसूरि, तार्या बहु नरनारीजी
 ॥ २ ॥ सोमप्रभसूरि तस पट्टराजे, मुद्दतालीशे ठामेजी; सोमतिलक सूरि
 अडतालीशमे, पाटे गुणगण धामजी ॥ ३ ॥ तसपट्टे शी देवसुंदरसूरि गु-
 णवंता गुण रागीजी; सोमसुंदर सूरिपाट पंचाशमे, किरियावंत वैरागीजी
 मुनिसुंदरसूरि एकावनमे, पाटे गुणगण दरियाजी; सहस्रावधानी वा-
 ल्पणायी, तार्या जिह्वां विचरीयाजी ॥ ५ ॥ अध्यात्म कल्पद्रुम ना,मे
 संतिकरं जेणे कीधुंजी; एकसो आठ हाथनो कागल, लखिने गुरुने दीधो-
 जी ॥ ६ ॥ एकसो आठ वर्तुलिकाना रव,भिन्न भिन्न ओलखीयाजी; उ-
 पदेश रत्नाकर जेणे कीधो, वादिगोकुल शांढ लखीयाजी ॥ ७ ॥ इसा-
 दिक बहु ग्रंथना करतां, श्री जयानंद चरित्रजी; जेणे कीधुं नाना रस
 संयुक्त, बहु वैराग्य पवित्रजी ॥ ८ ॥ तेह चरित्रथी रास रच्यो में, ओछो
 अधिक लिखायोजी; ते मुज मिच्छा दुक्कह होजो, पाप रतिन रखायोजी
 ॥ ९ ॥ तस पाटे रत्न शोखर सूरि, जे अतिशय गुणवंताजी; लक्ष्मीसाग-
 र सूरि त्रेपनमे, पाटे जेह महंताजी ॥ १० ॥ सुमतिमाधु सूरि पाटे चोप
 नमे, हेमविमल सूरि जाणोजी; आणंदविमल सूरि छप्पनमे, पाटे गुण
 मणि खाणीजी ॥ ११ ॥ जेणे किरिया उद्धार करीने, कुमति वृंद बहु का-
 प्योजी; विजयदान सूरि, तस पटधर, बहु प्रीतिष्टा मह थाप्योजी ॥ १२ ॥
 तसपाटे श्री हीरविजयसूरि, पादशाह दियो मानजी; विजयसेन सूरि तस
 पटधर, ग्रंथ तणुं बहु ज्ञानजी ॥ १३ ॥ तस पाटे श्रीविजयदेवसूरि
 पाट साठमे जाणुंजी; विजयप्रभसूरि तस पाटे; एकसठमे मन आणुंजी ॥
 १४ ॥ विजयरत्न सूरि तस पटधर, श्री विजयखिमा सूरिदजी; विजय
 दया सूरिश चोसठमे, पाटे जेम दिणंदजी ॥ १५ ॥ विजयधर्म सूरितस
 पाटे, पुण्यवंत बढभागीजी; विजयजिनेंद्र सूरि छासठमे, पाटे अधिक
 सोभागीजी ॥ १६ ॥ विद्यमान वरते जस आणा, तेहने राज्ये कीधोजी;
 रास एह सुंदर मुज मति सम, मनह मनोरथ सीधोजी ॥ १७ ॥ सवत अढा-
 र अठावन वर्षे, लींबढी रही चडमासजी; पोप शुदि एकादशी दिवसे, की-

धो एह अभ्यासजी ॥१८॥ अल्प बुद्धे असमंजस भारुं, ते सज्जन शोधा-
ज्योजी ॥ खल बुद्धि जे दूषण दाखे, ते नवि मनमां लाज्जोजी ॥१९॥ नव
खंडे करी नव नव रचना, नवरसमयी निरधारजी; संघ आग्रहथी पूरण
कीधो, हूओ जयजयकारजी ॥ २० ॥ श्री विजयदेव सूरिशपटोधर, विजय
सिंह गण रायाजी, तास शीष्य श्रीससविजय बुध, पंडित जन सोहाया-
जी ॥ २१ ॥ कपूरविजय तस शीष्य सोभागी, खिमविजयतस शीष्य-
जी; पंडितप्रवर मुलक्षण लक्षित, जिनविजय मुजगीशजी ॥ २२ ॥ तास
शीष्य समुदायमां उत्तम, उत्तम विजयमुर्णदजी, समतावंतने श्रुत अभ्या-
सी, भरिया गुण गण वृंदजी ॥ २३ ॥ तस पदपत्र शिलीमुख सरिखुं, पद्म-
विजय अभिधानजी; एह रासनी रचना कीर्धी, मुनि गुणने बहु मानजी ॥
२४॥ जिहां लगे रवि शशि ध्विपने सागर, जिहां लगे मेरु गिरंदाजी; तिहां
लगे एह राम थिर होजो, वांचजो भविजन वृंदाजी ॥ २५ ॥ साढा आठ स-
हसने उपर, श्लोक अग्यार गणायोजी; ढाल वशे दौयकलशे कीधो, कां-
तिं पास सुपसायाजी ॥ २६ ॥ भणशे गणशे जे भवि प्राणी, लेहशे लछि
विशालाजी, अनुक्रमे शाश्वत पदवी पामी, वरशे मंगळमालाजी ॥ २७ ॥
सर्व गाथा ८३२॥ प्रथम खंडे ढाल ॥ १५॥ गाथा ॥ ४४३॥ उक्त श्लोक ॥ १३॥
द्वितीय खंडे ढाल ॥ ३३॥ गाथा ९६२ उक्त श्लोक ॥ २० ॥ तृतीय खंडे ढाल ॥ २३॥
गाथा ॥ ७२९॥ उक्त श्लोक ॥ १३॥ चतुर्थ खंडे ढाल ॥ ३३॥ गाथा ॥ ८८६॥
उक्त श्लोक ॥ १०॥ पंचम खंडे ढाल ॥ १९॥ गाथा ॥ २६७॥ उक्त श्लोक ॥ ११॥
षष्ठ खंडे ढाल ॥ २२॥ गाथा ॥ ६८७॥ उक्त श्लोक ॥ १९॥ सप्तम खंडे ढाल
॥ १९॥ गाथा ॥ २६६॥ उक्त श्लोक ॥ २॥ अष्टम खंडे ढाल ॥ २८॥ गाथा
॥ ८२५॥ उक्त श्लोक ॥ ५॥ नवम खंडे ढाल ॥ २९॥ गाथा ॥ ८३२॥ उक्त
श्लोक ॥ १९॥ समग्र रासनी ढाल ॥ २०२॥ समग्र ग्रंथ गाथा ॥ ५८९७॥ सर्व
ग्रथना उक्त श्लोक, सवैया, दोहा, अने समझया मलीने ॥ ११२॥

इति श्रीमदुत्तम विजय गणि विनेय पंडित श्री प-
द्मविजय गणि विरचिते श्रीश्री जयानंद राजर्षि
केवळी चरित्रे प्राकृत प्रबंधे श्री जयानंद
राजेंद्र दीक्षा केवल ज्ञानादि व-
र्णनो नाम नवमखंडःसमाप्तः
तत्समाप्तौच श्रीश्रीजया-
नंद केवळी चरित्रं
समाप्तं.



देव लाल; औपधीओ तिणे दीधी घणीरे, समकित्ती थई करे शैव लाल ॥ पु० २२ ॥ स्वा० ॥ विप्र रूपे वली जीतीओरे, पन्नरथ नरराय लाल; कोडयो मुभट्ठुं एकलैरे, नास्तिक नृपने वंधाय लाल ॥ पु० २३ ॥ स्वा० ॥ वानर करीने विडंबीओरे, प्रति बोध्यो वली तेह लाल; सह कुटंब भेलुं कर्पुरे, वाध्यो अति ससनेह लाल ॥ पु० २४ ॥ स्वा० ॥ वली वामन रूपे जितीओरे, राजकुमर अनेक लाल; श्रीपतिरायनी कन्यकारे, जीती कलाए विवेक लाल ॥ पु० २५ ॥ स्वा० ॥ परण्यो तिहां ऋण कन्यकारे, वला योगिणीओए परख्यो लाल; खोभ्यो नहीं तेह देखीनेरे, अंतर आतम हरख्यो लाल ॥ पु० २६ ॥ स्वा० ॥ वज्रवेग मूकावीओरे, वलथी योगिणी पास लाल; महा ज्वाला कामाक्षा वलीरे, न पडथो तेहने पास लाल ॥ पु० २७ ॥ स्वा० ॥ योगिणी सहित ते तूपीआरे, दीधां दिव्य ते शस्त्र लाल; वली शक्ति दीधी भक्तिथीरे, आभूषण वली वस्त्र लाल ॥ पु० २८ ॥ स्वा० ॥ चूर्यो वज्रकूट पहाडनेरे, जीत्यो वज्रमुख नाम लाल; चंद्रगतिनी जे भामिनीरे, ते मूकावण काम लाल ॥ पु० २९ ॥ स्वा० ॥ सात्विकमांदि शिरोमणीरे, मूकावी तस नारि लाल; स्त्री रूपे ए दुर्जय घणोरे, श्रीजयानंद कुमार लाल ॥ पु० ३० ॥ स्वा० ॥ कोप म करज्यो प्रसादथीरे, कन्या कोईने देवी लाल; वर एहवो जडशे नहींरे, वात कंकण मौलि केहवी लाल ॥ पु० ३१ ॥ स्वा० ॥ वीसारी सवि वातनेरे, कन्या एहने दीजे लाल; स्वार्थे लाव्यो एहने इहारे, पवनवेग वदीजे लाल ॥ पु० ३२ ॥ स्वा० ॥ परणी जाशे निज राज्यमारे, तुम ऊपर धरी स्नेह लाल; सेवक पवनवेगादिकारे, प्रीति विशेषे धरेह लाल ॥ पु० ३३ ॥ स्वा० ॥ पालो निष्कंटक राज्यनेरे, एकांत नवि कीजे लाल; जो रति अवसर जोईनेरे, हितकारी ए कहीजे लाल ॥ पु० ३४ ॥ स्वा० ॥ छट्टी आठमा खंडमारे. पद्मविजय कही ढाल लाल; श्रीजयानंदना रासमारे, पुण्यथी मंगळमाल लाल ॥ पु० ३५ ॥ स्वा० ॥ सर्वगाथा १८४.

दुहा,

मंत्री वाणि इम सांभली, वोत्यो खेचरराय; अनिष्ट शंका चित्तमा धरी, स्नेह कारणे कहो आय ॥१॥ परनारी हठथी हरी, परणावुं वली एह;

शो महिमा माहरो रहे, अपख न राखे जेह ॥२॥ पवनवेगनी दीकरी, विद्या कला उन्माद; चेष्टा एहवी आचरे, उतारु तसनाद ॥३॥ नारिने होय न बुद्धी, पूर्वापरनो विचार; अथवा स्त्री रूपे हज्यो, श्रीजयानंद कुमार ॥४॥ विद्याधर चक्री क्रिश्यो, एहनो भय करुं मज्ज; भय न धरुं मनमां जरा, सांभलज्योरे सकज्ज ॥५॥ नृप सुर कीटक प्राय ते, देवीओ किटिका प्राय; तिणे जीत्यां तो शुं थयुं, मुजने नवि जीताय ॥६॥ शिलावटपरे चूरिओ, इणे परवत तो कांय; दिव्य शस्त्र मुज आगले, एहथी नांव रहेवाय ॥७॥



ढाल ७ मी.

॥ सुगुण सुगुण सोभागी जंबूद्वीपमां होजी ॥ ए देवी ॥

अरधा अरधा भरतमांहिं रहाहोजी, नर सुर खेचर कोय; आण आण ओलघे माहरीहोजी, दीठो न सांभल्यो सोय ॥ अ० ८ ॥ विद्या विद्या दिव्य शस्त्र भलांहोजी, वाहूवल मुज जेह; दीठुं दीठुं किहांए तुमे ते कहोहोजी, शुं वीहरावे एह ॥ अ० ९ ॥ इंद्र इंद्र चंद्र विरोचन यदिहोजी, होय जनार्द न जोय; तेहने तेहने पण जीतुं सदाहोजी, ए कुण मातर होय ॥ अ० १० ॥ सेवक सेवक चिरकाले रही होजी, नारी अनुसर्यो जेह; वयरी वयरी पवनवेग देखिनेहोजी, मुज चक्र न सहे तेह ॥ अ० ११ ॥ त्रास त्रास पमाहुं हुं केहवोहोजी, हरि जिम मृगनां बाल; सचिव सचिव बोले ते सांभलीहोजी, सांभलो तुमे भूपाल ॥ अ० १२ ॥ सैन्य सैन्य विद्याधरनां सहोहोजी, तेडावो धरीनेह, तेज तेजस्वी पण एकलोहोजी, पाये पराभव तेह ॥ अ० १३ ॥ फिरतो फिरतो गगने एकलोहोजी, सूरयराहु ग्रहाय; अल्प अल्प परिछेदे चद्रमाहोजी, पूनिमे राहु ग्रहाय ॥ अ० १४ ॥ बीजे बीजे बहु परिवार शुंहोजी, राहु न आवे पास; भूप भूप सुणी गरवे करीहोजी, वक्र मुखे सविरवास ॥ अ० १५ ॥ पण ते पण ते मान्य तिणे करीहोजी, मान्यु वचन प्रमाण; एकलो एकलो जय अर्थी थकोहोजी, मुज बलनुं बहु माण ॥ अ० १६ ॥ शत्रु शत्रुने कहेवरावियुंहोजी, थाउ छुं अप सज्ज;

त्रण त्रण दिवस पडखो तुमे होजी, पछे संग्रामनुं कज्ज ॥ अ० १७ ॥ साथे
साथे मूके दौय श्रेणिमा होजी, दूत भूपालने ताम; सेना सेना लेई सहु आ-
वीआ होजी, चक्रीने करे परणाम ॥ अ० १८ ॥ आदर आदर बहु नृपने दि-
यो होजी, सैन्य सहित हरखंत; तत्पर तत्पर रण करवा भणीहोजी, नृपनी
शिक्षा सुगंत ॥ अ० १९ ॥ चोथे चोथे दिन चक्री हवेहोजी, स्नान पूजा
विरचंत; भोजन भोजन करे मन मोदथुं होजी मंगलाचार करंत ॥ अ० २० ॥
युद्धनी युद्धनी सामग्री सवे होजी, मेळवी ते नरनाह; गजवर गजवर उपर
हर्षथुं होजी, वेसे धरत उत्साह ॥ अ० २१ ॥ छल छत्र चामर वींजी जते-
होजी, निकलीओ घर वहार; विविध विविध शस्त्रे भयो रथ तदाहोजी,

१ २ ३

सनद्ध थई तैयार ॥ अ० २२ ॥ चक्र चक्रवेग महावेगने होजी, वीरांगद ए-

४ ५ ६ ७

णे नाम; महावल महावल सुषेणने सुमुखा होजी, नंदकुमर अभिराम ॥ अ०

८ ९ १० ११ १२

२३ ॥ धीर धीरसेनने द्रढायुधा होजी महायुध नें चंद्रसेन; सुधीर सुधीर

१३ १४ १५ १६ १७

भानु वज्रानन होजी, भूवीरने महासेन ॥ अ० २४ ॥ शूरवीर शूरवीर रवि

१८ १९ २० २१ २२

प्रभ नामथीहोजी, सिंहने चंद्रमुख तेम ॥ वज्रा वज्राक्ष वज्रमाली वली होजी,

२३ २४ २५ २६

शनि महाबाहु सप्रेम ॥ अ० २५ ॥ महावीर्य महावीर्य चंद्रकेतन तथा होजी,

२७

वली चंद्राभ विचार; पुत्र पुत्र इत्यादिक चक्रिनाहोजी, विक्रमी चारहजार

॥ अ० २६ ॥ गजरथ गजरथ शार्दूल ऊपरेहोजी, तुरगने वली वराह; वि-

विध विविध वाहने आवी मल्याहोजी, विविध आयुध धरी चाह ॥ अ०

२७ ॥ तुर तुर वाजे समकालमां होजी, नादे गगन भराय; मेघ मेघ प्रलयना

शब्दनेहोजी, मानु ओलंधी जाय ॥ अ० २८ ॥ नगर नगरवासी बहु भ-

(३२२)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

ट बडा होजी, नीकल्या रण करणाय; एक एकथी जाय आगलेहोजी, पं-
खीपरे ते उजाय ॥ अ० २९ ॥ आठमा आठमा खंडमां सातमीहोजी, ढाल
भाखी उदार; पद्म पद्मविजय कहे पुन्यथी होजी, होवे त्रय जयकार ॥ अ०
३० ॥ सर्वगाथा २१३

दुहा.

सेनानी भटभुं कोटि, भुं परवरिओ परिवार; चंडवेग सिहरथे करी, नी-
सरियो ते बाहार ॥१॥ बज्रकंठ१महाभज२भला, भानुकेतु३नरवीर४; तडि-
तवेग५कौशल६वली, कलाचंद्र७हरिवीर८ ॥२॥ पवन९अगद१०महाकीर्त्ति
११तिम, सुजशाने१२बलवीर१३; नंदन१४पृथु१५सुभीषण१६वली, कुनां-
तास्य१७महाधीर ॥३॥ धूमकेतु१८धूमाक्ष१९तिम, गजरथ वेठा एह; नरप-
ति बहु भट परिवर्या, नीसरीआ रणनेह ॥४॥ मदन१ कासर२ ने महा-
यशा३ कामकेतु४ वलीभीम५; तपन६ प्रताप७ तथा रमण८, नहि पराक्र-
मनी सीम ॥५॥ कामनंदन९ अज्ञोभ१० तिम, इत्यादिक नरराय; सिंहयुक्त
रथे नीकले, इत्यादिक समुदाय ॥६॥ सुभट लखो गमे सामठा, देखी वीहे
वीर; कायर नवि देखी शके, वली भाखुं महाधीर ॥७॥



ढाल ८ मी.

॥ मोरा साहेव हो श्री शतिलनाथके ॥ ए देशी ॥

हवे व्याघ्र हो जोडया रथ जासके, नाम सुणो तुमे तेहनां; मल्हादनेहो१
शत्रुदमन२ अंकुशके,३ त्रास दिए नाम जेहनां ॥८॥ चंडवेगहो४ महापाणि५
सुचक्रके६, बज्रकेतन७ वली जाणीये; गदाधरने हो८ वली चपल९ जोद्धा-
रके, पराक्रमथी वखाणिए ॥९॥ लखो एहवाहो, व्याघ्र रथ संयुक्त के, सह-
ने तृण सम जे गणे, अश्वरथमां हो, वेसीने जायके, हुकारा मुखथी भणे
॥१०॥ भीष्म१ क्रोधन हो२ रणचंद्र३ महाशूरके, सागरने५ वज्रायुधो६;
सुतेजा हो७ पूर्णचंद्र८ महाअस्त्रके९, शतायुध१० कुलिशायुधो ॥११॥ इ-

खादिक हो लक्ष गमे राजानके, अश्वरथे ते नीसरे; उत्साह हो उछलता जेहके, रण उत्सुकता बहु धरे ॥१२॥ वल१ सिंह२ हो कामांकुर३ होयके, धूममाली४ चौथावली; शतायुधहो५ वज्रमाली६ होयके, विजय७ दुरंत८ दुर्द्धर९ मली ॥१३॥ महाचक्र१० होचक्रधारी११ नामके, खेचर नृप मानीपणे; इसादिक हो विमान आरूढके, नीकल्या परिवृत भट घणे ॥१४॥ गजसिंहहो१ गजानंद२ गजदेवके, गजप्रभ४ गजवीर५ दाखिए; गजप्रीतिहो६ गजध्वज७ गजकैलके८, गजवेग९ गजसेन१० भाखिये ॥१५॥ गजक्षेमहो११ गजानन१२ बलवंतके, गजविक्रम१३ प्रमुखा घणा, लखो लेखेहो गजवाहन जासके, शत्रु करे दियामणा ॥१६॥ हयवेगहो१ महावाजि२ नरिंदके, हयवाहन३ खेचरपति; महाअश्वहो४ हयविर५ हयानंदके६, हयसार७ हयोदय८ नृरपति ॥१७॥ अश्ववीरहो९ अश्वसेन१० राजानके, अश्वानंद११ अश्व चढ्यो; अश्वविक्रमहो१२ हयसेन१३ हयअस्त्रके१४, लखो गमे रणमां चढ्यो ॥१८॥ सिंह१.सिंहगतिहो२ सिंहविक्रम३सारके, सिंहवाढ४सिंहकेसरी५, सिंहवरिहो६ महासिंह७ सिंहास्त्रके८, सिंहकेतु९ जीतेअरी ॥१९॥ सिंहमालीहो१० सिंहकेतन भूपके११, नृसिंह१२ सिंहसेन१३ शूरथी, चाले रणमांहो सिंहवाहन एहके, साज लेई संपूरथी ॥२०॥ व्याघ्रमालीहो१ महाव्याघ्र२ व्याघ्रास्य३ के, व्याघ्रविक्रम४ चाले हवे ॥व्याघ्रसेनहो५ वाघ्रे चढ्या एहके, एक एकथी विरुदे स्तवे ॥२१॥ शार्दूलोहो१ हरिशार्दूल२ नामके, शार्दूलानंद३ सोहामणा; शार्दूलाननहो४ शार्दूले चढ्या जेहके, कदीय न थाये दीयामणा ॥२२॥ शार्दूलविक्रम हो५चढीआ शार्दूलके, केई चढीआ महा अही; अष्टापदे हो केई वाहन वराहके, केई पाडे चढयो जक नहीं ॥२३॥ विविध वाहनेहो विविध हथिआरके, विविध चिन्हथी चालीआ; कोढयो गंभहो पायक नररायके, उत्सुकता रणे म्हालीआ ॥२४॥ परिवरियो हो खेचर चक्रीरायके, मदथी अशकृन नवि गणे, सैननो बलीहो कोलाहल नादके, तूरनो पहेतो गगनां गणे ॥२५॥ पुर सीमाये हो उत्तरीआ आयके, कुमर सैन्यने ढंकडा; जाणी कुमरहो खेट्चक्री सचक्रके, नखसे रणे यदि टूकः

हा ॥२६॥ कुमर कटकेहो मर्या खेचरछंदके, अक्षौहिणी शत मित मर्युं;
 चक्रीनेहो एक सहस ते जाणके, अक्षौहिणी मानज कल्पुं ॥२७॥ यतः॥
 सेना चाक्षौहिणी नाम, खागाऽष्टैकाद्विकैर्गजैः २१८७० रथैश्चै २१८७० भयो-
 ह्यैस्त्रिभैः ६५६१० पंचत्रैश्चपदातिभिः १०९३५० १ पूर्वदालः सहस एक-
 चीश हो आठसे सीत्तेरके, हाथीने रथवर कक्षा; सहस पांसठ हो छसे दस
 थायके, त्रिगुणा ह्य चरित्रे लक्षा ॥२८॥ एक लाखने हो जणमे नव सहस-
 के, पचास पायके जाणीये; अक्षौहिणीहो एकतुं परिमाणके, पंचगुणा म-
 न आणीये ॥२९॥ वे कोडिने हो वली लाख अठारके, सीत्तेर सहस उपर
 वली; गजने रथे हो सरिखा दोय होयके, तुरग सुणो कहे केवली ॥३०॥
 छ कोडिने हो छप्पन वली लाखके, दस हजार चक्री तणा; दस कोडिनेहो
 साढी त्राणुं लाखके जाणो ए पायकजणा ॥३१॥ खंड आठमे हो आठमी व-
 र दाल के, सांभळो पद्मविजय कही; श्रीजयना हो रासमां भविल्लोक के,
 सम्यग रीते सर्दही. ॥ ३२ ॥ सर्वगाथा २४५ ॥

दुहा.

कलकल शब्द ते सांभळी, रवि रथ ह्य लक्षा त्रास; पश्चिम समुद्र झंपा
 करे, यूक्री गगनावास ॥ १ ॥ सुभट तणी जे भावडी, तिमवली प्रेयसीनार;
 देव देवी लक्षो गमे. मानत करे तिवार ॥ २ ॥ मात भगिनीने प्रिया सहु,
 जयलक्ष्मीने हेत, मंगल विचित्र प्रकारनां करे वीर संकेत ॥ ३ ॥ भाले
 तिलक तदा करे, मंगल केरुं मात, भाग्य लक्ष्मी रेखा परे, नीसरतां कहे
 वात ॥ ४ ॥

— ❀ ❀ ❀ —

दाल ९ मी.

॥ टेकरी रहीरे, बेहेर भरुचके मेदान ॥ ए देगी ॥

दल दोय मलीयारि चक्रीपुर के मेदान, बहु सलसलीयारि फरके नेजा
 नितान ॥ ए आंकणी ॥ जव संग्राममां जावा शूर, मातने पय प्रणये वड


सूर; मात भणे बहु स्नेहने पूर, वीरनी पुत्रीरे छुं वली वीरनीनार, वीर छे
 भ्रातारे तुं हवे वीरपणुं धार, तो थाळं मातारे मानुं घन्य अवतार ॥ दल०
 ५ ॥ कोइ कहे आणी मुज स्नेह, पूंछम दंजे माहरी देह; मरण जीवन छे
 ताहरी एह, कोह कहे नारीरे, वीरपत्नी पुत्री मात; हवे थाळं भगिनीरे,
 जो थाय वीर तुं भ्रात, तो जग गावेरे ताहरा जस अवदात ॥ दल० ६ ॥
 माहरे शोक विना हता भोग, हवे संग्रामनो तुज संयोग, जयलक्ष्मी अथवा
 देवलोग, अप्सरा साथेरे शोकपणुं मुज थाय, कोह कहे एहवरे, पण मुज
 दुख नहीं कांय; पण जयलक्ष्मीरे, थाय तो अति सुखदाय ॥ द० ७ ॥
 कोई कहे जावंचुं तव तेह, बोली शुं जूहुं कहो एह, नवि नीकलीओ तुं
 कदि रेह; नीकलीश नाहींरे, माहरा हृदयथी दूर, तुं मुज राखेरे, ताहरा हृ-
 दय हजर, जो संग्रामेरे अडिओ होय भरपूग ॥ द० ८ ॥ नमिय कटाक्ष
 जुए जे नाह, ते मुजथी अधिको किणराह, मुजथी अधिको जय श्रीलाह,
 जग सहु बोलेरे, जेहनी कीर्ति यथाह, ते सुखे लावोरे मुजने हर्ष उत्साह,
 मुज पण तेहशुंरे, प्रीति धरणनी छे चाह ॥ द० ९ ॥ आळिगन देतां कहे
 कोय, हमणां स्नेह देखावो सोय, जयलक्ष्मी वरशो जब तोय, अप्सरा अ-
 थवारे, मलशो तुमने जिवार. खवर ते पडशेरे स्नेहनी तुमची तिवार, सा-
 हमु जोशोरे के नहीं जोशो किवार ॥ द० १० ॥ गज कुंभस्थल मोती
 स्वाम, तुज जयलक्ष्मी केरे ठाम, स्वस्तिक पूरणनुं मुजकाम, लावज्यो ते-
 णेरे कोइक बोले ए रीत, तो मुज रहेशेरे, तुमशुं जनमनी प्रीत, नहींतर
 रहेशेरे माहरुं महेणुं निख निख ॥ द० ११ ॥ इत्यादिक केहेती जे नारी,
 तेहने आश्वासना देइ सार, महा उत्साह ते धरी अपार, जश करी आगेरे,
 नीकल्या शकुन विचार, नारी रूपेरे श्री जयानंद कुमार, हवे करे राते
 रे रणना बहु उपचार ॥ द० १२ ॥ पवनवेग सुत जे वज्रवेग, सहु खेचर अ-
 नुमति सुविवेक, सेनानी थापे वडवेग, बेहु दलमांहिरे, शस्त्र जाग्रिकाए
 धीर; शस्त्रने पूजरे, पूर्वे थया वडवीर, तेहनी करे वातोरे, जेणे उतार्या
 अरि नीर ॥ द० १३ ॥ संग्रामे शस्त्रज परधान, तिणे शस्त्र थापे पट्टने था

न, चक्र१ खड्ग२ धनु३ वज्र४ समान, त्रिशूल५ कुंतारे६ तोमर७ मक्षि-
का८ सीर९, परशु१० ने शक्तिरे११, मल्लिका१२ रे वडवीर, भडमाल१३
नामेरे मुष्टि१४ अर्थ गंभीर ॥ दल० १४ ॥ ब्रुशने१५ छुरिका१६ मूसल
१७ नाम, पाश१८ गदा१९ तरवार२० उदाम, धन२१ पट्टिश२२ मु-
द्गर२३ अभिराम, दुस्फोट२४ लुटिरे२५ करवालिका२६ ने कुद्दाल २७
शंकुने२८ गुलिकारे२९, कणय३० कंपन्न३१, सुविशाल, ग्रह३२ गोफण
३३ नेरे, कर्त्तारि३४ जेहकराल ॥ दल० १५ ॥ परपत्रक३५ सर्पिष्टि३६ अ-
भिधान, ए छत्रीस आयुध बहुमान, पवित्र जले करावताः स्नान, चंदन ली-
पेरे, अरचे पुष्पनी माल; धूप उवखेरे, गीत नाटिक सुरसाल, बली तस
प्रणमेरे, सपरे तस रत्नवाल ॥ दल० १६ ॥ चकतर टोप प्रमुख जे होय,
तस संस्कार करे सहू कोय, रात बोलावी एणीपेर जोय, मित्र जाणीनेरे
कौतुक जोवाने काज, उदयाचलनेरे शिर आव्यो दिनराज, सूरने देखी
रे शूर यया आति भ्राज ॥ दल० १७ ॥ भेरी१ मादल२ ने कसाल३,
तलिमा४ भंभा५ ढका६ भाल, हुडुक्क७-सृदंग८ वाजित्र संभाल, शंखने९
कालहा१० रे, झल्लरी११ पडह१२ प्रकार, खरमुखी१३ कस्टीरे१४, डम-
रुक१५ भानक१६ श्रीकार, दर्दरी१७ वाजेरे अयंक्क१८, प्रमुख उदार
॥ दल० १८ ॥ दौय दलमां एम वाजे तूर, सांभली वाघे सुभटने शूर, सा-
यर खोभाणो मानु क्रूर, वज्जे हणीओरे पर्वतनो निम नाद, जल जीव त्रा-
ठारे नाठा गज उनमाद, पर्वत कंप्यारे सलसल्या शेष अविवाद ॥ दल०
१९ ॥ कल्लपुंढह थइ प्रयची भार, पुंटे घरता कष्टे तिवार, दश दिश गा-
ज रही भयकार, गिरि गुफा गाजेरे, फुटे मानुं आकाश, सिंह ते पेसेरे दर
मांदि लही त्रास, दरे पेठारे महोरग छांडी आवास ॥ दल० २० ॥ वन में-
सा ते नाठा जाय, भांजे वृक्ष तणा समुदाय, सुरगण जोवाने तिहां. आय;
नादे दीप्यारे सुभट ते रण करणाय, उत्साह पामीरे दौय दलना सज्ज थाय,
क्षण क्षण वाघेरे सुभटने हर्ष न माय ॥ दल० २१ ॥ आठमे खंडे नवमी ढा-
ल, भाखी पक्ष विजय सुरसाल, निम ए सुभट थया उजपाला, तिम तुमे-

थाओरे कर्मशत्रु जयकाज, मोह नृप जीतोरे पहेरी चारित्र साज, जीतीने
पामोरे भविजन शिवपुर राज ॥ दल० २२ ॥ सर्वगाथा २६८.

दुहा.

वज्र सहस्रसन्नाहरी, गज कर परि वृत सार; घूघरी चहुं दिश धमकती,
पाखर अतिशय फार ॥१॥ मदिरा पाइ उनमत्तकर्षा, शुंडामां दीया ता-
स; मोघरं भाला प्रमुखजे, उलाले आकाश. ॥ २ ॥ दंतूसले वांघ्यां खडग,
लोह पंजर विहु पास; तेह मांहीं धनुर्द्धर रत्ना, वड शाखाए अहि राश ॥३॥
सन्नद्ध महावंत उपरे, वेठा सोहे जास; पक्षवंता पर्वत शिरे, वेठा गरुड सं-
काश ॥ ४ ॥ पगमां नेउर खणखणे, घंटाना टणकार; करता गुल गुल श-
ब्दने, सिंदूरे सिणगार ॥ ५ ॥



दाल १० मी.

॥ तुंगिआ गिरिशिखर सोहे ॥ ए देशी ॥

सुभट एणिपेरे करे सजाइ, पांखर्यां तेम तुरंगरे; अश्ववार युत मानुं गो-
विंद, गरुड चडीओ रंगरे ॥ सु० ६ ॥ उच्छलता पाखरिया दीसे, सायर जि-
म कछोलरे; नलिनी दल सेवाल संयुत, उछले ते अति लोलरे ॥ सु० ७ ॥
गुल गुले गज तुरग हेखे, सन्नद्ध करतां जामरे, शकुन मानी गज तुरगने, पू-
जे आदरे तामरे ॥ सु० ८ ॥ रथवरा वली करे वामित, मानु क्रीडा गेहरे;
जय श्रीने खेलवाने, द्रढ करे धन स्नेहरे ॥ सु० ९ ॥ सारथिने केइ आपे,
निज अधिक सन्नाहरे; रथिक युद्धे तेह यागे, साखीआ उत्साहरे ॥ सु०
१० ॥ वकतर मांहीं तनु नयाये, संगरने उच्छ रंगरे; आप वाहन सज्ज
करता, विविध मनने उमंगरे ॥ सु० ११ ॥ स्तंभ ध्वजना द्रढ करे केई, नि-
ज निज वाहने धारिरे; महा सुभट छुं भगट करवा, ते ध्वज वहु परकाररे
॥ सु० १२ ॥ विविध शस्त्रे रथ भरे भट, रणमां संवल एहरे; ऊंट वकतरे
भरे केई, आप वारण तेहरे ॥ सु० १३ ॥ केईक कंकट नवि पहेरे, नहीं नो

(३२८)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

आवे कळंकरे; वीराधि वीरपणु रहे नहीं, एहवी धारी शंकरे ॥ सु० १४ ॥ केई शूरा शस्त्र मूके, मनधरी अभिमानरे; पाटमुष्टि प्रमुखे लडथुं, साहमा वीर समानरे ॥ सु० १५ ॥ पत्तालो जळ भरी चाले, प्रपा चालती तेहरे; खाद्य प्रमुखे शकट भरिया, क्षुधित देवा जेहरे ॥ सु० १६ ॥ औषधी भृत धूणि लेवे, केईपर उपगाररे; उत्सुकता छे पण न चके, धिवेकी कोई वाररे ॥ सु० १७ ॥ नाटकीआ परे शस्त्र धारी, पूंठ अरिने दीधरे; आप कुलमां अजस आप्यो, जनम लही थुं कीधरे ॥ सु० १८ ॥ तीरथ संगर समुनांही, जीवतां जस श्री आयरे; मूआं स्वर्ग लहे तिणे करी, ए समतीर्थ न थायरे ॥ सु० १९ ॥ दीपे क्षण एक रयणी दीवो, रवि दिने विधुं रातेरे; संग्रामे जस जेह पाम्यो, युग लगे कीर्ति अमातरे, ॥ सु० २० ॥ शत्रु जय करतां तुमारा, विघन थाशे दूररे; वैतालिक एम बिबद बोले, दान दिए तस पूररे ॥ सु० २१ ॥ एम वैतालिक वाणि सुपतां, पूज्यनी आशीधरे; शुकन रुढे हरखीया ते, द्विगुण उत्साह जगीसरे ॥ सु० २२ ॥ हवे श्री जयानंदकेरा, कटकमां भट जेहरे; संग्रामे उजमालनां कहुं, नाम सुणज्यो तेहरे ॥ सु० २३ ॥ ढालदसमी पद्मविजय, भाखी ए मनोहाररे; आठमे खंडे रामगिरिमां; सांभलतां जयकाररे ॥ सु० २४ ॥ सर्वगाथा २९२

दुहा.

वज्र वेगना सैन्यमां, रण रसीआ महावीर; सिंह युक्त रथमां रखा, सहस्र गमे अति धीर ॥१॥ व्याघ्र रथे बेठा थका, बलगाँवत योद्धार; चंद्रोदय मुखे खेचरा, रणमां करे अवतार ॥२॥ गजरथ वेशी नीकल्या, पवन वेगादिक राय; गणता तृणपरे शत्रुने, सेनानीनो ताथ ॥३॥ तुरंग रथे बेठा थका, भोग रखादिक भूप; रथ शस्त्रे पूर्वा धनुं, चाल्या मन धरी चूप ॥४॥ श्री धर१ श्रीपति२ अरिजयो३, कांत४ दत्त५ ने नंद६; विक्रम७ जय८ अपराजिता९, अजित१० तथा आनंद११ ॥६॥ मणि चूडने१२ नर व्याघ्र१३ तिम, अचल प्रमुख राजान; गज वेशी सन्नध थइ, मनधरता अभिमान ॥६॥ गज वाजि हरि व्याघ्र तिम, शार्दूल महिषने नाग; लक्षो गमे निज वाहने, खेचर नृप महा भाग ॥७॥

ढाल ११ मी.


॥ कहखानी देशी ॥

श्री जयानंद आनंदमां जग जयो, भामिनी रूपथी शत्रु ध्रुजे; स्नान क-
री घौत घरी नमन वंदन करी, मोदथी श्री जिनराज पूजे ॥ श्री० ८ ॥ इ-
ष्ट परमेष्ठि संभारी नवकारनुं, ध्यांन धरी हृदयमां लीन थावे; वज्र सन्नाह
उत्साहथी पहेरीओ, सर्व दिश मणीय भारवर सोहावे ॥ श्री० ९ ॥ दीप्त
मणि लोहवेष्टित शिरस्त्राणजे, शिर धरे मेरु परे श्रृंग सोहे; मेघशुं परिवर्यो
वीजली सहित मानुं, देखतां सुभटनां चित्त मोहे ॥ श्री० १० ॥ वाण तू-
णोर अक्षय विहु दिश धरे, वज्र पृष्ट धनुष सव्य पाणि धाने, अंजन गिरिसमा
गजवर उपरे, इंद्र सम सोहतो मृत्तिथि वारे ॥ श्री० ११ ॥ पांचसूं शूर ह्वावेषथी
तेणीपरे, थइ सुसन्नध गजवर आरोहे, सुगटवर विकट कोडयो गमे चिहुं दिशे,
परिवर्यो मानुं प्राकारलोहे ॥ श्री० १२ ॥ विचित्र वाहने रह्या विविध आयुध धरा,
विचित्र ध्वजधारका सैन्य राजा; कुमर नरराय ते सर्वथुं परिवर्यो, सोहता
सूर जेम तेज ताजा ॥ श्री० १३ ॥ मेह गजदंत मुख अचलथी परिवर्यो, अ-
हव भद्रशालवनथी विराजे; तेणीपरे कुमर नरराय खगराय थुं, चिहुं
दिशे परिवर्यो परम राजे ॥ श्री० १४ ॥ खेट चक्रायुधो चक्री पण श्राव-
को, श्रीवीतरागनी पूज करतो; नमन स्तवनादि विधिण करी जिनपणुं,
जिनपणुं याद करी ध्यान धरतो ॥ खे० १५ ॥ ए आंकणी ॥ शिर
स्त्राण सन्नाह मणि जडित ते, पहेरिओ राहु छायामां चंदो; तिणीपरे दीप-
तो गर्वे करी जीपतो, इंद्रने चंद्ररवि कुण नागिदो ॥ खे० १६ ॥ पार्श्वह-
य सोहतो वाण भाथे करी, हाथमां धनुष संग्राम सन्निओ; श्वेत सामज च-
ढयो मानुं अहिरावणे, एह देखीने माहेंद्र लजीअणे खे० १७ ॥ कुमर सन्नध
थई विविधवर वाहने, परिवर्यो तरुवरो जंबू गेम; जंबू वलये करी सहस्र
गमे कुमरथी, परिवर्यो वीर लखलोए तेम ॥ खे० १८ ॥ सैन्य चतुरंग संग्रा-
ममां सज्ज थई, वींदिओ जंबू मध्य घेरीते, अहव सायरपरे हय गय जलच-
रा, चिहुं दिशे नीर कल्लोल नीते ॥ खे० १९ ॥ खेट चक्री यथा श्रीजया-

नंद तथा, निज निज सैन्य परिवार जुत्ता; दोय तेम दीपता घातकी खंड-
मां, दोय मेरु निज वन संजुत्ता ॥ खे० २० ॥ खेट चक्री यथा ॥ ए आंकणी ॥
कल्पतरुनी परे दान दिए जाचकां, सूर्यपरे सर्वनां तंज लोपे; निज निज
सुभटशुं द्रष्टि दिए स्नेहथी, शत्रुने देखे कल्पांत कोपे ॥ खे० २१ ॥ महा
पराक्रमी गणे शत्रुने तृणपरे, शत्रुने हरिपरे क्रूर नयणे; छत्र घारी जते
चामरे वींझते सैन्यमां इय कहे सुणत सयणे ॥ खे० २२ ॥ आठमे खंड
अगीआरमी ढाळ ए, श्रीजयानंदने रास भाखी; पद्मविजये भली भवि
जने सांभळी, विशदपणे कौतुके चित्त राखी ॥ खे० २३ ॥ सर्वगाथा ३१६

दुहा.

निज निज सैन्यमां एहवो, करता वेहु संकेत, युद्ध करे नहीं तेहने, मा-
रवो नहीं कोई हेत ॥१॥ वळी जे शस्त्र मुकी दिए, अथवा दीन जे होय;
अथवा नाशतो ने पडयो, तेह न मारशो कोय ॥२॥ समपंक्तिं सहूए रखा,
छही निज स्वामी आण; दृढर वाजिन्न नादथी, सैन्य प्रेरणा जाण ॥३॥
वाजिक्रम गदा घातथी, प्रथवी भार भराय; जेप नागनां फण सहस, तेहने
पीडा थाय ॥४॥ कच्छप पृष्ट कटिन घणुं, प्राणनो संशय तास; दाढवराह-
ने हड घणी, पामी पीडा राश ॥५॥ अपुरव संगम जाणिने, मांही मांहि
मिलेदा वाय, पूर्वापर सायरपरे, इम सहू उत्सुक थाय ॥ ६ ॥ कोई उत्सु-
कताए करी, सहूथी आगळ जाय; वाले पाछो तेहने, प्रतिहारज ठवकाय
॥ ७ ॥



ढाळ १२ मी.

कडखानी देशी ॥

सुभटवर विकट कंकट धरी गेदशुं, एक एक आगळे तेव जाए; रेणु
पण आगळे महू यकी दोढती, गज्जे अंधपणुं करत प्राये ॥ सु० ८ ॥
चिन्ह इति करि कीप मेप द्रुम शिखि तणां, ओळगी दूरथी देखी तेह; नाम

पूर्वक वरे ते एक एकने, कीर्ति जस पामथुं मारी एह ॥ सु० ९ ॥ काल
 बहुथी मल्या चांधवनीपरे, एक एक शत्रु आल्हान करता; अग्रसेनानी
 वेहु मांही मांहे मल्या, मानवश अमरख बहु धरता ॥ सु० १० ॥ पांखवं-
 ता गिरिवर समा करिवरा, तुरग ते पाखर्या गुरुह जेम; न्याय युद्धे लढे
 साहाम साहमा समा, गज तुरग रथ सुभट लढत तेम ॥ सु० ११ ॥ भूरि
 रणतूर दक्का हुडका वली, काहला प्रमुख भंभाने भेरी; तास पडछंदथी गिरि,
 गुफा गाजती; वधिर होवत महा कर्ण शेरी ॥ सु० १२ ॥ प्रेत जेम मांत
 भक्षण होये उत्तुका, विविध आयुध धरी वीर धावे; विघन अम मत् करी
 रेणुए संगरे, गजमदे मानुं तेहने समावे ॥ सु० १३ ॥ कोटि गर्भे सुभट
 आहान परस्परे करे, जेम मुजास्फोट गज गाज होते; क्रोध आमर्ष दुर्द-
 र्प भीषण रवे, हय हेखारव तणा शब्द जोते ॥ सु० १४ ॥ रघु घणत्कार
 धनुना टणत्कारजे, खड्ग खाट्कार अट्टहासे; तूरनाद गिरिदरी पडछंदथी
 स्फांट ब्रह्मांड सरिखो प्रकाशे ॥ सु० १५ ॥ जगतने क्षोभना तेहथी उप-
 जे, कौतुकी जनने आहान करता; विविध शब्दे गरी गगन पृथ्वी भरी,
 जयजय शब्दथी सैन्ये फरता ॥ सु० १६ ॥ जवरे आव उभो रहे रहे इहां,
 नाशारे नाश वहेळोरे मूढ; झुझ वहेलो वई हण्यो हण्यो जाणजे, मूक आयुध
 कहु एह गूढ ॥ सु० १७ ॥ कहे प्रतिपक्षी तव वचने थुं राचतो, निज करे
 आप पराक्रम देखाओ; रूग्णाओ तुम जमराय इम जाणिए, तुम निलाहे वि-
 धि एम लिखायो ॥ सु० १८ ॥ वाण धोरणी तिहां विस्तरी चिहुं दिशे,
 विचित्र आयुध वरसे तिवारे; पवनथी पक्षिपरे विविध आयुध चले, गगने
 मारग जतां कोण वारे ॥ सु० १९ ॥ गगन भमी वृक्ष उपर पडे पंसीजा,
 वीर उपर पडे तेम शस्त्र; वाण मय खड्गमय कुंत गदा चक्रमय, शूलमय श-
 क्तिमय कहीक अस्त्र ॥ सु० २० ॥ विविध शस्त्रे तदा घोर संगर थयो, केलि
 कंडुकपरे सुभट पडिआ; भूमि आलोडता किहां ए मातंग तिम, किहांयक
 तुरग जमराय नडिआ ॥ सु० २१ ॥ शीर्षने हस्त पादादिकहीं रडवडे,
 शत्रु हणवा केइ सैन्य पेसे; भग्न रथे कुसुमनी वृष्टिपरे करी तणा, कुंभ मे-

घाथी मानुं भोती वरसे ॥ सु० २३ ॥ कौतुकी व्यंतरा भ्रमत गगने फरे,
वाजते डमरु के क्षेत्र पाला, डाकिनी शाकिनी काकिनी हासिका, कौतुके
कोलि करती उताला ॥ सु० २३ ॥ विचित्र रूपे कर ताल देती थकी, यो-
गिणी कौतुके नाच करती, विकट अट्टाट्टासे मांस अर्थणी, राक्षस रा-
क्षसी गगन फरती ॥ सु० २४ ॥ आमिप गिरधरा वृध्रवर पंखीआ, शत्रु शा-
लापरे चिहुं दिश फरंता; कुमर कृपानिधी देखी भट तुरग मुक्त, शस्त्र पी-
डित तणे करुणा करता ॥ सु० २५ ॥ औपधी नीर देई मोकळे खेचरा,
सज्ज करे दोग सैन्ये ते नीरे, द्विगुण उस्ताहथी तेह फरीभृंगता, काल अना-
दि अप्यास पीरे ॥ सु० २६ ॥ पूर्व अभ्यासथी विरने नहीं प्राणीआ, कोह
अभिमानीओ सुलभ एह; धिग् पडो कर्मने धिग् हो संसारने, जो करे ध-
र्ममां चित्त २० ॥ सु० २७ ॥ तो कोण कर्मने कोण संसार छे, अहव अशु
भोदये मरण पाव् केई पराभव लहे अंग क्षय केई लहे, पाप परभावथी सु-
ख वामे ॥ सु० २८ ॥ धोर रण गांठि पण केई असत रहे, पुण्यथी जय प-
ताका घरंता, ढाळ ए घाप्पी आठया खंडमां, भाखी पडे जयजय करंता
॥ सु० २९ ॥ सर्वगाथा ३४४ .

दुरा

केइक पूर्वज निज तणा, तेहना जयने कार; केइक ओरणिआ थवा,
निज स्वामिने नाम ॥१॥ क्रोध अमर्ष अभिमानर्था, विविध आयुधना धार;
युद्ध करण उठया फिरी, दुर्द्धर विविध प्रकार ॥२॥



ढाळ १३ मी.

॥ कडखानी देशी ॥

शूर बडवीर महा धीर उठया फरी, सारथी सहित योद्धारे मारे; ह्य
नवि मारिआ चित्त दया धरिया, तेह रथे आप बेसे तैयारे ॥ सु० ३ ॥ केइ
मदे शस्त्र मझी निज करे करी, दोग शत्रु दोग हाथ झाले, परस्परे तेह आ-

स्फालीने मारिआ, क्रोधथी प्रेत पति धाम घाले ॥ सु० ४ ॥ उपडे ने पडे पत्ति जिम कुर्कटा, पररुपरे वाणथी मरण पामे, गर्वथी केइ मद झरत लेइ हाथीआ, गगने उछाले मानुं मेघ ठामे ॥ सु० ५ ॥ भागी रथ चक्र लेई हाथमां अरि हणे, चक्री पण जाणे वहु चक्रि आया; सुभट उद्भट महाकु-रपणे देखिये, चक्रिभट वहुत आश्चर्य पाया ॥ सु० ६ ॥ रण महा घोरमां कुमर सैन्ये तदा, चक्रिनुं सैन्य अग्रनुं नसाडयुं; वार्द्धि वेलापरे ओसर्युं तेह पण, जैत्र वाजित्र देवे वजाडयुं ॥ सु० ७ ॥ तूररणजीतनां कुमर कटक थयां, जय जयारव करे सुभट सर्व; शूर निज नामथी शूर पराभव लही, अ-परसायर पडे गलित्त गर्व ॥ सु० ८ ॥ मूकी संग्राम सेनापति आणथी, स्व-स्वउतारे सह्य सुभट आवे; पंखी जिम नीडमां सर्व संध्या समे, कुमर करुणा हवे चित्त लावे ॥ सु० ९ ॥ कंठगत प्राण जे सुभट हयगय मुखा, सज्ज औ-पधी जले करे तिवारे; पतित रण भूमिमां शस्त्र घातित थका, शोध तेहनी करावे कुमार ॥ सु० १० ॥ जीवता जाणी दोग्य सैन्यमां चिन्हथी, स्वपर अविभागथी ते जीवावे; औपधी जल प्रचुर मोकली निज नरे, परोपकृति सज्जन मन सोहावे ॥ सु० ११ ॥ कुमर महा महोत्सवे जय जयारव थके, वं-दी जन विरुद बोले विशेषे; कटकमां नृपति स्त्री मंगल गावतां, परिच्छदे आवे आवास देणे ॥ सु० १२ ॥ नरेंद्र चक्रायुधो शोधि रण भूमिका, जाय परिवारथुं निज उतारे; जीवता शल्यथी व्यथित जे प्राणिआ, कुमर जल छांटियुं तेणे तेवारे; आप मंत्रित जल दीध धारे ॥ सु० १३ ॥ सज्ज हूआ सुभट दोग्य सैन्ये तेणी निशि समे, निद करता ते विश्राम पामे; योग्य आ-हारे करी हयगय सुख लहे, तेरमी ढाल एकही आरामे, आठमा खडमां पन्न नामे ॥ सु० १४ ॥ सर्वगाथा ३५७ ॥ इति श्री जयानंदराजर्षि चरित्रे चक्रायुध खेटक चक्रवर्ची युद्धाधिकारे सामान्यतो युध रूपं प्रथम दिन युद्धं.

दुहा.

निद्रा सुभट आलिं गिने, सुखमां करे विलास, रण चिंता शोकज मिली, तव थयो निद्रा नाश ॥ १ ॥ रण कौतुकीने विघन किम, करिण एम वि-

घार; पूर्ण कौतुक देख्वाववा, क्षणदा गई निरधार ॥ २ ॥ कुण नाटा कुण
जय लह्या, मरण लह्या कुण जीव; उदयाचले रवि देख्वा, आच्यो मानुं
अतीव ॥ ३ ॥ पूर्वपरे रण तूरवली, वाज्यां कटकें दोंय; महा उत्साहे उभय
ते, रण करवा सज्ज होय ॥ ४ ॥ दोंय सेनानी आगळ रया, दोंय नायक
विच मांदि; पूर्वपरे मळिया विहु, धरता अति उत्साह ॥ ५ ॥



हाल १४ मी.

॥ कडखानी देखी ॥

वाण विनाण महा जाण जे भुवि सुभट, वाणथी तेणे आकाश भरिओ;
काल कल्पति मानुं पक्षवंता अही, केई वाणे रिपु भेद करिओ ॥ वा० ६ ॥
केई संघाधरे एक शस्त्र तणी, तेणे गदा मुद्गर चक्र हाणिआं; अहोवली
एक वाणे करी शत्रुनां, आवतां शस्त्र मनमां न गणिआं ॥ वा० ७ ॥ वा-
णे करी शस्त्र सघलां हण्यां शत्रुनां, शत्रु तेहथी उद्वेग पामे; शस्त्र लेइ मू-
कवा शक्ति नांही रही, केइ धमता रहे क्रोध धामे ॥ वा० ८ ॥ केइ व्या-
कुल थका शस्त्र लेइ नवि शके, वदनमां तरणां देइ तेह वेसे; केइ वांणे स-
मपंक्ति स्थित वहु हणे, वाण हयगज प्रमुख भूघन पेसे ॥ वा० ९ ॥ केइ शर
शत्रु छेदे निज शरे करी, तेहनां चाप छेदि ते हणता; वादि प्रतिवादि जेम
तक्क शस्त्रे हणे, वादिने उक्ति प्रत्युक्ति भणता ॥ वा० १० ॥ वीर घोरी
केइ निज कलाये करी, वाण शत्रु हणी गगने जाए; कष्टथी सुर असुर
त्रास पापी करी, नासता चित्त डमडोल थाए ॥ वा० ११ ॥ सुभट शिर
वीर वाणे हण्या उछले, राहु मानु देव स्त्री वदनचंद; देखी त्रसवा भणी
जाय आकाशमां, भीति लहे देव नारीना हृद ॥ वा० १२ ॥ केइ वाणे वपु
चिहुं दिशे परिवर्यु, वेगे उछलत मानुं पांख आवी; स्वर्गमां जायवा एह
उद्यम करे, वात ए सहू तणे चित्त भावी ॥ वा० १३ ॥ वाण करिचर तनु
चिहुं दिशे वलगीआं, शैलेंद्रो सहित चालंत दिसे; अहव रुधिर स्रवत नि-

झरणां झरे. गिरिवरा सोहता गेरू मिषे ॥ वा० १४ ॥ पूर्वना भय थकी च-
क्रिना खेचरा, वरसता विविध आयुध समीपे; समुद्र वेलाए जिम वेग नदी-
ओसरे, तेम कुमर सैन्य भागुं प्रतीपे ॥ वा० १५ ॥ भोग रखादि आठे तेह
देखीने, रण करण उठीआ बाण वरसे; तेह अमरष घरी सैन्य सजि झुंझता,
जाणे सह इम कहो शृंण करशे ॥ वा० १६ ॥ बाणनी श्रेणीथी शत्रु बल
ढांक्रियुं. गाज वीजे मानुं मेघ चढीओ; केइ ए बाणने सुभट वंचावता, कोइ
क सनमुख आई भिडीओ ॥ वा० १७ ॥ शत्रुनां वर्म भेदि ते बाणावली,
हृदयमां पेसतां तेम जाणो; जेम मिथ्याल तृष्णा प्रत्ये छेदता, गुण गुरु गुरु
वचन चित्त आणो ॥ वा० १८ ॥ बाण कोइ शत्रुने एक दिशे पेशिने, नी-
कले अन्य दिशे आर पार; दुष्ट बुद्धिने जिम गुरु वचन नवि टके, कोइने
नवि छवे खल प्रकार ॥ वा० १९ ॥ भोग रखादि तृणपरे गणे शत्रुने, चि-
हु दिशे प्रलयरज रीति व्यापे; केई मद साथ रथ प्रवर भांजे तदा, के-
इ केतु भुज साथ कापे ॥ वा० २० ॥ केइ मनोरथ समा मस्तक छेदता,
सल साथे केइ धनुष भागे; विक्रम साथ खंड्यां केइ शस्त्रने, पार्श्वपरे हृदय
केई शूल लागे ॥ वा० २१ ॥ भोग रखादि साथे एम झुंझतां, ओसरे च-
क्रि सेना तिवारे; अभव्य जिम धर्मथी ओसरे तेणीपरे, चौदमी ढाळ ए
भाखी प्यारे; आठमे खंडे चित्तथी उदारे ॥ वा० २२ ॥ सर्वगाथा ३८०.

दुहा.

चंडवेग सेना पति, भट कोडयोशुं जेह; सिंहयुक्त रथ वेशिने, अमरपे
देखी तेह ॥ १ ॥ सैन्यने धीरज आपतो, उठयो रण संग्राम; भोग रखादिक
शुं लडे, एहवा नृप उद्दाम ॥ २ ॥ अक्षभि१ कासर२ रमण३ नृप, मदन४
तपन५ ने भीम६; नाम प्रताप७ सिंहरथ थकी, युद्धकरणने नीम ॥ ३ ॥

ढाळ १५ मी.

॥ कढखानी देशी ॥

बाण बहु माण आणी सेनानी हवे, केइना करपद नाभि वींधे; केइना

मुख शिर केइनी नाशिका, कोइक सुभट प्रति शत्रु चिंबे ॥ वा० ४ ॥ भोग
 रतिए सेनाधिपति रुधिओ, चंद्र बाहु मदन साथ लागो; रोकीओ तपनने
 महा बाहु राजिए, चंद्रवेग भीमने करिय ठागो ॥ वा० ५ ॥ चंद्र चूडराये
 परतापने वींटीओ, रत्न चूडे ते अक्षोभ भूप; तेम तडित वेग कासर प्रते
 बलगीओ, रमण चंद्राभने करिय चूप ॥ वा० ६ ॥ एम भूपति बहु भूप साहमा
 अहद्या, सुभटना वाण ते सपर्षे पीधां; वीरना प्राण वायुथी मदथुं भयां,
 दंशीने शत्रु अचेत कीधा ॥ वा० ७ ॥ भोगरति चाप चंडवेगनुं छेदतो, भ-
 व्य मिथ्यात्त जिम गुरुनी वाणी; धनुष लावी नवुं भोग रात केरहुं, छेदि-
 थुं धनुष कर्णात ताणी ॥ वा० ८ ॥ भोगरति शस्त्र तामस तणुं मूकतो, तेहथी
 तास अंधार थाय; दिनकर शस्त्रे उद्योत निज सैन्यमां, करीने वाणे करी ग-
 गने छायो ॥ वा० ९ ॥ तेहथी व्याकुलो भोगरति मूकतो, जलधर शस्त्र सेनानी
 सारे; पवन शस्त्र करी, तेह जलधर प्रते आप शक्त करी दूरडारे. ॥ वा० १० ॥
 धनुष छेदी बली कवच तस छेदियुं, वाणे जर्जरित करी नाग पासे; वांधिने
 पकडी लीये ताम नृप कुपरनो, आव्यो सेनानी वज्र वेग पासे ॥ वा० ११ ॥
 वाणथी ताडिओ हृदयमां पीडिओ, भोगरति मूकी श्रोथे भराणो; वज्र
 वेगथुं लडे दोय सरिखा मल्या, जयसिरि केरडो मन डोलाणो ॥ वा०
 १२ ॥ केहने हुं वरुं एम सशय पडी, एणिपरे आठने पण पिछाणो; पवन
 वेग आवीने आठने लेइ गयो, कर्मनी वात कोइ भिन्न जाणो. ॥ वा० १३ ॥
 रायने आगले ते ठव्या तव नृपे, छेदिआ पास अहिना ते राये; गारुडी वि-
 द्याए सज्ज औषधी जले, हाय फरसें अधिक तेज थाये ॥ वा० १४ ॥ पूर्वथी धैर्ये
 उत्साह बधिओ घणो, सूर्यकर स्पर्शथी जिम पाषाण; पूर्व परामभव थकी धावि-
 आ ते फरि, करण संग्राम खेदे भराणा. ॥ वा० १५ ॥ देखी सेनानी दोय
 जुझता सहु जना, निज निज सैन्य सहु जुद्धकरता; केइ शर विफल जाइ श-
 त्रुसारे खलितथी, धर्म इच्छाज्युं अल्प सत्त धरता ॥ वा० १६ ॥ दोय सेना-
 नी हवे शुद्ध करतां थकां, धनुष वज्रवेगनुं शरथी छेदे; नविन धनुषे करी तेह
 चंड वेगनुं, धनुष छेदे शरे धरिय खेदे. ॥ वा० १७ ॥ चंडवेग मदथकी नवीन धनु

लावीने, धुरप्रशस्त्रे वज्रवेग केरो; भांजी रथ पाढी सारथि सिंहने हणे, जाम
 वज्रवेग रथले भलेरो ॥ वा० १८ ॥ ताम वाणे वज्रवेगने ताडिओ, लहीय मू-
 र्छावळी जाम मारे; भोगरति ताम आवी अकस्मातथी, चंडवेगने शिरे दिए
 प्रहारे ॥ वा० १९ ॥ चक्रीनो पुत्र मणिमाली तिहां आवीओ, चक्रीदत्त जले करी
 सज्ज कीधो; भोगरति लेई गयो वज्रवेगने तदा, श्रीजयरायने मुंपी दीधो ॥
 वा० २० ॥ छांटी औषधी जल सज्ज कीधो तिहां, भोगरति विणुं हवेसात राजा;
 सात चक्री तणा राजवीमोटका, जीतीया सबल जे तेज ताजा ॥ वा० २१ ॥
 वांधि निज सैन्यमां मोकले तेह नृप, कर्मथी जीत ने हार पामे; शुभ अशु-
 भ कर्मफल जाणिने भवि जना, पुण्य करो जेहथी अशुभ वामे ॥ वा० २२ ॥
 चंद्रवाह्यादि ते वीर तेम झुंझीआ, चक्रीसेना जेम हार पामी; थाक ते दे-
 खतां सूर्यने संक्रम्यो, शांति छेदन तपन स्नान कामी ॥ वा० २३ ॥
 पश्चिम सायरे मानु श्रम टालिओ, दोय सेनानी निज सैन्य मांहि; आण करे
 कर्मथी जय पराजय लहे, जाओ सहु निज निज ठाम ज्यांहि ॥ वा० २४ ॥
 मंद उत्साह कांथ सप्तवीर बंधने, रणधरा छोडिओ सार लीधो; चक्रीखे-
 चर चमूभाग ते पग थकी, जेम तेम रयणी विश्राम कीधो ॥ वा० २५ ॥
 मंगल पाठक वीर गुण बोलते, श्रीजय औषधी नीर लेई; पूर्व परे सज्ज
 करे सुभट पशु वृंदने, चक्रीपण निज चमू मांहे देइ ॥ वा० २६ ॥ मदन
 मुख राजीआ औषधी नीरथी, सज्ज करी लोह पंजरमें घाते; पवनवेग रा-
 जाए तेज बल गाजिए, रहे सावधान ते सर्व वाते ॥ वा० २७ ॥ पनरमी
 ढाल ए आठमा खंडमां, श्री जयानंदना रास मांहि; चरित्र मांहि लही पद्य
 विजये कही, भविजने सर्दही धरी उत्साहि ॥ वा० २८ ॥ सर्वगाथा ४०७
 इतिश्री श्री जयानंद केवळी चरित्रे चक्रायुधं खेट चक्रवर्ती युद्धाधिकारे
 द्वितीयदिन भोगरसादि सुहृदष्टकादि जयनामा वाणैरेव युद्धाधिकारः

दुहा.

जय श्री योग्य राजाअछे, युद्धविना नवि तेह; युद्ध अवकाश देवा भणी,

उदयाचल रवि एह ॥ १ ॥ मंगळ तूरथी जागीआ, रण रसीआ महावीर;
 पूर्वपरे दोय सैन्यना. सज्ज हुआ साहस धीर ॥ २ ॥ निज सेनानी हुकमथी,
 उतर्या रण करणाय; दोय सेनाना भट वडा, सनमुख आव्या धाय ॥ ३ ॥
 इंधणे अगनि धने नृपति, पर अन्ने भूदेव; मद्यप मद्ये वीर रणे, तृपति न पामे
 थेव ॥ ४ ॥ चिन्हे ओलखी ओलखी, बोलावे युद्ध काम; परानिंदे निज गुण
 स्तवे, ओरा आवो आम ॥ ५ ॥ भुजा स्फोट करता थका, गगने उछाले
 वाण; पांखवंता मानुं सर्प, युद्ध करे असमाण ॥ ६ ॥ वाहन गजवर प्रमु-
 ख जे, शुद्ध करे मांहोमांहि; स्वामि पराक्रम निज तणुं, संक्रमीयुं ए आंहि
 ॥ ७ ॥

ढाल १६ मी.

॥ धवल शेट लेई भेटणुं ॥ ए देशी ॥

शुंदमां खड्ग मोघर मुखा, दंतुसले करे धायरे; मेघपरे गाजे घणुं, कोने
 भय नवि धायरे ॥ ८ ॥ रणरंग मंडयो एणिपरे ॥ ए आंकणी ॥ सिंहनाद
 घुंणी भाजीआ, सामो सामा सींहरे; पन्नगफण आंछोदता, नाखे फुंकार अ-
 वीहरे ॥ रण० ९ ॥ मणी संधि त्रुटी पडे, सूअर करता छेपरे; दाढाए
 हणता थका, घुर्घुर शब्द अशेषरे ॥ रण० १० ॥ इसादिक पशु हृंदना,
 काल अनादि अभ्यासरे; वीरसंगे क्रोधे करी, स्वामि प्रेरणा पण तासरे ॥
 रण० ११ ॥ प्राण ते तृण समो वढ गणे, जिहां लगे शत्रु न मारेरे, पशु
 पराक्रम देखीने, वीर अधिक रस धारेरे ॥ २० १२ ॥ चक्रि सैन्य पराक्रम
 थकी, नरपति सैन्य ते भागेरे; वीरांगद प्रमुखा बहु, आवी साहसा लागेरे
 ॥ २० १३ ॥ वीरांगद मुख पाचशें, स्वामि निवारी भक्तेरे, स्त्री रूपे जे प-
 राक्रमी, शत्रु बोलावे शक्तेरे ॥ २० १४ ॥ वाण लेतां ने मुकतां, नजरे को-
 य न देखेरे; शत्रु शिर उपर पडे, जाणे नाम विशेषेरे ॥ २० १५ ॥ मरण
 लक्षा बहु वाणथी, केइक कपटे सूतारे; मरणनो भय जग मोटको, केइक रु-

धिरे चूतारे ॥ २० १६ ॥ रथ विहूणा ते रथी थया; रथी विहूणा रथ थाय-
 रे; तुरग विना सादी थया, तुरगना सादी जायरे ॥ २० १७ ॥ इम हाथी
 महावत विना, महावत गजविण जोयरे; योध विमान विना थया, विमान
 जोध विण होयरे ॥ २० १८ ॥ चक्रिनु बल ते निर्वल थयुं, गजसिंह तव
 गज चढीओरे; देखी भीर करवा भणी, नरपति बलभुं अडिओरे. ॥ २०
 १९ ॥ बलिओ होय ते आवज्यो, इम कहेतो मुख वाणीसे; गजानंद मुख
 पांचशे, आच्या अवसर जाणीरे. ॥ २० २० ॥ निज सैन्यने आश्वासता,
 गज बेशीने आच्यारे; तेहने वीरांगदादिक मिली, रुंधे अवसर फाच्यारे.
 ॥ २० २१ ॥ नारी रूपे झुंझता, गजसिंहादिक बोलेरे; रंडा रण जोग्यज
 नही, पाणिहारी थाओ मोलेरे. ॥ २० २२ ॥ सूत्र कातो मांडी रंटीओ,
 वैरणी नारि न मारुंरे; तव माया नारी वदे, हसत वदने वच प्यारुंरे. ॥ २०
 २३ ॥ वयरी नारि रंडाविण, तेणे अमे रंडा साचीरे; युद्ध करो अमथुं तु-
 मे, वात कहुं खरी राचीरे. ॥ २० २४ ॥ जुद्धे जुमने मारीजे, जळांजली
 नेदेवारें; पाणी तैयार कर्तुं अछे, नवि जाउं जल लेवारें. ॥ २० २५ ॥
 वयरी बहुने बांधवा, सूत्र अमारें तैयाररे; शे कारण कातुं अमे, चित्तमां क-
 रज्यो विचाररे. ॥ २० २६ ॥ वीरांगद महावीर जे, वाणनो घन वरसावेरें;
 स्त्रीरूपे जंमरायने, संतोषे भले भावेरे. ॥ २० २७ ॥ गजसिंह पण निज
 वाणथी, शत्रु जम घर भुंकेरे; नगविद्याए वीरांगदो, पर्वत मूके न चूकेरे.
 ॥ २० २८ ॥ वज्र मूकी गजसिंहते, पर्वत चूरण कीधोरे; सिंह विस्तु वि
 मूकतो, वयरी गज ज्यांन लीधोरे. ॥ २० २९ ॥ वीरांगद विद्या बले, अ-
 ष्टापद सिंह माथेरे; शरभ विद्याए मूकतो, लढतां गजसिंह साथेरे. ॥ २०
 ३० ॥ गजसिंह वाण गदा असि, मूके शस्त्र हजारोरे; उपडे जाव आका-
 शमां, तव अष्टापद धारिरे. ॥ २० ३१ ॥ पाळ्यो हेठो नखे हणी, वीरांगदे
 नाग पासरे; बांधी लीधो तेहने, हवे महावाहु खासरें. ॥ २० ३२ ॥ गजा
 नंद साथे कर्तुं, वाणयुद्ध स्त्री रूपेरे; ज्वलन वर्षिणी शक्तिथी, वरसे अगनि
 स्वरूपेरे. ॥ २० ३३ ॥ प्रति शस्त्रे ते निवारतो, तव महावाहु तासरे; मोहन.

शास्त्रे मुझाविने, बांधी प्रहोवर पासरे. ॥ २० ३४ ॥ एम सुघोष मुख वीरजे,
 वयरीने देइ खेदरे; जर्जर करी थकव्या घणुं, केता कहुं तस भेदरे. ॥ २०
 ३५ ॥ नाग पाशे ते पांचशें, निज शिबिरे सहु लायारे; ते देखि बळ चक्रि-
 नुं, त्रासने भय बहु पायारे. ॥ २० ३६ ॥ आठमे खंडे शौळमी, ढाळ कही
 सु रसालोरे; पद्मविजय कहे रायना, सैन्यमां मंगळ मालोरे. ॥ २० ३७ ॥
 सर्व गाथा ४४४.

दुहा.

पांचशें सुभट बांध्या गया, चक्रा युद्ध ते देखी; क्रोधमानथी परिभ-
 व्यो, उठे सर्व उवेखी. ॥ १ ॥ मणिमाली त्रिजो तनुंज, वीनवे करी पर-
 णामः कीडि उपर कटकथुं, रंडा उपर राम. ॥ २ ॥ उवेखी स्त्री जाणीने,
 तेम एणे कर्यो सन्मार्द; एहने तेम ग्रह्या पुरुषने, लाबुं म करो विश्वाद.
 ॥ ३ ॥ तात निषेधी गज चढ्यो, चाल्यो परदळ मांहि; परदळने दळतो
 थको, मारण दिए सहु खांहि. ॥ ४ ॥ कासर निम कासारमां, डोळतो आ-
 व्यो तत्थ; वीरांगदादिक पांचशें, सुभट मल्याळे जत्थ. ॥ ५ ॥ जइ तेहने
 बोळावतो, रे तुमे कपट करंड; नक छेहु शिर मुंढिने, नवि ओळखोरे रंड.
 ॥ ६ ॥ तिरस्कार सुणी आपणो, युद्ध करे बळवंत; महावीरने सिंह नवि,
 पर धिक्कार सहंत. ॥ ७ ॥ मणिमालीने रुंधतो, वीरांगद महावीर; शर
 श्रेणि वरसावतो, नग उपर जिम नीर. ॥ ८ ॥ मणिमाली पण झूझतो,
 वीरांगदथुं जोर; वीर हाक वाजे तिहां, थइ रहो शोरबकोर. ॥ ९ ॥ ए-
 के उणा पांचसें, किरणमाली मुख भ्रात; युद्ध करण मणिमालीना, पुठेथी
 आयात. ॥ १० ॥ वीरांगद विण सुभट जे, पांचशें तेह थुं लग्ग; गगन ध-
 रा दिशी विदिशियां, शिलिमुख केरा वग्ग. ॥ ११ ॥



ढाल १७ मी.

करेलणां घट देने. ॥ ए देवी ॥


मणिमाली मूके हवें, शक्ति शस्त्र बहु जाल; वीरांगद प्रति शक्तिथी, तेह करे विसराळ ॥ १२ ॥ सुभट मछ झुझेरे, जेहनं पुण्य अगाध; तेहनो जय झुझेरे ॥ ए आंकणी ॥ विद्याए सूअर प्रसे, घुर्धुर शब्द करंत; वीरांगद वयरी भणी, ते उपद्रव सुमहंत ॥ सु० १३ ॥ मणिमाली ते उपरे, मूके सिंह शोंडीर; विद्याए ते खाइ जाए; वीरांगद तववीर ॥ सु० १५ ॥ सिंह उपर ते मूकतो, शरभ ते आवे ताम; सिंहनुं भक्षण ते करे, जोई मणिमाली उदाम ॥ सु० १६ ॥ मेघ गर्जारव ते करे, शरभ मरण लहे तेह; मणिमाली शरथी हणे, वीरांगद गज जेह ॥ सु० १६ ॥ पवनवेग आणी दिये, सिंह युक्त रथ ताम; ते उपर बेसी हवे, मूके शरना ग्राम ॥ सु० १७ ॥ पाडे गज मणिमालीनो, विद्यारथ तेणीवार; करीने बेंठो शर घणां, वरसे ज्युं मेघ धार ॥ सु० १८ ॥ वीरांगदनां छेदीआं, अनुक्रमे घनुष ते सात; बाण खेवाने मूकवां, शक्ति न रही तिलमात ॥ सु० १९ ॥ बाण मूक्युं निद्रातणुं, तेणे ते उंघी जाय; स्त्री भट सघला उंघीआ, नाग पासे बंधाय ॥ सु० २० ॥ मणिमाली विद्या पटे, माळी जिम मछ जाल, लेवा जाय जेटले; पवन वेग तिणे ताल ॥ सु० २१ ॥ बहु खेचर भेला करी, आव्यो तिणहीज ठाम; मणिमाली स्त्री भटतजी, लडवा आव्यो ताम ॥ सु० २२ ॥ भोग रसादिक भूपने, पवन बोलावे तत्थ; विचित्र शस्त्रथीश्रुतां, द्विप जेम सुगपति सत्थ ॥ सु० २३ ॥ ते एके निर्मद कर्यां, सूर्य जेम ग्रह वग्ग, मणिमालीए भाइ प्रेरियो, आप संग्रामे लगा ॥ सु० २४ ॥ बांध्या स्त्री भट लेअवा, किरणमाली ततकाळ; चंद्रगति ते जाणीने, आव्यो तिहां भूपाळ ॥ सु० २५ ॥ थंभणी विद्याए थंभीओ, गारूड विद्याए ताम; नाग पाश सवि छूटीआ, बळी प्रबोधिनी अभिरांम ॥ सु० २६ ॥ विद्यार्थी सहू जागीआ, पटभेदीने तेह; उडी भूप पासें गया, धरता अतिय स्नेह ॥ सु०

२७ ॥ मान बह्म आपी करी, दीधो बहु सतकार; भूप दयाए छोटतो किरणमालीने तेवार ॥ सु० २८ ॥ थंभ्यो भूक्यो जाणीने, करतो कोप अपार; मणिमाली श्रीजय प्रते, लेई घायो तरवार ॥ सु० २९ ॥ उलाली लिये खड्गने, भूपति श्री जयानंद; मुष्टिये ताडे मस्तके, मुर्छा लही पडयो मंद ॥ सु० ३० ॥ मृदू चपेटो सिंहनो, मृगथी ते न स्वमाय; चंद्रगति ए वांधीओ, औषधीजल छंटाय ॥ सु० ३१ ॥ किरणमालीने सज कर्यो, नृपनी पामी आण; पूर्व बद्धमां भेलिओ, निज शक्तिनो अजाण ॥ सु० ३२ ॥ नाम प्रतापे सारिखो, किरणमाली लही शूर; ते बंधाणो एणिपरे, गयुं एहनुं सवि नूर ॥ सु० ३३ ॥ तेहने देखी आपदा, पश्चिम सायर मां-हिं; झंपा करे मानुंभयथकी, विगलित चित्त उत्साह ॥ सु० ३४ ॥ पुत्र सुभटना बंधथी, खेचर चक्रीराय; रवि आक्रांत चंद्रकरपरे, वदन थयुं विछाय ॥ सु० ३५ ॥ वयरी बहूने वांधिया, नृप सैन्ये अति हर्ष; बंध योग्य अर्थ वांधता, कवि चित्त जेम उत्कर्ष ॥ सु० ३६ ॥ सत्तरमीए आठया, खंडमां भाखी ढाल; पद्मविजय कहे पुण्यथी, होवे मंगळ माल ॥ सु० ३७ ॥ सर्वगाथा ४८१ इति श्रीश्री जयानंद राजर्षि चरित्रे खेचरचक्री श्री जयानंद नृप युद्धाधिकारे तृतीयदिन युद्धाधिकारः

दुहा.

रणमां सुभट मरे घणा, तेणे सुत तोषण काज; उग्यो कृतांत जनक हवे, युद्ध अकारण त्याज ॥ १ ॥ मर्लीआ सुभट वेहु तणां, शर उडे आकाश ॥ २ ॥ तरुथी जिमवर पंखीया, उडे लही अवकाश; २ वाण रुधिरै'राता थया, सुभट ते किंशुकममान; फूल्यानीपरे सोहता, रण रशीया असमान ॥ ३ ॥ चक्री सैन्ये नृप सैन्यना, सुभट ओसार्या तेम; नदी कछोल पाछा हटे, समुद्र कछोले जेम ॥ ४ ॥ ओसरतुं वज्रवेग तव, देखी यातुं दीन; सिंह युक्त रथे वेशिने, आन्व्यो पराक्रम पीन ॥ ५ ॥ युद्ध देखे जे जे दिशे, तेणे दिश करे संहार; जेणे दिश दव लागे तिहां, वालेंतरुं अ-

रवार ॥ ६ ॥ पवनवेग रण अवतर्यो, शत्रु तणो क्षयकार; चंद्रगति जश ई-
 च्छतो, आव्यो करत प्रहार ॥ ७ ॥ भोग रत्नादिक भूपति, आव्या करण
 संग्राम; वैरिप्राण राक्षस समा, पौचाडे जम धाम ॥ ८ ॥ अरिवलने उ-
 पद्रव करे, जिम संजमने कषाय; केइना धनुष केइनी पणछ, केइना शर
 समुदाय ॥ ९ ॥ केइक मरण संशय पह्या, चक्री शरणे जाय; भव भीरुने
 मिथ्यात्वथी, समकित शरणुं थाय ॥ १० ॥



हाळ १८ मी.

गोरि गोरि ग्वालनीने लंबे लंबे केश, वाही गयोरे कान्हुडो वाळे वेश;
 मोशुं शगर गयो, आजुनी मॉरी माय; ॥ मोसुं ॥ ए देशी ॥ निजवळ भागुं
 चक्रीरे देखि, पवन वेगादिक उपरे, आव्योछे द्वेष ॥ ११ ॥ शत्रु शगरो
 भयो, सांभलजो मोरा भाय; श० वालथी माहरा दास छे एह, मारा भट
 पुत्रने वांधे छे तेह ॥ श० १२ ॥ खेचर चक्री छे मारुंरे नाम, केम सही
 शकीए भाई, जीवंता आंम ॥ श० १३ ॥ दुष्ट पवनवेगादिक वध्य, इम
 कही वेसे यावत्, स्पंदन मध्य ॥ श० १४ ॥ प्रथम पुत्र चक्रवेग जे ताम,
 शत्रु तृण समान गणतो, करे प्रणाम ॥ श० १५ ॥ एवढो खेद शो करचोरे
 तात, एणिपरे भाखे ते, मनोहर वात ॥ श० १६ ॥ कागडो कीटक जेणी-
 परे स्वाय, दीनहीन ए, नाशीने आय ॥ श० १७ ॥ तुमे केम संरंभ की-
 घोरे एम, जीतुं हुं एहने जाई, क्षणेकरां नेप ॥ श० १८ ॥ तुमशुं रणकोण
 करचोरे स्वाम, पुत्र पराक्रम तुमे, जुओ एणे ठाम. ॥ श० १९ ॥ घरती भेदी
 अहिपति देडं त्रास, धाणे तारागण पाहुं, भेदी आकाश ॥ श० २० ॥
 सायर सोधुंते चूरुं नगराय, आगना दियो मुजने, करी सुपसाय ॥ श०
 २१ ॥ आण दीधी ताते चाल्यो चक्रवेग, हणतो शत्रुने क्रम, उत्क्रमे वेग
 ॥ श० २२ ॥ न खलावे कोइ हयगय रथपत्ति, सुभटने चिहुं दिशे वींधी
 आ जत्ति ॥ श० २३ ॥ पवनवेग हवे बोलावे तास, चक्रवेग पण, बोळे ते

खास ॥ श० २४ ॥ दर्पाघने बुद्धि न रहे लेश, मरवानुं मनहुं करतो,
 सहत कलेश ॥ श० २९ ॥ तातनो सेवक तुं वाढ्यथी आज, वानुपणुं तुं
 भजतो, कोहने काज ॥ श० २६ ॥ नारीये भोलव्यो तुज, ताहरो शो वां-
 क, पण हवे थाइश, रांकनो रांक ॥ श० २७ ॥ मुज मारतां तुज नही
 राखे नार, सिंहे मारतां मृगी, न धरे किवार ॥ श० २८ ॥ नारीए आत्म
 रक्षणने काज, रणमुखे धरिओ छे, तुजने आज ॥ श० २९ ॥ व्याघ व्या
 घ्रमुख मूके श्वान, प्रथमथी तेहने दिये, भक्षणदान ॥ श० ३० ॥ नारीशुं
 निग्रह करुं ताहरो देख, शशि रवि ग्रहे सह, राहु विशेष ॥ श० ३१ ॥
 पवनवेग कहे सांभलो वात, स्वामी छे माहरो खरो, ताहरो तात ॥ श०
 ३२ ॥ परणी वहु इच्छे तुज ताय, उन्मार्गे एम, करत अन्याय ॥ श०
 ३३ ॥ नासिका हीन न पूजीए देव, अन्यायी स्वामीनी, करिए न शोव
 ॥ श० ३४ ॥ लखमी अन्यायीने नवि रहे घेर, देखषो आगळ तेहनी पेर
 ॥ श० ३५ ॥ सैन्यनी स्वामिनी भामिनी म जाण, एतो शिखा देवा, दे-
 वता ठाण ॥ श० ३६ ॥ अकाले क्षय करे तुमचो एह, तेणे ए वचननो
 दिंवर केह ॥ श० ३७ ॥ मुजथी के तुजथी तुज मुज मर्ण, युद्धमां जाण-
 थुं केहनुं छे हर्ण ॥ श० ३८ ॥ दावानल जेम वधे प्रचंड त्राय, तेम च-
 क्रवेग मुणी, उवलती निज काय ॥ श० ३९ ॥ पण जसपुण्य तेहनो जय
 थाय, वीजातो वचर्मा, गडयोलां खाय ॥ श० ४० ॥ आठमे खंडे अढा-
 रमी ढाळ, सांभलतां पत्र कहे, मंगळमाल ॥ श० ४१ ॥ सर्वगाथा ५२३

॥ दुहा. ॥

चक्रवेग मूके हवे, अशितणुं ते वाण; पवनवेग शार घोरणी, वरसे जळ
 धर जाण ॥ १ ॥ अग्रज सुश्रुतो देखीने, महावेग लघुभाय; आच्यो तव
 तिहां चंद्रगति, तेहने सनपुत्र थाय ॥ २ ॥ श्रीजी मणिमाली वळी, आ-
 च्यो अवसर जाण; भोगरति सामो थई, रुंध्यो तिणहीज ठाण ॥ ३ ॥
 चंद्रवेग सेनानी जे, आच्यो धनुपनो धार; वज्रवेग सेनानी ते, सामो थयो

तेर्णिवार ॥ ४ ॥ आठे परस्पर गर्जता, दिग्गजपरे रण घोर; वाण लडे
सहस्रोगमे, त्रीडे शत्रु तोर ॥ ५ ॥ प्राण गया जोइ केइना, केई पराक्र-
म धार; कोढथोगमे भट परस्परे, झंझे अति झुंझार. ॥ ६ ॥

ढाल १९ मी.

॥ जीहो जाण्युं अवधि प्रयुंजीने ॥ ए देशी ॥

जीहो पवन वेगनां धनुष जे, लाला कापे ते वारंवार; जीहो नव नव धनुष
लेई लडे, लाला चक्रवेगशुं अपार ॥ ७ ॥ सज्जन नर जूओ जूओ पुण्य प्रकार,
जीहो पुण्ये मन वंछित मळे; लाळा पुण्ये होय जयकार ॥ सज ० ॥ ए आंकणी ॥
जीहो चक्रवेगनां कापतो, लाला तपथी जेम कर्मजाल; जीहो रथ भांगे ते
परस्परे, लाला एम बहु काढे काल ॥ स० ८ ॥ जीहो पथ्यरने गदा मो-
घरे, लाला वेहु जण करे चक्रचूर; जीहो चक्रवेग गगने जई, लाला मूके
शिला अविदूर ॥ स० ९ ॥ जीहो जीवने मोह तृष्णापरे, लाला पवन
मोघर लेई हाथ; जीहो भागे भवस्थिति दीर्घने, लाला समकित लाभने
साथ ॥ स० १० ॥ जीहो चक्रवेग जे शस्त्रने, लाला मूके महा बडवीर; जी-
हो ते ते पवन निष्फल करे, लाला जाणी चक्रवेग धीर ॥ स० ११ ॥ जी-
हो शक्ति शस्त्र संभारतो, लाला ज्वालानो नहीं पार; जीहो आवीने करमां
रखुं, लाला करतुं ऋद् ऋद्कार ॥ स० १२ ॥ जीहो ते भमाडी मूकतो, ला-
ला पवनवेग परिवार; जीहो तेह निफल करवा भणी, लाला नाखे विचित्र
हथिआर ॥ स० १३ ॥ जीहो पण ते सवि निफल गर्या, लाला हृदये हणे
तेह शक्ति; जीहो पवन मूर्छा खाई पडयो, लाला न लहे कांहिये व्यक्ति ॥
स० १४ ॥ जीहो शक्ति आवी निज हाथमां, लाला पवन मूर्छागत जाणी;
जीहो नाग पाशे ते वाधियो, लाला स्नेहरागे जेम जाण ॥ स० १५ ॥
जीहो चंद्रगति बहुधा लडयो, लाला महावेग मुके शस्त्र; जीहो आग्नेय तेहने
ओल्हवे लाला मुकी वारुण अस्त्र ॥ स० १६ ॥ जीहो त्रिशूल महावेग मूकतो,


लाला चंद्रशरे करे छेद; जीहो लोह गोल यंत्रे करी, लाला महावेग मूके
 उमेद ॥ स० १७ ॥ जीहो चंद्रगति हृदये हण्यो, लाला वांध्यो मूछरि वंत;
 जीहो नाग पाशे पवनपरे, लाला कर्मनी गति छे अचिख ॥ स० १८ ॥
 जीहो मणिमाली पण एणिपरे, लाला वांधे भोगरतिराय, जीहो श्वासो
 श्वास न लेइ शके, लाला कर्मथी वलियो न थाय ॥ स० १९ ॥ जीहो चंड-
 वेग सेनानीए, लाला वज्रवेग पण तेम, जीहो नाग पाशे करी वांधीओ,
 लाला भावी वनेए नेम ॥ स० २० ॥ जीहो चक्र वेगादिक च्यारने, लाला
 पवनादिकने रे जाव, जीहो लेई जातां वीरांगदे, लाला श्रीजय वीनच्यो
 ताव ॥ स० २१ ॥ जीहो वाण धारा तिहां वरसतो, लाला आची रुंध्या-
 रे तेह, जीहो वाणे ते सवि पीडीआ, लाला चक्रवेगादिक जेह ॥ स० २२ ॥
 जीहो वांध्या मूकी आवीआ, लाला युद्ध करणनेरे काज; जीहो आकर्ष-
 णी विद्या तिहां, लाला फोरवे श्री जयराज ॥ स० २३ ॥ जीहो आकर-
 पी ते च्यारने, लाला लाच्या निजरथ मांहि, जीहो नाग पाश ते लोडी-
 आ, लाला गारूढ विद्याये सांहि ॥ स० २४ ॥ जीहो वीरांगद औपधी
 जले, लाला सज्ज करे तेणीवार; जीहो निज निज वाहन वेशी करी, युद्ध क-
 रण योद्धार ॥ स० २५ ॥ जीहो पवनवेग चंडवेगने, लाला श्रीजय साये
 लडंत; जीहो देखीने बोलावतो, लाला क्रोधे हृद पीसंत ॥ स० २६ ॥ जी-
 हो ते पण सिंहपरे आवीओ, लाला क्रोधे बोलेरे वाण; जीहो कूदे केम
 परवल थकी, लाला यद्यपि कठगत प्राण ॥ स० २७ ॥ जीहो सूर्य तापे
 रज लणजे, लाला केतो काल रहत; जीहो वांधीने मूक नही, लाला मु-
 जकर देख तु तंत ॥ स० २८ ॥ जीहो जो मुज शक्ति जाणे नहीं, लाला तु-
 ज सुत पूछजे तेह; जीहो प्राण संशय मांहि पढ्यो, लाला तुज मूकावे जेह
 ॥ स० २९ ॥ जीहो जा तुं मूक्यो जीवतो, लाला तुज मुज स्वामिरे एक;
 जीहो स्वामी द्रोही न थाईये, लाला घरीये हृदय विवेक ॥ स० ३० ॥ जी-
 हो पवन कहेपर जय थकी, लाला अथवा जीसोरे बाल; जीहो एकवार
 तिणे माचतो, लाला पूरव वात संभाल ॥ स० ३१ ॥ जीहो बाल पीढयो

ते पापीए, लाला हु तुज मारण काम, जीहो निज वालक पीढा नवि, लाला मिहसही शके नाम ॥ स० ३२ ॥ जीहो उक्ति प्रत्युक्ति संग्राममां, लाला करवी न घट्टेरे कोय; जीहो था सामो तुजमां यदि, लाला कांय पराक्रम होय ॥ स० ३३ ॥ जीहो सांभली कोपे कलकल्यो, लाला वाणे छायोरे तेह; जीहो ते पण वरसे वाणने, लाला जेम आपाडो मेह ॥ स० ३४ ॥ जीहो चंडवेग थाको तित्ते, लाल पवने मार्यु त्रिशूल; जीहो मूर्छागत अहिपाशयी, लाला वांध्यो ते प्रतिकूल ॥ स० ३५ ॥ जीहो निज शिविरे ते लेई गयो, लाला श्री जयानंद कुमार; जीहो चक्रवेगादिकना सवे, लाला रथ भागे तेणीवार ॥ स० ३६ ॥ जीहो वाणे श्रोणितशुं भर्या, लाला अनुक्रमे वांध्या तेह; जीहो दया धरी नवि मारीया, लाला चंद्रगतिए ग्रहा एह ॥ स० ३७ ॥ जीहो नृप आणाथी लेई गयो, लाला निज शिविरे तत्काल; जीहो किरण माली हख्यो घणुं, लाला बंधु संगम सुरसाल ॥ स० ३८ ॥ जीहो मुभट तणां जे उछल्या, लाला रुधरे रातो रवि थाय; जीहो पवित्र थाया मानुं कारणे, लाला पश्चिम समुद्रमां जाय ॥ स० ३९ ॥ जीहो निज निज स्वामी आणी थकी, लाला दोय सैन्य निज ठाम; जीहो जयने शोकना शब्दनो, लाला कोलाहल थयो ताम ॥ स० ४० ॥ जीहो सेनानी चक्री करे, लाला महावलवंत कुमार; जीहो महाबल नामे चक्रिने, लाला शोक तणो नहीं पार ॥ स० ४१ ॥ जीहो सुभट हस्तादिक सज्ज करे, लाला जे दोये कंठगत प्राण; जीहो श्री जयानंदना सैन्यमां, लाला जयजयकार कल्याण ॥ स० ४२ ॥ जीहो आटमा खंड मांहे कही; लाला आंगणीशमी एह ढाल; जीहो पञ्चविजय पुण्ये करी, लाला होवे भंगलमाल ॥ स० ४३ ॥ सर्वगाथा ५६६ इति श्री जयानंद राजर्षि चरित्रे श्री जयानंद खेचरवक्रि महा युद्धाधिकारे चतुर्थदिनयुद्धं.

दुहा.

दान-पुण्य न करी शके, रात समे नर कोय; तिणे मानुं क्रोधे अरुण

थई, उग्रयो सूरय सोय ॥ १ ॥ वाहन शस्त्रादिक सह्य, सुभटने आपे भूप;
 चिंतामणी परभावथी, महिमा जास अनूप ॥ २ ॥ पूरवपरे वेहु सैन्यना,
 सामग्री करी सर्व; मलिआ संगर कारणे, चित्तमां धरता गर्व ॥ ३ ॥ शर
 संग्राम करी घणो; पवनवेगादिकराय; भागुं चक्री वलतदा, ते सह्य नाठा
 जाय ॥ ४ ॥ महाबल सेनानी तदा, उठयो पराक्रमे इंद; मार मार करतो
 थको; नसव्या सुभटना वृंद ॥ ५ ॥ जीताये नहीं अन्यथी, जाणी श्री
 जयानंद शत्रु ध्वानरवि आवीओ, जेहनुं तेज अमंद ॥ ६ ॥



हाल २० मी.

॥ सुण वांसलढी, वेरण थइ थुं लागीरे व्रजनी नारने ॥ ए देशी ॥

धनुष टंकारवते करतो, वळी वरसी वाण मंडप धरतो; तव परवल त्रासथी
 सह्य डरतो ॥७॥ सुणो सुभटोजी, श्री जयानंद पराक्रम पर परे देखो, जग
 जोतांजी, एहना पुण्य प्रवलनो नावे लेखो ॥ ए आंकणी ॥ जिण जिण
 दिशि नांखे ते वाण, तिणे दिश बहु सुभट वमे प्राण; कोण करीवर ने कोण
 केकाण ॥ सु० ८ ॥ ते वाण घाते वीहना वीर, वळी महाबल सेनाथुं धीर;
 तिहां न करे कोय कोयनी भीर ॥ सु० ९ ॥ नासतां केई पडिआं वस्त्र, व-
 ली केई सुभटनां केइ शस्त्र, नवि खवर पडे लागे अस्त्र ॥ सु० १० ॥ सम
 काले कुमर सहसवार, पांचे ऊणा महा जोद्धार; वीजा खेचर बहु परिवार
 ॥ सु० ११ ॥ वीर मानी विचित्र आयुध धार, पांचशे नारी ते कुमार; उ-
 पर वरसे शिलीमुख धार ॥ सु० १२ ॥ रण कौतुकी बहु खेचर निरखे,
 तेम तेम कुमर चिनमां हरखे; पोते पण वाण श्रेणी वरषे ॥ सु० १३ ॥
 एकलों पण बहु वीरने मारे, पण कांय प्रयास न चित धारे; जेम मृगपति
 बहु मृगने डारे ॥ सु० १४ ॥ कांय आदि मध्य जमी आकाश, भमतो
 अरि सेना चिहुं पास; कोय खवर पडे नहीं किहां वास ॥ सु० १५ ॥ को-
 ईने मारे करतल घात, कोईने वळी पाटु प्रहार लात, कोईने कुंपरे प्रथवी

पात ॥ सु० १६ ॥ गदा मोगर खड्ग तथा दंड, मांहोमांहे अथडावे परचंड;
करे जाजरा मूकी बहु कांड ॥ सु० १७ ॥ इम विविध आयुधे कर्या नि-
स्त्रण, केइ शस्त्र रहित कंठगत प्राण; दयाथी नवि मारे केइ जाण ॥ सु०
१८ ॥ महाबल प्रमुखने दिये नाग पाश, तेम एकसो कुमर एकज राश;
ते देखी सहजने पढी ज्ञाश ॥ सु० १९ ॥ उवेख्या नासता सह तेह, सूसं-
ज्ञाए पवनवेग जेह; लंड चाल्यो सह वांध्या एह; ॥ सु० २० ॥ चोरनी परे
खंधावार लावे, देखी चक्री निज चित्त भावे; अहो माहरा सुत बंध्या जावे
॥ सु० २१ ॥ वली बीजा सुत नाठा आवे, क्रोधे धम धमीओ इम धावे;
जइ मूकावुं एम कहेरावे ॥ सु० २२ ॥ ते रंडा कहो तुमे किहां गई, मस्तक
छेदुं तस्तर थई; वली मारुं हुं एहनो पई ॥ सु० २३ ॥ मुज कुमर कहो ते
किहां अछे, बीजा सवि वात करुं पछे; एम कही अरि शिविर मांहे गच्छे
॥ सु० २४ ॥ कोई खलना तेहने नवि करे, जाणीये जम रूपांतर धरे; कोई
सुभट न एह आगळ ठरे ॥ सु० २५ ॥ सह सुभट दिशो दिश नासता, न-
यणे चक्री ते पासता; बोले एम करुणा वासता ॥ सु० २६ ॥ रे सुभटो तुम
मंगळ याओ, शत्रु होय ते पण कां जाओ; रंडा मुज शत्रुने बतलावो; ॥
सु० २७ ॥ मुजथी अधिको अथ सम नहीं, तेहने नवि मारुं हुं अहीं; पण रं-
डा ते कहो छे कहीं ॥ सु० २८ ॥ तव स्त्रीरूपे नरपति आवी, कहे ते रंडा
हुं सोहावी; तुज मारुं तुज प्रिया रंडावी ॥ सु० २९ ॥ जो पुत्रने मलवाने
कामे, तो मलशे करतां संग्रामे; जब तस सम तुज दिशा पामे ॥ सु० ३० ॥
आठमे खंडे बेहु मलीआ छे, ढाल बीसमी वातामे भलीआ छे; कहे पथ
क्रोधे खलमलीआ छे ॥ सु० ३१ ॥ सर्वगाथा ५९७ ॥

दुहा.

मरम वचन शस्त्रे करी, बींधाणो खगराय; मूके वाण झडोझडे, जिम
वादलीए छाय ॥ १ ॥ वाणवंतो लीये तेहने, दूर करी दिशि सर्व; उज्वळ
करी नृपे तेणे सभे, सुभट थया ते सगर्व ॥ २ ॥ पवन वेगादिक खंचरा,

चंद्र गखादिक तेम; चक्रीसुत साहमा थया, युद्ध करणने प्रेम ॥ ३ ॥ वेहु
 सैना संगर यते, प्रथवी नग कंपाय; सागर मर्यादा तजे, दिश अंधारी थाय
 ॥ ४ ॥ खेचरपति नरपति तणुं, युद्ध मर्च्युं अति जोर; एक एकने गंजे
 नहीं, नवि छेदाए कोर ॥ ५ ॥ वज्रपृष्ठ धनु जेहने, अक्षय वाण तूणीर;
 कामाक्षाये जस दियु, केम हारे नृप वीर ॥ ६ ॥ नव नवा शस्त्र वांछित
 दिये, तेह विद्या जस पास; चक्री पण दुर्जय लह्यो, नवलो दैव विलास
 ॥ ७ ॥ चक्रिचाप खंडित करे, बली चक्री नव लाय; एम ज्ञात धनुष ते नव
 नवा, खंडोखड करे राय ॥ ८ ॥ शूल मुके खेचरपति, शूल भेदे भूप;
 सहस्र भार छोटा तणो, चक्री गोल विरूप ॥ ९ ॥ मूके नरपति उपरे, न-
 रपति पण तेम तेह; मोदके मोदक भागीए, भूप कलानो गेह ॥ १० ॥
 सूर्यहास्य चक्री लिये; स्रङ्ग नरेंद्र पण ताम; चंद्रहास्यथी छेदतो, दंड गदाए
 संग्राम ॥ ११ ॥ स्रङ्ग मुष्टी पग मोगरे, युद्ध करे ते दोय; नवि जीते ते
 दोयमां, फरी शर युद्ध ते होय ॥ १२ ॥ चक्री धरतीए पाडीओ, रथ भा-
 ग्यो ततकाल; नव नव रथथी जूझतो, ते भागे भूपाल ॥ १३ ॥ एकवीस वार
 एम भांजआि, रथ चक्रीना तेण; पण विरमे नहीं रणथकी, महावीरव्रती-
 जेण ॥ १४ ॥ चक्रीना रथ भांजीआ, निजरथ भजण भीति; लहीने खे-
 त्रांतरे गयो, रवि मानु चिंतवी चित्त ॥ १५ ॥ विरम्या वेहु सग्रायथी, नि-
 ज निज खंधा वार; आबी सहुने सज्ज कर्या, पूरवपरे निरधार ॥ १६ ॥



ढाल २१ मी.

॥ राग बंगालो ॥

चक्री चिंतातुर वहु होय, शोकमां आस्थाने रह्यो सोय, साजन-सांभलो;
 पुत्र बंधणा केम भूकाय, पूछे प्रधानने खेचरराय ॥ सा० १७ ॥ कहे प्रधान
 सुणो हित आपण, तो कहिये तुम हितनी वाण, साहिव सांभलो, हितकारी
 मनगमनुं जेह, वयण जगतमां दुर्लभ तेह ॥ सा० १८ ॥ स्त्रीरूपे ए श्री ।

जयानंद, मत जाणो तुम सीनो हृंद सा०; बंधन करता तुम सुत सोय, तेणे कदाग्रह भूकवो होय ॥ सा० १९ ॥ मौलि कंकण मुख भाख्युं जे वयण, तेह स्वमावी कीजे ए सयण सा०; तुम मन आवे जो विश्वास, तो वली आपो कन्या तास ॥ सा० २० ॥ एछे उत्तमने दयावंतं, तुम सुत भूकशे जाणो संत सा०; एटले जाशे आपने थान, तुम राज्यनो इच्छक न निदान ॥ सा० २१ ॥ सांभली मनमां धारी मान, विसर्ज्या नृपे तेह प्रधान सा०; मुज प्रतिज्ञा जाये केम, चक्री शीखवी दूतने प्रेम ॥ सा० २२ ॥ पाठव्यो पवनवेगने पास, पोहातो पवन उत्तारे आवास सा०; चक्रीए भाख्युं ते भाखे तास, तुमे जूना अम सज्जन खास ॥ सा० २३ ॥ चंदन कापे आपे वास, सेछडी पीले रस दिले तास सा०; तेम तुमे साचा सेवक अम, एणिपरे न घटे करवुं तुम ॥ सा० २४ ॥ तुमचे जमाइये मुज सुत बंध, लोक वचने जाण्यो ए संबंध सा०; तेहनी संधि करो तुमे एम, मुज सुत भूकावो धरी प्रेम ॥ सा० २५ ॥ मुज कन्या वली पांचसैं अन्य, आपुं नृपनी रुयडी कन्य सा०; आपुं अरध वैताढ्यनुं राज्य, जामाता समजावो आज ॥ सा० २६ ॥ मौलि कंकण मुख दिवस ते सात, मुज आणा पाळे विख्यात सा०; तो अम वेहुने वाधे मित, जनम लगे पाळुं एह नीति ॥ सा० २७ ॥ पवनवेग पण सांभली जेह, जइ नरपतिने भाखी तेह सा०; भूपतिए जे उत्तर दीध, पवने आवी ते दूतने कीध ॥ सा० २८ ॥ तुज स्वामीने कहे जे नेम, तुज सुत वधक भाखे छे एम सा०; नहीं मुज कन्या केरुं कान, वली वैताढ्य अर्धनुं राज ॥ सा० २९ ॥ माहारा नाम अंकित दिन सात, मुगट वहे तुज नृप अवदात सा०; अरध भरत आपुं तुजराय, आपणे मेल छे कहेजे जाय ॥ सा० ३० ॥ दूते जइ संभलावी वात, भूत भराड थयो खग तात सा०; क्रोधे चक्री चिंतये ताम, संधि करे नहीं वयणे साम ॥ सा० ३१ ॥ जितकाशी ए न गणे कोय, जेहनुं मन गर्वित एम होय सा०; चक्री शक्र ने कृष्ण न एह, मनुष्य मात्र अहंकारनो गेह ॥ सा० ३२ ॥ धीजे शस्त्रे न जीसो जाय, विद्या शस्त्रे ए जीताय सा०; ते शस्त्रे हणी लावुं पूत, जे राखे

माहं घर सूत ॥ सा० ३३ ॥ एम करतां जश मारो थाय, अपजश अलच्छि
ते दूर पलाय सा०; सुभट निद्रा सुख अनुभवे रात, एम करतां ययो हवे
परमात ॥ सा० ३४ ॥ आठमे खंडे भाखी ढाळ, एकवीशमी ए राग वंगाल
सा०; पद्मविजय कहे पुण्य विशाल, आगळ सांभलो वात रसाल ॥ सा०
३५ ॥ सर्वगाथा ६३२ इति श्री जयानंद राजर्षि केवळि चरित्रे श्री जया-
नंद नृप विद्याधर चक्रि युद्धाधिकारे पंचमदिन युद्धं.

दुहा.

रण वाजां वली वाजियां, वेहुनी सेना मांह; नट जेम नादी शब्दथी,
वधीओ भट उत्साह ॥ १ ॥ करी रण सामग्री सुभट, आव्या ते युद्ध मान;
अल्प शस्त्रे बहु अरि हणे, मानुं कृतांत अनुमान ॥ २ ॥ चक्रि दळ भागुं
तदा, आव्या चक्रि कुमार; समकाले संग्राममां, धावे क्रोधे अपार ॥ ३ ॥
पवन वेगादिक रोक्या, दुष्ट विकल्प शुभ ध्यान; नृप भट मानुं कुर ग्रह,
वक्र थया असमान ॥ ४ ॥ देखी चक्रि कुमार ते, फोरवे विक्रम फार; क्रम
छंडी उत्क्रम लढे, वात उणा सहस वार ॥ ५ ॥

ढाळ २२ मी.

॥ कडखानी देशी ॥

शूरभट क्रूर रणतूर अति वाजते, चक्र केइ वक्र मूके कराल; शक्ति अ-
ति व्यक्ति उलका सहस मूकती शस्त्र परस्पर थकी अग्नि झाल ॥ सू० ॥
॥ ६ ॥ कहींक मुद्गर पडे भटअडे चिहुंदिशे, शूद्धपंखी भमे बहु आका-
शे; चक्रीना वीर प्रति वीरने मारता, कोई उभो रहे नाही पासे ॥ सू०
७ ॥ सुभट संहार निराधार शंका धरी, श्री जयानंद नारी स्वरूपे; सिंहरथ
वेशीने परदल पेशीने, तेजथी बहु सुभट कोडि जीपे ॥ सू० ८ ॥ रायस-
मुदाय बोलावतो चक्रि सुत, वीसर्या वंध पडीआरे भाई; नाश नाशज क-
रो, पाशमां केम परो, कां मरो मुग्ध जाओ पलाई ॥ सू० ९ ॥ कौण सहे

तनुदहे मुज चपेटो कहो, सुर असुर कोई एहवो न देखुं; काष्टसम ह्य गणुं
 चित्रसम भटगणुं, मृत्तिकागंजसम गज उवेखुं ॥ सू० १० ॥ शस्त्र तृणव-
 स्त्र परे खंड खंडित करुं, मारतां कोई रक्षक न थाय; मुग्ध तुम जग्ध क-
 रशे जमराजीओ, मुज चपेटो न इंद्रे खमाए ॥ सू० ११ ॥ सांभळी वचन
 ते देहडी तस वली, क्रोधथी मूकता योध वाण; तृण समा प्राण निज
 जाणी झंपा करे, श्री जयानद तेहने पिछाणि ॥ सू० १२ ॥ भांजे रथ स-
 त्थ केई सुभटने पाडतो, केई भट लेई गगने उछाले; युद्ध करे शुद्ध रण
 भूमिमां चक्रधर, आची श्रीजयतणां वाण खाले ॥ सू० १२ ॥ रोपथी
 तोप नहीं दोय स्वामी तणे, सैन्य पण दैन्यता छंडी लडता; मुष्टि चांहे अ-
 भिशक्ति उत्साहथी, युद्ध करतां केई सुभट पडता ॥ सु० १४ ॥ दर्दरी दड
 दडे खांडां तिहां खडखडे, डोल वली डमडमे तव निशान; गमगमे वली
 ददामा तिहां दमदमे, झल्लरि छमछमे तिण हिटाण ॥ सू० १५ ॥ डमरु वा-
 जित्र योगिणी तिहां डमडमे, कांपे करी धमधमे वयरी वग्ग; झुझवा टम-
 टमे कायर कमकमे, दिशो दिश गमगमे पामी खग्ग ॥ सू० १६ ॥ जेम
 जेम भडभिडे तेम तेम रस चडे, काहला ऋडवडे सार सडे; वक्तर कड-
 कडे भट पडत लडथडे, अ्यवक ऋहनडे भूरि नडे ॥ सू० १७ ॥ भूमि पडि-
 आ केई फडफडे वडवडे, गिरि शिखर खडखडे नीर झलके; बहु शिला
 रडवडे भूमिका धडहडे, कुंत करवाल बहु तेज चलके ॥ सू० १८ ॥ गज
 घटा गडगडे प्रेत बहु हडहडे, धीर तिहां गहगहे चित्त मांहिं, तेह बहु जस
 लहे महा ध्वजा लहलहे, वृक्ष वली कडकडे पडत ठांहि ॥ सू० १९ ॥ वीर
 कर चलचले रुधिर वहे खलखले, लोक बहु कलकले खम्युं न जाय; नगर
 जन खलभले भाला बहु झलहले, जेह झंझार चूके न घाय ॥ सू० २० ॥
 हाथी श्रृंखल खलके हलके चले, कायरा हाड अंगे टलक्के; नासतां पूंठ-
 थी वाण मूके नहीं, एक भट तेजथी अति झलक्के ॥ सू० २१ ॥ यान वि-
 ण जे थया यान तेहने दिये, शस्त्र हीणाने आपे ते शस्त्र; झुधित ने खाद्य
 जल तृपिनने आपता, वस्त्र हीणाने आपे ते वस्त्र ॥ सू० २२ ॥ आठमे

खंड अखंड वाणीशामी, ढाल कही पद्मविजये रसाल, चक्रपति नरपति दोय-
हवे झंझता, सांगलो तेह कहेथुं विशाल ॥ सू० २३ ॥ सर्वगाथा ६५५.

दुहा.

युद्ध करतां परस्परे, भांजे रथ गदा घाय; बाहु युद्ध वली मुष्टि जुद्ध,
करता रोष भराय ॥ १ ॥ चक्री मूके महातरु, नरपति उपर जाय; दांत
पीची रोषे करी, नृप पण तिम करे ताम ॥ २ ॥ पछे महाशिलाए झंझी-
आ, पछे करे रजनी बुढि, लोक माने उत्तपात ए, किम थावे कहे तुढि
॥ ३ ॥ चक्री गिरिवर मूकतो, भूप उपर तरु साय; कामाक्षा दत्त मोघरे,
नृप चूरे लेइ हाथ ॥ ४ ॥ ते चूर्याथी करहा परे, पडे पध्यरना खंड; लोक
अकाले मानतो, ए शो दैवनो दंड ॥ ५ ॥ तेहमां तरुअरथी पड्यां, कुमुम
ते देवे कीध; पुष्प दृष्टि मानु हर्षथी, नृप उपर पर सिद्ध ॥ ६ ॥



ढाल २३ मी.

॥ कडखानी देवी ॥


धीर महावीर मुख नीर आणी घणो, छुद्र महा रौद्र ए शत्रु दीसे; एह
अजेय अमेय विक्रम घणी, केणीपरे जीतुं जिम हियडुं हीसे ॥ धी० ७ ॥
करिय विद्यारथे महारथे वेशीने, शक्ति मूके महाज्वाल वमती; तेह निज
शक्ति प्रति शक्तिथी भेदतो, एणिपरे भूपमति चित्त रमती ॥ धी० ८ ॥
चक्रधर चक्र अति वक्र मूके तदा, नेत्र भीचे सुमट तेह देखी; मुके प्रति चक्र
भूशक्र तस सनमुखे, कौतुकी नासता तेह पेली ॥ धी० ९ ॥ दोय चक्र
खंडखंडे अग्नि कणीआ झडे, दाह भीके सुर अमुर नासे; उपडे ने पडे
शुभ्र पंखीपरे, केहने चित्त विस्मय न भासे ॥ धी० १० ॥ दलित मद श-
त्रुनो गलित अग्नि सवे, दोय प्रतिहत पराक्रम यइने; विरमीयां जुद्धथी
न रमीयां शक्तिथी, रखां निज स्वामी पासे जइने ॥ धी० ११ ॥ शत्रु ता-
मस तणुं जामस नवि लहे, भूप चलमां अंधकार थावे; राति अमावासनी

जातिथी घन सहित, हयगय सुभट नयणे न आवे ॥ धी० १२ ॥ स्वपरं
 अविशेष सुविशेष मांहोमांहि हणे, हयगय तेम पडे रथ ते भांजे; नृप करे
 रवि करे सर्व उद्योतमय, जेह देखी सहस भानुं लाजे ॥ धी० १३ ॥ वाण
 विन्नाणथी भूप वरसे तदा, चक्री तव खोभीओ मन्न मांहि; सांधवा मूकवा
 समरथ नहीं, भेद्यो शिरस्त्राणने बली सन्नाह ॥ धी० १४ ॥ शत्रु सैन्ये सु-
 भट शिर तिहां रडवडे, क्षुधित जम केरडा कवल मानु; सुभट शरे मारी-
 या मूर्छाए धारिया, गृध्र आवे तिहां जाणी खाणुं ॥ धी० १५ ॥ तास छ-
 द वायथी आय चेतन बली, नरपति पत्ति हय गय न कोई; वाणथी वींधी-
 ओ चींधीओ एहवो, सैन्य चक्री तणे नविअ होई ॥ धी० १६ ॥ प्राण स-
 हु जीवने जाणि वाहाला घणुं, नासता चक्रीना सैन्य वाला; वयर करी
 केर करे चक्रि बलिया समुं, निंदता स्वामिने लही जंजाला ॥ धी० १७ ॥
 खेचरपति नरपतिए बहु वारते, पाडिओ तोहि उठीने झुझयो; शुर अति
 क्रूर तेणे एहज एम अडे, एम सहु लोक चितमांहे बूज्यो ॥ धी० १८ ॥
 शस्त्रे अंधकार तिरस्कार करी टालतो, माहरो तेह उद्योत जीपे; लाज धरी
 अस्तगिरिराजमां रवि थयो, पश्चिम शमद्रने ते समीपे ॥ धी० १९ ॥ ए-
 हवे प्रताप मुज तापथी अधिक ए, मिल मुज चक्रिने नृपति मारे, एम गणी
 अस्त भणी सूर्य पश्चिम नयो, सैन्यमां दोय निज जुद्ध वारे ॥ धी० २० ॥
 पूर्वपरे सज्ज कर्या जेह घाये भर्या, राति सुख निद्रमां सहु गमावे, ढाल त्रेवी-
 समी आठमा खडमां, पद्मकहे हवे रवि पूर्व आवे; पूण्य करवा परभाति
 थावे, मंगल तूर सहुए वजावे ॥ धी० २१ ॥ सर्वगाथा ६७६ इति श्रीश्री
 जयानंद राजर्षि केवली चरित्ते श्री जयानंद भूप श्री चक्रायुध खेटचक्रि द्वय
 युद्ध वर्णनो नाम पष्ठ दिनांतर्गता युद्धाधिकारः

हुहा.

सुता जाग्या रवि किरणे, गुरु उपदेशे जेम; मोह निद्रा भवि जीवनी,
 विलये जायेःतेम ॥ १ ॥ जयश्री योग्य छे भूपति, युद्ध विना नावे तेह;
 तेणे रवि पूर्वाचल चढ्यो, मानु-जोवा एह ॥ २ ॥ वेहु सेनामां वाजियां-

रण वाजिन्न अनेक; मयतां जिम सायर तणी, ध्वनि उठे अति रेक ॥ ३ ॥
जेम शुद्ध धर्म उद्यम करे, पापी गुरु उपदेश; तेम ते वाजिन्न शब्दयी,
रण उद्यम सुविशेष ॥ ४ ॥ श्राद्धयां बहु वेला जम्यो, विप्र अटसो होय;
युद्ध करयां बहु सुभटे तेम, रण अणटपता दोय ॥ ५ ॥ मार मार करता
थका, पसर्यो चक्रि मार; जखनां बालक जेम गले, पापी वग कासार ॥ ६ ॥
पवन पांचशे स्त्री सुभट, युद्ध करी बहु भांत; वीस अग्निम अहि पाशयी
बांध्या ते एकांत ॥ ७ ॥ चंद्रगसादिक खेचरा, भोग रसादिक तेम; भग-
वे सुभट लखो गमे, चक्रवर्तीना नेम ॥ ८ ॥



हाळ २४ मी.

॥ कडखानी देवी ॥

चंड दुर्दंड दौर्दंड दोनुं लडे, खेचरां राय अवाय करतो; आचीओ धा-
वीओ जेम मदे आंचलो, मयगळ तरुगण कोडि हरतो ॥ चं० ९ ॥ बहु
कुमर रोकतो वचने अति टोकतो, भूप संहारतो सैन्ये आवे; चक्रि कहे
केम रहे हजीय मुज आगले, रेरे रंडा न तुं दूर जावे ॥ चं० १० ॥ स्त्रीपणे
जाणी मन आणी उवेखि मै, ताहरा चित्तमां ते न आवे; शक्र पण ठणपरे
अपरकोण मुज विरे. कोई मुज आगले वले न फावे ॥ चं० ११ ॥ यतः॥ वैद्याः
संति पदे पदे गदगणान् हतुं क्षमाभेपजैः दानैर्दुगतदौख्यसंस्थितिहतोऽअसं-
ख्यापुनर्लक्षणाः नक्षेपोऽस्तिजगत्सु योप्येपनयेदौर्दंडकंदूचयं, शस्त्रैर्भेस्थित-
वांश्रयोर्युधियज्ञोदत्तेऽथवादुर्वज्ञाः ॥ १ ॥ मृगैर्भृगारिर्भुजगैर्गुरुत्मान्, सुरैःसु-
रेंद्रस्तपनस्नमोभिः ॥ अग्निःपतगैर्भुरजिच्चदैत्यै युद्धत्तयाहंसुभटैर्न साध्यः
॥ २ ॥ पूर्वहाळः माहरुं बल निर्वल थाय तुज वध थकी, जा तुं मूकी तुज
नारि जाणी; नहीतो विद्या नले पतंगपरे कां वले, मूपति कहे सुणो ताम
वाणी ॥ चं० १२ ॥ भूमी तुं लूठीओ ने वली उठीओ, जीवतो तुज सुता
वयणे मूकयो; नारि वध करण रण करण तुं आचीओ, बल निवल वातमां

केम शंकयो ॥ चं० १३ ॥ तुज सुमट ताहरुं विकट बल देखीयुं, पूर्वे षट दिवस पर्यंत मांहिं; बली अवशेष विशेष बल होयतो, फोरवो माचवो जेणे उत्साहि ॥ चं० १४ ॥ यतः ॥ शूराः संति सहस्रशो भुजबल प्रोत्सर्पिदपौधु-
राः, शस्त्राणि प्रतिवीरजीवितरमालुंटाकट्टनीन्यपि ॥ कोदंडायतसायकेभयि-
पुनर्निः शूर जन्मा मही, शस्त्रं कृतृणमेकमेव चाहितं चक्रे धृतंतद्द्विषा ॥ ३ ॥ पूर्व-
ढालः ॥ सांभली कलकली देहडी चक्रीनी, दोय परस्परं बाण नांखे; मेघ
विद्याए अमोघ वरसी करे, चक्रि नृप सैन्यमां सुपरे दाखे ॥ चं० १५ ॥
पवन विद्याए ते खवन भूपति करे, चक्रि बली पवन विद्या प्रयुंजे; शृंग
गिरि भंग करे नृपति तव अहि धरे, लक्ष गमे पान करे पवन पुंजे ॥ चं०
१६ ॥ चक्रधर वक्र तनु सर्प कोडचो गमे, नरपति खगपति मूके ताम;
वींळी चक्री करे नृपति मयूर धरे, वयरीनो नाश करे ते प्रकाम ॥ चं० १७ ॥
चक्रधर शस्त्र निद्रा अमंद्रा धरे, नृपने अंगद बले ते न लागे; चक्री सैन्ये ह-
ण्या नांदिमां नवि गण्या, भूपनी बोध विद्याए जागे ॥ चं० १८ ॥ प्रबल
बल सबल चक्री चमूशु लडे, आग्नेय अस्त्र चक्रधर प्रकासे; ऋट ऋटकार
करे जलदधी संहरे, भूप विद्या तणो छे आवास ॥ चं० १९ ॥ वांधीओ
नाग पाशे नृपति सांधीओ, ते कमलनाल परे तुरत तोंडे; गरुड चक्री ठवे
शत्रुने जे खवे, भूप गोविंद अस्त्र तास जोडे ॥ चं० २० ॥ गरुड नाशी ग-
यो चक्री निःफल भयो, मोहन शस्त्र ठवे खेचरेश; माहोमांहिं वडे खवरको
नवि पडे, तेह देखी हवे नरचरेश ॥ चं० २१ ॥ ज्वाला मालिनी वर
विद्याए टालियुं, एम विविध चक्री विद्यानां शस्त्र; भूप साहस धरी उलट
विद्या फरी, सूकीने वारता तेह अस्त्र ॥ चं० २२ ॥ उपलमां सफल नवि
बीज बाव्युं होए, तेम नृपति उपरे निःफल दूआं; भुज पराक्रम घणु ज्वाला
मालिनी तणुं, जोगिणी बल भिन्न भिन्न जूओ ॥ चं० २३ ॥ औपधिवल
कामाक्षा तणुं सबल बल, ते कहो केणीपरे हार पासे; खेद लही चक्रीव ही
चित्तवे एणिपरे, जीतिए केम ए शत्रु ठामे ॥ चं० २४ ॥ एह अलक्ष अ-
ध्यक्षपणे देखीए, नारि रूपे पराक्रमयी इंद; एहने काज शुं राज्य में अर-

(३५८)

श्री जयानंद केवलीनो रास.

जिउं, कीडि संचितित्तर खविंद ॥ चं० २५ ॥ अहव संकल्प विकल्प शौ
एहवो, मुद्गर माहरे छे असाध्य; जुद्ध करी श्रम घरीने पछे मारशुं, एहथी
कार्ये थाशे सूसाध्य ॥ चं० २६ ॥ चक्रधर शक्र विक्रम रथे वैशिर्ने, भूप
अनूप शर मूकी उपद्रव करे, व्रणित करे चक्रिनुं अंग हरपे ॥ चं० २७ ॥
मुर्जर करकरे रुधिर अंगे शरे, करी पराक्रम दिये भूप माथे; नयण मीची
वयण वंधे मूर्छा लह्यो, सैन्य मांदि हाहाकार साथे ॥ चं० २८ ॥ मारीओ
धारिओ चित्तमां चक्रीये, मोद लही उठयो फिरी घात करवा; ताम भू-
पाल तेणे तालन चेतन लही, उठीयो चक्री जमगेह धरवा ॥ चं० २९ ॥
दीध कामाक्षाये लीध वज्र भेदकर, मूकीओ चक्री शिर तेणे घाय; लहीय
मूर्छा अतुल्य पड्यो धरतिये, छिन्नछद् वज्रे जेम शिपरी थाय ॥ चं०
३० ॥ नाग पाशे जड्यो सूहृद वंधे घडयो, लेइ ते नवि शकें श्वासोश्वास;
सुभट निषेधतो व्राणथी वीधतो, ग्रहण नवि करण दिये भूप तास ॥ चं०
३१ ॥ शरण करी मरणनुं रणथी विरमे नहीं, निज तणु सैन्य ते साथ ल-
डतुं; मोहनी मूकतो अवसर न चूरुतो, परस्परे अथडाई भूमि पडतुं ॥ चं०
३२ ॥ तेहने मारता भूपति वारता, अगनि वूजे किशुं धूम कूटे; कंठ गत
प्राण तस प्राण नृपति करे, हृदयथी करुणता नृपति छूटे ॥ चं० ३३ ॥ नृ-
पति आर्काषिणी हृटीति चक्रीप्रते, खेंचीने पवनने सुंपी दीधो; नृपति सैन्ये
घणो नृपति आणदपणो, सुरासुरे जयजय शब्द कीधो ॥ चं० ३४ ॥ आ-
ठमा खंडमां, ढाल चौवीसमी पूर्ण कीधी; पन्नविजये मली भविजने सांभली,
श्रीजयानंदनी हूई सिद्धि, एक छत्री थई राजकृद्धि, जगतमां जश कीरति
प्रसिद्धी; पुण्यवंता लहे नवेनिधी ॥ चं० ३५ ॥ सर्वगाथा-७११ इति श्री पं०
प्रवर पन्नविजय ग० विरचिते श्री श्रीजयानंद राजर्षि केवली रासके खेचरेंद्र
श्री श्रीजयानंद भूपति युद्धाधिकारे सप्तमदिनयुद्धं युद्धाधिकार समाप्त.

दुहा.

फुलवृष्टि नृप उपरे, देवे कीधी ताम; देव दुंदुभि आकाशमां, वाजे अ-
ति अभिराम ॥ १ ॥ वाजां चिहुं दिशे वाजिआं, हुओ ते जयजयकार; मो-

द न माये अंगमां, श्रीजयानंद कुमार !! २ ॥ चक्रायुध नररायलं, नि-
र्नायक थयुं सैन्य; भयने खेद विह्वल घणुं, अतिशय करतुं दैन्य ॥ ३ ॥
रथानि अतिरथी सैन्यमां, कोड्यो गमेछे जोय; नाथ विना सहु रांकडा,
खेदने भय लहे तोय ॥ ४ ॥ राहु ग्रहे अथ आथमे, जव ग्रहपाति दिनरा-
ज; पण उद्योत न ग्रह करे, दिवस संवधि भ्राज ॥ ५ ॥

हाळ २५ मी.

कोडि सोनैये कासिदी, मारा चालाजीरे; करनारो नर्हा कोय;

जइने कहेजो मारा चालाजीरे ॥ ए देशी ॥

श्री जयानंद आणा थकी, साजनीआ जीरे, पवनवेग खगराय सुस्रमां
रहेज्यो साजनीआजीरे; चक्रिचमूजे नाशती सा० तस आशासना दाय.
॥ सु० ६ ॥ नासो मां भय मत करो सा०, तुम अम स्वामी छे एक सु०;
श्रीजयानंद नर राजीओ सा०, ते अंगीकरो छेक ॥ सु० ७ ॥ निज निज
राज्यने भोगवो, सा०, तुम स्वामी पण एह सु०, नतवत्सल छे मूकशे
सा०; करुणा केरो ए गेह ॥ सु० ८ ॥ पवननी वात सुणी करी सा०,
श्रीजयने करे नाथ सु०; सैन्य खेचर चक्री तणुं सा०, निर्भय रहे सहु
साथ ॥ सु० ९ ॥ निगड वज्र पंजर दीयो सा० ज्वाला मालिनी जेह
सु०; जडिओ निगडे चक्रीने सा० पंजरमां ठव्यो तेह ॥ सु० १० ॥ औ-
पधी नीरे सज्ज करे सा०, छोडे वली नागपाश सु०; गारुड विद्याये करी
सा०, करुणानिधिनो आवास ॥ सु० ११ ॥ वंधन वीजा भट तणां सा०,
छोडे सर्वना राय सु०; औपधी नीरे सज्ज कर्यो सा०, स्वपर विभाग न
कांय ॥ सु० १२ ॥ सर्व सैन्य प्रणम्युं हवे सा०, मागध व्रज गुण भ्राम
सु०; विरुदावली वोली जते सा०, जय जयरव ठाम ठाम ॥ सु० १३ ॥
आसन्न सेवक पांचशे सा०, स्त्री रूपे परिवार सु०; वाजिन्ननाद सुणी जते
सा०, खेटचक्री रथे धार ॥ सु० १४ ॥ गज वेशीने आवीओ सा० नि-

ज उतारे आवास सु०, गायन गाये गीतने सा०, विविध प्रकार विलास
 ॥ सु० १५ ॥ खेचर भूप विसर्जिया सा०, उतारे गया सर्व सु०; राय क-
 रावे चक्रीने सा०, भोजन छांढिने गर्व ॥ सु० १६ ॥ स्नान पूजा जिननी
 करी सा०, सैन्यशुं भोजन कीथ सु०; विविध मंगल ओत्सव थकी सा०,
 दान वंछित बहु दीथ ॥ सु० १७ ॥ दिवस रात वोलि गयां सा०, वाज्यां
 मंगल तूर सु०, सिंहासन वेठा तदा सा०, श्रीजय पवनादिक भूर ॥ सु०
 १८ ॥ चक्रसुंदरी एणे अवसरे राजनीआजीरे, वीनवे करी मनोहार सु०;
 मूको माहरा तातने रा०, हृदये करुणा अवधार ॥ सु० १९ ॥ मूकीशुं नृ-
 पति कहे रा० मोकली खेचर ताम सु०; वज्र पंजर मंगावीशुं रा०, आख्या
 खेचर स्वाम ॥ सु० २० ॥ श्रीजय कहे चक्री सुणो रा० मौलि कंकण
 तेह सु०; ईष्ट नामांकित लावीए रा० सहू नृप साखथीएह ॥ सु० २१ ॥
 पवन जामाताने सुता रा०, पहेरे तुम धरी आण सु०; जो नवि घडियां
 होय तो रा०, घडो हवे समरथ जाण ॥ सु० २२ ॥ पंजरमां पण छो वि-
 भु रा०, उतावल नथी कांय सु०; बंधथी मारवो सोहिलो रा०, पण न-
 वि मारुं ते ठाय ॥ सु० २३ ॥ ते तुज पुत्री वचनथी रा०, समरथ छुं
 पण मुज सु०; दयाभाव चित्तमां वश्यो रा०, तेणे नवि मारुं हुं तुज
 ॥ सु० २४ ॥ आठमा खंड मांहे कही रा०, पचीशमी वरढाल सु०,
 पद्मविजय कहे पुन्यथी रा०, होवे मंगलमाल ॥ सु० २५ ॥ सर्वगाथा
 ॥ ७३६ ॥

दुहा.

भूप वचन चक्री सुणी, हैयडे दुःख न माय; वज्रपात रणमां थकी,
 मरम वचन दुखदाय ॥ १ ॥ रोवे चक्री दुखथकी, पवनवेग ते देखी; चित्त
 मां करुणा आणीने, बोले एम सुविशेष ॥ २ ॥ मत रोवो बहु कालना,
 तुमे अमचा छो स्वाम; दयावंत नृप वीनवी, मूकावुं छुं आम ॥ ३ ॥ मूका
 वण प्रयोजन नहिं, चक्री कहे सुण वात; जगन जीसो में भोगज्यो, सुचिर
 काल विख्यात ॥ ४ ॥ मुरनर साखे बांधिओ, नारीमात्रे मुज; एह परी-

भव नवि खमी, शकीए कहु छुं तुज ॥ ५ ॥ वीरने मरण रुहुं कहुं, जस के स्वर्गनो ठार; नवि बंधन विटवणा, बली दुर्जन धिक्कार ॥ ६ ॥ साधो सेवक होय तो, सज्ज आप मुज हाथ; बंधमोक्ष करु कर थकी, निज मस्तकने साथ ॥ ७ ॥ पवनवेग निश्चल लही, चक्री मरणनी वात; कहे तुमे जाण पुरुष थई, केम कहो ए अवदात ॥ ८ ॥ तुमने नारे न बांधीया, श्री जयानंद कुमार; सर्व विद्यानिधि एह छे, देवी दत्त वर सार ॥ ९ ॥

हाल २६ मी.

तुमे तो भले विराजोजी, शेत्रुंजगढ के वासि, साहिव भले
विराजोजी ॥ ए देशी ॥

तुमे तो भले विराजोजी, विद्या घरके चक्री, तुमे तो भले विराजोजी; मान मरदिशुं योगिणी केहुं, सर्व विद्या आवास; गुण समुदाय ते नारीमां केम, होवे तेह विमास ॥ तु० १० ॥ महाज्वालाने कामाक्षा बली, बरते एहने नाम; वज्रमुखादिक देव ते जीसा, विक्रम तेजनुं घाम ॥ तु० ११ ॥ अंगना रूप करीने जीसो, ते तुम जणववा हेत; खेद करो मत नारिये बांध्यो, मनमां धरी संकेत ॥ तु० १२ ॥ एह वचन अमृत छटकावे, कांयक पाभ्यो शांति; पवनवेग कहे कर्म तणो इहां, बांक अछे एकांत ॥ तु० १३ ॥ गर्व अग्निए वाली नारुयो, फूल्यो रंज विवेक; जगत विख्यात ए तुम मंत्रिभ्वरे, समझाव्या अतिरेक ॥ तु० १४ ॥ स्त्रीरूपे तुम लश्कर जीत्युं, तोहि नसज्या कांय; पूर्वै स्वामि धरी मे कहेवराच्युं, सेवक रीति कराय ॥ तु० १५ ॥ पंडित श्रुं परधान मोकल्या, दीधो बहु उपदेश, ते अमृतथी गर्व हुताशन, नवि शमिओ लवलेश ॥ तु० १६ ॥ सामान्य जन पण दास नार्माकित, सही न शके तो एह; वीर पुरुष निजपत्नी पराभव खमी शके कही केह ॥ तु० १७ ॥ नारीए बांध्यो अपयश देवा, कीधुं नारि स्वरूप; तेणे तुमे क्रोध अमर्ष गर्वादिक, दोष छांडो मतिरूप ॥ तु० १८ ॥ मस्तक

एहनी आण धरो तुमे, जेम मूके तुमराय; अनन्यगतिक ए वात मुणी तस,
 आण धरे शिराय ॥ तु० १९ ॥ पवनवेग जहराय वीनवे, कीजे कृपा द-
 याल, शौर्यादिक गुण जेम देखाड्या, रूप दासो भूपाल ॥ तु० २० ॥ ट-
 लवले सह तुम रूप जोवाने, मुंझवो केटळो काल; बहु विद्याधर पण एम
 वीनवे, अंजली करी निज भाल ॥ तु० २१ ॥ रूप स्वभावतुं परगट कीधुं,
 पांचसें सुभटतुं तेम, जोवा मिली तव सुभटनी कांडयो, हर्ष आश्चर्य धरी
 प्रेम ॥ तु० २२ ॥ तूर प्रभोदनां राज्यां मघले, मंगल पाठ बोलाय; चक्र सु-
 दरी तत्वनो निर्णय, करती देखी राय ॥ तु० २३ ॥ पवन वेगादिक खेटकराय-
 नी, प्रारथनाए भूप; विद्याए पंजर भेदीने, निगड छेदे करी चूप ॥ तु०
 २४ ॥ मोहटा पुरुपने अति विडंबन, अपराधी पण तोय, करवी न घट्ट एम
 विचारी, मूक्यो चक्रो सोय ॥ तु० २५ ॥ चक्री भूप रूप देखिने, हियडे
 हर्ष न माय; वीसरी गयो ते सर्व पराभव, अचरिज अतिशय थाय ॥ तु०
 २६ ॥ चकीने सिंहासन वेसारे, पवन वेगादिकराय; खेटेश्वर सघला आवी-
 ने, प्रणमे चक्री पाय ॥ तु० २७ ॥ निज स्वामि मूकाणा जाणी, सैन्यने ह-
 र्ष अपार; चक्र वेगादिक सुत चक्रीना, जे वांध्या तेणीवार ॥ तु० २८ ॥
 बीजा पण सहसोगमे वांध्या, मूक्या तेही तेह; नागपाश ते छोडी नारुया,
 सज्ज कर्या वली जेह ॥ तु० २९ ॥ भूप चक्रीने प्रणमे सघला, चक्री आनंद
 थाय; सकल लोक मन अचरिज हूओ, मंगल तूर वजाय ॥ तु० ३० ॥ आ
 ठमे खंडे छात्रीसमीए, पत्राविजये कही ढाल; श्रीजयानंदना रासमां रुही, सु-
 णतां मंगल माल ॥ तु० ३१ ॥ सर्वगाथा ७६७.

दुहा.

हवे तेही चक्रसुंदरी, सोंपे चक्रीने राय; द्यो निज इच्छा होये तिहां, मा-
 हरे अर्थ न कांय ॥ १ ॥ में तो कौतुक मात्रथी, कीधो एह प्रकार; चक्र
 सुंदरी निज तातने, प्रणमी कहे विचार ॥ २ ॥ इच्छाये वर में वरी, तुमने
 आपद दीध; पाप हेतु निज छोरुनो, सप्तो अपराध जे कीध ॥ ३ ॥ चक्री

कहे तारो नथी, इहां अपराध लगाय; प्रतिपद चंद्रधेनुपरें, ते ओलख्यो
भरतार ॥ ४ ॥ डाही कन्या नृप तणी, वरे स्वयंवर सार; विभोत्तम गुणि
आश्रयो, तुज गुणनो नही पार ॥ ५ ॥ गर्व दोष माहरे करी, पाम्यो आ-
पद् एह, तुज प्रारथनाथी मने, जीवतो मुक्यो जेह ॥ ६ ॥ तेणे सह्य सुख-
कारी थयुं, साधु वर्यो भरतार, आणंद लहो ए वातमां, न करो कांय वि-
चार ॥ ७ ॥



हाळ २७ मी.

॥ चावा किसनपुरी, तुम विनां मढीआं उजडपरी ॥ ए देशी ॥

चात सुधाथी ताप गमाय, पुत्रीने हवे चक्रधरराय; मन हरप न माय,
मलियाजी, भलेरे तुमे अहोजी अहो ॥ ए आंकणी ॥ दासी परिवृत मोक-
ले गेह, निज माताने मळी ससनंह ॥ म० ८ ॥ श्याम वदन करी नीचुं
जोय, चक्री चिंतातुर बहु होय म०; रे खगराय तुमे म म करो खेद, श्रीजय
कहे सुणो तेहनो भेद ॥ म० ९ ॥ तुमे उत्तम नरमां शिरदार, जय तो थयो
काकताली प्रकार म०; तुम सम सुभट न जगमां होय, सुर नर मांहे जोतां
कोय ॥ म० १० ॥ दिव्य बल हूं मुजथुं संग्राम, एटलो काल काढथो तुमे
आम म०; एकले विद्या बलथी न कांय, जय पराजय तो कर्मथी थाय ॥
म० ११ ॥ जय अभ्युदय लाभादिक भाव, पुण्य प्रकृष्टना ए परभाव म०;
तप करतां ऊणिम करी कांय, तेणे पराजय पण एणिपरे थाय ॥ म० १२ ॥
हेममां जडें अथवा वींधाय मणि पण पथ्यरने नही कांय म०; जय पराजय
तेम शूरने थाय, कायर तो मनमां मुझाय ॥ म० १३ ॥ एकवार हार्यो पण
वीर, वीरपणुं नवि जाय सुधीर म०; फाल चूक्यो हारि एकजवार, पण मारे
गजवरना वार ॥ म० १४ ॥ सुरवरे मथिओ सायर तोय, सागर ऊणिमता
नवि होय म०; ग्रहित मूकाणो जे वली सूर, पण ग्रहगणनो हरतो नूर ॥
म० १५ ॥ अमावास्या लोपाए चंद्र, पृष्ट करे अमृते सुरवृंद म०; गोधूम-

रेखा सहित पीछाण, पण सह्य कणथी शिरोमणि जाण ॥ म० १६ ॥ घसी
 यो वैदूर्य नहोए काच, हंस मलिन केम कागनी वाच म०; गोत्रमां चक्र न
 चाले कोय, पण परनो संहार करे सोय ॥ म० १७ ॥ अश्रिनुं जोर न ज-
 लमां थाय, पण सह्युथी तेजवंत कहाय म०; महादेव लिंग छेद्युं पण लोक,
 आराथे जन थोके थोक ॥ म० १८ ॥ इंद्रपणुं नवि जाए सार, जो पण हू-
 आं भग हजार म०; रथ जोडे ऋषि हरिने नार, दैखने मारे हरि निरधार
 ॥ म० १९ ॥ महादेवे बाल्यो छे काम, पण जग जीते ए अचरिज ठाम
 म०; भाइए जीसो भरतजराय, पण चक्रवर्त्तिपणु नवि जाय ॥ म० २० ॥
 खेदतजो तुमे मोहटाराय, राज्य भोगवो निज जई थिर थाय म०; कोईक
 कर्म थयो संग्राम, आपणे पण एक सांभलो आम ॥ म० २१ ॥ मुज मन
 वाधे अधिको नेह, तुमे देखी भ्रातापरे एह म०; तेणे पुरवभव जाणुं एम,
 मित्र अछो ज्ञानी लहे नेम ॥ म० २२ ॥ खेद पमाढथो रणमां तुम, ते अ-
 पराध खमो तुमे अम म०; श्रीजय वचने खेद पलाय, खेट चक्री कहे सां-
 भलो राय ॥ म० २३ ॥ निपजावी विधिये तुम एक, मूर्त्ति गुणवंती सुवि-
 वेक म०; शूरपणु ने परउपकार, सज्जनता नय धर्म विचार ॥ म० २४ ॥ स-
 मर्थ गुण स्तववा नहीं इंद, तुम तो मोहाटा महाराजेंद म०; क्रोध अज्ञान
 अने अभिमान, हुं तो परवश खूतो निदान ॥ म० २५ ॥ पडित पवननाने
 परधान, शिक्षा दीधी मुज असमान म०; पण मद अंध हाथीपरे तेह, अं-
 कुश नवि मानी में रेह ॥ म० २६ ॥ गुणवंता तुमे मानवा योग, में अपमा-
 न्या कर्म संयोग म०, तुम अपराधन छे एम रेल, मुज अपराध खमो सुवि-
 शेष ॥ म० २७ ॥ शलभ पोते बले दीपे जेह, दीवानो अपराध, न तेह म०;
 समर्थ ने वली तुं लघु बाल, रणमां मार्यो न तें तेणे ताल ॥ म० २८ ॥ द-
 या धरम ताहरो अद्भूत, अपराधी उपर ए आकूत म०; तुज उपर आवे,
 मुज स्नेह, निश्चय परभव मैत्री स्नेह ॥ म० २९ ॥ सत्तावीसमी भास्त्री ढाल,
 आठमा खंड, मांहे सुरसाल म०, गुणिजन मलियां गुण, बहु थय, पद्य
 कहे सह्य सटपट जाय ॥ म० ३० ॥ सर्वगाथा ७९७.

दुहा.

मुज उपर सुप्रसन्न थई, मुज पुरकरो पवित्र; प्रार्थना भंग भीरू तुमे, तुम
अद्भूत चरित्र ॥ १ ॥ कुमरे मानी वीनती, हवे खेचर नरराय; सैन्य सहित
पुरमां जई, शणगारे चित्तलाय ॥ २ ॥ माणिक थंभनी श्रेणिमां, पचाली
शुभ रूप; चामर श्रेणि वींझती, रंभाने अनुरूप ॥ ३ ॥ फरके ध्वजा तिहां
चिहुं दिशे, घर घर तोरण माल; मंचा श्रेणि ते मांडिआ, राजा पंथे सुवि-
शाल ॥ ४ ॥ गीत गान गोरी करे, वाजिन्न ध्वनि संगीत; मंच उल्लोचे सो-
हता, मुक्ता गुच्छ पवित्त ॥ ५ ॥ चंदन जलथी खेचरा, पंथ करे छटकाव;
वस्त्र हेम मणि प्रसुखथी, हाट शणगारे साव ॥ ६ ॥ मणि मोतीना पूरी-
आ, स्वस्तिक घर घर वार; धूप घटी बहु महमहे, विविध सुगंध द्रव्यसार
॥ ७ ॥ फूल विछाया पंथमें, थंभे फूलनी माल; नगर सुगंध मयी थयुं, वि-
स्तर्षो गगन विशाल ॥ ८ ॥ हवे नररायने तेढवा, खगपति लेई परिवार;
वीनवे आवी पधारीये, लेई परिवार सुसार ॥ ९ ॥

हाळ २८ मी.

॥ बलद भलाळे सोरठीरे लोल ॥ ए देशी. ॥

नरपति मानी विनतीरे लो, साथे विद्याघर केइ कोडरे सोभागी; बयरी
ना मद सविमोडिरे सो०, कुण आवे एहनी तोडिरे सो०; जेहनी नहीं जगमां
जोडीरे सो०, कोण करशे एहनी होडीरे. ॥ सो० १० ॥ जय जय भणे न-
रनारियां हो लोल ॥ स्वतगजेंद्र उपर चढ्योरे लोल, अहिरावण शिरजिम
इंदरे सो०; छत्र मिप सेवाये आव्यो चंदरे सो०, वींझे चामर खेचरी वृंदरे
सो०; खीर सायर जर्मि अमंदरे सो०, चामर मिप सेवे नरिंदरे. ॥ सो० ११ ॥
कोड्यो गमे तूर वाजतेरे लोल, जशनी परेव्याप्युं आकाशरे सो०; गायन
स्तवे गुण सुविलासरे सो०, वंदि विरुदावलि बोले तासरे सो०; गाये घ-
वल मंगल खीओ रासरे सो०, थाये नाटिक पगपग खासरे सो० ॥ ज०

१२ ॥ खेचर बहु गगने चलेरे लो, मानु स्वर्गने पृथ्वी एकरे सो०; कल्प
 वृक्षनी परे धरी टेकरे सो०, जाचकने दान अनेकरे सो०; एतो धनदं कहायो
 छेकरे सो०, धरतो अतिशय सुविवेकरे सो० ॥ ज० १३ ॥ चामर छत्रशुं
 गज चढ्योरे लोल, विद्याधर चक्ररिायरे सो०; तेनो परिवर्योछे युवरायरे
 सो०, मणि मोतीना समुदायरे सो०; विद्याधरी वृंद वधायरे सो०, लुंछ-
 णां हेमवस्त्र करायरे सो० ॥ ज० १४ ॥ अद्भूत रूप शोभा धरेरे लो,
 पहेर्या दिव्य वस्त्र अलंकाररे सो०; राजपथ ओलंघी उदाररे सो०, आ-
 व्या चक्रीने घरवाररे सो०, उत्तरे गजवरयी तिवाररे सो०, चक्रि करालं-
 वन धाररे सो० ॥ ज० १५ ॥ स्फटिक भित्ति कोई स्थानकेरे लो, कहीं
 वैदूर्य मणिद्रो चांतिरे सो०; पद्मराग कुट्टिम वन्दिकांतिरे सो०; मरकत
 वद्ध कहीं भूपांतिरे सो०; नरपति जोतो मन खांतिरे सो०, पेठा चक्रीने
 ने शांतिरे सो० ॥ ज० १६ ॥ सभा सौधर्म सभा समीरे लो, मणिशिं-
 हासने नृप ठायरे सो०; पासे सिंहामने खेटरायरे सो०, रविचंदपरे सोहा-
 यरे सो०; मल्या खेचरना समवायरे सो०, निज पर विभाग न जणायरे
 सो० ॥ ज० १७ ॥ सौधर्म इशानेंद्र परेरे लो, प्रणमे सहु तस पायरे सो०
 हवे केइ विद्याधर रायरे सो०, वैताढ्यमां वस्तु जे थायरे सो०; सारसारते
 भेटणु लायरे सो०, हयगय पत्ति समुदायरे सो० ॥ ज० १८ ॥ वस्त्र शस्त्र
 बहु मूलनारे लोल, भेटणा मुक्के तामरे सो०; आदर दिये तस अभिरामरे
 सो०, विसर्ज्या ते जाय निज ठामरे सो०; नृपना करता गुण ग्रामरे सो०,
 अतिशय आनंद मन पाम सो० ॥ ज० १९ ॥ स्नानादिक किरिया करेरे
 लोल, चक्रीवियणे भूपालरे सो०; चक्री सेवा करे सुरसालरे सो०, चक्री-
 प्रार्थना करे तिण तालरे सो०; चक्रमुंदरी दिये निज वालरे सो०, मन
 वळित फल्या ततकालरे सो० ॥ ज० २० ॥ पूर्व वचन संभारतारेलो, भोग
 रसादिक वत्रीसरे सो०; निज कन्या चढत जगीसरे सो०, पाणि ग्रहण मा-
 ने नर ईशरे सो०; बीजा खेचर जंह अधीश रे सो०, चित्त धारी विश्वा
 वीशरे सो० ॥ ज० २१ ॥ निज निज कन्या भुपतारेलो, आठ अधिक

मली हजाररे सो०; ते तो रूपे रति अनुहाररे सो०, तेढ्यो ज्योतिषी ज्ञान उदाररे सो०; दिले लगन उत्तम मनोहाररे सो०, शुक्ल पक्षने शुभ तिथि वाररे सो० ॥ ज० २२ ॥ ग्रह बल जोड् आपियुरेलो; देइ निमित्तिआने दान रे सो०; वली आदरने बहु मानरे सो०, निज नगरे जई सामानरे सो०; करी आच्या सहू तेणे थानरे सो०, चक्री ने हर्ष अमानरे सो० ॥ ज० २३ ॥ पाणि ग्रहण श्रीजय करेरलो, करमोचन वेला दीधरे सो०; ह्यगय रथ पत्ति प्रसिद्धरे सो०, बहु आभूषण समृद्धरे सो०; मानुं स्वर्गथी मोले लीधरे सो०, सहू खेटराय दिण निद्धरे सा० ॥ ज० २४ ॥ सुख विल- शे मणि साधमारलो, रमे पत्नीशुं नृप हवेरे सो०; जेम देवांगनाशुं देवरे सो०, करे चक्री अर्क्षनिश सेवरे सो०; एहने परउपगारनी देवरे सो०, तेहथी पाम्यो रीद्धि स्वयमेवरे सो० ॥ ज० २५ ॥ श्रीविजयसिंह सूरिस- रुरेलो, तेहना सखविजय पन्यासरे सो०; शीष्य कपूरविजय तस खासरे सां०, जेहनुं जग नाम प्रकासरे सो०; तस खिमाविजय शुभवासरे सो०, ते तो क्षमा तणो आत्रासरे सो० ॥ ज० २६ ॥ जिनविजय वर तेहनारेलो; तस पंडित प्रवर प्रधानरे सो०; श्री उत्तमविजय अभिधानरे सो०, तेहनो नाम परिणाम समानरे सो०; जेहनुं चित्त ज्ञानने ध्यानरे सो०, किरिया करता अनिदानरे सो० ॥ ज० २७ ॥ आठमा खंड माहे कहीरेलो, ए अ- टाचीशमी ढालरे सो०; खंड पूरण थयो सुरमालरे सो०, श्री उत्तमविजय नो वालरे सो०; कहे पद्मविजय सुविशालरे सो०; सुणतां होये मंगल माल- रे सो० ॥ ज० २८ ॥ सर्वगाथा ८२५ इति श्रीमदुत्तमविजय ग० विनेय ॥ पं० पद्मविजय ग० विरचिते श्रीश्री जयानंद महाराजाधिराज केवल्लि चरित्रे प्राकृत प्रबंधे चक्रायुद्ध विद्याधर चक्रवर्तिजय चक्रसुंदर्यादि बहु सहस्र कन्या पाणिग्रहणादि पुण्यफलप्रकटनानु भवनादिविवर्णनो नाम अष्टमः खंडः समाप्तःसप्तमखंडेगाथा ४२३५ अष्टमखंडे ८२५ सर्वगाथा ५०६० स- म्पत्तखंडे उक्तश्लोक ८० अष्टमखंडे उक्तश्लोक ५ सर्व थइ उक्तश्लोक ८५ स- वैयो १ समन्या १ ॥ इत्यष्टमखंडः समाप्तः ॥



अथ नवम खंडः प्रारभ्यते.

दुहा.

शांतिनाथ प्रभु सोलमा, स्वर्णकाय सुखदाय; मनमां वसतां आपदा, प-
न्नग दूर पलाय ॥ १ ॥ पुरुपादाणी पासजी, जे टाले भव पास; इह भव
पण भन्नि जीवनी, वंछित पूरे आश ॥ २ ॥ वचन सरम सरसती दीये, गुण
गुरु गुरु श्रुत दाय; दीक्षा विद्या गुरु नमुं, भवतारण सुसहाय ॥ ३ ॥ आठ
खंड एणिपरे कहा, नवलो नवमो खंड; नवर समय हुं वर्णवु, सांभलो
तेह अखंड ॥ ४ ॥ सांभलतां ने संघशे, विकथा करशे जेह; समुच्छिमपरे हा-
रशे, धर्म अर्थ वली तेह ॥ ५ ॥ अधवच उठी मत जशो, मत हुलवारो
वाल; आहुं अवलुं मत जूओ, जो सुणो वयण रसाल ॥ ६ ॥ वदन प्रसन्न
करी सांभले, समजे रहस्यनी बात, पूर्वापर सवि मेलवे, श्रोता ते कहेवा-
त ॥ ७ ॥



हाळ १ ली.

॥ घोडी ते आई थारा देशमां मारुजी ॥ ए देशी ॥

एक दिन वेठा सभा करी राजनजी, चक्री प्रमुख परिवार हो; सुणो धर्म
सनेही प्राणिआ राजनजी, वनपालक भूपालने रा०, कहे विनती अवधार
हो ॥ सुणो० ८ ॥ तात खेचर चक्री तणारा०, पाठधार्या उद्यान हो सुणो०;
वहु परिवारे परिवर्या रा०, चक्रबल अभिधान हो ॥ सु० ९ ॥ सांभली
भूपति हरखिआ रा०, आनंद अंग न माय हो सु०, हर्ष दान दीये तेहने
रा०, शासन उन्नति थाय हो ॥ सु० १० ॥ पूर्वे अति वैरागीया रा०, पा-
क्या पराभव जेण हो सु०; गुरु आगमन सुणी तदा रा०, शर्करापय न्याये
ण हो ॥ सु० ११ ॥ हर्षथी भूपने खगपति रा०, अतेउरं परिवार हो सु०;

कोडचो गमे खग परिवर्था रा०, गज वेशी छत्रधार हो ॥ सु० ॥ सूरी
 वांदवा नीकल्या रा०, अनुक्रमे पोहोसा उद्यान हो सु०; पंचाभिगम ते
 साचवी रा०, ऋण प्रदक्षिणादान हो ॥ सु० १३ ॥ वंदे गुरुने विधि थकी
 रा०, गुरु पण दीये धर्मलाभ हो सु०; वेढा सुणवा धर्मने रा०, उचित
 थानक उत्साह हो ॥ सु० १४ ॥ धर्म देशना गुरु दीये रा०, जैन धर्म
 जगसार हो सु०; आपे त्रिभुवन संपदा रा०, ऋण जगत आधार हो
 ॥ सु० १५ ॥ सुख अर्थी सवि प्राणिआ रा०, पण सुख दोय प्रकार हो
 सु०; अक्षय सुख पहेलुं कहुं रा०, निरुपाधिक अविकार हो ॥ सु० १६ ॥
 विषयादिकथी उपनुं रा०, बीजुं सुख दुख रूप हो सु०; ओलखुं जिन शा-
 सन जेणे रा०, ते न पडे भवकूप हो ॥ सु० १७ ॥ प्रथमज सुख अंगी करे
 रा०, विषयथी चिहुंगति दुःख हो सु०; शीत ताप ज्वर कंदूनां रा०, नर-
 कमां दुख वली भूख हो ॥ सु० १८ ॥ दुर्गंध फरस कठिन घणो रा०, सु-
 रकृत बहु संताप हो सु०; ते दुखथी वीहे नहीं रा०, विषय अर्थे करे पाप
 हो ॥ सु० १९ ॥ ब्राह्मने वहेवरावचु रा०, अहोनिशि तापने शीत हो सु०;
 भूख तरपने बायरा रा० दुख सहे तिर्यच निख हो ॥ सु० २० ॥ निजपर
 जातिनो भय घणो रा०, परवशपणुं असराल हो सु०; स्रमिया ने स्रमशे
 वली रा०, दुख पण वीहे न बाल हो ॥ सु० २१ ॥ इर्षा पराभव निर्वलने
 रा०, देखी वली गर्भावास हो सु०; ते दुखथी लाजे घणो रा०, शुं सुख
 देव आवास हो ॥ सु० २२ ॥ इष्ट वियोग अनिष्टनो रा०, पाये वली सं-
 योग हो सु०; साते भय वली मनुजमां रा०, कुपुतने वली रोग हो ॥ सु०
 २३ ॥ विरसता मानव भव तणी रा०, कहेतां नावे पार हो सु०; सरस करे
 धर्म आदरी रा०, घन्य तेहनो अवतार हो ॥ सु० २४ ॥ महा पराभव श्र
 त्तु थकी रा०, पुत्र कलत्र अविश्वास हो सु०; मरण भीक अति आकरी
 रा०, वली दुर्घ्यान अभ्यास हो ॥ सु० २५ ॥ परिग्रह आरंभ बहु करे
 रा०, पाप करी अति घोर हो सु०; मरण लहीने परभवे रा०, दुख स्वमे

अति जोर हो ॥ सु० २६ ॥ बली कपाय उदरिता रा०, चालता राक्ष-
स तेह हो सु०; पूरव पुण्य खाली करे रा०, विषय वेताळ बली जेह हो
॥ सु० २७ ॥ नाश करे विवेकनो रा०, राज्य ते नरकनुं टाय हो सु०, मा-
चे राज्यमां पण नहीं रा०, दुखतायक कोइ थाय हो ॥ सु० २८ ॥ राज्ये
मरण न राखीयुं रा०, रोगने भय विध्वंस हो सु०; न कर्यो तो मद रा-
ज्यनो रा०, करतां होय गुणभ्रश हो ॥ सु० २९ ॥ राज्यमां धर्म न करी
शके रा०, राज्यमां बहु जंजाल हो सु०; पुत्र कलत्र सहु स्वारथी रा०,
लक्ष्मी अनिख संभाल हो ॥ सु० ३० ॥ मोह तजी राज ऋद्धिनां रा०, धर्म
करो निरावाध हो सु०; धर्म ते वेहु भेदे कसो रा०, गृहि जति धर्म सूसाध
हो ॥ सु० ३१ ॥ पोहचाडे स्वर्ग वारमें रा०, अनुक्रमे शिवपद थाय हो
सु०; उतकृष्टो गृही धर्मए रा०, बीजो तुरत शिवदाय हो ॥ सु० ३२ ॥
पण यति धर्म आराधीए रा०, तुरत दीये देव वास हो सु०; दान पूजा
गृहि धर्ममां रा० श्रद्धा व्रत बली खास हो ॥ सु० ३३ ॥ आवस्यक संघ पू-
जना रा० ए वेहु धर्ममां एक हो सु०; यथाशक्ति अंगीकरो रा०, अंग
धरीय विवेक हो ॥ सु० ३४ ॥ नरभव पामी दांहिलो रा०, कोण करे धर्ममां
ढील हो सु०; मरण बीहक केम गइअछे रा०, आधि व्याधिनी पाल हो
॥ सु० ३५ ॥ के फरी आवबुंछे नहीं रा०, के नहीं दुर्गति दुख हो सु०;
उद्यम न करो धर्मनो रा०, जेहथी लहो शिव सुख हो ॥ सु० ३६ ॥ नव-
मे खंडे ए कही रा०; पहेली देशना ढाल हो सु०; पञ्च विजय सोहामणी
रा०, सुणतां मंगल माल हो ॥ सु० ३७ ॥

दुहा.

एणिपरे सांभली देशना, प्रणमे श्रीगुरुपाय; करजोडीने वीनवे; श्री
जयानंदजीराय, ॥ १ ॥ शक्ति नथी चारित्रनी, दुष्कर संयम भार; सम-
कित मूल में आदर्थां, पहेलां अणुं व्रतचार. ॥ २ ॥ नियम ग्रह तुम सा-
खथी, पूजा अष्ट प्रकार; बली गुरुयोगे प्रणमिने, करथुं नित्य आहार.

॥ ३ ॥ परव दिने नित्ये आदरु, ब्रह्मचर्य मनोहार; आरंभ वर्जुं ते दिने,
साधर्मिक सतकार. ॥ ४ ॥ चैत्र प्रमुख अठाइए, वर्तावुं अमार, जिन प्रा-
साद ने विंववली, सहस्र गमे करुं सार. ॥ ५ ॥ पुस्तक वली लखावशुं,
जिनवर भाषित जेह; संघ चतुर्विध पूजशुं, विधि पूर्वक ससनेह. ॥ ६ ॥
श्रावक व्रतधारि तणो, कर नवि लेशुं कोय; दानादिक वली आचरुं,
दीन अनाथ जे होय ॥ ७ ॥ जिनशासन पर भावना, करशुं बहु प्रकार;
गुरु कहे राजन सांभलो, पालजो चित्त उदार. ॥ ८ ॥ धर्म तलनुं रहस्य
ए, पाले कर्म क्षय थाय; पुण्यानुबंधी पुण्य जे, एहथी बहु वंधाय. ॥ ९ ॥
निश्चल थइ आराधजो, मोक्षना मुख होयेजाव; मणमी नरपति वीनवे, अ-
वसर पामी ताव ॥ १० ॥ एणेभव होशो के नहीं, भगवन चारित्र मुज; तव
गुरु कहे तुज होयशो, हरख्यो सांभली गुज ॥ ११ ॥



ढाल २ जी.

॥ संयमथी मुख पामीये ॥ ए देशी ॥

खेचर चक्री एम भणे, विनयें वंदी पाय सुगुरुजी; पाम्यो पराभव सं-
गरे, कांयक वृह्यो ताय सु०; तुम वयणां अति मीठडां ॥ १२ ॥ तुम वय-
णे हवे वृह्यीयो, लेशुं संजम भार सु०, राज्य यकी हुं विरमीओ, जाण्यो
असार ससार सु० ॥ तु० १३ ॥ राज्य स्वस्थ करी आवशु, तुम घासे
निरधार सु०; तावत्काल कृपा करी, रहेवुं मुज उपगार सु० ॥ तु०
१४ ॥ एम कही गुरुना पय नमी, केइक समकीत धार सु०; देश
विरति केइ आदरी, आवे निज आगार सु० ॥ तु० १५ ॥
हवं विद्याधर राजियो, मंत्रीशुं करीय विचार राजनजी; स्नेहथी श्रीजया-
नदने, बोलावे अति प्यार रा० ॥ तु० १६ ॥ राज्य तुमे वैताद्व्यनु, मुज
जीतिने लीष रा०; ते कारण तुमने हवं, करुं अभिवेक प्रसिद्ध रा० ॥ तु०
१७ ॥ कहे श्रीजय मुज खप नहीं, निज राज्ये सतापे रा०; आपो निज

सुतने तुमे, योग्य छे ते सुविशेष रा० ॥ तु० १८ ॥ दूर थकी पण तेहनी,
 रक्षा करशुं निख रा०; तुमपरे हित धरशुं सदा, चिंत्ता न करवी चित्त रा०
 ॥ तु० १९ ॥ खेचरपति कहे सांभलो, तुम खोले छे एह रा०; राज्य तो
 एहतु मारहुं, एहमां नहीं संदेह रा० ॥ तु० २० ॥ तुमे एहने वली आपज्यो
 तुम रूचि होये जेह रा०; में पण एहवुं सांभल्यु, सांभलो कहिए तेह रा०
 ॥ तु० २१ ॥ भरत अर्धना अधिपति, तेम वैताढथ समेत रा०; ज्ञानीये
 भाख्यं में सांभल्युं, कळ अभिपेक ते हेत रा० ॥ तु० २२ ॥ प्रार्थना भंग
 न कीजीये, थाये धर्म अंतराय रा०; मौन करे तव भूपति, तव खेचरपति
 राय रा० ॥ तु० २३ ॥ थापी मणिसिंहासने, सामग्री सवि युत्त रा०, प-
 वन वेगादिक खेचरा, कोड्यो गमे संयुत्त रा० ॥ तु० २४ ॥ राज्यभिपेक
 करे तिहां, महा महोत्सव विस्तार रा०; चक्र वेगादिक पुत्रने, साँपे सेना भं-
 डार रा० ॥ तु० २५ ॥ प्रणमे खेट चक्री तदा, तेम सहू खेचरराय रा०;
 इंद्र रूपांतरे आवीओ, तेम शोभा तस थाय रा० ॥ तु० २६ ॥ करे अठाई
 महोत्सव वली, संघ भक्ति सुविशाल रा०; पडह अमारि वजावतो, मास
 लगं खगपाल रा० ॥ तु० २७ ॥ आठ सहस्र खगराजीआ, राणीयो सोल
 हजार रा०; सज्ज थयां सहू सामटां, लेवा संजम भार रा० ॥ तु० २८ ॥
 शक्र तीर्थकरनीपरे, ओत्सव श्रीजयानंद रा०; चक्रवेगादिकशुं करे,
 मंगल स्नान खगेंद रा० ॥ तु० २९ ॥ देव दृष्य पहेरावता, दीपता अति
 अलंकार रा०; वेठा प्रवर विमानमां दीक्षा उत्सुक परिवार रा० ॥ तु० ३० ॥
 चामर छत्र धरावता, चंद्र उज्वल अनुहार रा० कोड्यो सुभटशुं नरपति
 चाले आगल तेंणीवार रा० ॥ तु० ३१ ॥ विद्याधरी कोड्यो गमे, वेठी
 चाले विमान रा०; गीत गान करती थकी, देता दीनने दान रा० ॥ तु०
 ३२ ॥ वंदि विरुद बोली जते, नाटक नव नव रंग रा०; देवता जय जय
 रव करे, हर्ष धरी उल्लरंग रा० ॥ तु० ३३ ॥ वाजे देवनी दुंदुभि, पग पग
 देता दान; रा० आख्या गुरू चरणेक्रमे, नगर वाहिर उद्यान रा० ॥ तु०
 ३४ ॥ उत्तरिआ ते विमानथी, सहू साथे करे लोच रा०; गुरूने एणिपरे

चिनवे, छांडी मन संकोच रा० ॥ तु० ३५ ॥ भवसायरथी तारीये, गुरु पण ते-
हने ताम रा०; विधिपूर्वक दीक्षा दीये, सहुने गुरु गुण धाम रा० ॥ तु०
वास सुगंध गुरु दीये, सुर संघने अभिराम रा०; सहु मली तस मस्तक
ठवे, जयजयकार उद्दाम रा० ॥ तु० ३७ ॥ हित शिक्षा सवि संघने, देश-
ना दीये गुरुराय रा०; वंदी गुरुने नरपति, वंदे चक्री ऋषिराय रा० ॥ तु०
३८ ॥ नवमे खंडे बीजी कही, पद्मविजय एम ढाल रा०; ओत्सव रंग वधा-
मणां, घर घर मगळ माल रा० ॥ तु० ३९ ॥ सर्वगाथा ७६

दुहा.

चक्रायुधने खमावता, नरपति निज अपराध; शेष मुनिश्वरने वली,
प्रणमे भक्ति अगाध ॥ १ ॥ सहु निज निज थानक गया, गुरु विचर्या
अन्य ठाण, बहु परिवारे परिचर्या, द्विविध शिक्षा दीये दाण ॥ २ ॥ श्री
जयानंद नृपति हवे, बहु विद्याधर छंद, चक्रवेग पवनादिका, सेवे हर्ष अ-
मंद ॥ ३ ॥ वैताढ्यने अन्यद्वीपमां, वली वासी वली जेह; अन्य पर्वतना
नावीथा, सेवा अर्थे तेह ॥ ४ ॥ सेनाशुं जइ तिहां कणे, लीलाए जय की-
ध; एम विद्याधर चक्रिनी, पदवी थई प्रसिद्ध ॥ ५ ॥ सुखमां इम रहेतां थकां
गगन बल्लभपुर मांहि; काल केतो एक काढीओ, धरता अग उत्साहि ॥ ६ ॥

ढाल ३ जी.

दक्षिण दोहिलो होराज ॥ ए देशी ॥

एक दिन सूतां होराज, रयणी समये होराज, लंघे के जागेरे, भाखे सु-
रवर एणि पेरजी; नृप कहे जागुं होराज, तव सुर बोले होराज; गिरि-
चूड नामेरे, देष हु आन्यो तुज घरेजी ॥ ७ ॥ तें प्रतिबोध्यो होराज,
इहां आन्यो होराज, तेहने हेतुरे सांभळ तुजने हुं कहुजी; तापस बोधी
होराज, श्रावक कीषा होराज, फरी तुमे नाव्यारे वाट जूए तुमची सहुजी
॥ ८ ॥ हेमप्रभ सूरु होराज, तेहनी चाणी होराज, सांभली मनमांरे, तेह

घणुं वैरागीयाजी; तापस सुंदरी होराज, विघननो हेतु होराज, दीक्षा लेवा
 रे, सहु इच्छे चित्त जागीयाजी ॥ ९ ॥ ए प्रतिवध होराज, व्रत न लेवाए
 होराज; तेणे तिहां आवीरे, निज प्रिया निज पासं करोजी; विघन ते ट-
 लशे होराज, सहु व्रत लेशे होराज, विण अपराधेरे नारी वियोग शाने घ-
 रोजी ॥ १० ॥ अठम करीने होराज, मुज आराध्यो होराज, ज्ञानीने वच-
 नेरे, जाणीने आव्यो इहांजी; तुमने जणव्युं होराज, गयो एम कहीने हो-
 राज, गुण संभारीरे, पत्नीना नृप चित्तवे तिहांजी ॥ ११ ॥ मात पिताने
 होराज, मलवा मनडुं होराज, तेणे वर खेचरेरे, तेडी विचार करी हवेजी;
 चक्री सुतने होराज, चक्रवेगने होराज, उत्तर श्रेणिनोरे, अधिपति करी
 राज्ये ठवेजी ॥ १२ ॥ बीजा भाइने होराज, उचित ते दीधां होराज, नग-
 र पुरादिकरे, आपी सहु संतोषीयाजी; अधिपति कीधो होराज, दक्षिण श्रे-
 णिनो होराज, पवनवेगनेरे, नरपतिये घणुं पोषीयोजी ॥ १३ ॥ ग्रास
 पूरवळा होराज, सहुने दीधा होराज, केइने दीधारे वलीअ नवा सेवक
 भणीजी; निष्फळ न होये होराज, कीधी सेवा होराज, गुणनिधि साहिवरे,
 संभारे ते सहु तणीजी ॥ १४ ॥ विरुद्ध खमावी होराज, योग्य खेचरने
 होराज, पूछी बहुलुंरे, सैन्य सहित नृप चालीआजी; बेशी विमाने होराज,
 सवि प्रिया साथे होराज, पवनवेगादिक रायरे, चक्रवेगधुं म्हालीयाजी ॥ १५ ॥
 खगपति कोडयो होराज, साथे चाल्या होराज, अनुक्रमे आव्यारे,
 तापस आश्रम जिहां कणेजी; प्रतिपत्ति करीने हो राज, तापस तो-
 ष्या होराज, रोती आश्वासेरे निज प्रियाने धैर्य घणेजी ॥ १६ ॥ हेम
 प्रभ गुरुजी होराज, ज्ञाने जाणी होराज, व्रतनो अवसररे, अनुग्रह करीने
 पधारीयाजी; गिरिचूड देव होराज, नरपति मलीने होराज, करता ओ-
 त्सवरे बहुविध मनमां धारियांजी ॥ १७ ॥ हेमजट प्रमुख होराज, ता-
 पस सघळा होराज; लेवे दीक्षारे, शिक्षा गुरुनी चित्त घरेजी; करे प्रशंसा
 होराज, तापस केरी होराज; करकज जोडीरे, विनय धरी बहु आदरेजी
 ॥ १८ ॥ मुनिवर प्रणमी होराज, नारिने लेई होराज, लक्ष्मीपुरनेरे, बा-

हिर आढ्या ते वहीजी, गगन ते छायां होराज, विद्याधरशुं होराज; नरप-
 ति विजयरे, जाणे ऋतु आढ्यो सहीजी ॥ १९ ॥ युद्ध सामग्री होराज, नी-
 कले करीने होराज; विद्याधर दाय तामरे, श्रीजयानंदजी भोकलेजी; प्रणमी
 भाखे होराज, तुमसुत आया होराज; लक्ष्मी लीलारे, श्रीजयानंदनी को कले-
 जी ॥ २० ॥ हर्ष आश्रय होराज, भूपति पामे होराज; बहुली ऋद्धिरे, पुत्र
 आगमन सुणी करीजी; उचित ते आपी होराज, करिवरे वेशी होराज;
 साहमा आवेरे चित्त प्रमोद घणो धरीजी ॥ २१ ॥ उत्तरे विमानथी होराज,
 श्रीजयानंद होराज; प्रणमे तातनारे, चरण सरोज सुहंकरुजी; खेचर सह
 ए होराज, सह प्रिया साथे होराज; प्रणमे नृपनेरे, बोलावे वयण मनोहर-
 जी ॥ २२ ॥ नवमे खडे होराज, जीजी ढाल होराज; श्रीजयानंदनेरे, रासे
 पद्मविजय कहीजी; हर्ष मलिआ होराज, सुखमां भलीआ होराज; पुत्र
 पितायेरे, अंतर प्रीति बहु लहीजी ॥ २३ ॥ सर्वगाथा ९९

दुहा.

शुक्र जयंतपरे विहु, पेठा नयर मोझार; प्रिया सहित माता प्रसे, प्रणमे
 हर्ष अपार ॥ १ ॥ पुत्र पुत्रवधु देखीने, मनमां हर्ष न माय; श्रीजय पूर्वापर
 प्रिया, बोलावे चित्त लाय ॥ २ ॥ मधुर वय प्रिया सांमलि, धरती अतिज्ञ-
 य प्रीति; गौरी गिरीश चंद्रकुमुदिनी, गज रेवानी रीति ॥ ३ ॥ श्रीविजयनी-
 परखदा, माहे अवसर पापि, पवनवेग श्रीजयतणुं, चरित्र कहे अभिरापि
 ॥ ४ ॥ सांमळी चित्तमां चमकिया, परखदने वली ताय; स्तवना करता
 सह जना, हैयडे हर्ष न माय ॥ ५ ॥

ढाल ४ थी.

॥ आवू अचल रळियामणोरे जिन राजे छे ॥ ए देशी ॥


मध्य खंड हवे साधवा, जस गाजे छे, श्रीजयानंद राजान, ठकुराइ छाजे
 छे; पहेलां पूरव दिश भणी जस०, साथे सामंत प्रधान ॥ ठकु० ६ ॥ सेना

चतुरंगी करी ज०, सहू राजवी कीधा जेर ठ०; पूरव सायरतट लगे ज०, बलवंती जस समशेर ॥ ठ० ७ ॥ वंग कर्लिंग कार्लिंगना ज०, देशना जीखा सहू राय ठ०; पग पग जस थंभ रोपीआ ज०, नाम सांभली नमवा आय ॥ ठ० ८ ॥ महेंद्रनाथ मुख राजिआ ज०, जे कोइनी न माने आण ठ०; जोर करी ते जीतीआ ज०, थाप्या पोते ते ठाण ॥ ठ० ९ ॥ लीधा दंडने भेटणां ज०, हवे कांठे कांठे जाय ठ०, पूगी तांबुली प्रमुखना ज०, वृक्षे शोभित वनराय ॥ ठ० १० ॥ दक्षिण दिश आव्या हवे ज०, कावेर प्रमुख जे देश ठ०; जीती भेटणे लीधलां ज०, मुक्ताफल प्रमुख अशेष ॥ ठ० ११ ॥ जास वंता लख्खो गमे ज०, मानुं सूरयना केकाण ठ०; सहस्र गमे गज राजीआ ज०, आपे नृप मानी आण ॥ ठ० १२ ॥ मरिच चंदन जे एलची ज०, सैन्यने पण भोगमां थाय ठ०; सह्य दर्दुर मलयगिरि ज०, ओलंधे श्रीजयराय ॥ ठ० १३ ॥ केरलादिक नृप जीतने ज०, पश्चिमदिश आव्या जाम ठ०; युद्ध करीने जीतीआं ज०, पारसी प्रमुख नृप ताम ॥ ठ० १४ ॥ मूके प्रणमी भेटणां ज०, जिहां दिनकर तेज घटाय ठ०, अभिनव सूरय देखीने ज०, मानुं पश्चिम समुद्रमां जाय ॥ ठ० १५ ॥ हवे उत्तरदिश साधतो ज०, कांवाज ने हूण जे देश ठ०; युद्ध पराभव बहु लह्या ज०, पण जीखा सर्व नरेश ॥ ठ० १६ ॥ हय गय सार ते भेटणां ज०, बहु द्रव्य देई लख कोड ठ०, प्रणमी पदकज सेवता ज०, सहू सेवे होडा होड ॥ ठ० १७ ॥ कैलाश रायने जीतीआ ज०, हिमाचल नग पर्यंत ठ०, दोय खंड दोय पासना ज०, जीखाते दंड आपंत ॥ ठ० १८ ॥ त्रण खडाधिप थइ करी ज०, सहू सैन्य युक्त राजन ठ०, पाछा वली प्रौढोत्सवे ज०, साथे पागीआने परधान ॥ ठ० १९ ॥ निज नगरे आव्या तिहां ज०, सहू विद्याधर. नरराय ठ०; करे अभिषेकसु विस्तरे ज०, अर्द्ध चक्रि पदवी थाय ॥ ठ० २० ॥ गुणवंती कन्या घणी ज०, सहस्रोगमे आपे भूप ठ०; परणे ते जयानंदजी ज०, अप्सरा पण जीते रूप ॥ ठ० २१ ॥ राज्यग्रासादिक सर्वने ज०, जेहने योग्य हुंता जेह ठ०; तेहने ते ते आपीआ ज०, थइ प्रस-

जने आणी नेह ॥ ठ० २२ ॥ जेजे जेम परण्या हता ज०, लघु वृद्ध क्रमे
कीधी तास ठ०; परिच्छद ग्रासादिक सहु ज०, नृप आपे योग्य जे जास
॥ ठ० २३ ॥ चक्रवेगादिक आवीआ ज०, खेचरपतिने सतकार ठ०; दे-
ई सहु विसर्जिआ ज०, सहु गया निज राज्यने ठार ॥ ठ० २४ ॥ मेवक
पणु श्रीजयतणु ज०, धरता जाणी उपगार ठ०; सुख भोगवता स्वर्गनां
ज०, निख पामे जय जयकार ॥ ठ० २५ ॥ नवमा खंडमाहे कही ज०,
ए चोथी ढाल रसाल ठ०; पद्मविजय कहे पुण्यथी ज०; निख पामे मगळ
माल ॥ ठ० २६ ॥ सर्वगाथा १२५

दुहा.

प्रिया सहस्रोशुं रमे, पण रतिसुदरी नार; संभारे नरपति तदा, पण
संदेह लगार ॥ १ ॥ गणिका माता कारणे, मूक्यां बहु थयो काल, शील
अक्षत केम संभवे, एहवुं हृदये साल ॥ २ ॥ तास परिक्षा कारणे, सुरदत्त
अभिधान, रूप कलावंतो घणुं, नृपनो मित्र जुवान ॥ ३ ॥ स्थानक ते वि-
श्वासनुं, रतिसुदरीने पास, करी परीक्षा लावीये, इम कही मोकल्यो तास
॥ ४ ॥ बहु धन देइ बोलावीओ, पल्यंक वेशी जाय, रत्नपुरे पोहतो वही,
उतरीयो शुभ ठाय ॥ ५ ॥



ढाल ५ मी.

धणरा ढोला ॥ ए देशी ॥

बहुधन देइ परिच्छद कर्योरे, भाडे लीधुं गेह, चित्तना रागी; रतिमाला
गृह हुंकडुरे, वसीयो घरमां तेह ॥ ६ ॥ चित्तना रागी, आवो आवोरे सयण
शुभमिच्छा, करिये वात एकाति एक चित्ता, सयण वाते घणुं सुख थाय चि०
॥ ए आंकणी ॥ गणिकाने शील किहां थकीरे, स्वामि करे इहां राग चि०;
महोटाणे कहां कोण कहेरे, क्षणमां करुं विराग ॥ चि० ७ आ० ॥ भ्रष्ट क-
रुं शीलथी हवेरे, कोइक करीने उपाप चि०, दाशी रतिमाला तणीरे,

एकति बोलाय ॥ चि० ८ आ० ॥ घन आपीने वश करीरे, पृच्छे एणिपरे
 वात चि०; एहने घर नवि देखीयेरे, कोइ पुरुष आयात ॥ चि० ९ आ० ॥
 शं कारण तेहनुं कहोरे, दासी बोले ताम चि०; रीतसुंदरीने परणीओरे,
 श्रीविलास जम नाम ॥ जि० १० आ० ॥ आठ नगर नृपे आपीआरे, ते
 दीधा निजनार चि०; केटलो काल भोग भोगवी रे, तीर्थ नयन मिषकार
 ॥ चि० ११ आ० ॥ किहाण गयो ते नावीओरे, खवरन लाथी कांय चि०;
 रतिसुंदरी पासे रहीरे, रतिमाला निजमाय ॥ चि० १२ आ० ॥ संभार नि-
 स निज कलारे, नहीं इहां पुरुष प्रवेश चि०; सूरदत्त सुणी चमकिआरे,
 अहो किम शील कुल वेश ॥ चि० १३ आ० ॥ मधुर स्वरे निशि गायतोरे,
 काम दीपन जेणे थाय चि०; चतुराई घणी केलवेरे, वेशी गोखने ठाय
 ॥ चि० १४ आ० ॥ फल पत्रादिक शुभ करी रे, जेह अपूरव होय चि०
 निख दाशी करे मोकलेरे, प्रीति करणने सोय ॥ चि० १५ आ० ॥ रति
 सुंदरी पण सविलीयेरे, देखी ते संस्कार चि०; तेह कलाथी चमकतीरे,
 आप कला भंडार ॥ चि० १६ आ० ॥ एक दिन दाशीने पूछतोरे, सांभली
 माहरां गीत चि०; रीझेछे तुज स्वामिनीरे, के नवि रीझे चित्त ॥ चि० १७
 आ० ॥ दाशी कडे रीझे खरीरे, पण नवि स्तवती तेह चि०; देव गुरू विण
 केम स्तवेरे, सती शिरोमणि जेह ॥ चि० १८ आ० ॥ श्रृंगार रस मय ता-
 हरुरे, छे सुंदर गीत गान चि०; पण तेहने चित्त नवि गमेरे, नवि मांडे तेह
 कान ॥ चि० १९ आ० ॥ सूरदत्त कहे कामिनीरे, तुज स्वामिनी मुज प्रेम
 चि०; कोय उपायथी कीजीएरे, सा कहे करीए केम ॥ चि० २० आ० ॥
 एह सतीना स्वप्नारं, परनर उपर राग चि०; लेश मात्र आवे नहींरे,
 तेणे नवि आवे लाग चि० २१ आ० ॥ सूरदत्त कहे सांभलोरे, लेइ जाओ
 मुज तत्थ चि०; सा कडे कोइ नर तिहां कणेरे, पेशी शके नहीं जत्थ ॥ चि०
 २२ आ० ॥ तिहां केम लेइ जाडं तनेरे, सांभलो मौन कराय चि०; दाशी
 गइ निज थानकेरे, चितवे अन्य उपाय ॥ चि० २३ आ० ॥ संभारतां त-
 स सांभर्युरे, श्रीजये औपथी दीध चि०; रूप कुरी नारी तणुंरे, जाडं वंछित

(३८०)

श्री जयानंद केवळीनो रास.

सिद्ध ॥ चि० २४ आ० ॥ एक दिन दान्तिने कठेरे, तीरथे जाशुं काल चि०;
गगन गायिनी विद्या थकीरे, जिनवर नमथुं भाल ॥ चि० २५ आ० ॥ मुज
सम रूप कलायछेरे, मधुर स्वरे करे गान चि०, मूकी जाशुं मुज भियारे,
सस्तेही इण थान ॥ चि० २६ आ० ॥ पगघंधन पंथे होपरे, तेणे नवि
लेउं संग चि०; निख आवी तुमं तेहशुरे, रमज्या करज्यो रग ॥ चि० २७
आ० ॥ पांचमी नयमा खंडमारि, पत्रविजय कही ढाल चि०; सांभलो श्रो-
ताजन सवेरे, आगल वात रसाल ॥ चि० २८ आ० ॥ सर्व गाथा १५३

दुहा.

दाशी हा कही घर गइ, तेणे कर्णु नारी रूपः औपधी बल अति आ-
करु, जाण्युं न जाय सरूप ॥ १ ॥ निजथानक मधुर स्वरे, गावे गीत
रसाल; दासी पण निख आवती, आप वचन संभाल ॥ २ ॥ निख विनोद
करे तेहशुं, दिवसे गमावे काल; जैन गीत रजनी समे, गावे गुण सुरसाल
॥ ३ ॥ रीक्षी लहे ते सांभली, रतिसुंदरी धरी प्यार, पूछे दाशीने तदा,
कोण ए गावे नार ॥ ४ ॥ भरता परदेशे गयो, धनवंती ए नार; आत्म रमा
डे आपणो, गीत गान करे सार ॥ ५ ॥ अधिको कांय जाणुं नहीं, एहवुं
कहेती जाम; रतिसुंदरी तय एम कहे, तेडो एहने आम ॥ ६ ॥



ढाल ६ ठी.

देवानंद नरिंदनोरे, जिन रंजना लाल ॥ ए देशी ॥

माया स्त्री तेडी हवेरे मनमोहनां लाल, आवी करे परणामरे चित्त सो-
हनां लाल; दाशीये दीधे आसनरे मन०, वेठी सुख आरामरे ॥ चि० ७ ॥
दुक्कर ठाम जेपामवुरे म०, ते पामी हरखंतरे चि०; रूप देखी विस्मय लही-
रे म०, कंदर्पमय एकांतरे ॥ चि० ८ ॥ चानुर चित्तथी गोपवीरे म०,
नवि परकासे विकाररे चि०; आदर करी रतिसुंदरीरे म०, पूछे कुशल खे-
म ताररे ॥ चि० ९ ॥ रतिसुंदरी पूछे हवेरे म०, कहो तुम जेह स्वरूपरे

चि०; वटेनी कोण तुम किहां रहोरे म०, किहां परण्या अनुरूपरे ॥ चि०
 १० ॥ सकळ करो ते चारतारे म०, ते कटे सांभलो वांतरे चि०; राजकुम-
 रीलुं चाल्हीरे म०, परण्या विद्याधर जानरे ॥ चि० ११ ॥ लीलाए इहां र-
 हेनां धकारे म०, देना अढलकू दानरे चि०; मुजथुं राने मुख भोगवरे म०,
 काढे काल भमानरे ॥ चि० १२ ॥ आवं तारध वांटीनेरे म०, गयो मुज
 मृकी पथरे चि०; द्रव्य घणुं मृकी करीरे म०, नचि जाणुं गया केथरे ॥ चि०
 १३ ॥ पुर्व परदेशी टहारे म०, वमतो थो एणे गेहरे चि०; तेह गयो तव
 अमे रगारे म०, मुकी मृज अनि स्नेहरे ॥ चि० १४ ॥ द्रव्य घणुं विलसुं ते-
 णेरे म०, सुन्विणी बहु परिवाररे चि०; शील पालुं थिर चित्तथीरे म०,
 वाट जांई भरताररे ॥ चि० १५ ॥ वान मुणी रीझी घणुरे म०, साधमि-
 णी तम जाणिरं चि०; आपणे मरिपणुं जाणज्योरे म०, निस आववुं एणे
 ठाणरे ॥ चि० १६ ॥ कथा वार्त्तादिक कही तुमेरे म०, मुज मन करवो म-
 मोदरे चि०; माया स्त्री ह्येनिस करेरे म०, गमनागमन विनोदरे ॥ चि० १७
 ॥ निज घर नर रूपे रहरे चि०; संभारे क्षण क्षण मखेरे म०, पडिओ क-
 दपे कूपरे ॥ चि० १८ ॥ पुरुषपणे परवश थयोरे म०, चित्तं चित्त मझाररे
 चि०; अहो एकवार संगम लडुंरे म०, तो सुख पायुं अपाररे ॥ चि० १९ ॥
 तेणं तम, अरधी यइ करीरे म०, तस घर चिरकालरे चि०; विविध कला
 कौतुक करीरे म०, रीक्षवेप्रेमाविशालरे ॥ चि० २० ॥ धरम कथा पण बहु क-
 रेरे म०, काम कथा विचे थायरे चि०; जेम तेम बसकरे तेहनोरे म०, तेम
 करे जांई अभिप्रायरे ॥ चि० २१ ॥ क्षीर आहारमां जेम होयरे म०, भेग
 कदन्नो अंशरे चि०; पण पुण्य पुष्टि करे घणीरे म०, तेणे करती परशंसरे ॥
 चि० २२ ॥ हल्लूण हल्लूण चधारतीरे म०, काम कथा अधिरामरे चि० जेम
 जेम रुचि वधे तेहनीरे म०, तेम तेम करे कथा कामरे ॥ चि० २३ ॥ जेम
 जेम प्रीतिवंती थईरे म०; रतिमुंदरी धरी प्रेमरे चि०; परवडं वचने तेह-
 नेरे म०, रीक्षवे तसमन तेमरे ॥ चि० २४ ॥ छट्टी नवमा खंडपारे म०, पद्म
 विजय कही ढालंरे चि०; शीलवंती रतिमुंदरीरे म०, पामशे मंगलमालरे

॥ चि० २५ ॥ सर्वगाथा १७८.

दुहा.

एक दिन कारमी स्त्री कहे, यौवन फोकट जाय; वन वल्लीपरे भोग विणु
तुजने केम सोहाय ॥ १ ॥ काम क्रीडा वन यौवनं, तरुणने नंदन वन्न, रूप
नहीं तुज सारिखु, विश्वमां मोहे मन्न ॥ २ ॥ तुज तनु दीप शिखापरे, तरु
णनां हृदय पतंग; रमणिक सहज स्वभावथी, सघलां ताहरा अंग ॥ ३ ॥
सामग्री सवि पामिने, सघली निज आर्धनि; सफली ते केम नवि करे, रहे
जेम दुखणी दीन ॥ ४ ॥ सफली पति संगे होये, तस नवि मालम कांय;
खवर न जीवे के मृओ, तेणे पति नवीन कराय ॥ ५ ॥ यतः नष्टे मृते प्रव्रजिते,
क्लिवेच पतिते पतौ; पंचस्वापत्सुनारीणां, पतिरन्यो विधीयते ॥ १ ॥
एहवां शास्त्रनां वचनथी, अपयज्ञ पण नवि थाय; कुल स्त्रीने दूषण नहीं,
तुजथी छांनुं न कांय ॥ ६ ॥ वली गणिकानी तुं सुता, तुजने वाचा न कोय;
नवो भरता तेणे कीजीये, थुं बहु कीघे होय ॥ ७ ॥



ढाल ७ मी.

॥ रामपुरा बाजारमां ॥ ए देवी ॥

एहवां वयण सुणी करी, पीडा लही चित्त असंत मेरेलाल; हृदय शस्त्रे
जेम कापीयुं, तेहने धिकार करंत ॥ मे० ८ ॥ सतीरे शिरोमणी एम लहो
॥ ए आंकणी ॥ माया स्त्री तव बोलती, में ताहरी परीक्षा काम मे०; सती-
पणु तुज निरखवा, हु वाली तुजने आम ॥ मे० ९ स० ॥ हुं तारी दुश्मन नहीं, सु-
ज वचने उपनो खेद मे०; सखीपणार्थी ते खमो, हुं समजी तुमचो भेद ॥
मे० १० स० ॥ एवे मधुरे वयणथी, रतिसुंदरीने करी शांत मे०; रतिसुंदरी
पण खामती, वली तिम हिज थइ निम्नांत ॥ मे० ११ स० ॥ पूर्वपरे व-
ली गावती, कहेती पुण्यनां आख्यान मे०, विचविच काम कथा करे, वली
कामनां करे गीत गान ॥ मे० १२ स० ॥ निजमदिर नररूपथी, राणी

चित्त सरल स्वभाव मे०; आवर्जन करवा भणी, उजमाल थयो लही दाव
 ॥ मे० १३ स० ॥ अपूरव वस्तु मोकले, वली मोहननां गीतं गाय मे०;
 कामे अंतर पीडीओ, धर्म बुद्धि नाठी ते जाय ॥ मे० १४ स० ॥ अंग छवि
 श्यामल थई, रतिसुंदरीने निस ध्याय मे०; भूख तरप गइ वेगली, रवा-
 मि द्रोह पण न गणाय ॥ मे० १५ स० ॥ निद्रा नावे रातिमां, राणीनो वांछे
 योग मे०; आय उपाय घणा करे, पण न मले तेहथु भोग ॥ मे० १६ स० ॥
 किमहीक आकार अंगिते, रतिसुंदरी समजी चित्त मे०; शुद्ध हृदयथी
 चित्तवे, एतो धाय छे छल निस ॥ मे० १७ स० ॥ ए स्त्री जेहवुं गाय छे,
 गातो नर पूर्वे एम मे०; पाडोसी रहंतो थको, ए वात हशे कही केम ॥ मे०
 १८ स० ॥ मुज देखी एहने वधे, अंगे केम काम विकार मे०; स्वर गति
 चेष्टा अंगनी, लक्षण पण नर आकार ॥ मे० १९ स० ॥ नारि रूपे एह दे-
 खीए, पण नारी नहीं निरधार मे०; काइंक कारक पामीने, थयो पुरुष ते
 माया नार ॥ मे० २० स० ॥ दुराचारी कोइ देखीए, कामातुर पुरुष नि-
 दान मे०; करवा शीलनी खंडना, आच्यो मुज करतो तान ॥ मे० २१ स० ॥
 एहवे आचारे करी, अपराधी माहारो एह मे०; निग्रह करवो एहनो, में अव-
 सर पामी तेह ॥ मे० २२ स० ॥ सतिय शिरोमणी एणिपरे, चित्तमांदि घा-
 री विचार मे०; तेहथुं वात विनोदनी, करे पूरव परे ते उदार ॥ मे०
 २३ स० ॥ एक दिन तेहथुं गोठडी, करता आलाप संताप मे०; लाज सू-
 कीने बोलती, क्षणगार रसे चित्त पाप ॥ मे० २४ स० ॥ काम कथा वी-
 स्तारती, उत्तम मारग करी दूर मे०; सांभली वाह्यथी रीजती, रतिसुंदरी
 आपणंद पूर ॥ मे० २५ स० ॥ कहे रे सखि मुजने वालही, मीठी लागे तुज
 वाण मे०; तुज वयणे मुज चित्त चल्युं, रति सुख भोगवुं सुख खाण ॥ मे०
 २६ स० ॥ पण एटुं जे खाइए, लालच मीठाइनी होय मे०, करीये अकार-
 य पण तथा, तेहवो संयोग मले कोय ॥ मे० २७ स० ॥ तेहवो तरुण
 कोइ नर मले, गुणवंत अद्भूत आकार मे०; पंडित सर्व कला निधि, लक्ष-
 णने रूप भंडार ॥ मे० २८ स० ॥ प्राणदीये मियाने बली, एहवो धरे प्रेम

विशाल मे०; एहवो भर्त्ता कीजीए, रमीए वली रंग रसाल ॥ मे० २९ स०॥
सातमी नवमा खंडमां, कही पद्मविजय वरदाल मे०; राखे शीलकेणी परे,
ते सांभलो वात रसाल ॥ मे० ३० स० ॥ सर्व गाथा २०९

दुहा.

रति सुंदरीना वयण ते, सांभली हर्ष न माय; माया स्त्री कहे सांभलो,
उत्तम कहु उपाय ॥ १ ॥ रूप कलायी आगलो, छे माहरो भरतार; रूपे
पूरंदर सारिखो, धनद परे दातार ॥ २ ॥ स्नेह धरे तुज उपरे, तेडो तुमारी
पाम, इच्छा पूरण कीजीए, वेहुनी फलवो आश ॥ ३ ॥ यतःपतिव्रताःस्र-
यःपत्यु रनुकुलो स्थिराशयाः, प्रियमेवाचरंत्युच्चै रूचरते चचारुता ॥ १ ॥
पतिव्रता पणे मुजने, शोकनी अरुची न थाय; तेणे तुज जेहवो होय ते, प्र-
गट करो अभिमाय ॥ ४ ॥ जइने मुजपति भोकलुं, राणि बोले ताम; सर्व
वीडंवना सारिखुं, जीहां नहिं प्राप्ति दाम ॥ ५ ॥

दाल ८ मी.

छेडोनाजी ॥ ए देशी ॥

मुज भरनारने धन छे बहुलुं, जोइए ते तुमे मागो; भोग सामग्री जगमां
जोतां, नावे कोडिमे भागो॥६॥जूओ तुमे खयालो, सतीआनो प्रपंच सुणीने
चित्त पखालो, एम जाणी तुमे भवि जीव के शील ते पालो, दुलहो नरभव
तुमे पामीने अजुआलो ॥ ए आंकणी ॥ भोकलुं जे मागो ते तुमने,
भोग लाभ वली थाशे; काम पीडा मुज पतिनी टलशे, वेहुना दुखडां जा-
शे ॥ जू० ७ ॥ राणी कहे जो देवा शक्ति, तो आपो धन कोडी; जो वि-
श्वास न आवे तुमने, तो दीयो मुज अर्घ कोडी ॥ जू० ८ ॥ अर्घ कोडी
आवे तव लावे, सांभली प्रमुदित थाय; अंगीकार करीने निजघर, माया
स्त्री हवे जाय॥ जू० ९ ॥ कामवशे करी कांय न देखे, रात दिवस जे अंध;
अधयकी कापांध ते अधिको, नावे शीलनी गंध ॥ जू० १० ॥ यतः दि-

वा पश्यति नो घृकः काको नक्तं न पश्यति, अपूर्वः कोपि कामांधो दिवा नक्तं
न पश्यति ॥ १ ॥ पूर्वढालः ॥ अर्ध कोडी निज दाशी हाथे, मोकल्युं पूरव
दिवा; संकेतित दिवसे नररूपे, अर्ध कोडी लइ धन्न ॥ जू० ११ ॥ रतन
गांठही लेई उभो, राणीने दरवार; मणि कंचन आभूषण पहेरी, वली व-
हु करी शणमार ॥ जू० १२ ॥ वस्त्रादिकनो आढंवर बहु, देखे किंकरीजा-
म; जइने संभलावे राणीने, दासी दोडी ताम ॥ जू० १३ ॥ द्वारमहि ते-
डीं बेसायो, चित्तशालामांहे तेह; अरध कोडी दासीने हाथे, वली मोकल-
तो जेह ॥ जू० १४ ॥ पूर्व पछेनां भेलां करती, रतिसुंदरी ते राणी; तेज-
वंत बहु रत्न देखीने, चित्तमां चितवे शाणी ॥ जू० १५ ॥ हर्ष लहे विस्मय
कांय पामी, त्रास रहित ते देखी; अहो अपूरव एह रतन छे, पूर्व समान गं
वेखी ॥ जू० १६ ॥ मुज भरतारनां रत्न सरिखां, वृत्तादिक आकार; र-
क्तादिक वर्णे वली तेहनो, दीसे छे विस्तार ॥ जू० १७ ॥ मानुं सूर्यमंड-
लथी आयां, स्निग्धादिक गुण सार; संख्यातित स्वामी घर दीठां, तेहज
ए निरधार ॥ जू० १८ ॥ जाणुं मुज पतिए मोकलीओ, बहु आपीन
रत्न, मुज देखी चल चित्त थयो ए, तेणे ए करतो यत्न ॥ जू०
१९ ॥ दुर्मति स्वामिद्रोही पातकी, नरकनो जावणहार; पण मूरख न-
वि जाणे एटलुं, अगम्य होये सती नार ॥ जू० २० ॥ तेहमां पण नवि सा-
हामुं जोइये, जे होय वृपनी राणी, तास गमननी वात तो दूरे, जे माता स-
मजाणी जू० २१ ॥ यंतः ॥ राजपत्नी१ गुरोःपत्नी२ पत्नीचसुहृदरतथा३
पत्नीमाता४ स्वमाताच५ पचैता मातरःस्मृताः ॥ १॥ पूर्वढालः ॥ त्रिविध स-
तीं उपर ए माया, करतो पण लवेखुं; पण पुरुषाद्यम निज स्वामिनो, द्रोही
पणे ए देखुं ॥ जू० २२ ॥ अम दंपतीनो ए अपराधी, नवि करीये विश्वास;
निर्लज्ज दुष्ट बुद्धि सकषायी, धोले मरखा भाप ॥ जू० २३ ॥ यतः अंतर्दुष्ट-
धियःपापाः, कृपा मुक्ताःगतत्पाः॥मततंकोपनाःकेपि, व्रतलोपेप्यभीरवः ॥१॥
गर्ताशूकरवन्निसं, निःशूकाःकामलालसाः ॥सकपायाभृपावाद, विदुराःसदुरो-
दराः ॥२॥ व्यसकाव्यसनव्यास, रसिकाविकथारसाः॥विरसाशुद्धधर्मेषु, नि-

गुणाःस्वार्थवल्लभाः॥ ३ ॥ लुब्धाःक्षुब्धाःशठाःकुंठाः,परोपकृतिकर्मसु॥दुराचा-
 राश्चदुर्वाचः,प्रपंचपटवःस्त्रियां॥ ४ ॥ इत्याद्यशेषदुर्दोष,दुर्दशादूषितात्मनां॥अ-
 धमाधमशीलाना,मपिनो संगतिःशुभाः॥ ५ ॥ ॥ पूर्वदाळः ॥ धर्मैर्वाजित का-
 म अंध ए, सती स्वरूप न जाणे; प्राणाति पण शील न लोपे, महासती जेह
 वखाणे ॥जू० २४॥ फरस नसहे कोई अन्य पुरुषनो, जेम अग्निनी ज्वाला,
 असतीपणुं नवि तेह आचरे, मरण करे पण वाला ॥ जू० २५ ॥ कुलस्त्री
 स्वप्ने पण निज मेलुं, शील न करे कोई काले; कुलने रतन दीपपरे रूडी,
 तेह सती अजुआले ॥ जू० २६ ॥ वलात्कारथी नर मुरपति पण, शील
 सतीनु न लोपे; जो लोपवा जाये तो तेहने, वाली भस्म करे कोपे ॥ जू०
 २७ ॥ केसरी खंड केश अहि मस्तक, मणि वाघण पय जाणो, चमरी पूंछ
 लेवा कोण समरथ, जो पण होये अति शाणो ॥ जू० २८ ॥ जीवंतां शील
 सतीनुं न भागे, तेणे ए मूरख माथे; शील माणिक मुज हरवा आब्यो,सती
 शिरोमणि साथे ॥ जू० २९ ॥ धन्य ए रतिमुंदरी शीलवंती, नाम दीधे
 अघ जाय; नवमे खंडे आठमी ढाळे, पद्मविजय गवराय ॥ जू० ३० ॥ सर्व
 गाथा २३८.

दुहा.

लकुट प्रहार विना नही, शुद्ध वाजरी जवार; तेम शिक्षा विण नवि रहे,
 घरमां जे होय नार ॥ १ ॥ मूर्ख चपेटा विण नही. सहजे पाधरो होय; ते-
 म शिक्षा देवी खरी, एहमां पाप न कोय ॥ २ ॥ जेम दुर्ध्याननु फळ ल-
 हे, एणपरे करी विचार; दासीने तेडी कहे, सांभल मुज प्रकार ॥ ३ ॥
 सुपने पण वांछुं नहीं, ए पापीनो संग; पेसवा दियो अग्रद्वारमां, ते
 पण वित्त प्रसंग ॥ ४ ॥ जइ कहो अमची स्वामिनी, स्नान करी शणगार;
 थइ तैयार बोलावशे, जाणो हृदय मझार ॥ ५ ॥ ए मणिमय पल्यंकळे,
 रतिमुंदरिये दीध; तिहां लगे रहो तुमे इहां किणे, जाणो वंछित सिद्ध ॥६॥

हाल ९ मी.

प्यारे मोकुं ले चलो ॥ ए देवी ॥

रतिसुंदरीए मोकल्युं, ल्यो ए सुगंधि तंबोल हो; नाना द्रव्यशुं भेलियो, मुख थाये रंगचोल हो ॥ प्या० ७ ॥ प्यारे तोकुं ले चलुं, ले चलुंगी मुज सा-थहो प्या० ॥ ए आंकणी ॥ इत्यादिक वचने करी, उपजावी सुखशात हो; मुज पासे आवो तुमे, भाखो मुज अवदातहो ॥ प्या० ८ ॥ ते करी आवी सवे कहुं, पण तंबोलमां तामहो; तरष लागे घणी जेहथी, एहवा द्रव्य अ-भिरामहो ॥ प्या० ९ ॥ सुखमां रहे रतिसुंदरी, पल्यंक उपर-खासहो; शूरदत्तनी सेवा करे, दासीओ विनय विलासहो ॥ प्या० १० ॥ बहु उप-चार करै वली, पाद पखाले तासहो; मणिपर्यंक रूढी तूलिका, शयन क-रे सुखवासहो ॥ प्या० ११ ॥ स्वर्गना सुख भोगवुंअहुं, एम माने मन मांहिहो; देवांगना सम दासीओ, देखी मन उत्साहिहो ॥ प्या० १२ ॥ कथा वार्त्ता करतां थकां, उपजे अंतर प्रीतिहो; सर्व स्वादथी शिरोमणि, तंबोल-नी भली रीतिहो ॥ प्या० १३ ॥ चारचार आस्वादता, विषय तृष्णा परे तासहो; तंबोलना परभावथी, लागी अतिय पिपासहो ॥ प्या० १४ ॥ पा-णी मागे ते हवे, दासीओ गइ घरमांहिहो, निज स्वामिनीने वीनवे, स्वाभि-तरप अथाहहो ॥ प्या० १५ ॥ स्वामिनी कहे मुणो किंकारी, मदकारी सुरा सारहो; आपणा घरमां तैयारले, द्रव्य अनेक प्रकारहो ॥ प्या० १६ ॥ वासितने महा पराक्रमी. स्वादवंत घणुं तेहहो; साकर द्राख जलथी, घणुं मधुर पणानो गेहहो ॥ प्या० १७ ॥ शीतल निर्मल तेहछे, द्रव्य सुगंध सु-वासहो; जलथानके पाओ तुमे, वात म करशो तासहो ॥ प्या० १८ ॥ स्वा-मिनी आणा शिरे करे, स्वादुजल भ्रमकारहो; पाइ तेणे वधतो थयो, का-म इच्छानो विकारहो ॥ प्या० १९ ॥ लोचन मीचाइ गयां, आसव नीर-नो भेदहो, कनक भाजने समज्यो नहीं, बलीय पिपासानो खेदहो ॥ प्या० २० ॥ पान करी सूतो ढोलीये, पापी मन आराम हो; क्षणमां घूमायो घणुं,

शवपरे पढीयो ठामरे ॥ प्या० २१ ॥ नवि हाले चाले किमे, साप ढस्यो
 होय नेम हो; सूर्छाणो पीढा लहे, मानु जमे दीढो नेमहो ॥ प्या० २२ ॥
 दीर्घ निंद्रानी वेनडी, आबी निंद्रा तामहो; मृतक समो जाणी करी, शंका र-
 हित थइ जामहो ॥ प्या० २३ ॥ शोधे अंग शूरदत्तनुं, देखे तव शिर मां-
 हेहो; वेणी मांहे गोपवी जिके, औषधी दीठी खांदिहो ॥ प्या० २४ ॥ हर्ष-
 थी दाशीओ लेइने, आवे स्वामिनीनी पास हो; आपे रतिसुंदरी करे, ते
 पण लहे उल्लास हो ॥ प्या० २५ ॥ जोई जोईने ओलखी, विस्मय पापी
 चित्त हो; वदन कमळ विकस्वर थपुं, हृदये धरे जेम चित्त हो ॥ प्या० २६ ॥
 दिव्य औषधी ए पति तणी, महा प्रभावतुं घाम हो; माया मंदिर माहरी,
 मातने शिक्षा काम हो ॥ प्या० २७ ॥ मुज पतिये शूकरी करी, ते एहने
 परभाव हो; छांवी पोहली पण तेहवी, वर्ण प्रमुख सवि भाव हो ॥ प्या०
 २८ ॥ निश्चय हुं तेहज लहुं, नहींतो ए दुराचार हो; नारि रूप ए केम
 करे, दुष्ट आशय निरधार हो ॥ प्या० २९ ॥ पर नर नवि पेशी शके, कोइ
 मुज आवास हो; तिहां ए आव्यो पापीओ, औषधी धरी निज पास हो
 ॥ प्या० ३० ॥ केम एहने कर ए चढी, विस्मय लहुं बहु एह हो; अथवा
 स्वामीये दीधली, जाणथुं आगल तेह हो ॥ प्या० ३१ ॥ नवमी नवमा
 खंडमां, पद्मविजय कही ढाल हो; शीले मन वंछित फले, शीले मंगळमाल
 हो ॥ प्या० ३२ ॥ सर्वगाथा २७१.

दुहा.

जेम कहेशुं तेय भाखशे, बीजो नही विचार; पण औषधी परभावथी,
 करुं मर्कट आकार ॥ १ ॥ वीहीक देख्वाडी भलीपरे, मिस्रा देइश सार;
 रतिसुंदरीये चित्तमां, एह कर्यो निरधार ॥ २ ॥ दाशीने परशंसती, भलुं की-
 थुं ते काम; आपी औषधी लावनि, एह पासेथी आम ॥ ३ ॥ धन्य पुन्य
 विनीत तुमे, कीधा गुणनी जाण; तुमे स्वामिनी भगती घणुं, कोतां करुं वस्राण
 ॥ ४ ॥ सपनाव्यो आनंद बहु, वयण कही रसाल; सुनां सुस निद्रा थकी,

राति गमाव्यो काल ॥ ५ ॥ ब्राह्म मुहूर्त्त उठी करी, आवश्यक दोय प्रकार-
रं; करीने चेटीने कडे, लावो ए गेह मझार ॥ ६ ॥ ते पण लावी ततक्षणो,
उठाडी तेणीवार; जवनी अंतर पोते रहीं, बोले वयण उदार ॥ ७ ॥

ढाल १० मी.

॥ पारवीआनी ढाल स्वामि स्वयंप्रभ सुंदरुरे ए देशी ॥


कामे अंध प्रमादीओरे, हर्ष लहे अत्यंतरे परवशीओ; मुजने राणी मलि
हवेरे, एम घूर्णित राचंतरे ॥ सुख रशीओ ८ ॥ औपधी शिर थापी करीरे,
मरकट कीधो तासरे प०; लोह सांकल दाशी कनेरे, मंगावे सुविलासरे ॥
सु० ९ ॥ परस्त्री लंपटने गलेरे, घाली जकडयो तेहरे प०; माया खरी पा-
पी लहीरे, आवी कोपने गेहरे ॥ सु० १० ॥ वारंवार संभारतीरे, त्राडना
करे अपाररे प०; निस नचावे तेहनेरे, वचन कहे तेणीवाररे ॥ सु० ११ ॥
अग्निमां नाखुं तुजनेरे, रे पापी शिरदाररे प०; दासी पास वीहवरावतीरे,
निस प्रसे वारंवाररे ॥ सु० १२ ॥ स्वामी द्रोही पापीयारे, रे दुर्मद दु-
राचाररे प०; परस्त्रीनी इच्छा तणुरे, फळ भोगव ए लगाररे ॥ सु० १३ ॥
द्रोहमां स्वामी द्रोहनुंरे, पापनुं फळ कहे कोणरे प०; वली परस्त्रीना भोग-
तीरे, इच्छामां नहीं ऊणरे ॥ सु० १४ ॥ तास विपाक फळ कोण कहेरे, स-
मरथ वली वाचालरे प०; विषय आशा पाशे नडयोरे, दुख पामे असरालरे
॥ सु० १५ ॥ जन्म अनंत मरण लहेरे, नरकादिक लहे प्रायरे प०; तेहनां
दुख केवली लहेरे, पण मुखयी न कहायरे ॥ सु० १६ ॥ यतः ॥ सल्लं का-
मविषंक्रामा कामाआसीविषोवमा कामापथेमाणा अकामा जंति दुग्गइ
॥ १ ॥ पूर्वढालः ॥ विपने विषयमां अंतरोरे, भाख्यो छे अति जेणरे प०;
एक मारे खायुं थकुंरे, एक संभारे तेणरे ॥ सु० १७ ॥ यतः ॥ विपस्य वि-
षयस्यैव दुरमसंतमंतरं उपमुक्तंविषंर्हति विषयाःस्मरणादपि ॥ १ ॥ पूर्व-
ढालः ॥ तज परस्त्री वांछा हवेरे, जो सुख चाहे अंगरे प०; नहींतो इह भव

परभवेरे, दुख पायीश एकंगरे ॥ सु० १८ ॥ इत्यादिक उपदेशथीरे, हित करती अविशेषरे प०, सज्जन पीडथा रस दिपरे, शेलडीपरे सुविशेषरे ॥ सु० १९ ॥ सांभली राणी देशनारे, गीहित निज आचाररे प०; निज आत्म बहु शोचतोरे, निंदा करे अपाररे ॥ सु० २० ॥ मार खाए आंसु झरेरे, दीन वदने कहे वातरे प०; में तुज गुन्हो बहु कयोरे, मूक मूक हवे मातरे ॥ सु० २१ ॥ राणी कहे दुखमां पढथोरे, बोले हमणां एमरे प०; पण त पापनां फळ कहोरे, छूटकवारो केमरे ॥ सु० २३ ॥ सहेंबुं दुख नरकादिके-रे, भय अनंत लगे प्रायरे प०; पाप इच्छानी वानगीरे, एणे भव तुजने आ-यरे ॥ सु० २४ ॥ जेहबुं बांध्युं तेहबुंरे, भोगवीये निरधाररे प०; धान्य वा-विए जेहबुंरे, लणीए तेह प्रकाररे ॥ सु० २५ ॥ कीधुं भोगवीये सवेरे, शुभ के अशुभ जे कर्मरे प०; विण भोगवे नचि छूटीयेरे, ए जिनशासन मर्भरे ॥ सु० २६ ॥ यतः ॥ परशास्त्रेपि ॥ कृतकर्मसयोनास्ति कल्पकोटिशतैरपि ॥ अवश्यमेवभोक्तव्यं ॥ कृतकर्मशुभाशुभं ॥ १ ॥ पूर्वेढाळः ॥ वारंवार एम सां-भलीरे, राणीनो उपदेशरे प०; मारने बीहीक वळी लहीरे, पाम्यो बोध वि-शेषरे ॥ सु० २७ ॥ दुर्मन मूकीने हवेरे, दीन वदनने नयणरे प०; विनय थकी चेष्टा करीरे, पद प्रणमे अधोवयणरे ॥ सु० २८ ॥ फरी फरीने तें खमावतोरे, परस्त्री नियम करंतरे प०; अंगित आकारे करीरे, राणी तेह लहंतरे ॥ सु० २९ ॥ सरल दयावंती धणोरे, सती शिरोमणी तेहरे प०; मू-कावे दाशी कनेरे, बंध सांकळ हड जेहरे ॥ सु० ३० ॥ पूर्वरूप नर कीध-लोरे, औपधी लेई साररे प०; जीवतो पण अणजीवतोरे, अल्प अन्न दिए-आहाररे ॥ सु० ३१ ॥ दसमी नवमा खंडमारि, पद्मविजय कही ढाळरे प०; दुर्जन सज्जन संगथीरे, पामे मंगळमालरे ॥ सु० ३२ ॥ सर्वगाथा ३०१.

दुहा.

एक दिन राणी तेहने, दाशी पासें तास; हड बंधन बंधाविने: अग्नि लावी पास ॥ १ ॥ लोह शिलीउन्ही करी, श्रीजयानंदनो दास; नाम लिः

खाधे भालमां, पामे दुखनी राश ॥ २ ॥ निभ्रंछे वली बहुपरे, कडवी दुःस-
हवाण; अशुभनां फल संभलावीने, निश्चल करे सुजाण ॥ ३ ॥ परस्त्री नि-
यम ते आपिने, मूक्यो ते नर जाम; वंध छोडी स्वस्थज करी, परियची ना-
खी ताम ॥ ४ ॥ परनर मुख जोहुं नहीं, परियची अंतर तेह; बेसारी पृच्छे इ
शुं, तुं कोण आव्यो केह ॥ ५ ॥ किहांनो वासी किहां थकी, शो कारय
उद्देश; साचुं कहे धुरथी सवे, केम कीधो एम वेश ॥ ६ ॥



हाळ ११ मी.

॥ जंबू कुमर वैरागीयोरे, मात पिता प्रते भासरे ॥ ए देशी ॥

एह प्रश्ने मन हरखतोरे, कृतारथ निज मानेरे; वात यथारथ दाखवुं रे,
सांभलो थिर थई कानेरे ॥ ७ ॥ मोरी मातजीरे, सांभलो वात ह्यारीरे;
तुम वातजीरे, अमृतथी अति प्यारीरे ॥ ए आंकणी ॥ विजयपुरे पुरंदर
समोरे; श्री विजयराजनो पूतरे; राय सहस्र सेवि जतोरे, देवता जेम पुरु दू-
तरे ॥ मो० ८ ॥ श्रीश्री जयानंद नरपतिरे, सूर्य अपूरव सरिखोरे, मृदु
करथी विक्रम्वर करेरे, कमला कर चित्र परखोरे ॥ मो० ९ ॥ क्षत्री सूत हुं
तेहनोरे, शूरदत्त मुज नामरे; सेवक छुं सुखीओ सदारे, परम विश्वासनुं ठा
मरे ॥ मो० १० ॥ पासे वसीयो तेणे करीरे, जाणुं सहु अवदातोरे; राज्य-
घानी लक्ष्मीपूरेरे, करता जगत विख्यातोरे ॥ मो० ११ ॥ दिव्य पत्यंक
मुज आपीओरे, खगपरे जाउं आकाशरे; तुमने तेडवा मूकीओरे, रत्न दी-
धो बहु खासरे ॥ मो० १२ ॥ आव्यो इहां तुम परखवारे, पासे लीधु मे-
हरे; वली मुज आपी औपधीरे, दिव्य प्रभावनी गेहरे ॥ मो० १३ ॥ विल
सुंते घनथी घणोरे, इच्छित देउं दानरे; स्त्रीरुपे तुज महा सतीरे, दर्शन पाम्यो
प्रधानरे ॥ मो० १४ ॥ जीते रति रंभा सिरिरे, रूप अनोपम तुजरे; देखी अभा-
ग्यना योगथीरे, चपल चित्त थयुं मुज्जरे ॥ मो० १५ ॥ एह विटंखणा पामीओरे,
ते माहरो सवि वांकरे; उद्दर्यो मुज किरपा करीरे, स्वामिनी हु अति रांकरे

॥ मो० १६ ॥ परस्त्री नियम तुमे दियोरे, कीधो मुज उपकारे; पुन्य मा-
 रग देखाडीनेरे, कीधो मुज उद्धाररे ॥ मो० १७ ॥ लक्ष्मीपुर वर राजीओ-
 रे, श्रीजयानंद राजानरे, तुम पति इच्छे तुम वहुरे, करे तुम आगम ध्यानरे
 ॥ मो० १८ ॥ जवनी अंतरे राणी कहेरे, ताहारुं साहस भारीरे; मुज साथेजे
 इच्छतोरे, संगम जे परनारिरे ॥ मो० १९ ॥ पण परनरना फरशनेरे, नवि
 इच्छे शीलवंतीरे, तेणे तें नियम ग्रहं अछेरे, मत मूकजे करी वंतीरे ॥ मो०
 २० ॥ परनारी वांधव जिकेरे, ते सदाचारीं कहियेरे; शील निधान समो
 वडेरें, शील आभूषण लहीयेरे ॥ मो० २१ ॥ स्वामि प्रशादे हुं सदा रे, पर
 नर मुख नवि जोडंरे; स्वजन कुटंब पण पुरुष जेरे. तेहनुं मुख न पलोडंरे
 ॥ मो० २२ ॥ नवि आलाप संगति करंरे, न करुं वली शणगार; तांबूला-
 दिक नवि लेडंरे, नवि करुं स्निग्ध आहाररे ॥ मो० २३ ॥ नख पण नवि
 लेवरावीयेरे, फुलमालने स्नानरे; धूपने अंग राग वलीरे, तजीयां करी अ-
 पमानरे ॥ मो० २४ ॥ प्रोपित मिय सतीआं तणारे, पाळु सवि आचाररे;
 काम शतो पण उपनेरे, नवि पर पुरुषनो चाररे ॥ मो० २५ ॥ आज लगी
 पर पुरुषनोरे, नवि दीधो परवेशरे; तुज साथे केम आवीयेरे, ए अवधार
 विशेपर ॥ मो० २६ ॥ एकासने केम वेशीयेरे, तेणे जई मुज पति पासेरे;
 तुमचा साथ विना नहींरे, आवशुं एम प्रकाशेरे ॥ मो० २७ ॥ नवमा खंडमां
 ए कहीरे, अगीरमी ए ढालरे, मीठी सरस सुधा समीरे, पद्मविजय सुरसा-
 लरे ॥ मो० २८ ॥ सर्वगाथा ३३१.

दुहा-

कहे जे स्वामिने जई, जे कहुं वचन प्रकार; तुमे पुण्यवता राजीया, शो-
 भागी शरदार ॥ १ ॥ रूपवंती सहसो गमे, ठाम ठाम लह्या नार; तेहनी प्री-
 ति पटतरे, मुज नवि देखो किं वार ॥ २ ॥ पण तुम दर्शन वांच्छती, दुर्घट
 पासुं केम; हुं तुमने ध्याडं सदा, तुमे न संभारो प्रेम ॥ ३ ॥ पण हुं रति.तुमे
 स्मरअछो, तुम आयत्त मुज प्राण, वेचाथी लीधा तुमे, तेहनुं न करो त्राण

॥ ४ ॥ करवो प्रसाद तो वेगलो, चिंता पण तजी मुज; कोण आगळ कहिये
कहो, स्वामि मूकी तुज्ज ॥ ५ ॥



हाल १२ मी.

॥ नराणानी देशी ॥ जेम मधुकर मन मालतीरे ॥ ए, देशी ॥

बहु नारीना प्रेमथीरे, रुंध्युं छे तुम चित्तरे राजनजी, तिहां एक कोरे
माहरोरे, द्यो अवकाश ते नित्तरे ॥ रा० ६ ॥ तुम विण अवरथुं ना रसुंगी
॥ ए आंकणी ॥ इंद्रियमां मन मोटकुरे, तेहनो करी अपहाररे रा०; केम
मूकी मुज एकलीरे, माहरे तुम आधाररे ॥ रा० ७ तु० ॥ करुणानिधि चिं-
ता करोरे, शरणागत मुज स्वामिरे रा०; रवि प्रभापरे चंद्र चंद्रिकारे, देह
छाया जेम ठामरे ॥ रा० ८ तु० ॥ मुज उपर प्रसन्न थईरे, तेडवा मोकल्यो
जेमरे रा०; माहरी वात जे मं कहीरे, कहेजे संभारी तेमरे ॥ रा० ९ तु० ॥
वली मुज भर्तानी तुमेरे, जाणो यथारथ वातरे रा०; तेम मुज मन हरखा-
ववारे, भाखो सवि अघदात ॥ रा० १० तु० ॥ शूरदत्त कहे सांभलोरे, स-
घलो कहुं अधिकाररे रा०; तुम भरता भूभर्ता तणारे, सांभलो धुरथी सा-
ररे ॥ रा० ११ तु० ॥ लक्ष्मीपुरे श्रीपति भलोरे, व्रण कन्यानो तायरे रा०;
राजा सर्व शिरोमणिरे, जैन धरममन भायरे ॥ रा० १२ तु० ॥ दाधी व्रणे
तुम पतिरे, वली दीधु निज राज्यरे रा०; दीक्षा लीधी राजीएरे, वरवा
शिव साम्राजरे ॥ रा० १३ तु० ॥ वैताढ्य जई विद्याधरारे, बहु वश की-
धा तासरे रा०, करी मोटा उपकारनेरे, पाम्या जज्ञ मुविलासरे ॥ रा० १४
तु० ॥ तास पुत्रीयो परणियारे, वली चक्रायुध रायरे रा०, जीतीने तस
कन्यकारे, परण्या सहज समुदायरे ॥ रा० १५ तु० ॥ बहु ओत्मव आड-
वरेरे, आन्या निजपुररायरे रा०; शत्रु नृप जय चिहुं दिशेरे, करीने आ-
न्या ठायरे ॥ रा० १६ तु० ॥ जे जे आश्चर्य ज्ञतो गमेरे, वली तस तात स-
वधरे रा०, शूरदत्ते सवि भाखीओरे, दिस्तारे परवंधरे ॥ रा० १७ तु० ॥

सांभली सर्व संबधनेरे, आनंद अंग न मायरे रा०; दान देई संतोपीओरे,
 कीधो बहु सुपसायरे ॥ रा० १९ तु० ॥ रतिसुंदरीये विसर्जिओरे, पो-
 हतो लक्ष्मीपुर ठायरे रा०; अनुकमे राज सभा गयोरे, जिहां श्री जया-
 नंद रायरे ॥ रा० १९ तु० ॥ परीक्षा प्रमुख सवि वातडीरे, कही तस आ
 मूल चूलरे रा०; तेम वली जे कहेवरावियुंरे, ते भाख्युं अनुकूलरे ॥ रा०
 २० तु० ॥ तुमने तेड्या छे वलीरे, सांभली श्रीजयानंदरे रा०; निज मि-
 या शील सोहामणुरे, धरता अति आणंदरे ॥ रा० २१ तु० ॥ भक्तिवंती
 भार्या तणुरे, दर्शननुंथयुं चित्तरेरे रा०; वली तेड्या पण जायवुंरे, वेशी वि-
 मान विचित्रे ॥ रा० २२ तु० ॥ पोहता दिव्य विमानशुंरे, रत्नपुरे
 क्षण मांहिरे रा०; सार सौजन्य परिवारशुंरे, धरता मन ऊत्साहिरे ॥ रा०
 २३ तु० ॥ रत्न प्रभ भूपने मिल्यारे, तेम नयरी जन ब्रातरे रा०; रत्नमा-
 ला नृपनी मियारे, पास्या अति सुखजातरे ॥ रा० २४ तु० ॥ संतोपी रति
 सुंदरीरे, आपी दर्शन आपरे रा०; क्षणेक आणंद दीये घणोरे, उचित करी
 आलापरे ॥ रा० २५ तु० ॥ अमृत वृष्टि अर्चितवीरे, माने आववुं रायरे
 रा०; क्षेम प्रश्नादिक बहु करेरे, भक्ते वमणो भरायरे ॥ रा० २६ तु० ॥
 रत्न प्रभ हवे राजियोरे, सामंतने परधानरे रा०; हरखे नगरना जन सवे-
 रे, सेवे करी एक तानरे ॥ रा० २७ तु० ॥ गजरथ घोडा भेटेणेरे, रत्ना-
 दिक बहु वस्तरे रा०; जेजे अपूरव देशमांरे, ते ते दीये सुप्रशस्तरे ॥ रा०
 २८ तु० ॥ तिहां सुखमां रहेतां थकारे, बारगी थई एह ढाळरे रा०; पञ्चवि-
 जये कही सांभलोरे, नवमे खंडे रसालरे ॥ रा० २९ तु० ॥ सर्वगाथा ३५८

दुहा.

केइक दिन तिहां रही करी, पूजी ससरा सास; श्रीजयानंद नृपति हवे,
 जावा मन उच्छास ॥ १ ॥ मात पिता भ्राता प्रमुख, रतिसुंदरीने ताम;
 आह्ना दीये महा सती प्रते, थाये दुखनां धाम ॥ २ ॥ दासी दासने धन
 बहु, आपे सेवा काज, सहुने लेई विमानमां, श्रीजयानंद महाराज ॥ ३ ॥
 निज परिवारथुं चालीया, वायुवेग आकाश; ग्रामनगर ओलंघता, आव्या

निजपुर वास ॥ ४ ॥ औत्सव महोत्सवथी तिर्हा, आवे निजवर धाम; रति सुंदरीने राखवा, महोल दीये अभिराम ॥ ५ ॥ सहु प्रिया मेळी करी, उचित दान सन्मान; मंत्री पासे करावता, श्रीजयानंद राजान ॥ ६ ॥ संतोषी सहु तेहने, सुख सागरमां लीन; पंच विपथ सुख भोगवे, सहु राणीशुं पीन ॥ ७ ॥



हाल १३ मी.

॥ केसर वरणो हो के काढ कसुंवा मारा लाल ॥ ए देशी ॥

हवे सहु भूपति हो के परजा पाले मारा लाल, निज परजा सम होके सहु रखवाले मा०; कनक सिंहासन हो के एक दिन वेठा मा०, पंचपरमेष्ठिना हाके ध्यानमां पेठा ॥ मा० ८ ॥ बहु नृप नमता हो के आणाने धारे मा०, सुख धाशि किरणे हो के दिशि अजुआलेमा०, परखद वेठीहोके निज निज कामे मा०, प्रतिहार आवी होके शीघ्र शिर नामे ॥ मा० ९ ॥ विनती एणिपरेहोके नृपने करतो मा०, लोक बहु आठ्या हो के बहु दुख धरतो मा०; विजयपुरथी हो के पोलेने द्वारे मा०, उभा तुमचा होके दर्शन घ्यारे ॥ मा० १० ॥ मोकलो वहेला हो के नरपति भासे मा०, मोकलेते पण हो के जइ तस पासे मा०; आवी प्रणमेहो के नरपति पाया मा०, विनती पत्रिका होके नृप पुरठाया ॥ मा० ११ ॥ मंत्री लेईने हो के नृप कर देवे मा०, नरपति हरखे हो के जोइ तस हेवे मा०; मूल राज्यना हो के लोक ते जाणी मा०, बहु आदर करे हो के नृप गुण खाणी ॥ मा० १२ ॥ मुद्रा उखेली हो के वांचे पोते मा०, तेह कहीजे हो के सुणीये ओते मा०; स्वस्ति श्रीमति हो के सुरपुर सरिखुं मा०, लक्ष्मीपुर वर हो के महा ऋद्धि निरखु ॥ मा० १३ ॥ राज्य करे तिर्हा होके श्रीजयानंद मा०, बहु नृप वहेता होके आण आनंद मा०; जनक विजयनृप हो के परिच्छद सोहे मा०, तेहने लखता हो के मोद आरोहे ॥ मा० १४ ॥ विजयाभिध पुरथी होके पुरजन मिलीने मा०, राजवर्गी पण होके मांहे मळीने मा०; मणति पूर्वक होके क-

रकज जोडी मा०, चीनती लखीये होके मानने मोडी ॥ मा० १५ ॥ सुख श्रेय इहांछे हो के पुण्य प्रमाणे मा०, दिन दिन प्रसे वांछु होके प्रभु सुख ठाणे मा०; सुणज्यो समाचार हो के पूर्वज जेह मा०, तुमचा तेणे पाली हो के परजा नेह ॥ मा० १६ ॥ विजयपुरनी हो के वातडी सुणज्यो मा०, नृप सिंहसारछे हो के नामज सुणज्यो मा०; कपटे पटु कटु वलीहोके करतो काम मा०; उन्मार्गनी मति वली हो के व्यसननु घाम ॥ मा० १७ ॥ नवि घर्मनी वात ते हो के मनमां नांणे मा०, गुरु कर्मा गाजे होके आप बखाणे मा०; वैरीपरे परजा होके जाणे मनमां मा०, परजा चित जाणे हो के वसिये वनमां ॥ मा० १८ ॥ अन्यायनो मारग हो के निख चलावं मा०, तुम राजन कुलना हो के जे जे आवे मा०, विश्वास पमाडी होके गुप्तिये नाखे मा०, बहु कष्टने देतो-होके सुख न सराखे ॥ मा० १९ ॥ अपराध विना बहु होके दाखे दंड मा०, उद्वेग पमाडे हो के तेज प्रचंड मा०; केईने नवि भोजन हो के आपे खावा मा०, कोना मुख आगे होके करिए रावा ॥ मा०; २० ॥ इसादिक रीते होके दुख ते देतो मा०, अछता दोष दाखी हो के दंड ते छेतो मा०; लोभांध थईने होके हय रथ हाथी मा०, ते लीये उलाली हो के बहु उनमाथी ॥ मा० २१ ॥ तुम पूरवजे जन्मथी हो के परजा पाली मा०, तेणे दुख नवि दीतुं होके सुपने भाली मा०; तुम ताते पूरां हो के छाड लढायां मा०, सहुनी उढावे हो के एह पढायां ॥ मा० २२ ॥ कर ले अष्टादश हो के जे सुण्या काने मा०, तरणा सम जगतने होके मनमां माने मा०; जेहने नहीं मंत्रीहोके कुशल ते नारी मा०, वळी मित्र न तेहवो हो के दीये मति सारी ॥ मा० २३ ॥ पक्व प्रज्ञावंत-होके वृद्ध न पासे मा०, रुद्ध तस राज्य न होके चाले सरासे मा०; कुल स्थिति नवि होय हो के नवि ज्ञा थाय मा०, नासे धन दूरेहोके सुकृत न कांय ॥ मा० २४ ॥ मढलीक प्रधाननुं होके धन बहु लीधुं मा०, प्रधान विना नवि हो के राज्य ते सीधुं मा०; निज पर नवि गणिया हो के लोभे पूरो मा०, अन्याय ते करवो हो के नहीं अधूरो ॥ मा० २५ ॥ जेय कागल थोडे हो के सवि न लखाय मा०, तेम वात ते पूरी होके ढाले न थाय मा०; यह नवमे

खंडे हो के तेरमी ढाल मा०, कहे पद्मविजय मुनि हो के वात रसाल ॥ मा०
२६ ॥ सर्वगाथा ३८४.

दुहा.

काईये कहीये नहीं, श्रीविजयराय जे तात; तेहुए पण फळ भोगव्युं,
अवरां केही वात ॥ १ ॥ ते तो सहु जाण्यु हशे, तस मुख वचन प्रमाण;
जय नृप काका तुम तणा, सुखदायी राजान ॥ २ ॥ तेहुए तेढाव्या घणुं,
नवि आव्या तुमे कोय; भाग्य उदय नहीं अमतणो, तेणे तुम वांक न कोय
॥ ३ ॥ दुखदायी तुम भाइए, अम अभाग्यथी आय; राज्यपदे वेशी करी,
एणीपरे काम कराय ॥ ४ ॥ वनमां वसवुं रुयडुं, रुढो वली परदेश; मरण
करेवुं रुयडुं, तप रुढो सुविशेष ॥ ५ ॥ पण ते राज्यनी छांहडी, सुपने न
वांछुं अंश; सिंहसारे एणीपरे घणुं, कलंक दियो तुम वंश ॥ ६ ॥



ढाल १४ मी.

॥ विमलजि विमलता ताहरीजी ॥ ए देशी ॥

दृष्टि दया करी दीजीयेजी, सेवक उपर स्वाम, सीदाता केम उवेखीयां-
जी, एह परजा तुम नाम ॥ द्र० ७ ॥ कीर्त्ति जस सागर छो तुमेजी, गुण
गण रत्न निधान; पर उपगारी शिरोमणीजी, अशरण शरण प्रधान ॥ द्र०
८ ॥ पूरव क्षत्रव्रतधर थयाजी, तेहमां धुर तुम नाम; पापी अन्यायीने तुमे
हरो जी, एह करो अम तणुं काम ॥ द्र० ९ ॥ रीति लोपो न पूर्वज तणीजी,
मूको न निज प्रजा एह; मूल निज राज्य हवे लीजीयेजी, अनुग्रह करो म-
भु रेह ॥ द्र० १० ॥ दया चिंतवी बंधुनीजी, जो नवि तुमे करो एह; देशपुर
नगर उजड थशेजी, मत करो तेहमां संदेह ॥ द्र० ११ ॥ दौय पक्षमां जे
जुगतुं होयेजी, तेह कीजे स्वयमेव; वांची वली सांभली वयणडांजी, अम-
रप आविओ हेव ॥ द्र० १२ ॥ तात पराभव वली सांभरींजी, दुख प्रजातुं

चित्त धारः अर्ध भरतपति उठीयोजी, वयरी जाण्यो सिंह सार ॥ द्र०
 १३ ॥ करिय सेनापति आगलेजी, वाजां वजडावे प्रयाण; सैन्य चतुरंग तव
 सज्ज करीजी, चालीया ते सपराण ॥ द्र० १४ ॥ स्वल्प प्रयाण जइ तिहां र-
 हीजी, मोकळीयो तिहां दूत; तेहने जाण करवा भणीजी, संभलावे आप
 आकूत ॥ द्र० १५ ॥ शत गमे ताहारा अन्यायनेजी, खमिय उवेखीयो तुज,
 एटळो काल सौजन्यपणेजी; वांक मत काढजे गुज्ज ॥ द्र० १६ ॥ आज न-
 वि खमुं हवे ताहरोजी, राखी ए राजनी नीति; कीध प्रयाण ते आगलेजी,
 लोपतो नवि कोई रीति ॥ द्र० १७ ॥ सैन्य असंख्यशुं चालतांजी, कोयन
 न होय संताप, पर उपगारी दयालुओजी, ते केणीपरे करे पाप ॥ द्र० १८ ॥
 निज परदेश सरिखा गणेजी, खंड व्रणनो जे अधीश; तस नगर हुंकाडा
 आवीआजी, जाणतो सिंह नरेश ॥ द्र० १९ ॥ सनमुख महावले नीकलेजी,
 ज्याघ्र सनमुख शश जेम; बळ सहित सिंहशुं झुझीनेजी, भांजे दारि वृक्षने
 तेम ॥ द्र० २० ॥ घात विधुरित पकडी लीयोजी, लीलाये ते सिंहसार;
 बांधीने निगड घाली करीजी, मुंप्यो तातने तेणीवार ॥ द्र० २१ ॥ पडियो
 कारागार मांहेतेजी, अनुभवे पीड अपार; कर्म निज शोधतो तिहां रहे-
 जी, पाप तरुफल ए असार ॥ द्र० २२ ॥ कर्म कीथां ते यूझे नहींजी, पाप
 मत करो भवि जीव; पापनां फल ए देखी करीजी, धर्म ते करीदे सदैव ॥
 द्र० २३ ॥ श्रीश्रीजयानंद भूपतिजी, जयसिरि करी निज हाथ; नगर प्र-
 वेश महामहोत्सवेजी, राजन्य पुरजन साथ ॥ द्र० २४ ॥ करिय प्रवेश
 निज तातशुंजी, हयगय रयणने वस्त्र, पौरजन राज वर्गी तथाजी; भेटणे
 यूझे केइ शस्त्र ॥ द्र० २५ ॥ सायंत मंत्री पुर जन वलीजी, वलीअ सीमाडा
 राजान; देश परदेशना लोकनेजी, नृप बहु आदरमान ॥ द्र० २६ ॥ जेहने
 योग्य जेम तस करेजी, दानने वली सनमान; करिय प्रणाम स्तवना क-
 रेजी, चित्तमां अति दहु मान ॥ द्र० २७ ॥ खंड नवमे एह चौदमीजी, प-
 शविजये कही ढाल; पुन्यथी सावे सुख नीपजेजी, पुण्यथी मंगळमाल ॥ द्र०
 २८ ॥ सर्वगाथा ४१२.

दुहा.

तुम दरिद्राण अति दोहलुं, भाग्ये पाम्या आज; दुःख अधंकारमां उगीओ,
स्वामी तुं दिनराज ॥ १ ॥ काल रात्रि परे एटलो, काल काढयो भयका-
र; क्षय कीधो अम पुण्यनो, उदय ते तुं दिनकार. ॥ २ ॥ चिरंजीवो स-
फलुं करो, मूलराज्य महाराज; अमृत सम द्रष्टि देइ, पवित्र करो उहु राज
॥ ३ ॥ इम स्तवना करी हर्षशुं, पोहाता निज निज गेह; देश नगर पुर गा-
ममां, वूठा अमी रस मेह. ॥ ४ ॥ देव पूजादिक कृत्त करे, उचित जे बेला
होय; लोक तुष्टी हेते तिहां, काल गमावे कोय. ॥ ५ ॥

ढाल १५ मी.

राग मारुणी ॥ श्री सीमंधर साहिव आगे विनतीरे ॥ ए देवी ॥
राज्य मांहे रक्षा राज्यकाज सवि साचवेरे, तेम तातने परिवार; आगेरे
आगेरे, लागे धर्म कथा कहेरे ॥ ३ ॥ जिनवर भाषित धर्म दया गुण मूल
छेरे, तेम दानादिक चचार; भाख्योरे भाख्योरे; दाख्यो देव गुरू धर्मथीरे
॥ ७ ॥ पुण्य पापफळ सुकृत दुःकृत कारण कहेरे, हेतु युक्ति अपार, रा-
ज्यरे राज्यरे, काज करंतां पण कहेरे ॥ ८ ॥ विचे विचे अवसर लहीने
निपुण ते भूपतीरे, निख निख करे व्याख्यान, सरसारे सरसारे, नहीं वि-
रसा दष्टांतथीरे ॥ ९ ॥ सार संग्रह करी समकित निख समजावतारे, श्रो-
ताने सुखकार; हितकररे हितकररे अंतर रहित ते उपदिशेरे ॥ १० ॥ एम क-
रतां जिन प्रवचन श्रावक सहु कर्यारे, पुत्र वचन घनसार; सांभलीरे सांभ-
लीरे काच कामली गद सवि गयोरे ॥ ११ ॥ अमृतपरे निज आतम सींची धर्म-
थीरे, अंगीकरे शूही धर्म; रायरे, रायरे, ताय ते श्रीजयानंदनोरे ॥ १२ ॥
जैन धर्मे द्रढ करीने जनकने थापतारे, तेह क्रमागत राज्य, जाणीरे जाणीरे,
मन आणी नृप आदरेरे ॥ १३ ॥ पुत्र वचण गुणवंतनुं नवि ओलंघतारे,
हवे जावानुं मन्न; श्रीजयरे श्रीजयरे, विजयराय हठे राखतारे ॥ १४ ॥

तात संतोषने कारण केइक दिन रहीरे, परजाने सुखदाय; धायरे धायरे,
 राय श्रीविजय घर्मीं घणुरे ॥ १५ ॥ परजाने पण जैन धर्म समजावतारे
 श्रीश्री विजय नरिंद, भोगवेरे भोगवेरे, जोगवे राज्य असंडनेरे ॥ १६ ॥
 एकदिन विजयराय चित्तमांहे दयाळुओरे, कारागारमां जेह; घाल्यारे घा-
 ल्यारे आल्या मृगता तेहनेरे ॥१७॥ सिंहसार हवे कारागारमां दुःख खमेरे,
 वध बंधादिक जोर, खमतोरे खमतोरे, नवि नमतो मनथी कदारै ॥ १८ ॥
 भत्रीज जाणी काढी मूक्यो देशथीरे, पाले राज्य महंत; रायरे रायरे नवि
 अन्याय कदा करेरे ॥ १९ ॥ श्री जयानंद हवे अवसर लही एकदा रे, ता-
 तना प्रणमी पाय; भगतेरे भगतेरे, युक्ते पूछी तातनेरे ॥ २० ॥ मात प्रमुख
 गुरू जन प्रणमीने आदरेरे, केइने वात्सल्य कीध; केइनेरे केइनेरे, देइने द्रष्टि
 सोहामणीरे ॥ २१ ॥ केइने मधुर वयणथी संतोष्या घणारे, राजन्यने पर-
 धान; जेह रे जेह रे, नेह धरी घणो पूछतारे ॥२२॥ जनपद लोक प्रजाने प्रीति
 उपायतारे, बोलावा सहू जाय, आवेरे आवेरे, भावे खेचर नृप वहुरे ॥
 २३ ॥ सोल सहस्र नृप अरघा भरतना आवीआरे, निज निज लेई सैन्य;
 वळीयारे वळीयारे, टळीया नहीं रण कर्ममारे ॥ २४ ॥ चतुरंगी सेनाये
 चतुर ते चालीधारे, निज पुर जावा काज; कोई रे कोई रे नवि होये प्रतिमळ
 कदारै ॥ २५ ॥ वाजित्र शब्दे दिशा वलय सवि पूरीयुरे, शत्रुदंदने त्रास; आपे
 रे आपे रे कापे दुख मित्रज तणारे ॥ २६ ॥ केटलीक मजले कोई अटवीमां
 उत्तर्यारे, पूजा करी जिनराज; भूप रे भूप रे, कूप अगाथ ते सत्वनोरे ॥२७॥
 अशनादिक करीने सहू राजन्य लोकने रे, वाले हठथी राय, अनुक्रमेरे अनु-
 क्रमे रे, जिनधर्मे जन वासतारे ॥ २८ ॥ अनुक्रमे आव्या लक्ष्मीपुर महा म-
 होत्सवे रे, अनुक्रमे पोहाता मेह; पाले रे पाले रे, टाले कंटक राज्यमां रे ॥२९॥
 सहू नृप भूचर खेचर प्रणमी मोदथुं रे, निज निज थानक जाय; गायरे गा-
 य रे, राय तणा गुण प्रखेरे ॥३०॥ नवमे खंडे ढाळ पन्नरमी ए कहीरे, श्री-
 जयानंदने रास; भाखे रे भाखे रे, दाखे पद्मविजय मुनि रे ॥३१॥ सर्वगाथा
 ४४३.

दुहा.

श्रीजयानंदना राज्यमां, जलचर नवि पकडाय; थलचर खेचर परस्परे,
नवि कोई हणवा धाय ॥ १ ॥ जनम गरण अकाले नहीं, कंटक कमलनी
नाल; सरोगता कमले रत्नं, दंड देउल शिर भाल ॥ २ ॥ कलह ते गज शाला
रघो, छुहियां मंदिर होय; स्नेहनों क्षय दीपक विपे, कुटिल सापिणि गति
जोय ॥ ३ ॥ अहव कुटिल सरिता कही, फूलके वेणि बंधाय; कर प्रचंड
करिनो रणे, सकलंक शाही कहेवाय ॥ ४ ॥ निर्दयता खडगे रही, कोरणी
मंदिर मांह; पण ए लोक महि नहीं, रहेता चित्त उत्साह ॥ ५ ॥

टाल १६ मी.

॥ पिउजी पिउजी नाम जपुं दिन रातीआं ॥ ए देशी ॥

गो महिपी घट अधिक दीये पय लोकने, थानरु थानक पूरी धरा धान्य
थोकने; काले वरतो मेघ करे पुष्टता घणी, आपे फूलने फल पट ऋतु आपे
आपणी ॥ ६ ॥ रत्न छुवर्णना आकर नीपजे नगनगे, रयण निधान प्रगट
होये धरतीये पगपगे; पूर्वजे दाटघां धन परजाने नीसरे, नारी सुगुण सुख
कर सुशील सहु शिरे ॥ ७ ॥ छूत१ मद्य२ वेर्या३ परनारि गमन४ नहीं,
चोरी५ नेमृगया६ मांस७ ए व्यसन टाले सही; निजपर चक्रनो भय उपस-
र्ग नहीं कदा, नहीं अति दृष्टि अनादृष्टि दुखदायी सदा ॥ ८ ॥ कलह ड-
मर नहीं दंश मत्सादिक नवि नडे, मूपक तीडना भय सुपने पण नवि जडे;
त्रिविध उपाये मंत्री प्रधान बले करी, राष्ट्रकोशादिके पूरण राज्यसिरि
धरी ॥ ९ ॥ हवे श्रीविजय रूप दानादिक आचरे, लक्ष्माधिक वरसा लगे
धर्म विविध करे; निरपृहपणे राज्य पाले अज्ञात शत्रुपणे, दुख टाले पर-
जानां राखे सुख घणे ॥ १० ॥ जीरणोद्वार करावे द्रव्यनो व्यय करी, जै-
न शिरोमणि थडने पुण्य लक्ष्मी भरी, श्रीजयानंदनी आण लही लघु सुत
भणी, शुभ दिवसे राज्य थापे शीख देई घणी ॥ ११ ॥ नाम शतानंद यो-

ग्य उत्तम गंभीर ते, सहजने सम्मत तेजस्वी धुरे धीर ते; विनीत ने गुण अनु-
 चर धर्में गिर हितकर, निश्चल धईं वृष धर्म करे निज सुखकर ॥ १२ ॥
 आगमसागर सद्गुरु तेणे समे आवीआ, भाग्य घकी तेणे काले मनमां भा-
 वीआ; लेईं प्रजानी आणने दीक्षा मन घरे, निजसुत नरपति ओत्सव म-
 होत्सव बहु करे ॥ १३ ॥ सुख वाहन वेशीने दान बहु दीये; जैन धर्म पर-
 भावना बहु आणंद हीये; योग्य पुरुष परिवारयीं गुरु पासे जईं, करीं पर-
 णामने आदरे व्रत शीघ्रज धईं ॥ १४ ॥ विजयराज ऋषि दक्ष गुरु सेवा
 करे, ग्रहण आसेवन शिक्षा अनुक्रमे दाय घरे; तत्व जाण सत्ववंत अशेष
 आगम भणे, अंतर शत्रु जय करे कर्म कठिन हणे ॥ १५ ॥ तप करता
 विचरे गुरु साथे विनय करे, शांत जितेंद्रिय गुण अणगारना आदरे; तात
 दिक्षार्थी हर्ष खेद भूपति लहे, सह्य मुनि वंदना करीने जाये निज गृहे ॥ १६ ॥
 श्रीशतानंद राजान जैन धर्म पालता, सैन्य परिच्छदशुं शासन अजुआ-
 लता; कोइक दिन निज राज्ये रही बहु नेहयीं, अग्रज उपरे भक्ति घणी चित्त
 गेइयी ॥ १७ ॥ श्रीजयानंदनी सेवा करवा इच्छतो, सार सैन्य लेईं लक्ष्मी
 पुर भणी गच्छतो; राज्य सौंपी विम्बासी पुरुषने चालीयो, पहतो लक्ष्मीपुर
 ठाम ताम चित्त म्हाळीओ ॥ १८ ॥ श्रीजयानंद नरेंद्र चक्रीने जईं मल्या,
 अनुजनी भक्तियी आदर करी सुखमां भल्या; नवमे खंडे ढाळ ए सोलमी
 मन शरो, पद्म कहे भवि धर्म करी भव जल तरा ॥ १९ ॥ सर्वगाथा ४६२.

दुहा.

बहु आदर सतकारिआ, वली कीथुं बहु मान; गुणीने गुणवंता मले,
 वाधे प्रमोद प्रधान ॥ १ ॥ शतानंद नृप आदि दे, वांषव बहु परिवार; स-
 हसगमे भूचर तथा. खेचरना पण वार ॥ २ ॥ राजाधिराज एक दिन हवे,
 रयवाडी सह्य संग; श्रीजयानंदजी आवीआ, नगर बाहिर मनरंग ॥ ३ ॥
 ताम लोक एकण दिशे, जाता देखे जाम; तेम आवता वली जावता, ल-
 खलो नर अभिराम ॥ ४ ॥ तेहमांथी कोइ पुरुषने, तेडी पूछे राय; शो उ-

घम छे लोकने, केम गमनागम थाय ॥ ५ ॥



हाल १७ मी.

॥ राग विहागढो, मुज घर आवज्योरे नाथ ॥ ए देशी ॥

ते नर कहे नरपति सुणो, ए वात छे अद्भूत; एणनगर दूकडा आवीआ,
पूर्व दिशे अवधूत ॥ ६ ॥ मन मानज्योरे नाथ, ए नगर कीधी सनाथ मन०;
ए आंकणी. मनोरम उद्यानमां, जयनाम ते ऋषिराय, तप करे छे अति आका-
रां; पंचाग्निने तेह तपाय ॥ मन० ७ ॥ समता घणी इंद्रियोदमी, यम नियम-
पाले सार; तेह ऋषि नमवा जाय छे, ए लोकनां हजार ॥ मन० ८ ॥ उप-
गरण लेई पूजा तणां, केइ धरी लोक विवेक; जई पूजशे ते ऋषि प्रसे, चि-
त्त धारी धर्मनी टेक ॥ म० ९ ॥ केई सोवन फूल केई वस्त्रयी, केइ विले-
पन लेइ जाय; पण निःस्पृहमां ए अवधि छे, तपनो निधि ऋषिराय ॥ म०
१० ॥ सत्कारथी तूसे नहीं, रूसे न लही अपमान; ए निरीहने मणि मृत्तिका,
शत्रुने मित्र समान ॥ म० ११ ॥ कनक पथ्थर समवडे, पृथ्वी करे सुपविच्छ-
करे स्नान त्रण वेला बली, धरे जटा मुकुटनी रीत ॥ म० १२ ॥ वस्त्र पहे-
रीयां तरु छालनां, कंदमूल फळनो आहार; मृगचर्म धरी संघ्या करे, निद्रा,
तजी निरधार ॥ म० १३ ॥ रहे ध्यान मांहे विधि थकी, निःस्पृह पोताने
देह; वचवास निख जेणे कर्यो, शास्त्राभ्यासी जेह ॥ म० १४ ॥ पदुवचन-
पण गुण लेशने, समरथ न कहेवा होय, करे भक्ति एहनी तेहने, नबि आवे
भव भय कोय ॥ म० १५ ॥ तेणे नगरना जन सहु मली, ए आवे ने बली
जाय; ते सुणी श्रीजयानंदजी, चित चितथे महाराय ॥ म० १६ ॥ मममां
मानज्यो भवि जीव, भवस्थिति विचित्र सदैव म०; अज्ञान महा दुखे छे-
दीये, धन निबडने अनंत; काल रात्रिपरे महा दुख दीये. प्राणिनां सुख हरंत
॥ म० १७ ॥ सन्मार्गने ए आचरे, दुर्दशा कारण एह; तिरयंच नरकना
भव भमे, सवि दुःखनुं ए गेह ॥ म० १८ ॥ मिथ्यात्न रुखनु कंद ए, सद्ग्या-

ननु ए चोर, सहु कर्ममां ए शिरोमणि, अज्ञान अतिहि कठोर ॥म० १९॥
 तृष्णा विषयनी जे नदी, तेहनो ए गिरिवर जाण; विचित्र भवनाटिक
 करे, ते जाणो महिमा अन्नाण ॥ म० २० ॥ चेतन ते पथर सारिखो, नवि
 जीव माने कोय; एणिपरे अज्ञाने करी, वेठो ते निज रीद्धि खोय ॥म० २१॥
 पंचेंद्रि पण अज्ञानधी, गत नयनपरे करे काम; तेणे अंध तम अज्ञान ए, त-
 ल्ल दृष्टि न रहे ठाम ॥ म० २२ ॥ तेणे एह काका माहरा, बुद्धिवंत पण अज्ञान-
 न; मारग विना केम जई शक्ते, नेत्र हीन वंचित थात ॥ म० २३ ॥ तेणे हु
 ए पीतराया प्रसे, करु सम्यग् दर्शनवंत, शुभ ज्ञान अमृत आंजिने, करु
 दिव्य नेत्र महंत ॥ म० २४ ॥ एम चित्त मांहे चित्तवी, श्रीजयानंद भूपाळ;
 पितृव्य बोधन कारणे, अपनी बुद्धि विशाल ॥ म० २५ ॥ नवमे खंडे
 सचरमी, घणुं ढाळ एह रसाल; कहे पद्य श्रीजयानंदजी, करघो ते मंगळ
 माल ॥ म० २६ ॥ सर्वगाथा ४९०.

दुहा.

प्रज्ञप्ति विद्या प्रते, समरे श्रीजयानंद; आवी प्रगटपणे तिहां, पृच्छे परमा-
 णंद ॥ १ ॥ प्रज्ञप्ति कहे सांभलो, एरने बोध उपाय; पंचाधि साधन करे,
 तापस ए ऋषिराय ॥ २ ॥ पूरवदिशे अग्नि स्थळे, मोटुं काष्ठ पोलार;
 मोहटो नाग तिहां वळे, प्रथमतोए अवधार ॥ ३ ॥ दक्षिण दिशना काष्ठ-
 मां, कार्किडो लहे दाह; इंधण तापथी आकुलो, नवि नासणनो राह ॥ ४ ॥
 पश्चिम दिश अग्नि स्थळे. उदेही छे अपार; काष्ठमां वळती तेहने, नवि कोई
 राखणहार ॥ ५ ॥ उत्तर दिशछे काष्ठमां, देडकीनो नही मान, केइ मूइ केइ
 जीवती, केइक मूआ समान ॥ ६ ॥ तिहां जइ काष्ठ कढावीने, करज्यो
 दो दो भाग; पंचेंद्रि वलता थका, देखावज्यो लही लाग ॥ ७ ॥ धर्म दया-
 मयी भापीने, वयण सुकोमल रीत; पितृव्य तापस ऋषि प्रसे, प्रति बोधज्यो
 धरी प्रीत ॥ ८ ॥

ढाल १८ मी,

॥ आसणरा जोगी ॥ ए देशी ॥

देवी थानिक गइ हवे तिहारे, नरपति चित्त विचारेरे; जिन शासन रसी-
यो, जिन वचने थापुं एह तपसी, जेम न पडे फरी लपसीरे ॥ जि० ९ ॥
तेणे मारग चाल्यो नरपाल, तिहां पहीतो परम दयालरे जि०; लोक सहु-
ने दूर कर.वे, नरपति पासे जावेरे ॥ जि० १० ॥ आदरथी भय रहित भू-
पाल, कांयक नमतो भालरे जि०; धर्म स्वरूप हुं तुमने भाखुं, तेहमां खल-
खंच न राखुंरे ॥ जि० ११ ॥ धर्मनु मूल दया छे सघले, पद दर्शनमां पग
पगलेरे जि०; सवि संपद मुख हेतु एह, कही वेद पुराणे जेहरे ॥ जि० १२ ॥
तेह दयाशुं तप जप करिये, तो भव सायर तरीयेरे जि०; तदुक्त ॥ ददातु
दानं विदधानुं मौन, वेदादिकं चापि विदां करोतुं ॥ देवादिकं ध्यायतु संततं वा,
नचेदया निष्फलमेव सर्वं ॥१॥ न सा दीक्षा न सा भिक्षा, न तद्दानं न तत्तपः
न तद्ब्रह्मचर्यं न तन्मौनं, दया यत्र न विद्यते ॥२॥ पूर्वढालः ॥ एह दया सवि धर्म-
लुं मूल, ते विण सविछे प्रतिकूलरे ॥ जि० १३ ॥ मुख सघलानुं साधन
तात, जे जगमांहे विख्यातरे जि०; एह दया जेहने चित्त आवी, तस भय
नवि होये भावीरे ॥ जि० १४ ॥ यतः ॥ कृपानदी महातीरे, नर्वे धर्मास्तृणां-
कुरां ॥ तस्यां शोपमुपेतायां, कियन्नंदति ते चिरं ॥ १ ॥ पूर्वढालः ॥ जाणे
जीव अजीव स्वरूप, तप पाले दया अनुरूपरे जि०; तदुक्तं ॥ जो जीवे विवि-
आणाइ, अजीवे विविआणइ; जीवाजीवे विआणंतो, सोहु नाहि इं सज्जमं ॥ १ ॥
॥ पूर्वढाल ॥ जीवा जीव स्वरूप न जाणे, केम दया पाले अजाणेरे ॥ जि०
१५ ॥ जो जैनागम होय अभ्यास, ते होय सदगुरु पासेरे जि०; ते विण
एह दयानो अंश, नवि आवे उलट होय भ्रंशरे ॥ जि० १६ ॥ निधि औ-
पधी माण पगपग खाण, कोई सिद्धपुरुष मले जाणरे जि०; तो ते हाथ
आवे मुख पावे, नही तो महेनत सवि जावेरे ॥ जि० १७ ॥ जैनागम गुरु
विण धर्म मूल, केम पापीजे अनुकूलरे जि०; ते आगम आसनो उपदेश, आ-

स ते अरिहंत विशेषरे ॥ जि० १८ ॥ यतः आगमश्चाप्तवचनं, आसंदीपस्त-
याद्विदुः ॥ वीतरागोऽनृतंवाक्य, नम्रूयाद्धेतुसंभवात् ॥ पूर्वढालः ॥ विण
आधार आधेय न होय, गुरु विण आगम नहीं कोयरे जि०; ज्ञान क्रिया सं-
युत गुरु जाणो, जिन वचन सम को न पिछाणोरे ॥ जि० १९ ॥ ज्ञान दर्शन
चारित्र छे जेहमां, वली देवगुरु धर्म एहमारि जि०; भावथी दोय ए त्रिक
आरार्थ, तव केवल ज्ञानने साधेरे ॥ जि० २० ॥ योग ते एह दया जे पाले,
दया विण योगने गालेरे जि०; नागो रहे वली शिर मुंडावे, मौन धरे वली.
राख लगावेरे ॥ जि० २१ ॥ वांकलां पहेरे जटाने धरावे, करे स्नान अग्नि होत्र
थावेरे जि०; कंदमूल वली करे आहार; मृग प्रमुख चर्म वली धारेरे ॥ जि०
२२ ॥ वली पाखंड करे अधि केरा, पंचाग्नि प्रमुख बहु तेरारे जि०; चांद्राय-
णादिक तप बहु तपतो, ध्यान नियमने जाप ते जपतोरे ॥ जि० २३ ॥ देवार्चन
वेद आगम भणतो, आतापना क्लेश न गणतोरे जि०; एकादशी मुख व्रत आ-
चरतो, सन्यास प्रमुख आदरतोरे ॥ जि० २४ ॥ भूमिशयन वली विद्या साधे,
बौद्धादिक दीक्षा आराधेरे जि०; दया विनां सवि फोकट जाणो, एहमां सं-
देह न आणोरे ॥ जि० २५ ॥ तात दया पालो भली रीते, दया सर्व धर्मने.
जीतेरे जि०; पंचाग्नि तपमां नहीं लेश, दया केरो कांय प्रवेशेरे ॥ जि० २६ ॥
नवमे खंडे अठारमी ढाल, कहे श्रीगुरु उत्तम वालरे जि०; ऋषिने श्रीज-
यानंद भूपाल, कहेवा करे जीव प्रतिपालरे ॥ जि० २७ ॥ सर्वगाथा ५१५

दुहा.

तातजी सुणो पूर्व दिशे, काष्ठमां बलतो नाग; दक्षिण दिशे सरडो बले;
धर्मनो केहेवो लाग ॥ १ ॥ जूओ पश्चिमदिशे काष्ठमां उदेही संहार; उत्तर
दिशि बहु देडका, बतलावे निरधार ॥ २ ॥ भूजलवायु अनल वली, वनस्पती
सहु जीव; हेतु दृष्टांत ए साधतो, श्रीजयानंद समीव ॥ ३ ॥ ते कारण हे
तातजी, तलातल विवेक; करनारा तुमे पूज्यछो, हिंसा न घटे छेक ॥ ४ ॥
इसादिक सुणी रायनां, वचन विचार पवित्र; राज्य ऋषि जय बुझीया,

श्रीजय वात विचित्र ॥ ५ ॥ आदेय वचन तणी घणा, वयण न निष्फल
होय; मेघ धारा अमृत तणी, निष्फल कदि न जोय ॥ ६ ॥

ढाळ १९ मी.

नमो नमो मनक महा मुनी ॥ ए देशी ॥

श्रीजयरान ऋषि हवे, घुरथी पण वैरागरे; भव भ्रमणे उदवेगीआ; वली
नृप वयणनो लागरे धन धन ए तापस ऋषि ॥ ७ ॥ ए आंकणी ॥ शुद्ध
धरमनुं मूल जे, समकित धरे निज अंगेरे; तापसपणुं हवे छांडीने, चारित्र
मन करे रंगेरे धि० ॥ ८ ॥ तावत कोइ नर-आवीने, श्री ज्यानंदने भासेरे;
गुरु आच्या उद्यानमां, तव नृप एम प्रकाशेरे ध० ॥ ९ ॥ कोण गुरु कूण
थानके, तव उत्तर कहे तेहरे; पूर्व उद्याने चंपकवने, पाऊधार्या गुण गेहरे
ध० ॥ १० ॥ सूरि आगमसागरु, नाम तेहवो परिणामरे; पांचशे मुनिवर
परिवर्या, उत्तर्या निर्जावि ठामरे ध० ॥ ११ ॥ विजयरान ऋषि साथ छे,
जे तपना करनाररे; वचन सुणी नृप हरखिया, कुंद ज्युं मेघनी धाररे ध०
॥ १२ ॥ विपुल देइ तस दानने, नगर मांहि करे जाणरे; अंतैर पूरणन
प्रत्ये, गुरु आगमननुं नाणरे ॥ १३ ॥ तापस ऋषि आगळ करी, श्रीजय
तापस नामरे; अन्य लोक साथे थया, जोवा वात उदामरे ध० ॥ १४ ॥
सर्व रीद्धिथुं परिवर्या, नृप घोभा जेम इंदरे, गुरु देखीने साचवे, पचाभि
गमनो वृंदरे ध० ॥ १५ ॥ वंदन विधि सवि जालवी, व्रण प्रदक्षिणा देई-
रे; सूरी वंदी वली वांदता, विजयादिक मुनि केईरे ध० ॥ १६ ॥ स्तुति
करी श्री गुरुराननी, बेसे निज निज थानरे; पितृव्य सहित राजा प्रत्ये,
करे धर्म लाभनुं दानरे ध० ॥ १७ ॥ देशना सरस सुधारसे, मेघ धारापरे
वरसीरे; भव्य वृक्ष विकश्वर करे, गुण नवपल्लव फरसीरे ध० ॥ १८ ॥
केईके देशना सांभली, सम्यग्दर्शन पामेरे; देश विरति केइ आदरे, केइक
महावृत्त काधेरे ध० ॥ १९ ॥ केइक समकित व्रत लिये, तपसी श्रीजय रा-

यरे; वैराग्ये चारित्र आदरे महोत्सव करे चक्रिरायरे ध० ॥ २० ॥ गुरु व-
यणे जय मुनि वरु, विजय मुनीश्वर पासेरे; ब्रह्मण आसेवना वेहु प्रते, शि-
क्षा निस्र अध्यासरे ध० ॥ २१ ॥ गुरु तेम तात काका प्रत्ये, राजऋषिमां
वडेरारे, अन्य वली मुनीराजनां, चरण नमे सहु केरारे ध० ॥ २२ ॥ प-
रिकर सहित घरे गया, त्रण खंड राज पालेरे; आत्मपरे प्रजा पालतो,
सर्व अनर्थने टालेरे ॥ ध० २३ ॥ दंड देवे अन्यायीने, न्यायवंतधी रीक्षेरे,
तात पितृव्य संभारतो, अद्विरतिथी मन खीजेरे ॥ ध० २४ ॥ त्रण अर्थ
निज अवसरे, साचवतो नित्य नित्यरे; राज्य गुणे राज्य पालतो, भीमकांत
वड चित्तरे ॥ ध० २५ ॥ ॥यतः ॥ धर्मार्थ कामेषु मियो, व्यावार्था परिहृ-
त्ययः ॥ प्रवर्तते कृतीशश्च, तस्य लोकद्वयं शुभं ॥ १ ॥ पूर्व ढाल ॥ मुख्य
फल भावथी बहु सुखी, द्रव्यधी संतति होयरे; पुत्र एक लक्ष लक्षण धरा, बहु
कलावंत ते जोयरे ॥ ध० २६ ॥ शास्त्र बहु जाण यौवन लक्षा, सत्यसंधा
शूरवीररे; सुगुण मतिवंत महाशय धणी, प्रगुण आचार महाधीररे ॥ ध०
२७ ॥ लोकप्रिय तात आणा करे, देश पुर गामने ठामरे, प्रौढ नृप कुल-
नी कन्या वर्या, जैनशासनी अभिरामरे ॥ ध० २८ ॥ महा पराक्रमी विनयी
घणा, करे क्रिया जेह निष्पापरे; तात भक्ताने न्यायी वली, करे गुरु देवनो
जापरे ॥ ध० २९ ॥ जिनवर पूजना निस्र करे, भुजवल जास अनंतरे; हय-
गय सैन्यशुं परिवर्या, कोश भंडार भरंतरे ॥ ध० ३० ॥ भूधर धीरगंभीर-
ते, रूपथी जीसो अनंगरे; शशीपरे कीर्त्ति बहु उजली, कृत गुण जाण शुभ
संगरे ॥ ध० ३१ ॥ शत्रु उपर अति क्रूर ते, आण चाले घणी तामरे, बहु
प्रतापी परिवार आति, सार संस्थान वली जासरे ॥ ध० ३२ ॥ श्रीजयानं-
दना पुत्रनी, रीद्धि वरणवी कही जेमरे; खंड नवमे ओगणाशमी, ढाल पञ्चे
कही प्रेमरे ॥ ध० ३३ ॥ सर्वगाथा ५४८.

दुहा.

शतधनु उंची देहडी, सोवन वर्ण शरीर, सूर्यपरे तेजे तपे, समुद्र-
परे गंभीर ॥ १ ॥ लाख पूरव दोय आउखुं, रोग रहित आणंद, राज्य स्व-

र्ण मुद्रा धरे, न्याय माणिक सुखकंद ॥२॥ चंद्रपरे कुवलय प्रत्ये, करतो नि-
ख विक्राश; तम राहु जस नवि ग्रहे, पसरे निख प्रकाश ॥ ३ ॥ दानी क-
ल्पवृक्षनी परे, सुविधि नाथ जिनराज;तेहनु तीर्थ प्रभावता, श्रीजयानंद महा-
राज ॥ ४ ॥ दान भंडप.पगपगे करे, तिहां दीये दान अपार; दीन अनाथ
कोढथो गमे, संतोषे तेणीवार ॥ ५ ॥ स्थान शयन परदेशीने, नीपेजावे बहु-
राय; जिन प्रामाद घणा करे, पूण्यराशि मानु थाय ॥ ६ ॥ ते पण गाम
गामे करे, नगर नगर ठाम ठाम; कोढथो गमे ते भरावतो, जिन प्रतिमा
शुभ काम ॥ ७ ॥ तास प्रतिष्ठा करे वली, थापे देहरा माहे; पूजाविधि
निख साचवे, धरतो अंग उत्साह ॥ ८ ॥ ग्रास ग्राम दीये देहरे पुष्पवाढी
यो चंग; वापि प्रमुख चैस कारणे, नृप दीये घरी उछरंग ॥ ९ ॥



हाळ २० मी.

॥ साहेबा मोतीडो हमारो, मोहना मोतीडो ॥ ए देशी ॥


एक दिन राज्य सभा नृप जोडी, अवर भूपाल रक्षा करजोडी; साहेबा
चिनति सुणो मोरी, मोहना चिनति०; करकज जोडी कहे वनपाल, सांभ-
ळजो मुज वात रसाळ ॥ सा० १० ॥ गुरू आगमने वधावुं राय, नृप मन
अधिक प्रमोद ते थाय; विमलमति राजा कहे एम, कोण गुरू किहां छे क-
हो जेम ॥ सा० ११ ॥ वनपालक कहे सुणो भूपाल, गुरू गुणसायर पट्ट-
काय पाल; महिमा जेहनो कळो न जाय, जगतमाहे गुण जास गवाय ॥
सा० १२ ॥ नाम देता जीह थाए पवित्र, त्रिभुवनमां अद्भूत चरित्र; नाम
थकी दुख विलये जाये, गुण लखमी जस तनुं नवि माय ॥ सा० १३ ॥ अ-
धिज्ञान मोक्षथी अधिकेरुं, प्रतिपाति नहिं तेह भल्लेरुं, बहु साधु सेवे जस
चर्ण, निरतिचार पाले जे चरण ॥ सा० १४ ॥ पृथु उद्यानमां निरवद्य ठा-
म, अवग्रह मागी रक्षा गुण धाम, राजऋषि चक्रायुध नामे, पाउधायछे मुज
आरामे ॥ सा० १५ ॥ सूरि तेजे सूरज जीपे, शांति गुण ज्ञानीपरे दीपे;

लब्धि अनेक निधान मुर्णित, प्रणये दुर नरनारी हृद ॥ सा० १६ ॥ पुरव
 पुण्य होये जो अतोल, तो दर्शन थाय ए अमोल; महा रीति आवी मन र-
 गे, प्रणमो ते गुरु अति उछरंगे ॥ सा० १७ ॥ सांभळी चिकसे नृप रोमरा-
 य; अंग आभूषण वस्त्र अपाय; पडह वजटावे नयरगां भूप, चालजो गुरु
 वंदन करी चूप ॥ सा० १८ ॥ करी सामग्री समग्र नरिंद, सैन्य सामंत प्र-
 जाना हृद; वाजित्र नादे गगन ते गाजे, नृप आरोहे पड गजराजे ॥ सा०
 १९ ॥ वींझाये वामर शशिपरे श्वेत, छत्र दारे आतप भूनेत, नीकटीओ गुरु
 वंदन हेते, राणीओ सज्ज थई हवे ते ते ॥ सा० २० ॥ रत्तिसुंदरी विजया-
 दिक राणी, सहस्र गमे हूई सपराणी, निकले ते निज निज परिवारे, नृप
 पुंडे बहु हर्षने धारे ॥ सा० २१ ॥ सद्गुरु दर्शन दीडुं ड्यारे, गजवरथी उ-
 तरे नृप तिहारै; पंचाभिगम साचवे राय, व्रण प्रदक्षिणा दांशे तेणे ठाय ॥ सा०
 २२ ॥ विनय नम्र थई धरिय विवेक, वंदना करे भक्त अतिरेक; विद्या
 चारण श्रमणना धोरी, वंदे गुरु निज पाप विछोरी ॥ सा० २३ ॥ दीये
 धर्म लाभ गहा लाभकारी, श्रीजयानंदने बहु हर्षकारी; श्रीजयानंद पण वि-
 कसित वयणे, गुरु सन्मुख जोइ रसभर नयणे ॥ सा० २४ ॥ गुरु स्तवना
 करे करकज जोडी, पाप तणा परपचने त्रोडी; अनुक्रमे वीजा पण राजा-
 न, परजा अंतबर परधान ॥ सा० २५ ॥ हर्षे प्रणमी स्तवना करता, भ-
 क्ति घणी मन मंदिर धरता, गुरु मुख आगळ श्रीजयानंद, वेसे धरतो परमा
 नंद ॥ सा० २६ ॥ उचित स्थानक निज निज सहु वेसे, जेम गुरु वयणां
 हृदयमां पेंते, सुर असुरां नर परखद देखी, देवना दीये भव्य जीव गयेखी
 ॥ सा० २७ ॥ नवमे खडे वीसमी ढाल, श्रीजयानंदने रास रसाल; पञ्च कहे
 सुणो घाल नीपाल, श्रीगुरूची दोय मंगलमाल ॥ सा० २८ ॥ सर्वगाथा५७६.

दुहा-

देवना भवनी नाशनी, साधारण दीये तोय; श्रीजयानंद उद्देशिने, प्रारंभे
 गुरु सोय ॥ १ ॥ क्षीराश्रव लब्धे करी, देवा नृप प्रतिबोध; पूर्वे भव कही

दाखवे, आप तणो संबंध ॥ २ ॥



ढाल २१ मी.

॥ निद्रही बेरण हुई रही ॥ ए देखी ॥

आरामिक भवे प्रभु तणी, पूजानां हो फल पाभ्यो तारके; राज प्रसाद घणो थयो, दोय नारी हो तिहां प्राण आधार के ॥ ३ ॥ जिन पूजा फल सांभलो, बली व्रतदाने हो फल होय अनंत के, पछी मतिसुंदर तुं थयो, मंत्री सर हो माहरो गुणवंत के ॥ जि० ४ ॥ पूरव भवनी दोय प्रिया, ए भवमां हो थई ताहरी नार के; अतिबल राजा ऋषिकने, अरिहंतनो हो लह्यो धर्म प्रकार के ॥ जि० ५ ॥ दोय प्रिया श्रुं आराधिओ, तुमे व्रण जण हो तिहांथी थया देवके; तिहांथी चवीने तु थयो, व्रण खंडना हो जन करतासेव के ॥ जि० ६ ॥ पूरव भव पत्नी थई, राजकुलमां हो कन्या रुपवंतके, ते तुज रतिसुंदरी तथा; विजयसुंदरी हो सती महा शीलवंत के ॥ जि० ७ ॥ तुं नरवीर नृपति तणो, मतिसुंदर हो मंत्री निरमायके; धर्म पमाढथो रायने, स्याद्वदे हो भाख्यो जिनरायके ॥ जि० ८ ॥ धर्म आराधी सुर थयो, तिहांथी चवी हो चक्रावल भूपालके; तस सुत चक्रायुध थयो, हुं नरपति हो दोय श्रेणि प्रतिपाल के ॥ जि० ९ ॥ राज्य भोगवुं दोय श्रेणिसुं, तुं जीसो हो तेणे आब्यो वैरागके; चार ज्ञानथी विशेष श्रुं, उपनो बली हो थयो चारिल ल्यागके ॥ जि० १० ॥ नारी प्रयोजने तुजने, बांधीने हो क्षेपव्यो कारागार के; पूर्वे तेणे ते मुज प्रसे, बांधीने हो काष्ट पंजर मझारके ॥ जि० ११ ॥ वंघन मांहेथी काढीओ, पूरव भवे हो तुजने ततकालके; उपगारि तुज जाणीने, बहु मान्यो हो धरी प्रीति विशालके ॥ जि० १२ ॥ जेणे तें मुजने इहां मुकीओ, राज्य कन्या हो दीधी घणी प्रीति के; आपणने निस वाधती, नवि लंघे हो कोई कर्मनी रीति के ॥ जि० १३ ॥ धर्मोपगारने कारणे, आब्यो हुं हो बली सांभलो वातके; रायमंत्री

(४१२)

श्री जयानंद केवलीनो राम.

भवे आपणे, श्रावकनो हो कर्षो धर्म विख्यातके ॥ जि० १४ ॥ कल्प वृ-
क्ष समयो धर्म ते, शुद्ध भावे हो आराध्यो नाम के; राज्य संपद प्रवली ल-
क्षा, भोग सुख लक्षा हो एणीपरें अभिरामके ॥ जि० १५ ॥ अतिशय श्र-
द्धा तुज हनी, तेणे अतिशय हो लहो मुजयी रीद्वि के; कर्मयी कोई वलि-
यो नहीं, तेम धर्मयी हो पामे सवि सिद्धि के ॥ जि० १६ ॥ नेत्र गयां के
सूसे नहीं, ह्यादिक हो पूरव भवे जेह के; तें युनिने मारुयुं हतुं, तेणे आं-
रुयो हो गई एणेभव एहके ॥ जि० १७ ॥ पहेलीए कुल निंघा करी, वीनी-
ए कष्ट हो मिल्लने द्यो अंधके; वैज्या कुले वीजी अंध यई, वली भिछनो हो
पामी संबंधके ॥ जि० १८ ॥ पथानाप थकी वली. कर्म खपिआं हो रह्यो
कांयक अंधके; तेणे इणभवे उदय थयो, भोगव्या विण हो नहीं कर्मनो भ्रं-
शके ॥ जि० १९ ॥ सिंहनो भव हवे सांभलो, पुरोहित मुज हो वसुसार जे
हुंतके; नास्तिक धर्म विरोमाणे, मे दीधुं हो अपमान अखंतके ॥ जि० २० ॥
काढी भूक्तयो देशयी, भवमांहे हो भयीओ बहु कालके; परिव्राजक थयो
कोई भवे, थयो ज्योतिपी हो सुर प्रेम विशालके ॥ जि० २१ ॥ बहु भव
भयीओ तिष्ठं थकी, तुज पितृव्य हो छुत थयो कुमारके; पापानुबंधि पु-
न्ययी, थयो मोटो हो नामे सिंहमारके ॥ जि० २२ ॥ तें पुरोहितने एम
कष्टुं, चंडालनो हो सो करवो संगके; तेणे तुज दोष दीयो एणे, चंडालनो हो
नदि कर्मनो भंगके ॥ जि० २३ ॥ नवमे खंडे ए कही, एकवीसमी हो पद्ये
वर दाळके; कम म करव्यो को सही, कर्म करी हो होये बहु जंजालके ॥ जि०
२४ ॥ सर्वगाथा ६००.

दुहा.

नास्तिक धर्म पूर्वे कर्षो, तेणे थयो कर्म जमाव; दोष भयो निर्गुण थयो,
मायी झूर स्वभाव ॥ १ ॥ अन्यायी निर्दयी घणो, जोधीने निर्भाग; लो-
भी द्वेषी आक्रो, पापमतिनो लाग ॥ २ ॥ धर्म द्वेषी निरंकुश वली, अरि-
हंत धर्म विषेश; धर्म नामे अमरप धरे, अधर्मनो उपदेश ॥ ३ ॥ अधर्म प-

न चले ते तिलमात; पृथिवीने पावन करी, पाली प्रवचन मात ॥ मा० १९ ॥
 अणज्ञाण करिय समाधिगां, सनत कुमार माहिंद, देव लोके सात अचरने,
 अधिक आउखे दोय इंद ॥ मा० २० ॥ सुख भोगवी ते इंद्रनां, महा वि-
 देह मझार, भिन्न भिन्न देवो यशे, नरपतिनो अवतार ॥ मा० २१ ॥ प्रौढ
 राज्य तिहां पालता, लेशे संयम भार; केवल लही मुक्ते जवो, शाश्वत शिव
 सुखसार ॥ मा० २२ ॥ सांभली सूरि मुख थकी, तात पितृव्य चिरतंत; हर्ष
 लही प्रणमी करी, नरपति वली पूछंत ॥ मा० २३ ॥ माहरुं तेम सिंहासारनुं
 तेम मुज नारिनुं जेह; भव स्वरूप स्वामि भाखिए, करिय प्रसाद मुज एह
 ॥ मा० २४ ॥ हुं भव्यके अभव्य छु, भव्य तो इणभव सिद्ध; अथवा आगे
 भवांतरे, भाखो करी हित बुद्धि ॥ मा० २५ ॥ अथवा मुज प्रिया आदिके,
 किम लेहजे निरवाण; अथवा नहीं जाये ते कदो सघलुं मांडी मंडाण ॥ मा०
 २६ ॥ सूरि कहे सुणो भूपति, तुज पत्न्यादिक जेह; आसन्न सिद्धि ते भव्य
 छे, इतर अयोग्य कहेह ॥ मा० २७ ॥ तेहमां तुं तथा ताहरी, नारीओ पूर्व-
 नी दोय; तेम हुं पण इणहिज भवे, सहने शिव सुख होय ॥ मा० २८ ॥
 देवो उणां लाख वरसनो, केवलिनो पर्याय; शान उद्योते जगतने, तारता
 करि सुपसाय ॥ मा० २९ ॥ पृथ्वीने पावन करी, चरणकमळे चिचलाय;
 चोराची लख नरसनं, पाली मुनि पर्याय ॥ मा० ३० ॥ सकल करमनो
 क्षय करी, वरशो शिवधू सार; हुं पण केवल लही करी, करि भव्यने उ-
 पगार ॥ मा० ३१ ॥ केक वर्ष विहरी करी, पापीश शाश्वत सुख, सिंहीनी
 वात हवे सुणो, जेम पामे अति दुख ॥ मा० ३२ ॥ नवमे खंडे बावीसमी,
 पक्षविजय कही ढाल; श्रीजयानदना रासमां, पुन्यथी मंगळमाल ॥ मा०
 ३३ ॥ सर्वगाथा ६३२.

दुहा.

सिंहासार पूर वाहरे, नीसरीओ ते जाम; भमतो पृथ्वीमां फरे, देश नग-
 र पुर ग्राम ॥ १ ॥ उदर भरणने कारणे, जिहां जिहां करतो वास; तिहां

तिहां आवे आपदा, मूके मुख निस्तास ॥ २ ॥ तिहां दुर्भिक्ष पडे वली, तेह-
नुं कारण एह; ज्ञानी निमित्तिआ वयणथी, जाणी निभ्रंछे तेह ॥ ३ ॥
लोक कोप करी एहने, काढी मूके ताम; सिंह सेवे जे भूपने, प्राये जावे ज-
म धाम ॥ ४ ॥ लोक कदे पगलां वुरां, एहनां दीसे भाय, शरण आधार
जे आपणो, मरण लहो जथो राय ॥ ५ ॥ ताइन तर्जना बहु करे, काढी
मूके तास; घोर पाप फळ अनुभवै, नवि पाये कही वास ॥ ६ ॥

ढाल २३ मी.

॥ आदर जीव क्षमा गुण आदर ॥ ए देशी ॥

चक्रायुध सूरि कहे सांभलो, सिंह तणो अवदातजी; पाप करी बहु व्यस
नने सेवी, अशुभ ध्यान दिन रातजी ॥ च० ७ ॥ किर्हादिक चोरीयां प-
कढायो, मरण लहो तेणीवारजी; पाप तणां फळ कडुवां जाणी, पाप न
करशो किवारजी ॥ च० ८ ॥ सातमी नरके घोर पापथी, उपनो आपद्
टाणजी; महा दुख सागर भोगवतो तिहां, वावीम अयर प्रमाणजी ॥ च०
९ ॥ तिहांथी नीकली मच्छादिकना, अंतरे भव करी एमजी; साते नरके
वार अनंती, उपनो नहीं कही खेमजी ॥ च० १० ॥ सर्व तिर्थचने देव ही-
णामां, तेम दुष्ट नरकमां जायजी, वार अनंति फिरी फिरी भमशे, पाप तणे
सुपसायजी ॥ च० ११ ॥ एणपरे पाप विपाक आकरो, भव अनंत दुख दा-
यजी; तास दृष्टांत ए सिंदनो भाख्यो, कर्म कर्मा नवि जायजी ॥ च० ११ ॥
एणपरे पाप विपाक आकरो, भव अनंत दुख दायजी; तास दृष्टांत ए सिं-
हनो भाख्यो, कर्म कर्मा नवि जायजी ॥ च० १२ ॥ एम जाणी भवि पाप
न कीजे, पुन्य मारग आदरियेजी; जेहथी भव दुखराशि न लहीये, बहेळुं
शिव सुख वरीयेजी ॥ च० १३ ॥ तुज साथे जे दीक्षा लेशे, अंतर रिपु जय
करताजी; तुज मिया तुज सेवक बीजा, नरपति पण व्रत वरताजी ॥ च० १४ ॥
स्वर्गादिकमां सुर सुख लहिने, महाविदेहे उपजशेजी; उत्तम चरण पाली ते

सर्वे, अल्प भवे शिव लहशेजी ॥ च० १५ ॥ एह सर्व जेतुजने भाख्युं,
 ते मुज बुद्धे न जाणोजी; पण हूं विहरमानं जिन वंदन, महा विदेहने ठा-
 णोजी ॥ च० १६ ॥ तिहां श्री पुंडरकिणी नगरीए, जिनवर करे व्याख्या-
 नजी, भव्य जीव प्रतिबोधन कारण, जेहने सह्यए समानजी ॥ च० १७ ॥
 देशनामां तुज चरित्र वर्णव्युं, प्रभुजीए करी विस्तारजी, धुरथी मांडीने जे
 भाख्यो, ते में सुण्यो अधिकारजी ॥ च० १८ ॥ अर्वाध ज्ञाने में जाण्यो हूं-
 तो, ए सघलो वृत्तांतजी; क्षायिक ज्ञानीनी वली साखे, दृढता थई द्रष्टांतजी
 ॥ च० १९ ॥ तुजने प्रतिबोधन हूं आव्यो, ते मुज कर्यो उपकारजी, पूर्व भवे
 जिन धर्म पमाड्यो, तेहनो प्रत्युपकारजी ॥ च० २० ॥ तुजने ए संसार
 असारथी, तारवा आव्यो जाणीजी; देवं देशना भव भय हरणी, सांभल
 तुं मुज वांणजी ॥ च० २१ ॥ नवमे खंडे ढालत्रेवीसमी, श्रीजयानंदने रासजी;
 पद्मविजय कहे सांभलो भवि जन, सुणतां लील विलासजी ॥ च० २२ ॥
 सर्वगाथा ६५४.

दुहा.

सुधा मुधा करे देशना, सांभळी श्रीजयानंद; करजोडी विनये करी, वि-
 कसित मुख अरविंद ॥ १ ॥ निद्रा विकथा वरजतो, निद्रा करे व्याघात;
 निद्रा शवनी वानगी, कर्मबंध पण यात ॥ २ ॥ निद्रावंतने सह्य हसे, जा-
 गंता नर जेह; साचु प्राये नवि वदे, सांभळी न शके तेह ॥ ३ ॥ अमली-
 परे ते घूणतो, न रहे कांड शुद्धि; उंधे श्रुत उंध्या तणुं, जागंतां वाधे बुद्धि
 ॥ ४ ॥ उघणनर उटज समो, कंटकमां मुख जाय; द्राघ्न मंडप सम जिन व-
 यण, छांडी ते उंधाय ॥ ५ ॥ तेम विकथा वरजो वली, जेहथी बहु जंजा-
 ल; भवनभानुं जीव रोहिणी, जेम पामी दुख जाल ॥ ६ ॥ विकथाथी उं-
 ध्यो भलो, नवि ढोळे व्याख्यान, विकथाकारक महिष सम, भाख्यो प्रगट
 प्रमाण ॥ ७ ॥ भर्या टांकामां नाखीए, मुतर चलुक प्रमाण; विकथा ते वि-
 तथा करे, वक्ता तणुं व्याख्यान ॥ ८ ॥ ते माटे तुमे मत करो, निद्रा विक-
 था कोय; एम सुणतां प्रमुदित होयें, वक्ता श्रोता दोय ॥ ९ ॥

हाल २४ मी.

॥ हस्तीनागपुरवर भलो, तिहां पांडराजा साररे ॥ ए देशी ॥

श्रीजयानंदजी सांभलो, नर भव लहा म करा प्रमादरे; फिरी फिरी नर भव दोहिलो, पामवो एम शास्त्र संवादरे ॥ १० ॥ पामवो एम शास्त्र संवाद, सुणो भवि प्राणीया; जिन वाणीरे, जिनवाणी विभाग मुणिंद; कहे भवि हित भणी गुण खाणीरे ॥ ए आंकणी ॥ कायस्थिति अति जीवनी, पुढवि अपअनलने वायरे; असंख्याती उत्सर्पिणी, रहे भिन्न भिन्न एक कायरे ॥ रहे० ११ ॥ वनस्पतीमांहे जो रहे, अनंती उत्सर्पिणी थायरे, वि ति चउरिंदीय कायमां, संख्यातो काल रहायरे ॥ स० १२ ॥ पंचेंद्रियमांहिं जो करे, भव सात आठ संलग्गरे, संसरतां बहु दुख लहे, नहीं सुख तणो संसग्गरे ॥ न० १३ ॥ भव एकेक सुर नरकनो, एम जाये प्रमादमां कालरे, त्रसपणुं अति दोहिलुं, थावरमां रहे बहु वालरे ॥ था० १४ ॥ त्रसपणुं लहे दोहिलुं, पंचेंद्रियपणुं जग साररे, विकलेंद्रिय दीसे घणां, हीण इंद्रिय वली संसाररे ॥ ही० १५ ॥ पंचेंद्रिय लहो परवडां, पण दुर्लभ मनु अवताररे, सुर तिरि नरकमां बहु भमे, लहेतो तिहां दुख अपाररे ॥ ल० १६ ॥ नर भव पामे दोहिलो, आरय क्षेत्र संवंधरे, म्लेच्छादिक दीसे घणा, बहु पाप करम करे अंधरे ॥ व० १७ ॥ क्षेत्र लहे कुल दोहिलुं, कुल पामे उत्तम जातिरे; जाति लहे बुद्धि दोहिली, बहु जड जगमां विख्यातरे ॥ व० १८ ॥ बुद्धि लहे गुरु दोहिला, जे निर्ममने निरमायरे; गुरु पामे पण दोहिलुं, श्रवणे सां भलवुं यायरे ॥ श्र० १९ ॥ अन्य तीर्थी सेवे घणा, अथवा करे काठिआ भंगरे; धर्म सूण्यो गुरु संगते, दुर्लभ श्रधानो रंगरे ॥ दु० २० ॥ द्रव्य भाव दुग भेदथी, सरधा तिहां द्रव्यथी जाणरे; तलरुचि जिन वयणमां, यद्यपि परमार्थ अजाणरे ॥ ये० २१ ॥ भावथी परमार्थ लहे, अथवा वली दौय प्रकाररे; निश्चयने व्यवहारथी, शुद्ध हेतु ते होये व्यवहाररे ॥ शु० २२ ॥ ज्ञान दर्शन चारित्रनां, निश्चयथी शुभ परिणामरे, कारकरोचक दीपके; ए त्रिविध भेद होय नामरे ॥ ए० २३ ॥ श्रधा समकिरिया करे, ते कारक

समकित होयरे; गौतम प्रमुख तणीपरे, ते तो दीसे विरला कोयरे ॥ ते०
 २४ ॥ रुचि मात्रज श्रधा होये, जेम श्रेणिक प्रमुख नरिंदरे; रोचक सम-
 कित ते लहो, करणी विण जे भवि वृंदरे ॥ क० २५ ॥ दीपक समकित
 जाणीये, देवनादिक दीप समानरे; दीपे पण निजपां नहीं, होय अभव्य
 प्रमुख एणे ठाणरे ॥ हो० २६ ॥ समकित रोचक जो लहे, पण कारक अ-
 ति दुर्लभरे, विषय कपायमां मुंझीओ, वली पुत्र कलत्र आरंभरे ॥ व० २७ ॥
 यतः ॥ मुखलाभिकंविस्त विमाण वस्त, संसार भिरुस्त ठिअस्त धम्मे ॥ न
 तारिसदुत्तर मच्छि लोए, जहिछिओ वाल मणोहराओ ॥ १ ॥ ए ए असंगसमइक-
 मित्ता, सुहुत्तरा चैव भवति सेसा ॥ जहा महासागर मुत्तरित्ता, नइभवे अविगंढा-
 समाणा ॥ २ ॥ सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसी विसोवमा ॥ कामा पत्ये
 माणा, अकामा जंति दुग्गइ ॥ ३ ॥ पूर्वढालः ॥ दुरगतिदायक काम जे, पंडित
 करे तेहनो सागरे; जे कारण ग्रहिने होये, अनाशक्तिए कामनो राग ॥ अ०
 २८ ॥ ब्रह्मव्रती पर्वने दिने, अन्य दिवस तणुं परिमाणरे; तिव्राभिलाष न
 तेहमां, एहवो होये गृहि घर ठाणरे ॥ ए० २९ ॥ एम जाणी ब्रह्म आदरे,
 नहीं तो स्वदारा संतोपरे, निज भरतार संतोपिणी, नारीने एम व्रत पोसरे
 ॥ ना० ३० ॥ सर्व थकी ब्रह्म आचरे, घर भार तजी अणगाररे; शीलांग रथ
 मुनी राजनो, परिमाण अढार हजाररे ॥ प० ३१ ॥ करण जोगेत्रिक भे-
 दथी, आहारादिक संज्ञा चाररे; इंद्रिय पंचनो जय कर्यो, पृथिव्यादिक दस
 पद धारिरे ॥ प० ३२ ॥ भूजल ज्वलन अनिल तरु, विगलेंद्रिय वली व्रण
 भेदरे, पंचेंद्रियने अजीव ए; दस भेदनो संजम वेदरे ॥ द० ३३ ॥ खांसादि-
 क दस धर्मथी, जोढतां होय सहस अढाररे; एहवा अढार रथे करी, गुण
 भरीया श्री अणगाररे ॥ गु० ३४ ॥ ते अणगारपणुं घरे, जगमां धन्य तस
 अवताररे; तस उपमान न जगतमां, जे सकल गुणी शिरदाररे ॥ जे० ३५ ॥
 इंद्र चंद्र नमे चरणने, उत्कृष्टथी तेणे भवे सिद्धिरे; सात आठ भव ओलंधे न-
 हीं, ए समय मांहेप्रसिद्धरे ॥ ए० ३६ ॥ तेणे संजम लेवुं घटे, हवे करी
 संसारनो सागरे; जनम मरणनां भय टले, वरना शिव सुंदरी लागरे ॥ व०
 ३७ ॥ आत्म तले रमण होये, परभाव प्रसंग न कोयरे; चरण धरमना गुण

थकी, चिदानंद प्रगट क्रमे होयरे ॥ चि० ३८ ॥ ढाल चौविशमी एणिपरे,
नवमे खंडे सुरसालरे; पद्मविजय कहे धर्मथी, होये घर घर मंगलमालरे ॥हो०
३९ ॥ सर्वगाथा ६९३.

दुहा.

चक्रायुध चाग्नीथी, दीधो एम उपदेश; रोम रोम सुणी हर्षिया, श्रीज-
यानंद नरेश ॥ १ ॥ दान सुपात्रे दीधलुं, पूर्व संस्कार ते पाम; सफल
थयो उपदेशने, दोलत न गमे दाम ॥ २ ॥ वधतो थयो वैराग्य ते,
पूर्व वैराग्य प्रमाण; पयमां साकर जेम पडे, समज्यो तेह सुजा-
ण ॥ ३ ॥ चित्त थयुं चारित्रनुं, कहे गुरुने किरपाल; हित देशक हित वां-
छकू, मुजहित कर्युं मयाळ ॥ ४ ॥ प्रसन्न थइ इहां पडखिए, जइने हुं निज-
धाम; पुत्रने राज्य थापी करी, आहुं छुं हुं आम ॥ ५ ॥ भव्र उद्वेग लह्यो
मलो, राज्ये न रीझे मन्न, उत्सव शुं इहां आवीने, आदरे तुम आसन्न ॥
६ ॥ दक्षपणे दीक्षा ग्रहं, तुमची पासे ताम; म करो विलंब ए काममां, धर्मा
गयो निज धाम ॥ ७ ॥

ढाल २५ मी.

॥ मीठा मीठुं वॉलीने शुं रीझवोरे ॥ ए देशी ॥

राजन मीठुं वॉलीने सहू रीझवोरे, रखे कोई प्रजाने खीजवोरे राज०;
पुत्र थापे महा महोत्सव करीरे, शीखामण दीपे नृपहित धरीरे रा०; सहो-
दरनीपरे पालजो प्रजारे, मत करजो कोइनी कूडी कजारे ॥ रा० ८ ॥ दूझे
कामधेनूनी परेरे, जो सुखणी प्रजा होये थिरपरेरे रा०; नृपने भंडार ए चा-
लतोरे, सुखमां प्रजा लोक जो महालतोरे ॥ रा०९ ॥ आशीप वचन प्रजा
तणेरे, नरपतिवाधे दोलत घणेरे रा०, तणे प्रजाने तुमे पालजोरे, पूर्वजनी रीति
अजुआलजोरे ॥ रा०१० ॥ परजा नृपने लोपेनहीरे, नवि नृप परजाने कोपे सहीरे
रा०; परजा दानादिक जे करेरे, वली धर्म महोत्सव वहु आदरेरे ॥ रा०११ ॥
रीद्धिने जशथी प्रजा वधेरे, वली अपर गुणे पण जे सधेरे रा०; तेम तेम नृ-

पने आणंद घणोरे, परजा उपर प्रेमजपणोरे ॥ रा० १२ ॥ धन्य माने प्रजा मुज एहवीरे, पुन्यवंती प्रजा मुजजे हवीरे रा०; एम राज्य स्थिरी भावे र-हेरे, जस कीर्ति वित्त जगमां लहेरे ॥ रा० १३ ॥ वत्स राज्य पालजो ए-णिपरे सदारे, जेम धर्म सीदाए नवि कदारे रा०; चिंतामणिपरे उत्तम ल-होरे, धर्म ते वीतरागनो जे कहोरे ॥ रा० १४ ॥ ते समकित सार इच्छित दीयेरे, वढ वीजपरे ते वधीजीएरे रा०, ज्ञात शाखाए ते विस्तरैरे, दुष्ट व-यण वायुए नवि फरफरेरे ॥ रा० १५ ॥ पुरमां सात व्यसन निवारजोरे, अणहुतां पुरमां म लावज्योरे रा०; दिए पुत्रने शिक्षा एणिपरेरे, ते पुत्रसहु अंगीकरेरे ॥ रा० १६ ॥ हवे स्वजन प्रधानने पागीआरे, महेता मसुदी जे रागीआरे रा०; पूछे सहने नर राजीओरे, पुत्र पत्नीने गुण गण गाजीओरे ॥ रा० १७ ॥ प्रमुदित करी सह प्रजा प्रत्येरे, करे महोत्सव दिन दिन वा-धतेरे रा०; जिनवर चैखे महोत्सव करेरे, आठ दिवस लगे नव नवपरेरे ॥ रा० १८ ॥ वजडावे पढह अमारिना, परराज्य मांहि श्री कारनारे रा०; भक्ति करे साधर्मीक तणीरे, वल्ल आहार दानादिक अति घणोरे ॥ रा० १९ ॥ पंचवीशमी नवमा खंडमारै, ढाल भाखी रंग अखंडमारै रा०; सुणो श्रोता पद्मविजय कहेरे, सासन रागी आणंद लहेरे ॥ रा० २० ॥ सर्वगाथा ७१३.

दुहा.

शासन उन्नति जेम होये, तेहवां कार्य अनेक; निज आतम हित कारणे, करता धरिय विवेक ॥ १ ॥



ढाल २६ मी.

॥ टुंक अने टोडावचेरे, मॅदीना दोय रुख मॅदी रंग लागो ॥ ए देशी ॥


श्री जयानंदना सुत भलारे, श्री कुलानंद नरिंद, संजम रंग लागो; सा-ग्रगी अभिपेकनीरे, मेलवे उपकरण वृंद ॥ सं० २ ॥ विधि पूर्वक मज्जन करेरे, वाजित गीत संगीत सं०; वावना चंदन चरचिआरे, अंग लूही सु-

पवित्र ॥ सं० ३ ॥ पुष्पमाल्य पहरे वलीरे, दिव्यवस्त्र अलंकार सं०; शि-
 विकामां आरोहिनेरे, पृथिवी पालणहार ॥ सं० ४ ॥ सिंहामन नृप सोही-
 येरे, छत्र चामर श्रीकार सं०; सर्व आढंबर रीद्धिभुरे, देतो दान अपार
 ॥ सं० ५ ॥ प्रधानने वली पागीयारे, प्रजानो समुदाय सं०; महेता मसुद्दी
 सहु मल्यारे, मंगल गीत गत्राय ॥ सं० ६ ॥ नानाविध नाटिक करेरे, पात्र
 विचित्र विशेष सं०; विरुदावली बहु वोलतारे, वंदीजन मुविशेष ॥ सं० ७ ॥
 छत्र चामर हयगय भलारे, मंगल कुंभ चलाय सं०; अष्टमंगल आगल चले-
 रे, ध्वज मोटो लहकाय ॥ सं० ८ ॥ चतुरंगीसेना चलेरे, विद्याधर परिवार
 सं०; सुर नर कोडि गमे मल्यारे, देवांगना नहीं पार ॥ सं० ९ ॥ पुष्प वृष्टि
 करे सुरवरारे, वाजे दुंदुभि खास सं०; वाजित्र पडछंदे करीरे, मरीओवर
 आकाश ॥ सं० १० ॥ अनुक्रमे नगर मध्ये थईरे, आवे तस उद्यान सं०;
 शिबिकाने मूके तदारे, मानुं मूके मान ॥ सं० ११ ॥ अंग नमावी विधि थ-
 कीरे, वंदे गुरुना पाय सं०, स्वजन वर्गने पूछिनेरे, अंग वैराग्य न माय ॥
 सं० १२ ॥ धीर गंभीर शिरोमणीरे, नरपति श्रीजयानंद सं०; वस्त्र आभुषण
 मूकतारे, धरतो परमाणंद ॥ सं० १३ ॥ पंच मुष्टि करे लोचनेरे, आवे गु-
 रूजी पास सं०; संजम मुजने दीजीयेरे, मुजने अति उल्लास ॥ सं० १४ ॥
 दीक्षा गुरु पण आपतारे, करता भवि उपगार सं०; सार्थवाह परे नरपतिरे,
 साथे बहु परिवार ॥ सं० १५ ॥ लखो गमे जन आदरेरे, दीक्षा दक्ष
 मुजाण ॥ सं० ॥ अत्तेउर राणी घणीरे, सार परिवार वखाण
 ॥ सं० ॥ पटराणी रतिमुंदरीरे, प्रमुख लीये व्रत भार सं०; पुत्र
 पौत्रादि सहसो गमेरे, तेम नृप एक हजार ॥ सं० १७ ॥ ते पण निज
 अंते उरीरे, साथे लीए व्रतभार ॥ सं०; ॥ जन जनपदमां नृप कुलेरे,
 हर्ष प्रमोद अपार ॥ सं० १८ ॥ घर घर एहिज वातडीरे, लीजीए संयम-
 सार सं०; हवे कुलानंद जे राजीओरे, परवर्यो निज परिवार ॥ सं० १९ ॥
 श्री जयानंदना तातनेरे, तेम श्री श्रीजयानंद सं०; नेम गुरु चक्रायुध नणारे
 प्रणमी पद अरविंद ॥ सं० २० ॥ घरे आवी नित्य आचरेरे, श्री जिनधर्म
 विशाल सं०; प्रजाने पण तेणीपरेरे, धर्म करावे भूपाल ॥ सं० २१ ॥ पग

पग तात संभारतोरे, करतो तस बहु मान मं०; हवे श्री श्रीजयानंदजीरे,
गुरु साथे असमान ॥ सं० २२ ॥ विचरे संयम साधतारे, विनय तणा भं-
दार सं०; सामाचारी शीखिआरे, गुरु पासे विधि सार ॥ सं० २३ ॥ तेमही
ज पोते आचरे रे, करे श्रुतनो अभ्यास सं०; अनुक्रमे थोडा कालमारें, द्वा-
दशांगधर खास ॥ सं० ॥ नवमे खंडे छवीसमीरे, पद्मविजये कही ढाल स०; मुनि
गुण सुणतां गायतारे, होवे मंगलमाल ॥ सं० २५ ॥ सर्वगाथा ७३८.

दुहा.

सुमति पंच सुमता सदा, गुप्ति त्रण आगार; अप्रमादी आर्किचनी, अ-
संगी अणगार ॥ १ ॥ साधु गुण श्रुं शोभतां, निर्ममने निःकपाय; तप क-
रता अति तीव्र ते, निर्मदने निरमाय ॥ २ ॥ श्रीजयानंद सूरिपदे, गुरु थापे
गंभीर; लायक नाना लब्धिने, धरता साहस धीर ॥ ३ ॥ आणा गुरुनी
आदरी, पृथवी करे पवित्र; सूत्र भणावे साधुने, निरति चार चरित्र ॥ ४ ॥
छत्रीस छत्रीसी गुणे, शोभित जास शरीर, गुरु पासे आव्या गुणी, वंदनने
वढवीर ॥ ५ ॥



ढाल २७ मी.

॥ करकंदुने करं वंदना हुं वारी लाल ॥ ए देशी ॥

चक्रायुध सूरिसरु हुं वारि लाल, विचरे बहु परिवाररे हुं वारि लाल;
साथे श्री जयानंदजी हुं, चरण करण व्रत धाररे ॥ हुं ६ ॥ ए मुनिने
करं वंदना हुं ॥ ए आंकणी ॥ चार ज्ञानी चारित्रिया हुं, चक्रायुध सूरि-
रायरे हुं; लक्ष्मीपुरने हूंकडा हुं, आवी शाखापुर ठायरे ॥ हुं ७ ए० ॥
आयु अत जाणी करी हुं, श्री जयानंदने तामरे हुं; गच्छ भार सहु सुं-
पीओ हुं, गणेशपद अभिरामरे ॥ हुं ८ ए० ॥ कोईक तीर्थ जइ करी
हुं, उपधि शिष्य करी सागरे हुं; पादपोपगम आदरे हुं, अणसण
परम बैराग्यरे ॥ हुं ९ ए० ॥ तीस दिवस अणसण रहा हुं, घाती कर्म
खपायरे हुं; केवल ज्ञान गुणे करी हुं, लोकालोक जणायरे ॥ हुं १०
ए० ॥ सैलेवी करणे करी हुं, शेष कर्म करी नाशरे हुं; अजर अमर सु-

स्र शाश्वता हुं०, वरिभा शिव आवासरे ॥ हुं० ११ ए० ॥ आसन्न देवता तिहां करे हुं०, महोत्सव अधिक मढाणरे हुं०; वाजित्र गीत संगीतशुं हुं०, करे ओत्मव निरवाणरे ॥ हुं० १२ ए० ॥ ए हुंदभिरव सांभली हुं०, श्री जयानंद मुणिंदरे हुं०; अप्रतिपाति वैराग्यथी हुं०, लहे शुक्ल ध्यान अमंदरे ॥ हुं० १३ ए० ॥ क्षपक श्रेणी मांडी करी हुं०; वेद कपायनो नाशरे हुं०; मोह जयी त्रण कर्मने हुं०, क्षय करता शुभ वासरे ॥ हुं० १४ ए० ॥ श्री जयानंदजी पामीआ हुं०, निरमल केवल ज्ञानरे हुं०; प्रगट प्रछन्न कर्तुं सह्य लहे हुं०, सर्व ज्ञान प्रधानरे ॥ हुं० १५ ए० ॥ पट् द्रव्य गुण पर्यायने हुं०, ध्रुव व्ययने उतपादरे हुं०; एक समयमां जाणता हुं०, चिद अमृत आ स्वादरे ॥ हुं० १६ ए० ॥ मुनि महिमाये आकर्षिआ हुं०, वैमानिक सुर आयरे हुं०, महोत्सव केवल ज्ञाननो हुं०, कहता सह्य समुदायरे ॥ हुं० १७ ए० ॥ दिव्य कमल विरचे तिहां हुं०, सहस्र पत्रतुं महंतरे हुं०, अद्रभूत एक सोवन तणुं हुं०, ते उपर वेसंतरे ॥ हुं० १८ ए० ॥ नगर लोक सह्य आवीआ हुं०, वेठा करिय प्रणामरे हुं०; श्रीजयानंदजी केवली हुं०, देशना देवे तामरे ॥ हुं० १९ ए० ॥ भवि उपकारने कारणे हुं०, भाखे चतुर्विध धर्मरे हुं०; दान शीलतप भावथी हुं०, जेहथी लहे शिव शर्मरे ॥ हुं० २० ए० ॥ श्री कुलानंद हवे भूपती हुं०, जाणे तातनुं नाणरे हुं०; चतुरंगी सेनासजी हुं०, आवे अति मंडाणरे ॥ हुं० २१ ए० ॥ विश्व पूज्य केवली प्रत्ये हुं०, देखी करे परणामरे हुं०; पंच अभिगम साचवी हुं०, विधि पूर्वक अभिरामरे ॥ हुं० २२ ए० ॥ तीन प्रदक्षिणा देइनेरे हुं०, स्तवना करे नररायरे हुं०; वंदना करी उचितासने हुं०, वेसे केवली पायरे ॥ हुं० २३ ए० ॥ केवली श्रीजयानंदजी हुं०, देशना देवे तासरे हुं०; श्रावक धर्म परूपीओ हुं०, द्वादश व्रत सुविलासरे ॥ हुं० २४ ए० ॥ मुनिवर धर्म पण उपदिसे हुं०, समकित दायनुं मूलरे हुं०; केइक भविजन आदरे हुं०, समकित मन अनुमूलरे ॥ हुं० २५ ए० ॥ केइक देशविरति ग्रहे हुं०, केइक मुनिवर धर्मरे हुं०; केई ग्रहे अभिग्रह घणा हुं०, केइक प्रकृति नर्मरे ॥ हुं० २६ ए० ॥ एमअनेक भवि जीवने हुं०, विविध करी उपकाररे हुं०; श्रीजयानंदजी केवली

(४२४) श्री जयानंद केवळीनो रास.

हुं०, तिहांथी करे विहाररे ॥ हुं० २७ ए० ॥ नवमे खडे ए कधी हुं०, स-
त्तावीशमी ढालरे हुं०; मुनिगुण गातां पन्नने हुं०, होजो मंगळमालरे ॥ हुं०
२८ ए० ॥ सर्वगाथा ७६६.

दुहा.

ग्राम नगर पुर पाटणे, थानक कोठयो प्रमाण; विचरी बहु जन तारि-
आ, केइ सुजाण अजाण ॥ १ ॥ अपराधी जे जे हुता, तस आलोयण दीध;
द्रव्य भावे ते प्राणिने, निर अपराधी कीध ॥ २ ॥ जेहनी सरिना देशना,
तेहमां भव्य जे मीन; उत्तम जनम ज्जन करे, पामे रति अति पीन ॥ ३ ॥



ढाल २८ मी.

॥ गिरुआरे गुण तुम तणा ॥ ए देशी ॥

श्रीजयानंद केवळी तणी, कांय देशना गंगा सरखीरे, तास संगे सुपवित्र
थया, कांइ धर्म मारग केई परखीरे ॥ श्री० १ ॥ केइक वैमानिक थया, कांइ केइ
अनुत्तर वासीरे; केइक चक्रवर्त्तीपणुं, कांइ आगामी भवे थाशीरे ॥ श्री० २ ॥
केइक मोक्ष भवांतरे, कांइ केइक तेणे भवे सिधरे; इत्यादिक उपकारथी,
कांइ सुखमय प्राणी कीधरे ॥ श्री० ३ ॥ राजरूपीवर केवळी, श्री जया-
नंदे जगख्यातरे; विचरंतां वसुधा तले, कांइ निर्मल जस अवदातरे ॥ श्री०
४ ॥ विचरंतां पाउधारीया, श्री सोरठ देश मजाररे, जिहां प्रभुरूपभसमोसर्या,
कांइ पूरव नवाणुंवाररे ॥ श्री० ५ ॥ पांडवने पुंडरीक वली, कांइ द्रविड वारि-
खिल्ल दोयरे, सांव प्रद्युम्न वली कृष्णना, जे दोय पुत्र वली होयरे ॥ श्री० ६ ॥
कोढयो गमे मुनिराजशु, कांइ शिवपद वरिआ जेहरे; राम भरत नारद वली,
कांइ तत्व वर्या निजतेहरे ॥ श्री० ७ ॥ थावच्चा सुत संजमी, वली शुक परि-
ब्राजक तेमरे; सुभ्रत बहु अणमारशुं, एणिगिरि आव्या प्रेमरे ॥ श्री० ८ ॥
आत्म तत्व नीपजावीओ, कांइ सादि अनंत हभंगेरे; नारद एकाणुं लाखशुं,
निज गुण वरिआ रंगरे ॥ श्री० ९ ॥ ए गिरिनो महिमा घणो, कांइ मुखथी
कहो न जायरे, हिंसक पापी जीवनो, कांइ इहां उद्धार ते थायरे ॥ श्री० १० ॥
अभव्यन देखे नयणथी, कांइ शेत्रुजय महात्म्य बोलरे, जगमां जोतां ए समो,

तीर्थ नावे तोळरे ॥श्री० ११॥ शाश्वत प्राय ए गिरिवरु,कांइ ऋषभ कृत्पर
जाणोरे; जंबूद्वीप पञ्चत्तिनी, कांइ वृत्तिमांहे मन आणोरे॥श्री०१२॥ क-
ल्याणक पण एणेगिरि, कांइ जिनवर केरां थाणोरे; पूर्वे थयां वळी एणेगिरि,
बहु मोक्ष गया वळीजाणोरे ॥ श्री० १३ ॥ महिमावंत ए क्षेत्रमां, श्री जया-
नंदजी आणोरे; गिरि उपर अणसण करे, कांइ पादपोपगम ठाणोरे ॥श्री०१४॥
षट्दिन अणसण पालीयुं, कांइ योग निरोध करंतरे; शैलेशी करणे करी,
कांइ शेष कर्म करे अंतरे श्री० १५ ॥ त्रीजो भाग संकेलीने, करे अगुरु लघु
अवगाहरे; महानंद पद पामीया, कांइ जिहां सुख अन्यावाहरे॥ श्री०१६॥
सम श्रेणि एक समयमां, कांइ लोकाग्रे कयो वासरे; सिद्ध बुद्ध समृद्ध थया,
कांइ अजरामर अविनाशरे ॥श्री०१७॥ फरी नवि भवमां आवबुं, जिहां
एक तिहां अनंतरे; देश प्रदेशे फरसीने, रक्षा असंख्य गुणी भगवंतरे ॥श्री०
१८॥ पण निज निज स्वरूपमां, रहेचिंदानंद भगवंतरे; अरुपि कोई कोईने,
कांइ पीडा ते न करंतरे ॥श्री० १९॥ संकीरण पण नवि होये, कांइ अनंत
चतुष्टयवंतरे, ज्ञान दर्शन सुख वीर्यना, कांइ भोगी तेह महंतरे॥श्री०२०॥ अष्ट-
रीरी अणाहारीजे, कांइ निरूपाधिक सुख वरिआरे; जेहनी ओपम जग नहीं,
जे भवसाय्यर निस्तरीआरे॥श्री०२१॥ नाण दंसण उपयोगीआ, कांइ सम-
यांतर पलटायरे; पण एक समयमां सवि लहे, मुख्यता गौणता कहेवाचरे
॥श्री० २२॥ परम ज्योति परमात्मा, कांइ परम ब्रह्म स्वरूपरे; जाणे पण
नवि कही शके, कांय केवलज्ञानी अनूपरे॥श्री०२३॥ अठावीशमी ढाळ ए,
कांइ नवमे खडे भाखीरे, श्रीजयानंदना रासमां, कांइ तेहनुं चरित्र छे सारती
रे; एम पञ्चविजय चित्त राखीरे, शिव सुखना थाओ अमिलापीरे परयाव
दीओ सहू नाखीरे, ॥ श्री० २४ ॥ सर्वगाथा ७९३.

दुहा.

तत्क्षण मळीआ देवता, चारनिकाय मिलत; श्री जयानंद त्रियोग-
नो, अतिशय शोक धरंत ॥ १ ॥ पण निराण तणो करे; ओत्मव आंन

विस्तार; प्राचे तीर्थकरपरे, प्रमुदित थइ अपार ॥२॥ ओत्सव करी नं-
दीन्वरे, अठाइ महसार; करीने निज थानक गया, मुनिगुण चित सं-
भार ॥ ३ ॥ एणिपरे श्रीजयानंदजी, केवली जे ऋषिराय; गुण गाया गु-
णीजन तणा, मनमां हर्ष नमाय ॥ ४ ॥ ए श्रीजयानंदनी कथा, गुणगण
महिमा विशाल, भणे गुणे भवि सांभले, तस वर मंगळमाल ॥ ५ ॥

॥ तूठो तूठोरे मुज साहेव जगनो तूठो ॥ ए देशी ॥

फलियो फलियोरे मुज सकल मनोरथ फलियो, श्रीजयानंदनो रास
करंतां; भाग्य-अपूरव भलिओरे ॥ मु० १ ॥ मुनिगुण गान नीरेकरी माहरो,
पाप पंक खलभलियो; नाम गोत्र सुणतां महानिर्जरा, सूत्र माहे इम क-
लिओरे ॥ मु० २ ॥ मुनिगुणनां बहु मान करंतां, जन्मजुं फल हुं रलियो;
आधि व्याधि उपद्रव सवि दूरे, मुजथी जाए ठलियोरे ॥ मु० ३ ॥ पृथ्वी
मोक्ष साम्राज्यनी लक्षमी, श्री जयानंदते मलीयो; बाह्य अंतर शत्रु दोय जी-
त्या, ए बहु भाग्यथी वलीओरे ॥ मु० ४ ॥ धीरज गुण मोटो मेरु सम, कोई
वाते नवि चलीयो; जे मुनि दान दिये एणीरीते, तस दुख जाये गलियोरे ॥
मु० ५ ॥ रंभाफल सम श्री जयानंदना, गुणमां दोष न ठलिओ, लोहसमा-
न हुं तेहमां मुनिगुण, रस कूपीरस ढालिओरे ॥ मु० ६ ॥ मुनिगुण भक्ति
थकी हवे माहारो, दुखनो दिवस ते दलिओ; मुनिगुण गातां अतरग मुज, अ-
नुभव हेजे हलियोरे ॥ मु० ७ ॥

अथ कलश.

शस्तिः राग घन्याश्री.

तप गच्छपति श्री जगतचंद्र सूरि, चौआलीसमे पाटेजी; जावज्जीव जे-
णे आंवल कीघां, तप गच्छ तेहिज पाटेजी ॥ १ ॥ तस पडे श्रीदेवेद्रसुरि,

